नं० ५४८७४ — घ

गोस्वामी श्रीतुलसीदासकृत —

रामायणम् (महाकाव्यम्)

पत्राणि ३७३ (संपूर्णम्)

5474

रामायण नं० ९५६

54741 — 3

Introduction

Part - Ist - F - 125

१२७८ Part 2nd

११८५ F — 90

Part 3rd F — 23

Part 4th — F — 10

P5 — F, 18 P6, 6F

Part F — 46 K.T.O

गो स्वामी श्री तुलसीदास कृत रामायणम् (महाकाव्यम्)

१ म कांडात् ७ म कांड पर्यन्त पत्राणि ३०२ (सम्पूर्णम्)

	नाम	बालकांड	पत्र	९९
१	मालकोश		६६	२
१	खंभावती	रागिणी	७४	२
२	टोडी		७५	२
३	ककुभ		८४	२
४	गौरी		८५	१
५	गुणकरी		९४	१
१	मारू	पुत्र	९८	२
२	वर्वल		१०२	१
३	सिंधीर		१०७	२
४	सिहाग		११४	२
५	चंद्रकासः		११९	२
६	भ्रमररागः		१२४	१
७	श्रावेररागः	अयोध्याकां०	२	२
८	खैरावररागः		७	१

राग नाम	अयोध्याकांड	पत्र	[illegible]
१ हिंडोल		१२	१
१ तैलंगी	रागिणी	१९	२
२ देवगिरी		२४	१
३ वासंती		२८	१
४ सिंदूरी		३२	१
५ आभीरी		३७	१
१ चंद्रबिंब		४१	२
२ सुभ्रांग		४५	२
३ आनंद		४९	२
४ विभास		५४	१
५ वसंत		५५	२
६ वर्धन		५८	१
७ देशकार		६२	२
८ विनोद		६७	२

२

2

रागनाम	अयोध्याकांड	पत्र	पृष्ठ
१ दीपक		७१	१
१ पटमंजरी	रागिणी	७८	१
२ कामोदिनी		८२	१
३ टोडी		८७	१
४ गूर्जरी	अरण्यकांड	१	१
५ कावेरी		६	१
१ कमलराग		१०	२
२ कुसुम		१४	२
३ रामराग		१९	२
४ कुनल	किष्कंधाकां	१	१
५ कलिंग		५	१
६ बहुल		९	१
७ चंपक	सुंदरकां	४	२
८ हिमाल		९	१

रागनाम	सुंदरकांड	पत्र	[illegible]
१ श्रीरागः		१३	१
१ करणाटी	लंकाकांड	१	१
२ सावेरी		५	२
३ गौडी		८	१
४ रामकली		१२	१
५ सैंधवी		१९	१
१ सिंधुराग	पत्र	२०	१
२ मालव		२५	१
३ गौड		३०	१
५ गुणसमार		३९	१
६ विहागड़ा		४४	१
४ गंभीर		३४	१
७ कल्याण		५०	२
८ कुंभराग		५७	१

रागनाम	मेघरकोड	पत्र	पृष्ठ
१ मेघमलार	९७	९७	१
१ मल्लारी	उत्तरकोड	२	२
२ मोरवी		५	२
३ आसावरी		८	२
४ कोकिली		१३	१
५ भूपाली		१७	१
१ नटराग		२१	१
२ कानडा		२३	१
३ सारंग		२६	१
४ केदार		२९	१
५ गुणराग		३१	१
६ कुंदमलार		३४	१
७ जालंदर		३७	१
८ वेदराग		४०	१

२

3

5474



रामाय० बाल का० १

ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीश्रीसीतारामाभ्यान्नमः॥ श्रीतुलसीदासगोस्वामीकृतसप्तकाण्डरामायणग्रन्थः॥ अथबालकाण्डलिख्यते॥ श्लोक॥ वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि॥ मङ्गलानांचकर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ॥ भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ॥ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्॥ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्॥ यमाश्रितो हि वक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते॥ सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ॥ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ॥ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्॥ सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्॥ यन्मायावशवर्त्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाः सुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः॥ यत्पादप्लवमेकमेव हि भवांभोधेस्तितीर्षावतां॥ वन्दे हं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशंहरिम्॥ नानापुराणनिगमागमसम्मतं॥ यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि॥ स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति॥ सोरठा॥ जेहि सुमिरत सिधि होइ गणनायक करिवरबदन॥ करो अ

भैरव १

नुग्रहसोइ बुद्धिराशिशुभगुणसदन॥१॥मूकहोइवाचा
ल पंगुचढैगिरिवरगहन॥जासुकृपासुदयालु द्रवौस
कलकलिमलदहन॥२॥नीलसरोरुहश्याम तरुणअ
रुणवारिजनयन॥ करौसोममउरधाम सदाक्षीरसागर
शयन॥३॥कुन्दइंदुसमदेह उमारमणकरुणायतन॥
जाहिदीनपरनेह करौकृपामर्दनमयन॥४॥बन्दौगुरुप
दकंज कृपासिंधुनररूपहरि॥महामोहतमपुञ्ज जासु
वचनरविकरनिकर॥५॥चौपाई॥बन्दौगुरुपदपदुमप
रागा॥सुरुचिसुवाससरसअनुरागा॥अमियमूरिम
यचूरणचारू॥शमनसकलभवरुजपरिवारू॥सुकृ
तशंभुतनविमलविभूती॥ मंजुलमंगलमोदप्रसूती॥
जनमनमंजुमुकुरमलहरणी॥ कियेँतिलकगुणग
णवशकरणी॥ श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योती॥सु
मिरतदिव्यदृष्टिहियहोती॥ दलनमोहतमसोसप्रकाशू
बडेभागउरआवहिजासू॥ उघरहिंविमलविलोचन
हियके॥ मिटहिंदोषदुखभवरजनीके॥ सूझहिंराम
चरितमणिमाणिक॥ गुप्तप्रगटजहांजोजेहिखानिक॥

दोहा॥ यथासुअञ्जनअंजिदृग साधकसिद्धसुजान॥ कौ
तुकदेखहिंशैलबन भूतलभूरिनिधान॥ १॥ चौपाई॥ गु
रुपदरजमृदुमंजुलअञ्जन॥ नयनअमियदृगदोषविभ
ञ्जन॥ तेहिकरिविमलविवेकविलोचन॥ वरणौंरामच
रितभवमोचन॥ बन्दौंप्रथममहीसुरचरणा॥ मोहजनि
तसंशयसबहरणा॥ सुजनसमाजसकलगुणखानी
करौंप्रणामसप्रेमसुबाणी॥ साधुचरितशुभसरिसक
पासू॥ निरसविशदगुणमयफलजासू॥ जोसहिदुःख
परछिद्रदुरावा॥ वन्दनीयजेहिंजगयशपावा॥ मुदमं
गलमयसन्तसमाजू॥ ज्यौंजगजंगमतीरथराजू॥ रा
मभक्तिजहंसुरसरिधारा॥ सरस्वतीब्रह्मविचारप्रचा
रा॥ विधिनिषेधमयकलिमलहरणी॥ कर्मकथारवि
नन्दिनीवरणी॥ हरिहरकथाविराजतिवेनी॥ सुनत
सकलमुदमङ्गलदेनी॥ वटविश्वासअचलनिजधर्मा
तीरथराजसमाजसुधर्मा॥ सबहिंसुलभसबदिनस
बदेशा॥ सेवतसादरशमनकलेशा॥ अकथअलौकि
कतीरथराऊ॥ देइसद्यफलप्रगटप्रभाऊ॥ दोहा॥ सु

निसमुझहिंजनमुदितमन मज्जहिंअतिअनुराग॥ ल
हहिंचारिफलअछततनु साधुसमाजप्रयाग॥ २॥ चौ
पाई॥ मज्जनफलदेखियततकाला॥ काकहोहिंपि
कबककहिंमराला॥ सुनआश्चर्यकरहिंजनिकोई॥ सत
संगतिमहिमानहिगोई॥ बालमीकनारदघटयोनी॥
निजनिजमुखनिकहीनिजहोनी॥ जलचरथलचरन
भचरनाना॥ जेजडचेतनजीवजहाना॥ मतिकीरतिग
तिभुतिभलाई॥ जबजेहियतनजहांजेहिपाई॥ सोजान
बसतसंगप्रभाऊ॥ लोकहुंबेदनआनउपाऊ॥ बिनुस
तसंगविवेकनहोई॥ रामकृपाबिनुसुलभनसोई॥ सत
संगतिमुदमंगलमूला॥ सोइफलसिधिसबसाधनफू
ला॥ शठसुधरहिंसतसंगतिपाई॥ पारसपरशिकुधा
तसोहाई॥ विधिवशसुजनकुसंगतिपरहीं॥ फणिम
णिसमनिजगुणअनुसरहीं॥ विधिहरिहरकविकोविद
बाणी॥ कहतसाधुमहिमासकुचाणी॥ सोमोहिसनक
हिजातनकैसें॥ शाकवणिकमणिगुणगणजैसें॥ ॥
दोहा॥ बन्दौसन्तसमानचित हितअनहितनहिंकोउ॥ अंज

लिं॥५॥सन्तसरलचितजगतहितजानिसुभावसनेहु॥
गतसुभसुमनजिमिसमसुगंधकरदोउ१
बालविनयसुनिकरिकृपारामचरणरतिदेहु॥४॥चौ
पाई॥बहुरिबन्दिखलगणसतिभाए॥जेबिनुकाजदा
हिनेवाएं॥परहितहानिलाभजिन्हकेरे॥उजरेहर्षवि
सुनतकहतपरअवगुनअघांही जैसेंपृथुशेषसहसजगमांही ५
षादवसेरे॥हरिहरयशराकेशराहुसे॥परअकाजभ
टसहसबाहुसे॥जेपरदोषलखहिंसहसांखी॥परहि
तघृतजिनकेमनमाखी॥तेजकृशानुरोषमहिशेषा॥
अघअवगुणधनधनिकधनेशा॥उदयकेतसमहितस
बहीके॥कुम्भकरणसमसोवतनीके॥परअकाजल
गितनुपरिहरहीं॥जिमिहिमउपलकृषीदलगरहीं॥
बन्दौंखलजसशेषसरोषा॥सहसवदनवरणैपरदो
षा॥पुनिप्रणवौंपृथुराजसमाना॥परअघसुनैसहस
दसकाना॥बहुरिशक्रसमविनवौंतेही॥सन्ततसुरानी
कहितजेही॥वचनवज्रजेहिंसदापियारा॥सहसनय
नपरदोषनिहारा॥दोहा॥उदासीनअरिमित्रहितसुनत
जरहिंखलरीति॥जानिपाणियुगजोरिकरिविनतीक
रोसप्रीति॥१०॥चौपाई॥मैंअपनीदिशिकीन्हनिहोरा॥

तिननिजओरनलाउवभोरा॥ वायसपालियअतिअनु
रागा॥ होहिंनिरामिषकवहुंकिकागा॥ बन्दौसन्तअ
सज्जनचरणा॥ दुखप्रदउभयवीचकछुवरणा॥ बिछु
रतएकप्राणहरिलेहीं॥ मिलतएकदारुणदुखदेहीं
उपजहिंएकसंगजलमाहीं॥ जलजजोंकजिमिगुण
विलगाहीं॥ सुधासुरासमसाधुअसाधू॥ जनकएक
जगजलधिअगाधू॥ भलअनभलनिजनिजकरतूती
लहतसुयशअपलोकविभूती॥ सुधासुधाकरसुरस
रिसाधू॥ गरलअनलकलिमलसरिव्याधू॥ गुणअवगु
णजानतसवकोई॥ जोजेहिंभावनीकतेहिसोई॥ दोहा॥
भलोभलाईपैलहहिंलहहिंनिचाईनीच॥ सुधासराही
अमरतागरलसराहीमीच॥५॥ चौपाई॥ खलगहअगुण
साधुगुणगाहा॥ उभयअपारउदधिअवगाहा॥ तेहितें
कछुगुणदोषवखाने॥ संग्रहत्यागनविनुपहिचाने
भलेउपोचसवविधिउपजाए॥ गणिगुणदोषवेदविल
गाए॥ कहहिंवेदइतिहासपुराणा॥ विधिप्रपञ्चगुणअव
गुणसाना॥ दुःखसुखपापपुण्यदिनराती॥ साधुअसा

धुसुजातिकुजाती॥ दानवदेवऊंचअरुनीचू॥ अमियसु
जीवनमाहुरमीचू॥ मायाब्रह्मजीवजगदीशा॥ लक्षअ
लक्षरंकुअवनीशा॥ काशीमगसुरसरिकर्मनाशा॥
मरुमारवमहिदेवगवासा॥ स्वर्गनरकअनुरागविरागा॥
निगमागमगुणदोषविभागा॥ दोहा॥ जडचेतनगुण
दोषमयविश्वकीन्हकरतार॥ सन्तहंसगुणगहहिंप
यपरिहरिवारिविकार॥ ६॥ चौपाई॥ असविवेकजोदे
हिंविधाता॥ तबतजिदोषगुणहिंमनराता॥ कालसुभा
वकर्मबरिआई॥ भलेउप्रकृतिवशचूकभलाई॥ सोसुधा
रिहरिजनजिमिलेहीं॥ दलिदुखदोषविमलयशदेहीं॥
खलउंकरहिंभलपाइसुसंगू॥ मिटहिंनमलिनसुभावअ
भंगू॥ करिसुवेषजगवंचकजेऊ॥ वेषप्रतापपूजियततेऊ॥
उघरहिंअन्तनहोहिंनिबाहू॥ कालनेमिजिमिरावणरा
हू॥ कीयेंकुवेषसाधुसनमानू॥ जिमिजगजामवतहनु।
मानू॥ हानिकुसंगसुसङ्गतिलाहू॥ लोकहुंवेदविदि
तसबकाहू॥ गगनचढेरजपवनप्रसङ्गा॥ कीचहिंमिलइ
नीचजलसङ्गा॥ साधुअसाधुसदनशुकशारी॥ सुमिरहिं

रामदेहिंगणगारी॥ धूमकुसंगतिकारिखहोई॥ लिखि
यपुराणमंजुमसिसोई॥ सोइजलअनलअनिलसंघाता
होइजलदजगजीवनदाता॥ **दोहा**॥ ग्रहभेषजजलपव
नपटपाइकुयोगसुयोग॥ होइकुवस्तुसुवस्तुजगलख
हिंसुलछणलोग॥३॥ समप्रकाशतमपाखदुहुनाम
भेदविधिकीन्ह॥ शशिपोषकशोषकसमुझिजगयश
अपयशदीन्ह॥४॥ जडचेतनजगजीवजेसकलराममय
जानि॥ बन्दोसबकेपदकमलसदाजोरियुगपाणि॥५
देवदनुजनरनागखगप्रेतपितरगन्धर्व॥ बन्दोकिन्नर
रजनिचरकृपाकरहुअबसर्व॥६॥ **चौपाई**॥ आकरचारि
लाखचौरासी॥ जातिजीवनभजलथलवासी॥ सीयरा
ममयसबजगजानी॥ करोंप्रणामजोरियुगपाणी॥ जा
निकृपाकरिकिंकरमोहू॥ सबमिलिकरहुछाडिछल
छोहू॥ निजबलबुद्धिभरोसमोहिनाहीं॥ तातेंविनय
करउसबपाहीं॥ करणचहोंरघुपतिगुणगाहा॥ लघु
मतिमोरिचरितअवगाहा॥ सूझनएकोअंगउपाऊ॥
ममममतिरंकमनोरथराऊ॥ मतिअतिनीचऊंचरुचि
आछी॥ चहियेअमियजगजुरैनछाछी॥ छमिहंहिंस

ज्जनमोरिढिठाई॥सुनिहहिंबालवचनमनलाई॥जौंबा
लककहंतोतरिबाता॥सुनहिंमुदितमनपितुअरुमाता
हंसिहहिंक्रूरकुटिलकुविचारी॥जेपरदूषणभूषणधा
री॥निजकवित्तकेहिलागननीका॥सरसहोउअथवाअ
तिफीका॥जेपरभणितसुनतहरषाहीं॥तेवरपुरुषव
हुतजगनाहीं॥जगबहुनरसरसरितसमभाई॥जेनिजवा
ढिवढहिंजलपाई॥सज्जनसकृतसिंधुसमकोई॥देखि
पूर्णविधुवाढहिंजोई॥दोहा॥भागछोटअभिलाषवड
करउंएकविश्वास॥पैहहिंसुखसुनिसुजनजनखल
करिहैंउपहास॥८॥चौपाई॥खलपरिहासहोइहितमो
रा॥काककहहिंकलकंठकठोरा॥हंसहिंवकदादुरचा
तकही॥हंसहिंमलिनखलविमलवातकही॥कवितरसि
कनरामपदनेहू॥तिन्हकहंसुखदहासरसएहू॥भा
षाभणितमोरिमतिभोरी॥हंसिवेयोगहंसेनहिंखो
री॥प्रभुपदप्रीतिनसामुझिनीकी॥तिन्हहिंकथासु
निलागिहिफीकी॥हरिपदरतिमनमतिनकुतरकी॥
तिन्हकहंमधुरकथारघुवरकी॥रामभक्तिभूषितजि
यजानी॥सुनिहहिंसज्जनसराहिसुवाणी॥कविन

होउंनहिवचनप्रबीणा॥सकलकलासबविद्याहीना॥।
आखरअर्थअलंकृतनाना॥छन्दप्रबन्धअनेकविधाना॥भा
वभेदरसभेदअपारा॥कवितदोषगुणविवधप्रकारा॥कवि
तविवेकएकनहीमोरे॥सत्यकहौंलिखिकागदकोरे॥दो
हा॥भणितमोरिसबगुणरहितविश्वविदितगुणएक॥।
सोविचारिसुनिहंहिंसुमतिजिन्हकेविमलविवेक॥९॥चौ
पाई॥एहिमहंरघुपतिनामउदारा॥अतिपावनपुराणश्रु
तिसारा॥मंगलभवनअमंगलहारी॥उमासहितजेहिज
पतत्रिपुरारी॥भणितविचित्रसुकविकृतजोऊ॥रामनाम
विनुसोहनसोऊ॥विधुवदनीसबभांतिसंवारी॥सोहनव
सनविनावरनारी॥सबगुणरहितकुकविकृतबाणी॥रा
मनामजसअंकितजानी॥सादरकहहिंसुनहिंबुधताही
मधुकरसरिससन्तगुणग्राही॥यदपिकवितरसएकौना
हीं॥रामप्रतापप्रगटयहिमाही॥सोइभरोसमोरेमनआवा
केहिनसुसङ्गबडप्पनपावा॥धूमहुतजैसहजकरुआई
अगरप्रसङ्गसुगन्धबसाई॥भणितभदेसवस्तभलिवरणी
रामकथाजगमंगलकरणी॥छन्द॥मङ्गलकरणीक।

बा॰मा॰
बा॰
६

लिमलहरणीतुलसीकथारघुनाथकी॥ गतिकूरकवि
तासरितकीज्योंसरितपावनपाथकी॥१॥ प्रभुसुयशसंग
तिभणितभलिहोइहिसुजनमनभावनी॥ भवअंगभूति
मसानकीसुमिरतसुहावनपावनी॥२॥ दोहा॥ प्रियलाग
हिअतिसबहिममभणितरामयशसंग॥ दारुविचारुकि
करइकोउबन्दियमलयप्रसंग॥१९॥ श्यामसुरभिपयवि
शदअतिगुणदकरहिंसबपान॥ गिराग्राम्यसियरामय
शगावहिंसुनहिंसुजान॥२०॥ चौपाई॥ मणिमाणिकमु
क्ताछविजैसी॥ अहिगिरिगजशिरसोहनतैसी॥ नृपकि
रीटतरुणीतनुपाई॥ लहहिंसकलशोभाअधिकाई॥ तै
सेहिंसुकविकवितबुधकहहीं॥ उपजहिंअनतअनतछ
विलहहीं॥ भक्तिहेतविधिभवनविहाई॥ सुमिरतशारद
आवतिधाई॥ रामचरितसरविनुअन्हवाये॥ सोश्रमजाइ
नकोटिउपाये॥ कविकोविदअसहृदयविचारी॥ गावहि
हरिगुणकलिमलहारी॥ कीन्हेप्राकृतजनगुणगाना॥
शिरधुनिगिरालागिपछिताना॥ हृदयसिंधुमतिसीपस
माना॥ स्वातीशारदकहहिंसुजाना॥ जौंवरषैवरवारिवि

6

चारू॥होहिंकवितमुक्तामणिचारू॥दोहा॥युक्तिवेधिपु
निपोहहिंरामचरितवरतागा॥पहिरहिंसज्जनविमलउरशो
भाअतिअनुरागा॥२१॥चौपाई॥जेजनमेकलिकालकराला॥
करतववायसवेषमराला॥चलतकुपंथवेदमगछांडे॥क
पटकलेवरकलिमलभांडे॥वंचकभक्तकहाइरामके॥कि
ंकरकंचनकोहकामके॥तिनमहप्रथमरेखजगमोरी॥धि
थिकधरमध्वजधंधुकधोरी॥जौअपनेअवगुणसवकहऊं
वाढेकथापारनहिलहऊं॥तातेमैंअतिअलपवखाने॥थो
रेमहंजानिहहिसयाने॥समुझिविविधिविधिविनतीमोरी
कोउनकथासुनिदेइहिखोरी॥एतेहुंपरकरिहहिंजेशंका
मोहतेंअधिकतेजडमतिरंका॥कविनहोउनहिचतुरकहा
ऊं॥मतिअनुरूपरामगुणगाऊं॥कहंरघुपतिकेचरितअ
पारा॥कहंमतिमोरिनिरतसंसारा॥जेहिमारुतगिरिमेरु
उडाहीं॥कहहुतूलकेहिलेखेमाहीं॥समुझतअमितराम
प्रभुताई॥करतकथामनअतिकदराई॥दोहा॥शारदशेष
महेशविधिआगमनिगमपुराण॥नेतिनेतिकहिजासु
गुणकरहिंनिरन्तरगान॥२२॥चौपाई॥सवजानतप्रभुप्रभु
तासोई॥तदपिकहेविनुरहानकोई॥तहांवेदअसकारणराखा

षा॥ भजनप्रभावभाँतिवहुभाषा॥ एकअनीहअरूपअनामा॥
अजसच्चिदानन्दपरधामा॥ व्यापकविश्वरूपभगवाना॥ तिहिं
धरिदेहचरितकृतनाना॥ सोकेवलभक्तनहितलागी॥ पर
मकृपालुप्रणतअनुरागी॥ जेहिजनपरममताअरुछोहू॥
तेहिकरुणाकरकीन्हनकोहू॥ गईबहोरिगरीबनेवाजू॥
सरलसबलसाहिबरघुराजू॥ बुधबरणहिंहरियशअसजा
नी॥ करणपुनीतसफलनिजबाणी॥ तेहिबलमैंरघुपतिगु
णगाथा॥ कहिहौंनाइरामपदमाथा॥ मुनिन्हप्रथमहरि
कीरतिगाई॥ तिहिंमगचलतसुगममोहिभाई॥ दोहा॥ अ
तिअपारजेसरितवरजौंनृपसेतुकराहिं॥ चढिपिपीलिका
परमलघुविनुश्रमपारहिजाहिं॥ चौपाई॥ एहिप्रकारबल
मनहिंदिखाई॥ करिहौंरघुपतिकथासुहाई॥ व्यासआदिकवि
पुंगवनाना॥ जिन्हसादरहरिचरितबखाना॥ चरणकमल
बन्दौंसबकेरे॥ पुरवहुसकलमनोरथमेरे॥ कलिकेकविन
करौंपरणामा॥ जिनवरणेरघुपतिगुणग्रामा॥ जेप्राकृतक
विपरमसयाने॥ भाषाजिन्हहरिचरितबखाने॥ भएजेअहहिंजे
जेहोइहैंआगें॥ प्रणवौंसबहिकपटसबत्यागें॥ होहुप्रसन्न
देहुवरदानू॥ साधुसमाजभणितसनमानू॥ जोप्रबन्धबुध

नहिंआदरहीं॥ सोश्रमवादिवालकविकरहीं॥ कीरतिभणि
तभूतिभलिसोई॥ सुरसरिसमसवकरहिततहोई॥ रामसुकी
रतिभणितभदेसा॥ असमञ्जसअसमोहिअंदेसा॥ तुम्हरी
कृपासुलभसोउमोरे॥ सिअनिसुहावनिटाटपटोरे॥ करहु
अनुग्रहअसजियजानी॥ विमलयशहिंअनुहरइसुबाणी
दोहा॥ सरलकवितकीरतिविमलसोइआदरहिंसुजान॥ स
हजवयरविसराइरिपुजोसुनिकरहिंवखान॥ ख॥ सोनसोइ
विनुविमलमतिमोहिमतिवलअतिथोर॥ करहुकृपाहरियश
कहौंपुनिपुनिकरौंनिहोर॥ २५॥ कविकोविदरघुवरचरि
तमानसमंजुमरालु॥ वालविनयसुनिसुरुचिलखिमोपरहो
हुकृपालु॥ २६॥ सोरठा॥ वन्दौंमुनिपदकंजरामायणजिननि
र्मयउ॥ सखरसुकोमलमंजुदोषरहितदूषणसहित॥ २७॥
वन्दोंचारिहुवेदभववारिधिवोहितसरिस॥ जिनहिंनसप
नेहुंखेदवरणतरघुपतिविशदयश॥ २८॥ वन्दौंविधिपदरे
णुभवसागरजिन्हकीन्हयह॥ सन्तसुधाशशिधेनुप्रगटे
खलविषवारुणी॥ २९॥ दोहा॥ विवुधविप्रवुधग्रहचरण
वन्दिकहौंकरजोरि॥ होइप्रसन्नपुरवहुसकलमंजुमनोर
थमोरि॥ ३०॥ चौपाई॥ पुनिवन्दौंशारदसुरसरिता॥ युगल

पुनीतमनोहरचरिता॥ मज्जनपानपापहरएका॥ कहतसु
नतएकहरअविवेका॥ गुरुपितुमातुमहेशभवानी॥ प्रणमों
दीनबंधुदिनदानी॥ सेवकस्वामीसखासियपियके॥ हितनि
रुपाधिसबविधितुलसीके॥ कलिविलोकिजगहितहरगि
रिजा॥ सावरमंत्रजालजिनसिरजा॥ अनमिलआखरअरथ
नजापू॥ प्रगटप्रभावमहेशप्रतापू॥ सोमहेशमोपरअनुकू
ला॥ करहिंकथामुदमंगलमूला॥ सुमिरिशिवाशिवपाइ
पसाऊ॥ वरणोंरामचरितचितचाऊ॥ भणितमोरिशिवकृ
पाविभाती॥ शशिसमाजमिलिमनहुसुराती॥ जोयहकथ
सनेहसमेता॥ कहिहहिंसुनिहहिंसमुझिसचेता॥ होइह
हिरामचरणअनुरागी॥ कलिमलरहितसुमंगलभागी॥
दोहा॥ सपनेहुसांचहुमोहिपरजोहरगोरिपसाउ॥ तौफुरहो
उजोकहउँसबभाषाभणितप्रभाउ॥ २१॥ चौपाई॥ बन्दोंअव
धपुरीअतिपावनि॥ सरजूसरिकलिकलुषनसावनि॥ प्रण
वोंपुरनरनारिबहोरी॥ ममताजिनपरप्रभुहिनथोरी॥ सिय
निन्दकअघओघनशाए॥ लोकविशोककबनाइबसाए॥ ब
न्दोंकौशल्यादिशिप्राची॥ कीरतिजासुसकलजगमाची॥
प्रगटेउजहंरघुपतिशशिचारू॥ विश्वसुखदखलकमलतु

पाहू॥ दशरथराउसहितसबरानी॥ सुकृतसुमंगलमू
रतिमानी॥ करौंप्रणामकरममनवाणी॥ करहुकृपासुत
सेवकजानी॥ जिनहिविरचिवडभयउविधाता॥ महिमा
अवधिरामपितुमाता॥ सोरठा॥ बन्दौंअवधभुआलसत्य
प्रेमजेहिरामपद॥ विछुरतदीनदयालप्रियतनुतृणइव
परिहरेउ॥ १६॥ चौपाई॥ प्रणवौंपरिजनसहितविदेहू॥
जाहिरामपदगूढसनेहू॥ योगभोगमहंराखेउगोई॥ रा
मबिलोकतप्रगटेउसोई॥ प्रणवौंप्रथमभरतकेचरणा॥
जासुनेमव्रतजाइनबरणा॥ रामचरणपंकजमनजासू
लुब्धमधुपइवतजैनपासू॥ बन्दौंलक्ष्मणपदजलजाता
शीतलसुभगभक्तसुखदाता॥ रघुपतिकीरतिविमलप
ताका॥ दण्डसमानभयेउयशजाका॥ शेषसहस्रशीशज
गकारण॥ जोअवतरेउभूमिभयटारण॥ सदासोसानुकू
लरहुमोपर॥ कृपासिन्धुसौमित्रिगुणाकर॥ रिपुसूदनप
दकमलनमामी॥ शूरसुशीलभरतअनुगामी॥ महावी
रविनवौंहनुमाना॥ रामजासुयशआपबखाना॥ १८॥ अ
ङ्ककी॥ ४०॥ चौपाईपर्यन्तक्षेपककथाहै॥ सोरठा॥ बन्दौंप
वनकुमारखलबनपावकज्ञानघन॥ जासुहृदयआगार

वसहिंरामसरचापधर॥१७॥चौपाई॥कपिपतिऋक्षनि
शाचरराजा॥अंगदादिजेकीशसमाजा॥बन्दोंसबकेच
रणसुहाये॥अधमशरीररामजिनपाये॥रघुपतिचरणउ
पासकजेते॥खगमृगसुरनरअसुरसमेते॥बन्दोंपदसरो
जसबकेरे॥जेबिनुकामरामकेचेरे॥शुकसनकादिव्यास
मुनिनारद॥जेमुनिवरविज्ञानविशारद॥प्रणवौंसबहिंध
रणिधरिशीशा॥करहुकृपाजनजानिमुनीशा॥जनक
सुताजगजननीजानकी॥अतिशयप्रियकरुणानिधान
की॥ताकेयुगपदकमलमनाऊं॥जासुकृपानिरमलमति
पाऊं॥पुनिमनवचनकर्मरघुनायक॥चरणकमलबन्दों
सबलायक॥राजिवनयनधरेंधनुसायक॥भक्तिविपत्ति
भञ्जनसुखदायक॥दोहा॥गिराअर्थजलवीचिसमकहि
यतभिन्ननभिन्न॥बन्दोंसीतारामपदजिनहिंपरमप्रि
खिन्न॥१८॥चौपाई॥बन्दौंरामनामरघुवरकौ॥हेतुकृशा
नुभानुहिमकरकौ॥विधिहरिहरमयवेदप्राणसो॥अ
गुणअनूपमगुणनिधानसो॥महामंत्रजोरजपतमहेशू
काशीमुक्तिहेतुउपदेशू॥महिमाजासुजानगणराऊ॥
प्रथमपूजियतनामप्रभाऊ॥जानआदिकविनामप्रतापू॥

भयउसिद्धकरिउलटाजापू॥ सहसनामसमसुनिशिव
बाणी॥ जपिजेबीजसुसंगभवानी॥ हरषेहेतुहेरिहरही
को॥ कियभूषणतियभूषणतीको॥ नामप्रभाउजानशि
वनीको॥ कालकूटफलदीन्हअमीको॥ दोहा॥ बरषारि
तुरघुपतिभगतितुलसीशालिसुदास॥ रामनामबरबर
णयुगश्रावणभादोंमास॥ २५॥ चौपाई॥ आखरमधुरमनो
हरदोऊ॥ बरणविलोचनजनजियजोऊ॥ सुमिरतसुल
भसुखदसबकाहू॥ लोकलाहुपरलोकनिबाहू॥ कहत
सुनतसुमिरतसुठिनीके॥ रामलखनसमप्रियतुलसीके
बरणतबरणप्रीतिविलगाती॥ ब्रह्मजीवसमसहजसंघाती
नरनारायणसरिससुभ्राता॥ जगपालकविशेषिजनत्राता
भक्तिसुतियकलकरणविभूषण॥ जगहितहेतुविमल
विधुपूषण॥ स्वादुतोषसमसुगतिसुधाके॥ कमठशेषसम
धरवसुधाके॥ जनमनमंजुकंजमधुकरसे॥ जीहजसोम
तिहरिहलधरसे॥ दोहा॥ एकछत्रएकमुकुटमणिसबबर
णनिपरजोउ॥ तुलसीरघुवरनामकेबरणविराजतदोउ॥
चौपाई॥ समुझतसरिसनामअरुनामी॥ प्रीतिपरस्परप्रभु
अनुगामी॥ नामरूपदुइईशउपाधी॥ अकथअनादिसुसमु

जसमाधी॥कोबडछोटकहतअपराधू॥सुनिगुणभेदस
मुझिहैसाधू॥देखियहरूपनामअधीना॥रूपज्ञाननहिना
मविहीना॥रूपविशेषनामविनुयाने॥करतलगतनपर
हिंपहिचाने॥सुमिरियनामरूपविनुदेखे॥आवतहृदय
सनेहविशेषे॥नामरूपगतिअकथकहानी॥समुझतसु
खदनपरतिवखानी॥अगणसगुणविचनामसुसाखी॥
उभयप्रबोधकचतुरदुभाखी॥दोहा॥रामनाममणिदीप
धरुजीहदेहरीद्वार॥तुलसीभीतरबाहिरोजौचाहसिउ
जियार॥२१॥चौपाई॥नामजीहजपिजागहिंयोगी॥विर
तिविचारप्रपञ्चवियोगी॥ब्रह्मसुखहिंअनुभवहिंअनूपा
अकथअनामयनामनीरूपा॥जानाचहहिंगूढगतिजेऊ
नामजीहजपिजानहिंतेऊ॥साधकनामजपहिंलयलाये
होहिंसिद्धअणिमादिकपाये॥जपहिंनामजनआरतभा
री॥मिटहिंकुसंकटहोहिंसुखारी॥रामभक्तजगचारि
प्रकारा॥सुकृतीचारिउअनघउदारा॥चहुंचतुरनकहं
नामअधारा॥ज्ञानिप्रभुहिविशेषिपियारा॥चहुंयुगच
हुंश्रुतिनामप्रभाऊ॥कलिविशेषनहिआनउपाऊ॥दो
हा॥सकलकामनाहीनजोरामभक्तिरसलीन॥नामप्रेम

पियुष ह्रद तिनहूँ किये मन मीन॥२२॥ चौपाई॥ अगुण सगु
ण दोउ ब्रह्म सरूपा॥ अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ मोरे मत
बड नाम दुहूँ तैं॥ कीये जेहि जुग निज बस बूतैं॥ प्रौढ सुजन
जन जानहिं जन की॥ कहहुँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥ एक
दारुगति देखिय एकू॥ पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू॥ उभय अ
गम युग सुगम नाम तैं॥ कहहुँ नाम बड ब्रह्म राम तैं॥ व्याप
क एक ब्रह्म अविनाशी॥ सत चेतन घन आनन्द राशी॥ अस प्र
भु हृदय अछत अविकारी॥ सकल जीव जग दीन दुखारी॥ ना
म निरूपम नाम यतन तैं॥ सो प्रगटत जिमि मोल रतन तैं॥
दोहा॥ निर्गुण तें एहि भांति वड नाम प्रभाव अपार॥ कहहुँ ना
म बड राम तैं निज विचार अनुसार॥२३॥ चौपाई॥ राम भक्त
हित नर तनु धारी॥ सहि संकट किय साधु सुखारी॥ नाम स
प्रेम पत अनयासा॥ भक्त होंहि मुद मंगल वासा॥ राम एक
तापस तिय तारी॥ नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ ऋषि
हित राम सुकेतु सुता की॥ सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी
सहित दोष दुख दास दुराशा॥ दलइ नाम जिमि रवि निशि
नाशा॥ भञ्जेउ राम आपु भव चापू॥ भव भय भञ्जन नाम प्रता
पू॥ दण्डक वन प्रभु कीन्ह सुहावन॥ जन मन अमित नाम कि

रामा०
बा०
४१

यपावन॥निशिचरनिकरदलेरघुनन्दन॥नामसकलक-
लिकलुषनिकन्दन॥दोहा॥शेवरीगीद्धसुसेवकनिसुगति
दीन्हरघुनाथ॥नामउधारेअमितखलवेदविदितगुणगा
थ॥४०॥चौपाई॥रामसुकंठविभीषणदोऊ॥राखेशरण-
जानसबकोऊ॥नामअनेकगरीबनिवाजे॥लोकवेदवरवि
रदविराजे॥रामभालुकपिकटकबटोरा॥सेतहेतश्रम-
कीन्हनथोरा॥नामलेतभवसिंधुसुखाहीं॥करहुविचार
सुजनमनमाहीं॥रामसकुलरणरावणमारा॥सीयसहि
तनिजपुरपगुधारा॥राजारामअवधरजधानी॥गावतगु
णसुरमुनिवरवाणी॥सेवकसुमिरतनामसप्रीती॥विनु
श्रमप्रवलमोहदलजीती॥फिरतसनेहमगनसुखअप
नै॥नामप्रसादशोचनहिसपनै॥दोहा॥ब्रह्मरामतेंनामब
डवरदायकवरदानि॥रामचरितशतकोटिमहंलियमहे
शजियजानि॥४१॥चौपाई॥नामप्रसादशंभुअविनाशी॥
साजअमङ्गल मङ्गलराशी॥शुकसनकादिसाधुमुनि
योगी॥नामप्रसादब्रह्मसुखभोगी॥नारदजानेउनामप्रता
पू॥जगप्रियहरिहरिहरिप्रियआपू॥नामजगतप्रभुकि
न्हप्रसादू॥भक्तिशिरोमणिभेप्रह्लादू॥ध्रुवसगलानिजपे

उहरिनामू ॥ पायेउ अचल अनुपम ठामू ॥ सुमिरि पवनसुत पावन नामू ॥ अपने बश करि राखेउ रामू ॥ अपर अजामिल गज गणिकाऊ ॥ भए मुक्त हरिनाम प्रभाऊ ॥ कहउं कहां लगि नाम बडाई ॥ राम न शकहिं नाम गुण गाई ॥ दोहा ॥ नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास ॥ जो सुमिरत भयो भांग तें तुलसी तुलसीदास ॥ २५ ॥ चौपाई ॥ चहुं युग तीनि काल तिहुं लोका ॥ भए नाम जपि जीव विशोका ॥ वेद पुराण सन्त मत एहू ॥ सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे ॥ द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ कलि केवल मल मूल मलीना ॥ पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ नाम काम तरु काल कराला ॥ सुमिरत शमन सकल जग जाला ॥ राम नाम कलि अभिमत दाता ॥ हित परलोक लोक पितु माता ॥ नहिं कलि कर्म न योग विवेकू ॥ राम नाम अवलम्बन एकू ॥ कालनेमि कलि कपट निधानू ॥ नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥ दोहा ॥ राम नाम नरकेसरी कनककशिपु कलिकाल ॥ जापक जन प्रह्लाद जिमि पालहिं दलि सुरशाल ॥ २६ ॥ चौपाई ॥ भाय कुभाय अनख आलसहूं ॥ नाम जपत मंगल दिशि दशहूं ॥ सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा ॥ करौं नाइ रघुनाथ

भैरवी २

रामा०
बा०
१२

12

हिंमाया॥ मोरिसुधारहिंसोसबभांती॥ जासुकृपानहिंकृपा
अघाती॥ रामसुस्वामिकुसेवकमोसो॥ निजदिशिदेखिद
यानिधिपोसो॥ लोकहूंवेदसुसाहेबरीति॥ विनयसुनत
पहिचानतप्रीति॥ गनीगरीबग्रामनरनागर॥ पण्डितमू
ढमलीनउजागर॥ सुकविकुकविनिजमतिअनुहारी॥
नृपहिंसराहतसबनरनारी॥ साधुसुजानसुशीलनृपाला
ईशअंशभवपरमकृपाला॥ सुनिसनमानहिंसबहिसुबा
णी॥ भनितभक्तिमतिगतिपहिचानी॥ यहप्राकृतमहि
पालसुभाऊ॥ जानिशिरोमणिकोशलराऊ॥ रीझतराम
सनेहनिसोतें॥ कोजगमन्दमलिनमतिमोतें॥ दोहा॥ श
ठसेवककीप्रीतिरुचिरखिहहिंरामकृपालु॥ उपलकिएज
लजानजेहिंसचिवसुभटकपिभालु॥ ४४॥ हौंहुंकहावत
सवकहतरामसहतउपहास॥ साहेबसीतानाथसेसेवक
तुलसीदास॥ ४५॥ चौपाई॥ अतिबडिमोरिढिठाईखोरी॥ सु
निअघनरकहुंनाकसकोरी॥ समुझिसहमिमोहिअपडर
अपनें॥ सोसुधिरामकीन्हनहिंसपनें॥ सुनिअवलोकि
सुचितचखचाही॥ भक्तिमोरिमतिस्वामिसराही॥ कहत
नशाइहोइहियनीकी॥ रीझतरामजानिजनजीकी॥ रह

तिनप्रभुचितचुककियेकी॥ करतसुरतिसेबारहियेकी
जेहिअघबधेउब्याधजिमिबाली॥ फिरिसुकंठसोइकीन्ह
कुचाली॥ सोइकरततूतिविभीषणकेरी॥ सपनेहुसो
नराममहियहेरी॥ तेभरतहिभेटतसनमाने॥ राजसभा
रघुबीरबखाने॥ दोहा॥ प्रभुतरूतरकपिडारपरकियेते
आपुसमान॥ तुलसीकहूंनरामसेसाहिबशीलनिधान
४६॥ रामनिकाईरावरीहैसबहीकोनीक॥ जोयहसां
चीहैसदातौनीकोतुलसीक॥ ४७॥ यहिविधिनिजगु
णदोषकहिसबहिंबहुरिशिरनाइ॥ वरणौंरघुवरवि
शदजससुनिकलिकलुषनशाइ॥ ४८॥ चौपाई॥ याज्ञ
वलिकजोकथासुहाई॥ भरद्वाजमुनिवरहिसुनाई॥
कहिहौंसोइसम्वादवखानी॥ सुनहुसकलसज्जनसु
खमानी॥ शंभुकीन्हयहचरितसुहावा॥ बहुरिकृपा
करिउमहिंसुनावा॥ सोइशिवकाकभुसुण्डिहिंदीन्हा
रामभक्तिअधिकारीचीन्हा॥ तेहिसनयाज्ञवलिकमु
निपावा॥ तिन्हपुनिभरद्वाजप्रतिगावा॥ तेश्रोतावक्ता
समशीला॥ समदरशीजानहिंहरिलीला॥ जानहिंती
निकालनिजज्ञाना॥ करतलगतआमलकसमाना॥ औ

रामा०
बा०
१३

13

रोजेहरिभक्तसुजाना॥ कहहिंसुनहिंसमुझहिंविधिना
ना॥ दोहा॥ मैंपुनिनिजगुरुसनसुनीकथासुसूकरखे
त॥ समुझनहीतसुबालपनतबअतिरहेउंअचेत॥४९॥
श्रोतावक्ताज्ञाननिधिकथारामकीगूढ॥ किमिसमुझों
मैंजीवजडकलिमलग्रसितविमूढ॥५०॥ चौपाई॥ तद
पिकहीगुरुवारहिंबारा॥ समुझिपरीकछुमतिअनुसा
रा॥ भाषाबन्धकरबमैंसोई॥ मोरेमनप्रबोधजेहिहोई॥ ज
सकछुबुधिविवेकबलमोरे॥ तसकहिहोंहियहरिकेप्रे
रे॥ निजसन्देहमोहभ्रमहरणी॥ करौंकथाभवसरितातर
णी॥ बुधविश्रामसकलजनरञ्जनि॥ रामकथाकलिक
लुषविभञ्जनि॥ रामकथाकलिपन्नगभरणी॥ पुनिअ
विवेकपावककहंअरणी॥ रामकथाकलिकामदगाई॥
सुजनसजीवनमूरिसुहाई॥ सोइवसुधातलसुधातरङ्गि
णि॥ भवभञ्जनिभ्रमभेकभुअङ्गिणि॥ असुरसेनसमन
रकनिकन्दिनि॥ साधुविबुधकुलहितगिरिनन्दिनी॥ स
न्तसमाजपयोधिरमासी॥ विश्वभारधरअचलक्षमासी॥
यमगणमुहमसिजगयमुनासी॥ जीवनमुक्तहेतुजनुका
शी॥ रामहिंप्रियपावनितुलसीसी॥ तुलसीदासहित

हियहुलसीसी॥ शिवप्रियमेकलशैलसुतासी॥ सकल
सिद्धिसुखसम्पतिराशी॥ सदगुणसुरगणअम्बअदितिसी
रघुबरभक्तिप्रेमपरमितिसी॥ दोहा॥ रामकथामन्दाकि
नीचित्रकूटचितचारु॥ तुलसीसुभगसनेहबनसियरघु
बीरबिहारु॥३१॥ चौपाई॥ रामचरितचिन्तामणिचारू॥
सन्तसुमतितियसुभगशिङ्गारू॥ जगमंगलगुणग्राम
रामके॥ दानिमुक्तिधनधर्मधामके॥ सदगुरुज्ञानविराग
योगके॥ विबुधवैद्यभवभीमरोगके॥ जननिजनकसिय
रामप्रेमके॥ बीजसकलब्रतधरमनेमके॥ शमनपापस
न्तापशोकके॥ प्रियपालकपरलोकलोकके॥ सचिवसु
भटभूपतिविचारके॥ कुम्भजलोभउदधिअपारके॥ काम
कोहकलिमलकरिगणके॥ केहरिशावकजनमनवन
के॥ अतिथिपूज्यप्रियतमपुरारिके॥ कामदघनदारिदद
वारिके॥ मंत्रमहामणिविषयब्यालके॥ मेटतकठिनकु
अंकभालके॥ हरणमोहतमदिनकरकरसे॥ सेवकशा
लिपालजलधरसे॥ अभिमतदानिदेवतरुबरसे॥ सेवत
सुलभसुखदहरिहरसे॥ सुकविशरदनभमनउडुगण
से॥ रामभक्तजनजीवनधनसे॥ सकलसुकृतफलभूरिभो

गासे॥ जगहितनिरुपधिसाधुलोगासे॥ सेवकमनमानस
मरालसे॥ पावनगंगतरंगमालसे॥ दोहा॥ कुपथकुतर्क
कुचालिकलिकपटदम्भपाषंड॥ दहनरामगुणग्रामजि
मिईन्धनग्रनलप्रचंड॥ ५२॥ रामचरितराकेशकरसरिससु
खदसबकाहु॥ सज्जनकुमुदचकोरचितहितविशेषब
उलाहु॥ ५३॥ चौपाई॥ कीन्हप्रश्नजेहिभांतिभवानी॥ जे
हिविधिशङ्करकहाबखानी॥ सोसबहेतकहबमैंगाई॥
कथाप्रबन्धविचित्रबनाई॥ जिन्हयहकथासुनीनहिहोई॥
जिनिआचर्यकरैसुनिसोई॥ कथाअलौकिकसुनहिं
जेज्ञानी॥ नहिआचर्य्यकरहिंअसजानी॥ रामकथाकी
मितजगनाहीं॥ असप्रतीतिजिनकेमनमाहीं॥ नानाभां
तिरामअवतारा॥ रामयणशतकोटिअपारा॥ कलपभे
दहरिचरितसुहाए॥ भांतिअनेकमुनीशनगाए॥ करिय
नसंशयअसउरआनी॥ सुनियकथासादररतिमानी॥
दोहा॥ रामअनन्तअनन्तगुणअमितकथाविस्तार॥ सु
निआचर्य्यनमानिहहिंजिनकेंविमलविचार॥ ५४॥ चौ
पाई॥ इहिंविधिसबसंशयकरिदूरी॥ शिरधरिगुरुपद
पङ्कजधूरी॥ पुनिसबहीविनवौंकरजोरी॥ करतकथा।

जेहिलागनखोरी॥सादरशिवहिंनाईअबमाथा॥बरणौ
विशदरामगुणगाथा॥सम्वतसोरहसैएकतीशा॥करौं
कथाहरिपदधरिशीशा॥नौमीभौमवारमधुमासा॥अव
धपुरीयहचरितप्रकासा॥जेहिदिनरामजन्मश्रुतिगा
वहिं॥तीरथसकलतहाँचलिआवहिं॥असुरनागखग
नरमुनिदेवा॥आयकरहिंरघुनायकसेवा॥जन्ममहो
त्सवरचहिंसुजाना॥करहिंरामकलकीरतिगाना॥
दोहा॥मज्जहिंसज्जनबृन्दबहुपावनसरजूनीर॥जप
हिंरामधरिध्यानउरसुंदरश्यामशरीर॥५५॥चौपाई॥
दरशपरशमज्जनअरुपाना॥हरैपापकहवेदपुराणा
नदीपुनीतअमितमहिमाअति॥कहिनशकैशारदावि
मलमति॥रामधामदापुरीसुहावनि॥लोकसमस्तवि
दितजगपावनि॥चारिखानिजगजीवअपारा॥अवध
तजैंतनुनहिंसंसारा॥सबविधिपुरीमनोहरजानी॥
सकलसिद्धिप्रदमंगलखानी॥विमलकथाकरकीन्ह
अरम्भा॥सुनतनशाहिंकाममददम्भा॥रामचरितमा
नसयहनामा॥सुनतश्रवणपाइयविश्रामा॥मनक
रिविषयअनलवनजरही॥होइसुखीजौंयहिसरपरही

रामचरितमानसमुनिभावन॥ विरचेउशम्भुसुहावन
पावन॥ त्रिविधदोषदुखदारिददावनि॥ कलिकुचालिक
लिकलुषनशावनि॥ रचिमहेशनिजमानसराखा॥ पाइ
सुसमयशिवासनभाखा॥ तातेंरामचरितमानसबर॥ ध
रेउनामहियहेरिहरषिहर॥ कहौंकथासोइसुखदसुहा
ई॥ सादरसुनहुसुजनमनलाई॥ दोहा॥ जसमानसजे
हिबिधिभयेउजगप्रचारजेहिहेतु॥ अबसोइकहौंप्रसं
गसबसुमिरिउमावृषकेतु॥ ५६॥ चौपाई॥ शम्भुप्रसाद
सुमतिहियहुलसी॥ रामचरितमानसकवितुलसी॥
करइमनोहरमतिअनुहारी॥ सुजनसुचितसुनिलेहु
सुधारी॥ सुमतिभूमिथलहृदयअगाधू॥ वेदपुराणउ
दधिघनसाधू॥ बरषहिंरामसुयशवरबारी॥ मधुरमा
नोहरमङ्गलकारी॥ लीलासगुणजोकहहिंबखानी॥
सोइस्वच्छताकरैमलहानी॥ प्रेमभक्तिजोबरणिनजाई
सोइमधुरतासुशीतलताई॥ सोजलसुकृतशालिहित
होई॥ रामभक्तजनजीवनसोई॥ मेधामहिगतसोजला
पावन॥ सिमिटिश्रवणमगचलेउसुहावन॥ भरेउसु
मानसथलहिथिराना॥ सुखदशीतरुचिचारुचिराना

दोहा॥ सुठिसुन्दरसम्बादबरविरचेउबुद्धिविचारि॥ तेय
हपावनसुभगसरघाटमनोहरचारि॥ ५७॥ चौपाई॥ स
प्तप्रबन्धसुभगसोपाना॥ ज्ञाननयननिरखतमनमाना॥
रघुपतिमहिमाअगुनअबाधा॥ वरणबसोइबरवारि।
अगाधा॥ रामसीययशसलिलसुधासम॥ उपमाबीचि
विलासमनोरम॥ पुरइनिसघनचारुचौपाई॥ युक्तिमंजु
मणिसीपसुहाई॥ छन्दसोरठासुन्दरदोहा॥ सोइबहु
रंगकमलकुलसोहा॥ अरथअनूपसुभावसुभासा॥।
सोइपरागमकरन्दसुवासा॥ सुकृतपुञ्जमंजुलअलि
माला॥ ज्ञानविरागविचारमराला॥ धुनिअवरेबक वि
तगुणजाती॥ मीनमनोहरतेबहुभांती॥ अर्थधर्मकामा
दिकचारी॥ कहबज्ञानविज्ञानविचारी॥ नवरसजपत
पयोगविरागा॥ तेसबजलचरचारुतडागा॥ सुकृती
साधुनामगुणगाना॥ तेविचित्रजलबिहगसमाना॥
सन्तसभाचहुँदिशिअम्बराई॥ श्रद्धाऋतुबसन्तसम
गाई॥ भक्तिनिरूपणविविधिविधाना॥ क्षमादयाद
मलतावितानाा॥ संयमनियमफूलफलज्ञाना॥ हरि
पदरतिरसवेदवखाना॥ औरौकथाअनेकप्रसंगा॥ ते

तेईसुकपिकबहुबरणविहंगा॥दोहा॥पुलकवाटिका॥
बागवनसुखसुविहंगविहारु॥मालीसुमनसनेहजल
सीचतलोचनचारु॥३८॥चौपाई॥जेगांवहिंयहचरितस
म्भारे॥तेयहितालचतुररखवारे॥सदासुनहिंसादरन
रनारी॥तेइसुरवरमानसअधिकारी॥अतिखलजेविष
यीबककागा॥यहिसरनिकटनजाहिंअभागा॥शम्बु
कभेकसिवारसमाना॥इहांनविषयकथारसनाना॥
तेहिकारणआवतहियहारी॥कामीकाकबलाकविचा
री॥आवतएहिसरअतिकठिनाई॥रामकृपाविनुआइन
जाई॥कठिनकुसंगकुपंथकराला॥तिन्हकेवचनव्या
घ्रहरिव्याला॥गृहकारजनानाजंजाला॥तेइअतिदुर्ग
मशैलविशाला॥वनवहुविषयमोहमदमाना॥नदीकु
तर्कभयङ्करनाना॥दोहा॥जेश्रद्धाशंबलरहितनहिंस
न्तनकरसाथ॥तिनकहंमानसअगमअतिजिन्हहिंनप्रि
यरघुनाथ॥३९॥चौपाई॥जोकरिकष्टजाइपुनिकोई॥जा
तहिंनींदजुडाईहोई॥जडताजाडविषमउरलागा॥गय
हुनमज्जनपावअभागा॥करिनजायसरमज्जनपाना॥
फिरिआवैसमेतअभिमाना॥जोबहोरिकोउपूछनआवा

सरनिन्दाकरिताहिबुझावा॥ सकलविघनव्यापहिंनहिंते
ही॥ रामकृपाकरिचितवहिंजेही॥ सोइसादरसरमज्जनक
रही॥ महाघोरत्रयतापनजरही॥ तेनरयहसरतजहिंन
काऊ॥ जिनकेंरामचरनभलभाऊ॥ जोनहाइचहयहिस
रभाई॥ सोसतसंगकरोमनलाई॥ असमानसमानसचा
खचाही॥ भइकविबुद्धिविमलअवगाही॥ भयउहृदय
आनन्दउछाहू॥ उमगेउप्रेमप्रमोदप्रबाहू॥ चलीसुभग
कवितासरितासों॥ रामविमलयशजलभरितासों॥ स
रजूनामसुमंगलमूला॥ लोकवेदमतमंजुलकूला॥ न
दीपुनीतसुमानसनन्दिनी॥ कलिमलतृनतरुमूलनिक
न्दिनी॥ दोहा॥ श्रोतात्रिविधिसमाजपुरग्रामनगरदुहुंकू
ल॥ सन्तसभाअनुपमअवधसकलसुमंगलमूल॥ ४०॥ चौ
पाई॥ रामभक्तिसुरसरितेहिंजाई॥ मिलीसुकीरतिसरजु
सुहाई॥ सानुजरामसमरयशपावन॥ मिलेउमहानदशो
णसुहावन॥ युगविचभक्तिदेवधुनिधारा॥ सोहतिसहि
तसुविरतिविचारा॥ त्रिविधतापत्रासकत्रिमुहानी॥ राम
स्वरूपसिंधुसमुहानी॥ मानसमूलमिलीसुरसरिहीं॥ सु
नतसुजनमनपावनकरिहीं॥ विचविचकथाविचित्रवि

रामा० बा० १२

(7)

भागा॥ जनुसरितीरतीरवनवागा॥ उमामहेशविवाहव
राती॥ तेजलचरअगणितबहुभांती॥ रघुवरजन्मआनन्द
वधाई॥ भवरतरंगमनोहरताई॥ दोहा॥ बालचरितचहुबं
धुकेबनजविपुलबहुरंग॥ नृपरानीपरिजनसुकृतमधु
करवारिविहंग॥ ४०॥ चौपाई॥ सीयस्वयम्बरकथासुहाई
सरितसुहावनिसोछविछाई॥ नदीनावपटुप्रश्नअनेका॥
केवटकुशलउतरसविवेका॥ सुनिअनुकथनपरस्पर
होई॥ पथिकसमाजसोहसरिसोई॥ घोरधारभृगुनाथ
रिसानी॥ घाटसुबन्धरामवरवानी॥ सानुजरामविवाह
उछाहू॥ सोशुभउमगसुखदसबकाहू॥ कहतसुनत
हरषहिंपुलकाहीं॥ तेसुकृतीमनमुदितनहाहीं॥ राम
तिलकहितमंगलसाजा॥ पर्वयोगजनुजुरेउसमाजा॥
काइकुमतिकैकयीकेरी॥ परीजासुफलविपतिघनेरी
दोहा॥ शमनअमिततउतपातसबभरतचरितजपजाग॥
कलिअघखलअवगुणकथनतेजलमलवककाग॥ ४१
चौपाई॥ कीरतिसरितछहूंरितुरूरी॥ समयसुहावनि
पावनिभूरी॥ हिमहिमशैलसुताशिवव्याहू॥ शिशिरसु
खदप्रभुजन्मउछाहू॥ वरणवरामविवाहसमाजू॥ सोमु

२

दमंगलमयऋतराजू॥ ग्रीषमदुःसहरामबनगमनु॥
पंथकथाखरआतपपवनू॥ बर्षघोरनिशाचररारी॥ सु
रकुलशालिसुमंगलकारी॥ रामराजसुखबिनयबडाई
बिशदसुखदसोइशारदसुहाई॥ सतीशिरोमणिसिय
गुणगाथा॥ सोइगुणअमलअनूपमपाथा॥ भरतसु
भावसुशीतलताई॥ सदाएकरसबरणिनजाई॥ दोहा॥
अवलोकनिबोलनिमिलनिप्रीतिपरस्परहास॥ भाय
पभलिचहुंबंधुकीजलमाधुरीनिवास॥ ४२॥ चौपाई॥ आ
रतिबिनयदीनतामोरी॥ लघुताललितसुवारिनथोरी
अद्भुतसलिलसुनतगुणकारी॥ आशापियासमनोम
लहारी॥ रामसुप्रेमहिंपोषतपानी॥ सकलकलिकलु
षगलानी॥ भवश्रमशोषकतोषकतोषा॥ शमनदुरित
दुखदारिददोषा॥ कामक्रोधमदमोहनशावनि॥ बिम
लविवेकविरागबढावनि॥ सादरमज्जनपानकियेतें॥
मिटहिंपापपरितापहियेतें॥ जिनएहिंवारिनमानसधो
ए॥ तेकायरकलिकालविगोए॥ तृषितनिरखिरविकर
भववारी॥ फिरहिंमृगजिमिजीवदुखारी॥ दोहा॥ मतिअ
नुहारसुवारिगुणगणगणिमनअन्हवाइ॥ सुमिरिभवा

नी शंकर हिं कहक विकथा सुहाइ॥४४॥ अब रघुपति पद पंकरुह हियधरि पाइ प्रसाद॥ कहौं जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग सम्बाद॥४५॥ भरद्वाज जिमि प्रश्न किय याज्ञवलिक मुनि पाइ॥ प्रथम मुख्य सम्बाद सोइ कहिहौं हेतु बुझाइ॥ यह दोहा क्षेपक॥ चौपाई॥ भरद्वाज मुनि वसहिं प्रयागा॥ तिनहिं राम पद अति अनुरागा॥ तापस शम दम दया निधाना॥ परमारथ पथ परम सुजाना॥ माघ मकर गत रवि जब होई॥ तीरथपतिहिं आव सब कोई॥ देव दनुज किन्नर नर श्रेणी॥ सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी॥ पूजहिं माधव पद जलजाता॥ परसि अखय वट हर्षित गाता॥ भरद्वाज आश्रम अति पावन॥ परम रम्य मुनिवर मन भावन॥ तहां होइ मुनि ऋषय समाजा॥ जाहिं जे मज्जन तीरथराजा॥ मज्जहिं प्रात समेत उछाहा॥ कहहिं परस्पर हरि गुण गाहा॥ दोहा॥ ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरणहिं तत्व विभाग॥ कहहिं भक्ति भगवन्त की संयुत ज्ञान विराग॥४६॥ चौपाई॥ एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं॥ पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं॥ प्रति सम्वत अति होइ अनन्दा॥ मकर मज्जि गवनहिं मुनि वृन्दा॥ एक बार भरि मकर

नहाए॥ सबमुनीशआश्रमनिसिधाए॥ याज्ञवलिकमुनि
परमविवेकी॥ भरद्वाजराखेपदटेकी॥ सादरचरणसरोज
पखारे॥ अतिपुनीतआसनबैठारे॥ करिपूजामुनिसुजसब
खानी॥ बोलेअतिपुनीतमृदुबाणी॥ नाथएकसंशयबड़
मोरे॥ करतलवेदतत्वसबतोरे॥ कहतमोहिलागतभयला
जा॥ जौनकहौंबड़होइअकाजा॥ दोहा॥ सन्तकहहिंअस
नीतिप्रभुश्रुतिपुराणमुनिगाव॥ होइनविमलविवेकउर
गुरुसनकियेंदुराव॥ ४७॥ चौपाई॥ असविचारिप्रगटौंनिज
मोहू॥ हरहुनाथकरिजनपरछोहू॥ रामनामकरअमित
प्रभावा॥ सन्तपुराणउपनिषदगावा॥ सन्ततजपतशंभु
अविनाशी॥ शिवभगवानज्ञानगुणराशी॥ आकरचारि
जीवजगअहहीं॥ काशीमरतपरमपदलहहीं॥ सोपिरा
ममहिमामुनिराया॥ शिवउपदेशकरतकरिदाया॥ राम
कवनप्रभुपूछौंतोही॥ कहियबुझाइकृपानिधिमोही॥ ए
करामअवधेशकुमारा॥ तिनकरचरितविदितसंसारा॥
नारिविरहदुखलहेउअपारा॥ भयेउरोषरणरावणमारा
दोहा॥ प्रभुसोइरामकिअवरकोउजाहिजपतत्रिपुरारि॥ स
त्यधामसर्वज्ञतुमकहहुविवेकविचारि॥ ४८॥ चौपाई॥ जैसें

मिटैमोरभ्रमभारी॥कहहुसोकथानाथविस्तारी॥जाग्य
वलिकबोलेमुसकाई॥तुमहिंविदितरघुपतिप्रभुताई॥
रामभक्ततुमकर्ममनवाणी॥चतुराईतुम्हारिमैंजानी॥चा
हहुसुनैरामगुणगूढा॥कीन्हेउप्रश्नमनहुअतिमूढा॥ता
तसुनहुसादरमनलाई॥कहउँरामकीकथासुहाई॥महा
मोहमहिशेषविशाला॥रामकथाकलिकालकराला
रामकथाशशिकिरणसमाना॥सन्तचकोरकरहिंजे
हिपाना॥ऐसेसंशयकीन्हभवानी॥महादेवतबकहाव
खानी॥दोहा॥कहौंसोमतिअनुहारिअबउमाशंभुसं
वाद॥भयउसमयजेहिहेतुजिहिसुनुमुनिमिटहिंविषा
द॥४९॥चौपाई॥एकवारत्रेतायुगमाहीं॥शंभुगयेकुम्भज
ऋषिपाहीं॥संगसतीजगजननिभवानी॥पूजेऋषिअखि
लेश्वरजानी॥रामकथामुनिवर्यवखानी॥सुनीमहेशप
रमसुखमानी॥ऋषिपूछीहरिभक्तिसुहाई॥कहीशंभुअ
धिकारीपाई॥कहतसुनतरघुपतिगुणगाथा॥कछुदिन
तहांरहेगिरिनाथा॥मुनिसनविदामांगित्रिपुरारी॥चले
भवनसंगदक्षकुमारी॥तेहिअवसरभञ्जनमहिभारा॥हरि
रघुवंशलीन्हअवतारा॥पितावचनतजिराजउदासी॥दण्ड

कवनविचरतअविनाशी॥दोहा॥हृदयविचारतजातहरके
हिविधिदरशनहोइ॥गुप्तरूपअवतरेउप्रभुगयेंजानसबको
इ॥७०॥चौपाई॥रावणमरणमनुजकरजाचा॥प्रभुविधि
वचनकीनचहसांचा॥जौनहिंजाउंरहैपछितावा॥करत
विचारनबनतबनावा॥यहिविधिभएशोचवशईशा॥ता
हीसमयजाइदशशीसा॥लीननीचमारीचहिसंगा॥भय
उतुरतसोइकपटकुरंगा॥करिछलमूढहरीवैदेही॥प्र
भुप्रतापउरविदितनतेही॥मृगवधिबंधुसहितहरिआए
आश्रमदेखिनयनजलछाए॥विरहविकलनरइवरघु
राई॥खोजतविपिनफिरतदोंभाई॥कबहुंयोगवियोगन
जाके॥देखाप्रगटविरहदुखताके॥दोहा॥अतिविचित्रर
घुपतिचरितजानहिंपरमसुजान॥जेमतिमन्दविमोहव
शहृदयधरहिंककुआन॥७१॥सोरठा॥शंकरउरअतिलोभ
सतीनजाननहिंमर्मसोई॥तुलसीदरशनलोभमनडरलो
चनलालची॥चौपाई॥शंभुसमयतेहिंरामहिंदेखा॥उप
जाहियअतिहर्षविशेषा॥भरिलोचनछविसिंधुनिहारी॥
कुसमयजानिनकीन्हचिन्हारी॥जयसच्चिदानन्दजगपा
वन॥असकहिचलेउमनोजनशावन॥चलेजाततशिवस

रामा०
बा०
२०

20

तीसमेता॥ पुनिपुनिपुलकितकृपानिकेता॥ सतीसोदशा
शम्भुकीदेखी॥ उरउपजासन्देहविशेषी॥ शंकरजगतवंद्य
जगदीशा॥ सुरनरमुनिसबनावतशीसा॥ तिन्हनृपसुत
हिंकीन्हप्रणामा॥ कहिसच्चिदानन्दपरधामा॥ भयेमग
नछवितासुविलोकी॥ अजहुंप्रीतिउररहतिनरोकी॥ दो
हा॥ ब्रह्मजोव्यापकविरजअजअकलअनीहअभेद॥ सो
किदेहधरिहोइनरजाहिनजानतवेद॥ ५२॥ चौपाई॥ वि
ष्णुजोसुरहितनरतनुधारी॥ सोउसर्वज्ञयथात्रिपुरारी॥
खोजतशोकअज्ञइवनारी॥ ज्ञानधामश्रीपतिअसुरारी॥
शंभुगिरापुनिमृषानहोई॥ शिवसर्वज्ञजानसबकोई॥ अ
ससंशयमनभयउअपारा॥ होइनहृदयप्रबोधप्रचारा॥ य
द्यपिप्रगटनकहेउभवानी॥ हरअन्तरजामीसबजानी॥ सु
नहुसतीतवनारिसुभाऊ॥ संशयअसनधरियउरकाऊ॥
जासुकथाकुम्भजऋषिगाई॥ भक्तिजासुमैंमुनिहिंसुनाई॥
सोममइष्टदेवरघुवीरा॥ सेवतजाहिसदामुनिधीरा॥ छन्द
मुनिधीरयोगीसिद्धसन्ततविमलमनजेहिध्यावहीं॥ कहि
नेतिनिगमपुराणआगमजासुकीरतिगावहीं॥ सोइराम
व्यापकब्रह्मभुवननिकायपतिमायाधनी॥ अवतरेउअपने

भक्तहितनिजतंत्रनित्यरघुकुलमणी॥ सोरठा॥ लागनउर
उपदेशयदपिकहेउशिववारवहू॥ बोलेविहसिमहेशहरि
मायाबलजानिजिय॥५१॥ चौपाई॥ जोंतुम्हरेमनअतिसंदे
हू॥ तोकिनजाइपरिछालेहू॥ तबलगिबैठिरहोंबटछांहीं
जबलगितुमऐहहुमोहिपाहीं॥ जैसेंजाइमोहभ्रमभारी॥
करेहुसोयतनविवेकविचारी॥ चलीसतीशिवआयसुपाई
करहिंविचारकरौंकहाभाई॥ इहांशंभुअसमनअनुमाना
दक्षसुताकहंनहिंकल्याणा॥ मोरेहुकहेनसंशयजाहीं
विधिविपरीतभलाईनाहीं॥ होइहिसोजोरामरचिराखा॥
कोकरितर्कबढावहिंशाखा॥ असकहिलगेजपनहरि
नामा॥ गयीसतीजहंप्रभुसुखधामा॥ दोहा॥ पुनिपुनिहृ
दयविचारकरिधरिसीताकररूप॥ आगेंहोइचलीपंथति
हिंजेहिआवतनरभूप॥५२॥ चौपाई॥ लक्ष्मणदीखउमाकृ
तवेषा॥ चकितहृदयभ्रमभयउविशेषा॥ कहिनसकतक
छुअतिगम्भीरा॥ प्रभुप्रभावजानतमतिधीरा॥ सतीकपट
जानेउसुरस्वामी॥ समदरशीसबअन्तरजानी॥ सुमिरत
जाहिमिटैअज्ञाना॥ सोईसर्वज्ञरामभगवाना॥ सतीकीन्ह
चहैतहांहुदुराऊ॥ देखहुनारिस्वभावप्रभाऊ॥ निजमायाबल

४

हृदयवखानी॥ बोलेविहसिराममृदुबाणी॥ जोरिपाणिप्र
भुकीन्हप्रणामू॥ पितासमेतलीन्हनिजनामू॥ कहेउबहोरि
कहांवृषकेतू॥ विपिनअकेलिफिरहुकेहिहेतू॥ दोहा॥ रा
मवचनमृदुगूढसुनिउपजाअतिसंकोच॥ सतीसभीतमहेश
पहंचलीहृदयवडशोच॥ ७५॥ चौपाई॥ मैशंकरकरकहान
माना॥ निजअज्ञानरामपरवाना॥ जाइउत्तरअवदेंहोकाहा
उतउपजाअतिदारुणदाहा॥ जानारामसतीदुखपावा॥ नि
जप्रभावकछुप्रगटजनावा॥ सतीदिखकौतकमगजाता॥
आगेंराममसहितश्रीभ्राता॥ फिरिचितवापाछेंप्रभुदेषा॥ सहि
तवंधुसियसुन्दरवेषा॥ जहंचितवतितहंप्रभुआसीना॥ सेवे
हिंसिद्धमुनिषप्रवीणा॥ देखेशिवविधिविस्नुअनेका॥ अमि
तप्रभावएकतेंएका॥ वन्दतचरणकरतप्रभुसेवा॥ विविध
वेषदेखेसवदेवा॥ दोहा॥ सतीविधात्रीइन्दिरादेखीअमितअ
नुरूप जेहिजेहिवेषअजादिसुरतेहितेहितनुअनुरूप॥
७६॥ चौपाई॥ देखेजहंतहंरघुपतिजेते॥ शक्तिनसहितसक
लसुरतेते॥ जीवचराचरजेसंसारा॥ देखेसकलअनेकप्रका
रा॥ पूजहिंप्रभुहिंदेववहुवेषा॥ रामरूपदुसरनहिंदेषा॥ अ
वलोकेरघुपतिवहुतेरे॥ सीतासहितनवेषघनेरे॥ सोइरघु

वरसोइलक्ष्मणसीता॥ देखिसतीअतिभयीसभीता॥ हृद
यकम्पतनुसुधिकछुनाहीं॥ नयनमून्दिबैठीमगमाहीं॥ ब
हुरिविलोकेउनयनउघारी॥ कछुनदीखतहँदक्षकुमारी॥
पुनिपुनिनाइरामपदशीसा॥ चलीतहाँजहँरहेगिरिशा॥
दोहा॥ गयीसमीपमहेशतहँहसिपूछीकुशलात॥ लीन्ह
परीक्षाकवनविधिकहहुसत्यसबवात॥ ७७॥ चौपाई॥ स
तीसमुझिरघुवीरप्रभाऊ॥ भयवशशिवसनकीन्हदुराऊ॥
कछुनपरीक्षालीन्हगोसांई॥ कीन्हप्रणामतुम्हारिहिंनाई॥
जोतुमकहासोमृषानहोइ॥ मोरेमनप्रीतिअतिसोई॥ तब
शङ्करदेखेउधरिध्याना॥ सतीजोकीन्हचरितसबजाना॥
बहुरिराममायहिंशिरनावा॥ प्रेरीसतिहिंजेहिंझूठकहावा॥
हरिइच्छाभावीबलवाना॥ हृदयविचारतशंभुसुजाना॥
सतीकीन्हसीताकरवेषा॥ शिवउरभयउविषादविशेषा॥
जोअबकरोंसतीसनप्रीती॥ मिटैभक्तिपथहोइअनीति॥
दोहा॥ परमप्रियानहिजाइतजिकियेप्रेमबडपाप॥ प्रगट
नकहतमहेशकछुहृदयअधिकसन्ताप॥ ७८॥ चौपाई॥ त
बशंभुप्रभुपदशिरनावा॥ सुमिरतरामहृदयअसआवा॥
एहितनुसतिहिभेंटमोहिनाहीं॥ शिवसंकल्पकीन्हमन॥

रा॰मा॰
बा॰
२२

माहीं॥ अस विचारि शङ्कर मतिधीरा॥ चले भवन सुमिरत
रघुवीरा॥ चलत गगन भै गिरा सुहाई॥ जय महेश भलि भक्ति
दृढाई॥ अस प्रण तुम बिनु करै को आना॥ राम भक्त समरथ
भगवाना॥ सुनि नभ गिरा सती उर शोचा॥ पूछा शिवहिं स
मेत सकोचा॥ कीन्ह कवन प्रण कहहु कृपाला॥ सत्यधा
म प्रभु दीनदयाला॥ यदपि सती पूछा बहु भांती॥ तदपि न
कहेउ त्रिपुर आरांती॥ दोहा॥ सती हृदय अनुमान किय सब
जानेउ सर्बज्ञ॥ कीन्ह कपट मै शंभु सन नारि सहज जड अज्ञ॥
सोरठा॥ जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि॥
बिलग होइ रस जाइ कपट खटाई परत ही॥ ८०॥ चौपाई॥ हृ
दय शोच समुझत निज करणी॥ चिन्ता अमित जाइ नहि बर
णी॥ कृपासिंधु शिव परम अगाधा॥ प्रगट न कहेउ मोर अ
पराधा॥ शङ्कर रूप अवलोकि भवानी॥ प्रभु मोहि तजेउ हृ
दय अकुलानी॥ निज अघ समुझि न कछु कहि जाई॥ तपै त
वा इव उर अधिकाई॥ सती शोच जानि वृषकेतू॥ कही कथा
सुन्दर सुख हेतू॥ बरणत पंथ विविध इतिहासा॥ विश्वना
थ पहुंचे कैलासा॥ तहं पुनि शंभु समुझि प्रण आपन॥ बैठे
बट तर करि कमलासन॥ शङ्कर सहज स्वरूप सम्भारा॥ ला

२५

गिसमाधिअखण्डअपारा॥ यहचौपाईआदिकेदुइपदक्षेपक॥

दोहा॥ सतीवसहिंकैलासतवअधिकशोचमनमाहिं॥ मर्म नकोऊजानककुयुगसमदिवससिराहिं॥ ५८॥ चौपाई॥ नितनवशोचसतीउरभारा॥ कबजैहौंदुखसागरपारा॥ मैंजोकीन्हरघुपतिअपमाना॥ पुनिपतिबचनमृषाकरिजाना॥ सोफलमोहिंविधातादीन्हा॥ जोकछुउचितरहासोकीन्हा॥ अबविधिअसबूझियनहितोही॥ शङ्करविमुखजिआवसिमोही॥ कहिनजाइकछुहृदयगलानी॥ मनमहंरामहिंसुमिरिशयानी॥ जौप्रभुदीनदयालुकहावा॥ आरतिहरणवेदयशगावा॥ तौमैंविनयकरौंकरजोरी॥ छूटोबेगिदेहयहमोरी॥ जौमोरेंशिवचरणसनेहू॥ मनक्रमवचनसत्यव्रतएहू॥ दोहा॥ तौसमदर्शीसुनियप्रभुकरौंसोवेगिउपाइ॥ होइमरणजेहिबिनहिंश्रमदुःसहविपतिविहाइ॥ ५९॥

चौपाई॥ इहिविधिदुखितप्रजेशकुमारी॥ अकथनीयदारुणदुखभारी॥ बीतेसम्बतसहससतासी॥ तजीसमाधिशंभुअविनाशी॥ रामनामशिवसुमिरणलागे॥ जानेउसतीजगतपतिजागे॥ जाइशंभुपदवन्दनकीन्हा॥ सन्मुखशङ्करआसनदीन्हा॥ लगेकहनहरिकथारसाला॥ द

रा०मा०
बा०
२३
23

लप्रजेशभयेतेहिकाला॥ देखाविधिबिचारिसबलायक
दक्षहिंकीन्हप्रजापतिनायक॥ बडअधिकारदक्षजबपावा
अतिअभिमानहृदयतबआवा॥ नहिकोउअसजनमाज
गमांही॥ प्रभुतापाईजाहिमदनाही॥ दोहा॥ दक्षलियेमुनि
बोलिसबकरनलगेबडयाग॥ नेवतेसादरसकलसुरजे
पावतमखभाग॥ ६०॥ चौपाई॥ किन्नरनागसिद्धगन्धर्बा॥ ब
धूनसमेतचलेसुरसर्बा॥ विस्नुविरंचिमहेशविहाई॥ चले
सकलसुरयानबनाई॥ सतीविलोकेगगनविमाना॥ जात
चलेसुन्दरविधिनाना॥ सुरसुन्दरीकरहिंकलगाना॥ सुन
तश्रवणछूटहिंमुनिध्याना॥ पूछेउतबशिवकहेउबखानी
पितायज्ञसुनिकछुहरषानी॥ जौमहेशमोहिआयसुदेहीं
कछुदिनजायरहोंमिसिएहीं॥ पतिपरित्यागहृदयदुखभा
री॥ कहैंननिजअपराधविचारी॥ बोलीसतीमनोहरबानी
सभयसंकोचप्रेमरससानी॥ दोहा॥ पिताभवनउतसवप
रमजोप्रभुआयसुहोइ॥ तौमैजाउंकृपायतनसादरदेखन
सो॥ ६१॥ चौपाई॥ कहेउनीकमोरेहुंमनभावा॥ यहअनु
चितनहिनेवतपठावा॥ दक्षसकलनिजसुताबुलाई॥ ह
मरेबयरतुम्हैविसराई॥ ब्रह्मसभाहमसनदुखमाना॥ तेहि

तेअजहुंकरहिंअपमाना॥ जौबिनुबोलेंतुम्हजाहुभवानी॥र
हैनशीलसनेहनकानी॥ यदपिमित्रप्रभुपितुगुरुगेहा॥जा
इयबिनुबोलेंहुनसन्देहा॥ तदपिविरोधमानजहंकोई॥त
हांगयेंकल्याणनहोई॥ भांतिअनेकशंभुसमुझावा॥भावी
वशनज्ञानउरआवा॥ कहप्रभुजाहुजोबिनहिंबुलाए॥नहि
भलिबातहमारेभाए॥ दोहा॥ कहिदेखाहरयतनबहुरहैन
दक्षकुमारी॥ दियेमुख्यगणसंगतबविदाकीन्हित्रिपुरारी॥
चौपाई॥ पिताभवनजवगयीभवानी॥ दक्षत्रासनकाहुसन
मानी॥ सादरभलेहिमिलीएकमाता॥ भगिनीमिलींबहुतमु
सुकाता॥ दक्षनककुपूछीकुशलाता॥ सतीहिंबिलोकिज
रेसबगाता॥ सतीजाइदेखेउतबजागा॥ कतहुंनदीखशम्भु
करभागा॥ तबचितचढेउजोशंकरकहेऊ॥ प्रभुअपमानस
मुझिउरदहेऊ॥ पाछिलदुःखनहृदयअसव्यापा॥ जसयह
भयउमहापरितापा॥ यद्यपिजगदारुणदुखनाना॥ सबतें
कठिनजातिअपमाना॥ समुझिसतीतिहिभयउअतिक्रोधा॥
बहुविधिजननीकीन्हप्रबोधा॥ दोहा॥ शिवअपमाननजा
इसहिहृदयनहोइप्रबोध॥ सकलसभहिंहठिकितबबोलीं
वचनसक्रोध॥ ८८॥ चौपाई॥ सुनहुसभासदसकलमुनिन्दा॥

रामा॰
बा॰
२४

24

कहीसुनीजिन्हशंकरनिन्दा॥सोफलतुरतलहवसबकाहू
भलीभांतिपछितावपिताहू॥सन्तशम्भुश्रीपतिअपवादा॥
सुनियजहांतहंअसमर्य्यादा॥कादियतासुजीभजोबसाई॥
श्रवणमुन्दिनहिचलीयपराई॥जगदात्मामहेशपुरारी॥
जगतजनकसबकेहितकारी॥पितामन्दमतिनिन्दततेही॥
दक्षशुक्रशम्भवयहदेही॥तजिहौंतुरतदेहतेहिहेतू॥उर
धरिचन्द्रमौलिवृषकेतू॥असकहियोगअग्नितनुजारा॥
भयउसकलमखहाहाकारा॥दोहा॥सतीमरणसुनिशंभु
गणलगेकरणमखखीस॥यज्ञविध्वंसविलोकिभृगुरक्षा
कीन्हमुनीश॥७॥चौपाई॥समाचारसबशंकरपाये॥वीर
भद्रकरिकोपपठाये॥यज्ञविध्वंसजाइतिन्हकीन्हा॥सक
लसुरन्हविधिवतफलदीन्हा॥भैजगविदितदक्षगतिसोई॥
जसककुशंभुविमुखकैहोई॥यहइतिहाससकलजगजा
ना॥तातेमैंसंक्षेपबखाना॥सतीमरतहरिसनवरुमांगा॥
जन्मजन्मशिवपदअनुरागा॥तेहिकारणहिमगिरिगृह
जाई॥जनमीपारवतीतनुपाई॥जबतेंउमाशैलगृहजाई॥
सकलसिद्धसंपतितहंछाई॥जहंतहंमुनिनसुआश्रमकी
न्हे॥उचितवासहिमभूधरदीन्हे॥दोहा॥सदासुमनफलस

हितसबद्रुमवननानाजाति॥ प्रगटीसुन्दरशैलपरमणिआकरबहुभांति॥ ८८॥ चौपाई॥ सरितासबपुनीतजलबहहीं॥ खगमृगमधुपसुखीसबरहहीं॥ सहजबयरसबजीवनत्यागा॥ गिरिपरसकलकरहिंअनुरागा॥ सोहशैलगिरिजागृहआयें॥ जिमिजनरामभक्तिकेपायें॥ ~~जिमिजनरामभक्तिकेपायें~~॥ नितनूतनमंगलगृहतासू॥ ब्रह्मादिकगावहिंयशजासू॥ नारदसमाचारसबपाये॥ कौतुकहींगिरिगेहसिधाये॥ शैलराजबडआदरकीन्हा॥ पदपखारिबरआसनदीन्हा॥ नारीसहितमुनिपदशिरनावा॥ चरणसलिलसबभवनसिचावा॥ निजसौभाग्यबहुतगिरिवरणा॥ सुतावोलिमेलीमुनिचरणा॥ दोहा॥ त्रिकालज्ञसर्वज्ञतुमगतिसर्वत्रतुम्हारि॥ कहहुसुताकेदोषगुणमुनिवरहृदयविचारि॥ ८९॥ चौपाई॥ कहमुनिविहंसिगूढमृदुबानी॥ सुतातुम्हारिसकलगुणखानी॥ सुन्दरिसहजसुशीलसयानी॥ नामउमाअम्बिकाभवानी॥ सबलक्षणसंपन्नकुमारी॥ होइहिसन्ततपियहिपियारी॥ सदाअचलयहिकरअहिवाता॥ एहितेंयशपैहहिंपितुमाता॥ होइहिपूज्यसकलजगमां

हीं॥पहिंसेवतकछुदुर्लभनाहीं॥एहिकरनामसुमिरिसं
सारा॥त्रियचढिहहिंपतिब्रतअसिधारा॥शैलसुलछ
णिसुतातुम्हारी॥सुनहुजेअवगुणहैदुइचारी॥अगुण
अमानमातपितुहीना॥उदासीनसबसंशयछीना॥दोहा
योगीजटिलअकाममननगनअमंगलवेष॥असस्वामी
यहिकहंमिलिहिपरीहस्तअसरेख॥६७॥चौपाई॥सुनि
मुनिगिरासत्यजियजानी॥दुःखदंपतिहिउमाहरषानी
नारदहूंयहभेदनजाना॥पुलकशरीरभरेजलनयना॥
दशाएकसमुझतबिलगानो॥सकलसखीगिरिजागिरि
मयना॥होइनमृषादेवऋषिभाषा॥उमासोवचनहृदयध
रिराखा॥उपजेउशिवपदकमलसनेहू॥मिलनकठिन
मनभासन्देहू॥जानिकुअवसरप्रीतिदुराई॥सखीउछंग
वैठीपुनिजाई॥झूठिनहोइदेवऋषिवानी॥शोचहिंदंपति
सखीसयानी॥उरधरिधीरकहैगिरिराऊ॥कहहुनाथ
काकरियउपाऊ॥दोहा॥कहमुनीशहिमवन्तसुनुजो
विधिलिखालिलार॥देवदनुजनरनागमुनिकोउनमेट
नहार॥६८॥चौपाई॥तदपिएकमैंकहौंउपाई॥होइकरैजो
दैवसहाई॥जसबरमैंवरणेउंतुमपाहीं॥मिलिहिउमहिं

आलामरी
५

कुसंगशयनाही॥जेजेवरकेदोषवखाणे॥तेसबशिवपहमें
अनुमाने॥जोविवाहशंकरसनहोई॥दोषौगुणसमकह
सबकोई॥जोअहिसेजशायनहरिकरहीं॥बुधकछुतिन्ह
करदोषनधरहीं॥भानुकृशानुसर्वरसखांही॥तिनकहंमं
दकहतकोउनाही॥शुभअरुअशुभसलिलसबवहई॥सु
रसरिकोउअपुनीतनकहई॥समरथकहंनहिंदोषुगुसां
ई॥रविपावकसुरसरिकीनाई॥दोहा॥एसेहिंशिषकरहिं
नरजउविवेकअभिमान॥परहिंकल्पभरिनरकमहंजी
वकिईशसमान॥६२॥चौपाई॥सुरसरिजलकृतवासनजा
ना॥कवहुनसंतकरैतिहिंपांना॥सुरसरिमिलैंसोपावन
जैसें॥ईशअनीशहिंअंतरतैसें॥शम्भुसहजसमरथभग
वाना॥एहिविवाहसबविधिकल्याणा॥दुराराध्यपैअह
हिंमहेशू॥आशुतोषपुनिकियेंकलेशू॥जोतपकरैकुमा
रितुम्हारी॥भावीउमेंटिसकेंत्रिपुरारी॥यद्यपिवरअनेक
जगमाहीं॥यहिकहंतजिशिवदूसरनाहीं॥वरदायक
मणतारतिभंजन॥कृपासिन्धुसेवकमनरंजन॥इच्छित
फलविनुशिवआराधें॥लहइनकोटियोगजपसाधें॥दो
हा॥

असकहिनारदसुमिरिहरिगिरिजहिंदीन्हअशीश॥।
होइहिंयहकल्याणमयसंशयतजहुगिरीश॥६३॥चौ
पाई॥कहिअसब्रह्मभवनमुनिगयेऊ॥आगिलचरितसुन
हुजसभयेऊ॥पतिहिंएकान्तपायकहमयना॥नाथनमैं
समुझेउंमुनिवयना॥जौंघरवरकुलहोइअनूपा॥करिय
विवाहसुताअनुरूपा॥नतकन्यावररहोकुमारी॥कान्त
उमाममप्राणपियारी॥जौनमिलहिवरगिरिजहियोगू॥
गिरिजडसहजकहहिंसवलोगू॥सोविचारिपतिकरहुवि
वाहू॥जेहिनवहोरिहोईउरदाहू॥असकहिपरीचरण
धरिशीशा॥बोलेसहितसनेहगिरीशा॥वरुपावकप्रग
टशशिमांही॥नारदवचनअन्यथानांही॥दोहा॥प्रिया
शोचपरिहरहुसवसुमिरहुश्रीभगवान॥पारवतीजिन
निर्मयउसोइकरिहहिकल्यान॥६४॥चौपाई॥अबजौंतु
महिंसुतापरनेहू॥तौअसजाइसिखावनदेहू॥करैसो
तपजेहिमिलहिंमहेशू॥आनउपायनमिटिहिंकलेशू॥
नारदवचनसत्यसवहेतू॥सुन्दरसवगुणनिधिवृषके
तू॥असविचारितुमतजहुअशंका॥सवहिभांतिशंक

रश्रकलंका॥ सुनिपतिवचनहर्षिमनमाहीं॥ गइतुरु
तउठिगिरिजापाहीं॥ उमयहिंविलोकिनयनभरिवारी
सहितसनेहगोदवैठारी॥ वारहिंवारलेतिउरलाई॥
गद्गदकंठनककुकहिनजाई॥ जगतमातुसर्वज्ञभवानी
मातुसुखदबोलीमृदुवानी॥ दोहा॥ सुनहुमातुमैंदीख
अससपनसुनाऊंतोहि॥ सुन्दरगौरसुविप्रवरअसउपदे
शेउमोहि॥ ७५॥ चौपाई॥ करहुजाइतपशैलकुमारी॥ ना
रदकहासोसत्यविचारी॥ मातुपितहिंपुनियहमतभावा
तपसुखप्रददुखदोषनशावा॥ तपबलरचैप्रपंचविधा
ता॥ तपबलविष्णुसकलजगपाता॥ तपबलशम्भुकर
हिंसंघारा॥ तपबलशेषधरहिंमहिभारा॥ तपअधारस
हिसृष्टिभवानी॥ करहुजाइतपअसजियजानी॥ सुनतव
चनविस्मितमहतारी॥ स्वप्नसुनायेउगिरिहिंहंकारी॥
मातुपितहिंवहुविधिसमुझाई॥ चलीउमातपहितहर
षाई॥ प्रियपरिवारपितात्र्प्ररुमाता॥ भयेविकलमुखआ
वनवाता॥ दोहा॥ वेदशिरामुनिआइतवसवहिंकहास
मुझाइ॥ पारवतीमहिमासुनतरहैप्रवोधहिपाइ॥ ७६॥ चौ
पाई॥ उरधरिउमाप्राणपतिचरणा॥ जाइविपिनलागीत

राम॰
बा॰
२७

27

पकरणा॥ अतिसुकुमारितनतपयोगू॥ पतिपदसुमिरितजेउसबभोगू॥ नितनवचरणउपजअनुरागा॥ विसरीदेहतपहिंमनलागा॥ सम्बतसहस्रमूलफलखाये॥ शाकखाइशतवर्षगंवाये॥ कछुदिनभोजनबारिवतासा॥ कियेकठिनकछुदिनउपबासा॥ बेलपातमहिपरेउसुखाई॥ तीनिसहस्रसम्बतसोखाई॥ पुनिपरिहरेउसुखाणेउपर्णा॥ उमानामतबभयउअपर्णा॥ देखिउमहितपक्षीणशरीरा॥ ब्रह्मगिराभयीगगनगम्भीरा॥ दोहा॥ भयउमनोरथसुफलतबसुनुगिरिराजकुमारि॥ परिहरदुसहकलेशसबअबमिलिहहिंत्रिपुरारि॥ ८०॥ चौपाई॥ असतपकाहुनकीन्हभवानी॥ भयेअनेकधीरमुनिज्ञानी॥ अबउरधरहुब्रह्मवरबानी॥ सत्यसदासन्ततशुचिजानी॥ आवैपिताबुलावनजबहीं॥ हठपरिहरिघरजायहुतबहीं॥ मिलहहिंतमहिंजबसप्तऋषीशा॥ जानेहुतबप्रमाणवागीशा॥ सुनतगिराविधिगगनबखानी॥ पुलकगातगिरिजाहरषानी॥ उमाचरितमैंसुन्दरगावा॥ सुनहुशंभुकरचरितसुहावा॥ जबतेंसतीजाइतनुत्यागा॥ तबतेंशिवमनभयेउविरागा॥ जपहिंसदारघुनायकनामा॥

जहंतहंसुनहिंरामगुणग्रामा॥दोहा॥सचिदानन्दसु
खधामशिवविगतमोहमदकाम॥विचरहिंमहिधरिहि
दयहरिसकललोकअभिराम॥९८॥चौपाई॥कतहुंमु
निनउपदेशहिंज्ञाना॥कतहुंरामगुणकरहिंवखाना॥
यदपिअकामतदपिभगवाना॥भगतविरहदुखदुखि
तसुजाना॥यहिविधिगयेउकालबहुबीती॥नितनब
होइरामपदप्रीती॥नेमप्रेमशंकरकरदेखा॥अविच
लहृदयभक्तिकीरेखा॥प्रगटेरामकृतज्ञकृपाला॥रू
पशीलनिधितेजविशाला॥बहुप्रकारशंकरहिंसराहा
तुमविनुअसव्रतकोनिरबाहा॥बहुविधिरामशिवहिं
समुझावा॥पारवतीकरजन्मसुनावा॥अतिपुनीतगि
रिजाकीकरणी॥विस्तरसहितकृपानिधिवरणी॥दो
हा॥अबविनतीममसुनहुशिवजौमोपरनिजनेहु॥
जाइविवाहहुशैलजहियहमोहिमांगेदेहु॥९९॥चौ
पाई॥कहशिवयदपिउचितअसनाहीं॥नाथवचनपु
निमेटिनजाहीं॥शिरधरिआयसुकरियतुम्हारा॥पर
मधरमयहनाथहमारा॥मातुपितागुरुप्रभुकीबानी
विनहिंविचारकरियशुभजानी॥तुमसबभांतिपरमहि

रामा०
बा०
२८
28

तकारी॥आज्ञाशिरपरनाथतुम्हारी॥प्रभुतोषेउसुनिशं
करवचना॥भक्तिविवेकधर्मयुतरचना॥कहप्रभुहरतुम्हा
रपणरहेऊ॥अबउरराखेहुजोहमकहेऊ॥अन्तर्ध्यानभये
असभाखी॥शंकरसोमूरतिउरराखी॥तबहिंसप्तऋषि
शिवपहंआये॥बोलेप्रभुअतिवचनसुहाये॥दोहा॥पारव
तीपहजाइतुमप्रेमपरीक्षालेहु॥गिरिहिप्रेरिपठयेहुभ
वनदूरिकरहुसन्देहु॥१००॥चौपाई॥ऋषिनिगौरिदेखी
तहकैसी॥मूरतिवन्ततपस्याजैसी॥बोलेमुनिसुनुशै
लकुमारी॥करहुकवनकारणतपभारी॥केहिअवराधहु
कातुमचहहू॥हमसनसत्यमर्मकिनकहहू॥सुनतऋ
षिनिकेवचनभवानी॥बोलीगूढमनोहरबानी॥कहत
मरममनअतिसकुचाई॥हंसिहहुसुनिहमारिजड़ताई॥
मनहठपरानसुनैसिखावा॥चहतवारिपरभीतिउठावा
नारदकहासत्यसोईजाना॥बिनुपंखनहमचहहिंउडाना
देखहुमुनिअविवेकहमारा॥चाहहिशिवहिसदाभरता
रा॥दोहा॥सुनतवचनविहंसेऋषयगिरिसम्भवतवदे
ह॥नारदकरउपदेशसुनिकहहुबसेकोगेह॥१०१॥चौ
पाई॥दक्षसुतन्हिउपदेशेनिजाई॥तिनफिरिभवननदे॰

खेउआई॥ चित्रकेतुकरघरउनघाला॥ कनककशिपुकर
पुनिअसहाला॥ नारदसीखजेसुनहिंनरनारी॥ अवशिभ
वनतजिहोंहिंभिखारी॥ मनकपटीतनसज्जनचिन्हा॥
आपसरिससबहीचहकीन्हा॥ तेंहिकेबचनमानिविश्वासा॥
तुमचाहहुपतिसहजउदासा॥ निर्गुणनिलजकुवेषकपा
ली॥ अकुलअगेहदिगम्बरव्याली॥ कहहुकवनसुखअ
सवरपाये॥ भलभूलिहुठगकेवउराये॥ पंचकहेशिवस
तीविवाही॥ पुनिअवडेरिमराइवताही॥ दोहा॥ अवसु
खसोवतशोचनहिंभीखमांगिभवखांहि॥ सहजएकाकि
नकेभवनकवहुंकिनारिखटांहि॥१०२॥ चौपाई॥ अजहुंमा
नहुकहाहमारा॥ हमतुमकहुंवरनीकविचारा॥ अतिसु
न्दरशुचिसुखदसुशीला॥ गावहिंवेदजासुयशलीला॥
दूषणरहितसकलगुणराशी॥ श्रीपतिपुरवैकुंठनिवासी॥
असवरतुमहिंमिलाउवआनी॥ सुनतविंहसिकहवचन
भवानी॥ सत्यकहहुगिरिभवतनुएहा॥ कहनछूटछूटैव
रुदेहा॥ कनकौसुनिपषानतेंहोइ॥ जारेंहुसहजनपरि
हरसोई॥ नारदवचननमैंपरिहरऊं॥ वसौभवनउजरौन
हिंडरऊं॥ गुरुकेवचनप्रतीतिनजेही॥ सपनेहुसुगमनसु

खसिथितेही॥दोहा॥महादेवअवगुणभवनविस्नुसक
लगुणधाम॥जेहिकरमनरमजाहिसनताहिताहिसन
काम॥१०२॥चौपाई॥जोतुमभिलतेहुप्रथममुनीशा॥सु
नतेउसिखतुम्हारिधरिशीसा॥अबमैंजन्मशंभुहितहारा
कोगुणदोषहिंकरैविचारा॥जोतुम्हरेहठहृदयविशेषी॥
रहिनजाइबिनकियेंबरेषी॥तौकौतुकिअन्हआलसनाही॥
बरकन्याअनेकजगमाही॥जन्मकोटिलगिरगरहमारी॥
बरोंशंभुनतरहौंकुमारी॥तजौंननारदकरउपदेशू॥आपु
कहहिंशतबारमहेशू॥मैंपापरौंकहैजगदम्बा॥तुमगृ
हगवनहुभयउविलम्बा॥देखिप्रेमबोलेमुनिज्ञानी॥ज
यजयजयजगदम्बभवानी॥दोहा॥तुममायाभगवानशि
वसकलजगतपितुमात॥नाइचरणशिरमुनिचलेउपुनि
पुनिहर्षितगात॥१०३॥चौपाई॥जाइमुनिन्हहिमवन्तपठा
ये॥करिविनतीगिरिजहिंगृहलाये॥बहुरिसप्तऋषिशि
वपहंजाई॥कथाउमाकीसकलसुनाई॥भयेमगनशिव
सुनतसनेहा॥हरषिसप्तऋषिगवनेगेहा॥मनथिरकरि
तबशंभुसुजाना॥लगेकरणरघुनायकध्याना॥तारकअ
सुरभयेउतेहिकाला॥भुजप्रतापबलतेजविशाला॥ते

हिंसबलोकलोकपतिजीते॥ भयेदेवसुखसम्पतिरीते॥
अजरअमरसोजीतिनजाई॥ हारेसुरकरिविविधलराई॥
तबविरञ्चिसनजाइपुकारे॥ देखेविधिसबदेवदुखारे॥
दोहा॥ सबसनकहाबुझायविधिदनुजनिधनतबहोइ
शंभुशुक्रसंभूतसुतएहिजीतैरणसोइ॥ ८४॥ चौपाई॥
मोरकहासुनिकरहुउपाई॥ होइहिईश्वरकरिहहिंसहाई
सतीजोतजीदक्षमखदेहा॥ जनमीजाइहिमाचलगेहा
तेहितपकीन्हशंभुपतिलागी॥ शिवसमाधिवैठेसबत्या
गी॥ यदपिअहैअसमञ्जसभारी॥ तदपिबातएकसुन
हुहमारी॥ पठवहुकामजाइशिवपाहीं॥ करैक्षोभशङ्क
रमनमाहीं॥ तवहमजाइशिवहिशिरनाई॥ करवाउवविवाहवरिआई॥ यहिविधिभलेंहिदेवहितहोई॥ मतअ
तिनीककहैउसबकोई॥ अस्तुतिसुरनिकीन्हअतिहेतू
प्रगटेउविषमबाणझषकेतू॥ दोहा॥ सुरनिकहीनिज
विपतिसबसुनिमनकीन्हविचार॥ शंभुविरोधनकुश
लमोहिविहंसिकहेउअसमार॥ ८५॥ चौपाई॥ तदपि
करबमैकाजतुम्हारा॥ श्रुतिकहपरमधर्मउपकार॥
परहितलागितजेंजोदेही॥ सन्ततसन्तप्रशंसहिंतेही

असकहिचलेउसबहिंशिरनाई॥सुमनधनुषकरस
हितसहाई॥चलतमारअसहृदयविचारा॥शिवविरो
धध्रुवमरणहमारा॥तबआपनप्रभावविस्तारा॥नि
जबशकीन्हसकलसंसारा॥कोपेउजबहिंवारिचरकेतू
छणमहंमिटेसकलश्रुतिसेतू॥ब्रह्मचर्य्यव्रतसंयम
नाना॥धीरजधर्मज्ञानविज्ञाना॥सदाचारजपयोगवि
रागा॥सभयविवेककटकसबभागा॥छन्द॥भागेउ
विवेकसहाइसहितसोसुभटसंयुगमहिंमुरे॥सदग्र
न्थपर्वतकन्दरनमहंजाइतेहिअवसरदुरे॥होंनिहार
कारकतारकोरखवारजगखरभरपारा॥दुइमाथकेहि
रतीनाथजेहिकहंकोपिधनुशरकरधारा॥सोरठा॥जे
सजीवजगअचरचरनारिपुरुषअसनाम॥तेनिजनिज
मर्य्यादतजिभयेसकलवशकाम॥८६॥चौपाई॥सबके
हृदयमदनअभिलाषा॥लतानिहारिनवहिंतरुशाखा
नदीउमगिअम्बुधिकहंधाई॥संगमकरहिंतलावतला
ई॥जहंअसदशाजडनकीवरणी॥कोकहिशकेसचे
तनकरणी॥पशुपक्षीनभजलथलचारी॥भयेकाम
वशसमयविसारी॥मदनअन्धव्याकुलसबलोका॥नि

जग
बंगाल
१

शिदिननहिंअवलोकहिंकोका॥देवदनुजनरकिन्नरव्या
ला॥प्रेतपिशाचभूतवैताला॥इनकीदशानकहेंउवखानी॥
सदाकामकेचेरेजानी॥सिद्धविरक्तमहामुनियोगी॥तेपि
कामवशभयेवियोगी॥छन्द॥भयेकामवशयोगीशताप
सपामरनरकीकोकहै॥देखहिंचराचरनारिमयजेब्रह्मम
यदेखतरहै॥अवलाविलोकहिंपुरुषमयजगपुरुषसव
अवलामयं॥दुइदण्डभरिब्रह्माण्डभीतरकामकृतकौतु
कअयं॥सोरठा॥धरीनकाहूंधीरसवकेमनमनसिजहरे॥
जेहिराखेउरघुवीरतेउवरेतेहिकालमह॥२०७॥चौपाई॥
उभयघरीअसकौतुकभयऊ॥जवलगिकामशंभुपहंगय
ऊ॥शिवहिंविलोकिसशंकेउमारू॥भयेउयथास्थितस
वसंसारू॥भयउतुरतजगजीवसुखारे॥जिमिमदउत्त
रिगयेंमतवारे॥रुद्रहिंदेखिमदनभयमाना॥दुराधर्षदु
र्गमभगवाना॥फिरतलाजकछुकरिनहिंजाई॥मरणठा
निमनरचेसिउपाई॥प्रगटेसितुरतरुचिरऋतुराजा॥कुसु
मितनवतरुराजिविराजा॥वनउपवनवापिकातडागा॥प
रमसुभगसवदिशाविभागा॥जहंतहंजनुउमगतअनु
रागा॥देखिमुएहुंमनमनसिजजागा॥छन्द॥जागेउमनो

रा०मा०
बा०
३१

31

भवसुधहृमनवनसुभगानानपरैकही॥ शीतलसुगन्धसु
मन्दमारुतमदनअनलशाखासही॥ विकसेसरन्हिबहु
कञ्जगुञ्जतपुञ्जमञ्जुलमधुकरा॥ कलहंसपिकशुकसर
सरबकरिगाननाचहिंअपसरा॥ दोहा॥ सकलकलाकरि
कोटिबिधिहारेउसैनसमेत॥ चलीनअचलसमाधिशिव
कोपेउहृदयनिकेत॥ ८४॥ चौपाई॥ देखिरसालविटपव
रशाखा॥ तेहिपरचढेउमदनमनमाखा॥ सुमनचापनि
जशरसन्धाने॥ अतिरिषाताकिश्रवणलगिताने॥ छाडे
विषमविशिखउरलागे॥ छूटिसमाधिशंभुतबजागे॥ भ
यउईशमनक्षोभविशेषी॥ नयनउघारिसकलदिशिदे
खी॥ सौरभपल्लवमदनविलोका॥ भयउकोपकंपेउत्रयलो
का॥ तबशिवतीसरनयनउघारा॥ चितवतकामभयउज
रिछारा॥ हाहाकारभयउजगभारी॥ डरपेसुरभयेअसु
रसुखारी॥ समुझिकामसुखशोचहिंभोगी॥ भयेअकंट
कसाधकयोगी॥ छन्द॥ योगीअकंटकभयेउपतिगतिसु
नतरतिमूर्छितभयी॥ रोदतिवदतिबहुभांतिकरुणाक
रतिशंकरपहंगयी॥ अतिप्रेमकरिविनतीविविधविधि
जोरिकरसन्मुखरही॥ प्रभुआशुतोषकृपालुशिवअवला

निरखिबोलेसही ॥ दोहा ॥ अबतैंरतितवनाथकरहोइहिना
मअनङ्ग ॥ बिनुवपुब्यापिहिंसबहिंपुनिसुनुनिजमिलन
प्रसङ्ग ॥ ८९ ॥ चौपाई ॥ जबयदुवंशकृष्णअवतारा ॥ होइहिं
हरणमहामहिभारा ॥ कृष्णतनयहोइहिपतितोरा ॥ वचन
अन्यथाहोइनमोरा ॥ रतिगवनीसुनिशङ्करबानी ॥ कथाअ
वरपुनिकहौंबखानी ॥ देवनसमाचारसबपाये ॥ ब्रह्मादि
कवैकुण्ठसिधाये ॥ सबसुरविष्णुविरञ्चिसमेता ॥ गयेज
हाँशिवकृपानिकेता ॥ पृथकपृथकतिनकीन्हप्रसंसा ॥
भयेप्रसन्नचन्द्रअवतंसा ॥ बोलेकृपासिंधुवृषकेतू ॥ कहहु
अमरआयेहुकेहिहेतू ॥ कहविधितुमप्रभुअन्तरजामी ॥
तदपिभक्तिवशविनवउँस्वामी ॥ दोहा ॥ सकलसुरनके
हृदयअसशङ्करपरमउछाहु ॥ निजनयनदेखाचहहिंना
थतुम्हारविवाहु ॥ ९० ॥ चौपाई ॥ यहउतसबदेखियभरि
लोचन ॥ सोककछुकरियमदनमदमोचन ॥ कामजारिरति
कहँवरदीन्हा ॥ कृपासिंधुयहअतिभलकीन्हा ॥ शासति
करिपुनिकरहिंपसाउ ॥ नाथप्रभुनकरसहजसुभाऊ ॥
पारवतीतपकीन्हअपारा ॥ करहुतासुअबअङ्गीकारा ॥ सु
निविधिविनयसमुझिप्रभुबाणी ॥ ऐसेइहोउकहासुखमा

नी॥ तबदेवनदुन्दुभीवजाई॥ वरषिसुमनजयजयसुरसांई॥ अ
वसरजानिसप्तऋषिआये॥ तुरुतहिंविधिगिरिभवनपठाये
प्रथमगयेजंहरहीभवानी॥ बोलेवचनमधुरछलसानी॥ दो
हा॥ कहाहमारनसुनेहुतवनारदकरउपदेश॥ अवभाझूठ
तुम्हारपणजारेउकाममहेश॥ ८१॥ चौपाई॥ सुनिबोलीमु
सुकाइभवानी॥ उचितकहेहुमुनिवरवीज्ञानी॥ तुम्हरेजान
कामहरजारा॥ अवलगिशंभुरहेसविकारा॥ हमरेजानस
दाशिवयोगी॥ अजअनवद्यअकामअभोगी॥ जोमैंशिवसे
येउअसजानी॥ प्रीतिसमेतकर्ममनवानी॥ तौहमारपण
सुनहुमुनीशा॥ करिहहिंसत्यकृपानिधिईशा॥ इहांदुई।
चौपाईक्षेपक॥ तुमजोकहाहरजारेउमारा॥ सोअतिवडअ
विवेकतुम्हारा॥ तातअनलकरसहजसुभाऊ॥ हिमतेहि
निकटजाइनहिंकाऊ॥ गयेंसमीपसोअवशिनशाई॥ जि
मिसंपातिनिजपदगवांई॥ दोहा॥ हियहरषेमुनिवचन।
सुनिदेखिप्रतीतिविश्वास॥ चलेभवानिहिंनाइशिरगयेहि
माचलपाश॥ ८२॥ चौपाई॥ सवप्रसङ्गगिरिपतिहिंसुनावा
मदनदहनसुनिअतिदुखपावा॥ वहुरिकहेउरतिकरवर
दाना॥ सुनिहिमवन्तवहुतसुखमाना॥ हृदयविचारिशंभु

प्रभु नाई॥ सादर मुनिवर लियेउ बुलाई॥ सुदिन सुनखत सु
घरी सुहाई॥ बेगि वेद विधि लगन धराई॥ पत्रि सप्त ऋ
षिन सोइ दीन्ही॥ गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही॥
जाइ विधिहिं तिन दीन्ह सो पाती॥ वाचत प्रीति न हृदय
समाती॥ लगन वांचि अज सबहि सुनाइ॥ हरषे मुनि स
ब सुर समुदाइ॥ सुमन वृष्टि नभ वाजन वाजे॥ मङ्गल क
लश दशहुं दिशि साजे॥ दोहा॥ लगे संवारन सकल सुर वा
हन विविध विमान॥ होहिं सगुन मङ्गल सुभग करहिं
अपसरा गान॥ ९२॥ चौपाई॥ शिवहिं शंभु गण करहिं शि
ङ्गारा॥ जटा मुकुट अहि मौर संवारा॥ कुण्डल कङ्कण प
हिरे व्याला॥ तनु विभूति पट केहरि छाला॥ शशि लला
ट सुन्दर शिर गङ्गा॥ नयन तीनि उपबीत भुजङ्गा॥ गरल
कण्ठ उर नर शिर माला॥ अशिव वेष शिवधाम कृपाला॥
कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा॥ चले वृषभ चढि वाज
हिं वाजा॥ देखि शिवहिं सुरतिय मुसुकाहीं॥ वर लाय
क दुलहिनि जग नाहीं॥ विष्णु विरञ्चि आदि सुरव्राता॥ च
ढि चढि वाहन चले वराता॥ सुर समाज सब भांति अनू
प॥ नहिं वरात दूलह अनुरूप॥ दोहा॥ विष्णु कहा अ

रामा०
बा०
३३

33

सविहँसिमिवबबोलिसकलदिशिराज॥ बिलगबिलग
होइचलहुसबनिजनिजसहितसमाज॥ ९४॥ चौपाई॥
बरअनुहारबरातनभाई॥ हँसीकरैहहुपरपुरजाई॥ बिस्नु
बचनसुनिसुरमुसकाने॥ निजनिजसेनसहितबिलगा
ने॥ मनहीमनमहेशमुसुकाही॥ हरिकेव्यङ्गवचननहिं
जाही॥ अतिप्रियवचनसुनतहरिकेरे॥ भृंगीप्रेरिसक
लगणटेरे॥ शिवअनुशासनसुनिसबआये॥ प्रभुपद
जलजशीसतिननाये॥ नानावाहननानावेषा॥ विहंसे
शिवसमाजनिजदेषा॥ कोउमुखहीनविपुलमुखकाहू॥
बिनुपदकरकोउबहुपदबाहू॥ विपुलनयनकोउनयन
विहीना॥ रष्टपुष्टकोउअतितनखीणा॥ छन्दः॥ तनुखी
णकोउअतिपीनपावनकोउअपावनतनुधरैं॥ भूषण
करालकपालकरसबसद्यशोणिततनुभरैं॥ १॥ खरस्वा
नसुअरसृगालमुखगणवेषअगणितकोगनै॥ बहुजि
नसप्रेतपिशाचयोगिनिभांतिवरनतनहिबनै॥ २॥ सोर
ठा॥ नाचहिंगावहिंगीतपरमतरङ्गीभूतसब॥ देखतअ
तिविपरीतबोलहिंवचनविचित्रविधि॥ ९५॥ चौपाई॥ ज
सदूलहतसबनीबराता॥ कौतुकविविधहोहिंमगजाता॥

इहाँहिमाचलरचेउबिताना॥अतिविचित्रनहिंजायब
खाना॥शैलसकलजहँलगिजगमांही॥लघुविशाल
नहिंबरणिसिराही॥बनसागरसबनदीतलावा॥हि
मगिरिसबकहँनेवतपठावा॥कामरूपसुन्दरतनुधा
री॥सहितसमाजसहितबरनारी॥आयेसकलहिमा
चलगेहा॥गावहिंमङ्गलसहितसनेहा॥प्रथमहिंगि
रिबहुगृहसंवराये॥यथायोगजहँतहँसबछाये॥पुर
शोभाअवलोकिसुहाई॥लागेलघुविरञ्चिनिपुणाई॥
छन्दः॥लघुलागविधिकीनिपुणताअवलोकिपुरशो
भासही॥बनबागकूपतडागसरितासुभगताशकको
कही॥१॥मङ्गलविपुलतोरणपताकाकेतुगृहगृह।
सोहहीं॥वनितापुरुषसुन्दरचतुरछविदेखिमुनिम
नमोहहीं॥२॥दोहा॥जगदम्बाजहँअवतरीसोपुरव
रणिनजाइ॥ऋद्धिसिद्धिसम्पतिसकलनितनूतनअ
धिकाइ॥९६॥चौपाई॥नगरनिकटबरातसुनिआई॥
पुरखरभरशोभाधिकाई॥करिबनावसजिवाहननाना
चलेलेनसादरअगवाना॥हियहरषेसुरसेननिहारी
हरिहिंदेखिअतिभयेसुखारी॥शिवसमाजजबदेखन

रामा॰
बा॰
३४

34

लागे॥ बिउरिचलेबाहनसबभागे॥ धरिधीरजतहांरहे
सयाने॥ बालकसबलैजीवपराने॥ गयेभवनपूछहिंपि
तुमाता॥ कहहिंवचनभयकम्पितगाता॥ कहियकहा
कहिजाइनबाता॥ यमकरधारकिधोंबरियाता॥ बरबौ
राहबरदअसवारा॥ व्यालकपालविभूषणछारा॥ छं
न्द॥ तनछारव्यालकपालभूषणनगनजटिलभयंक
रा॥ संगभूतप्रेतपिशाचजोगिनिविकटमुखरजनीचरा
जोजियतरहिहिंबरातदेखतपुण्यबड़तिहिंकरसही
देखिहिंसोउमाबिवाहुघरघरबातअसिलरिकनकही ॥१५॥
दोहा॥ समुझिमहेशसमाजसबजननिजनकमुसकां ॥१६॥
हिं॥ बालबुझायेबिविधबिधिनिडरहोहुडरनाहिं॥ ९२
चौपाई॥ लैअगवांनबरातहिंआए॥ दियसबहिंजनवा
ससुहाए॥ मैनाशुभआरतीसंवारी॥ संगसुमंगलगा
वहिंनारी॥ कंचनथारसोहबरपांनी॥ परिछणचली।
हरहिंहरषांनी॥ विकटवेषरुद्रहिंजबदेखा॥ अबल
निउरभयभयउविशेषा॥ भागिभवनपैठीअतित्रासा॥ ग
येउमहेशजहांजनवासा॥ मैनाहृदयभयउदुखभारी
लीन्हीबोलिगिरिशकुमारी॥ अधिकसनेहगोदबैठारी

षणामसरोजनयनभरिबारी॥जिहिविधितुमहिंरूपअस
दीन्हा॥तिहिंजडबरबाउरकसकीन्हा॥छन्दः॥कसकीन्ह
बरुबौराहविधिजिहिंतुमहिंसुन्दरतादई॥जोफलुचहि
सुरतरूहिंसोवरवसवबूरहिंलागई॥१॥तुमसहितगिरि
तेगिरौंपावकजरौंजलनिधिमहंपरौं॥घरजाउअपजशहो
उजगजीवतविवाहनहौंकरौं॥२॥दोहा॥भईविकलअबला
सकलदुखितदेखिगिरिनारि॥करिविलापुरोदतिवदति
सुतासनेहसंभारि॥९८॥चौपाई॥नारदकरमैंकहाविगारा
भवनमोरजिनवसतउजारा॥असउपदेशउमहिजिनदीन्हा
बौरेवरहिंलागितपुकीन्हा॥साचेहुउनकेमोहनमाया॥उदा
सीनधनधांमनजाया॥परघरघालकलाजनभीरा॥बांझ
किजानप्रसवकीपीरा॥जननिहिंविकलविलोकिभवानी
बोलीजुतविवेकमृदुबानी॥असविचारिशोचहुमतिमाता
सोनटरैजोरचैविधाता॥करमलिखाजौबाउरनाहू॥तौ
कतदोषलगाइयकाहू॥तुमसनमिटहिंकिविधिकेअंका
मातुव्यर्थजिलेहुकलंका॥छन्दः॥जनिलेहुमातुकलंक
करूणापरिहरहुअवसरनहीं॥दुखसुखजोलिखोलला
टहमरैजावजहंपाउवतहीं॥१॥सुनिउमावचनविनीतको
मलसकलअबलाशोचहीं॥बहुभांतिविधिहिंलगाइदूषण

रामा.
बा.
३५
35

नयन वारि विमोचहीं ॥२०॥ दोहा ॥ तिहि अवसर नारद सहि
त अरु रिषि सप्त समेत ॥ समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने
तुरत निकेत ॥२१॥ चौपाई ॥ तब नारद सबहीं समुझावा ॥ पू
रब कथा प्रसंग सुनावा ॥ मयना सत्य सुनहु मम बाणी ॥ ज
गदंबा तव सुता भवानी ॥ अजा अनादि शक्ति अविनाशनि ।
सदा शंभु अर्धांग निवासनि ॥ जग संभव पालन लय कारि
णि ॥ निज इच्छा लीला वपु धारिणि ॥ जन्मी प्रथम दक्ष गृह ।
जाई ॥ नाम सती सुन्दर तनु पाई ॥ तहहुं सती शंकरहिं विवाहीं
कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ एक वार आवत शिव संगा ॥
देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥ भयउ मोह शिव कहा न की ।
न्हा ॥ भ्रम वश वेष सीय कर लीन्हा ॥ छन्दः ॥ सिय वेष सती जो की
न्ह तिहिं अपराध शंकर परिहरी ॥ हर विरह जाइ बहोरि पि
तु के यज्ञ जोगानल जरी ॥२१॥ अब जनमि तुम्हरे भवन निज
पति लागि दारुण तप किया ॥ अस जानि संशय तजहु गि
रिजा सर्वदा शंकर प्रिया ॥२२॥ दोहा ॥ सुनि नारद के वचन
तब सब कर मिटा विषाद ॥ छन महं व्यापेउ सकल पुर घर घर
यह संवाद ॥१२०॥ चौपाई ॥ तब मेयना हिमवंत अनंदे ॥ पुनि
पुनि पार्वती पद वंदे ॥ नारी पुरुष शिशु जुवा सयानें ॥ नगर
लोक सब अति हरषाने ॥ लगे होंन पुर मंगल गाना ॥ सजे स

मधुर
२

बहिंहाटकघटनाना॥ भांतिअनेकभईजिवनारा॥ सूपशा
स्त्रजसककुव्यवहारा॥ सोजिवनारकिजाईवखानी॥ वसहिं
भवनजिहिंमातभवानी॥ सादरवोलेसकलवराती॥ विस्नुवि
रंचिदेवसबजाती॥ विविधपांतिबैठीजिवनारा॥ लगेपरोस
ननिपुणसुआरा॥ नारिबृन्दसुरजेंवतजांनी॥ लागीदेनगा
रीमृदुबानी॥ छन्दः॥ गारीमधुरसुरदेंहिसुन्दरिव्यङ्गबचन
सुनावहीं॥ भोजनकरहिंसुरअतिविलम्बविनोदसुनिसु
खपावहीं॥ २२॥ जेंवतजोवढ्योअनन्दसोमुखकोटिहूंनप
रेकह्यौ॥ अचवाइदीन्हेपानगवनेवासजहंजाकोरह्यौ॥ २४
दोहा॥ बहुरिमुनिनहिमवन्तकहंलगनसुनाईआइ॥ सम
यविलोकिविवाहकरपठयेदेवबुलाइ॥ ९९॥ चौपाई॥ बो
लिसकलसुरसादरलीन्हे॥ सबहिंयथोचितआसनदीन्हे
वेदीबेदविधानसंवारी॥ सुभगसुमंगलगावहिंनारी॥ सिं
घासनअतिदिव्यसुहावा॥ जाईनबरणिविरञ्चिबनावा॥ १
वैठेशिवविप्रन्हिशिरनाई॥ हृदयसुमिरिनिजप्रभुरघुराई
बहुरिमुनीशनउमाबुलाई॥ करिशृङ्गारसखीलैंआई॥ दे
खतरूपसकलसुरमोहे॥ बरनैछविअसजगकविकोहै॥
जगदम्बिकाजानिभवभामा॥ सुरनमनहिंमनकीन्हप्रणा
मा॥ सुंदरतामर्य्यादभवानी॥ जाईनकोटिहुवदनवखानी॥ १

छन्द॥ कोटिहुं बदन नहिं बनै बरणत जग जननी शोभा म
हा॥ सकुचहिं कहत श्रुति शेष शारद मन्दमति तुलसी कहा
२५॥ छबि खानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहां॥ अ
वलोकि शकहिं न सकुचि पति पद कमल मन मधुकर तहां
२६॥ दोहा॥ मुनि अनुशासन गणपतिहिं पूजेउ शंभु भवानि
कोउ सुनि संशय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥ १२२॥
चौपाई॥ जस विवाह की विधि श्रुति गाई॥ महामुनिन सो
सब करवाई॥ गहि गिरीश कुश कन्या पाणी॥ शिवहिं स
मर्पी जानि भवानी॥ पाणिग्रहण जब कीन्ह महेशा॥ हियह
र्षे तब सकल सुरेशा॥ वेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं॥ जय जय ज
य शंकर सुर करहीं॥ बाजहिं बाजन विविध विधाना॥ सुमन
वृष्टि नभ भै विधि नाना॥ हर गिरिजा कर भयउ विवाहू॥ स
कल भुवन भरि रहा उछाहू॥ दासी दास तुरग रथ नागा॥ धे
नु वसन मणि वस्तु विभागा॥ अन्न कनक भाजन भरि याना
दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ छन्द॥ दाइज दियो बहु भांति पु
नि कर जोरि हिमभूधर कह्यो॥ का देउं पूरण काम शंकर च
रण पंकज गहि रह्यो॥ २७॥ शिव कृपा सागर ससुर कर सन्तो
ष सब भांतिहिं कियो॥ पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परि
पूरण हियो॥ २८॥ दोहा॥ नाथ उमा मम प्राण सम गृहकिंकरी

करेहु॥ छमहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देहु॥१२३॥

चौपाई॥ बहु विधि शंभु सासु समुझाई॥ गवनी भवन चरण शिर नाई॥ जननी उमा बोलि तब लीन्ही॥ लेउछंग सुन्दर शिख दीन्ही॥ करेहु सदा शंकर पद पूजा॥ नारि धर्म पति देव न दूजा॥ वचन कहत भरि लोचन बारी॥ बहुरि लाइ उर लीन्ह कुमारी॥ कत विधि सिरजि नारि जग माहीं॥ पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं॥ भइ अति प्रेम बिकल महतारी॥ धीरज कीन्ह कुसमय विचारी॥ पुनि पुनि मिलति परति गहि चरणा॥ परम प्रेम कछु जाइ न वरणा॥ सब नारिन मिलि भेंटि भवानी॥ जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥ छन्दः॥ जननिहिं बहुरि मिलि चली उचित आशीस सब काहू दई॥ फिरि फिरि विलोकति मातु तन तब सखी लै शिव पहं गई॥२९॥ याचक सकल सन्तोषि शंकर उमा सहित भवनहिं चले॥ सब अमर हर्षे सुमन वर्षे निशान नभ बाजहिं भले॥३०॥ दोहा॥ चले संग हिमवन्त तब पहुंचावन अति हेतु॥ विविध भांति परितोष करि विदा कीन्ह वृषकेतु॥१२४॥ चौपाई॥ तुरत भवन आए गिरिराई॥ सकल शैल सर लिए बुलाई॥ आदर दान विनय बहुमाना॥ सब कर विदा कीन्ह हिमवाना॥ जबहिं शंभु कैलासहिं आये॥ सुर सब निज निज लोक सिधाये॥ जगत मातु पितु शंभु भवानी॥ तेहि सृंगार न कहौं बखानी॥ करहिं विविध विधि भोग विलासा॥ ग

यह उमा शंभु विवाह जे नर नारि कहहिं जे गावहीं॥ कल्याण काज विवाह मङ्गल सर्वदा सुख पावहीं॥ १२ तुटी ६

रामा० बा० ४०

37

गनसमेतबसहिंकैलासा॥ हरगिरिजाविहारनितनयेऊ॥ इ
हिविधिविपुलकालचलिगलेऊ॥ तबजन्मेषट्वदनकुमारा
तारकअसुरसमरजिहिंमारा॥ आगमनिगमप्रसिद्धपुराणा॥
षट्मुखजन्मकर्मजगजाना॥ छन्दः॥ जगजानषट्मुखजन्म
कर्मप्रतापपुरुषारथमहा॥ तेहिंहेतमैवृषकेतसुतकरचरि
तसंक्षेपहिंकहा॥ २॥ दोहा॥ चरितसिंधुगिरिजारमणवेदन
पावहिंपार॥ वरणौं तुलशीदासकिमिअतिमतिमन्दगवार॥१
२५॥ चौपाई॥ शंभुचरितसुनिसरससुहावा॥ भरद्वाजमुनि।
अतिसुखपावा॥ वहुलालसाकथापरबाढी॥ नयननीररोमा
वलिठाढी॥ प्रेमविवशमुखआवनवानी॥ दशादेखिहरषेमु
निज्ञानी॥ अहोधन्यतवजन्ममुनीशा॥ तुमहिंप्राणसमप्रिय
गौरीशा॥ शिवपदकमलजिनहिंरतिनाहीं॥ रामहिंतेसपने
हुंनसुहाहीं॥ विनछलविश्वनाथपदनेहू॥ रामभक्तिकरलच्छ
णएहू॥ शिवसमकोरघुपतिव्रतधारी॥ विनुअघतजीसतीअ
सनारी॥ पणकरिरघुपतिभक्तिदृढाई॥ कोशिवसमरामहिं
प्रियभाई॥ दोहा॥ प्रथमकहामैशिवचरितवूझामरमतुम्हार
शुचिसेवकतुमरामकेरहितसमस्तविकार॥१२६॥ चौपाई॥
मैजानातुम्हारगुणशीला॥ कहौंसुनहुअबरघुपतिलीला॥।
सुनुमुनिआजुसमागमतोरै॥ कहिनजायजससुखमनमोरे॥

रामचरितअतिअमितमुनीशा॥ कहिनशकहिंशतकोटिअ
हीशा॥ तदपियथाश्रुतकहौंवखानी॥ सुमिरिगिरापतिप्रभु
धनुपानी॥ शारददारुनारिसमस्वामी॥ रामसूत्रधरअन्तरजा
मी॥ जेहिंपरकृपाकरहिंजनजानी॥ कविउरअजिरनचावहिं
बानी॥ प्रणवौंसोइकृपालरघुनाथा॥ वरणौंविशदतासुगुण
गाथा॥ परमरम्यगिरिवरकैलासू॥ सदाजहांशिवउमानिवासू॥
दोहा॥ सिद्धतपोधनयोगिजनसुरकिन्नरमुनिवृन्द॥ वसहिंत
हांसुकृतीसकलसेवहिंशिवसुखकन्द॥१२७॥ चौपाई॥ हरि
हरविमुखधर्मरतिनाहीं॥ तेनरतहांसपनेहुंनजाहीं॥ तेहि
गिरिपरवटविटपविशाला॥ नितनूतनसुन्दरसवकाला॥ त्रि
विधसमीरसुशीतलछाया॥ शिवविश्रामविटपश्रुतिगाया॥
एकवारतेहितरप्रभुगयेऊ॥ तरुविलोकिउरअतिसुखभयेऊ॥
निजकरडासिनागरिपुछाला॥ वैठेसहजहिंशंभुकृपाला॥ कु
न्दइन्दुदरगौरशरीरा॥ भुजप्रलम्बपरिधनमुनिचीरा॥ तरुण
अरुणअम्बुजसमचरणा॥ नखद्युतिभक्तहृदयतमहरणा॥
भुजगभूतिभूषणत्रिपुरारी॥ आननशारदचन्द्रछविहारी॥ दोहा
जटामुकुटसुरसरितशिरलोचननलिनविशाल॥ नीलकण्ठ
लावण्यनिधिसोहवालविधुभाल॥१२८॥ चौपाई॥ वैठेसोहकाम
रिपुकैसें॥ धरेंशरीरशान्तरसजैसें॥ पारवतीभलअवसरजानी॥

गइशंभुपहंमातुभवानी॥जानिप्रियाआदरअतिकीन्हा॥बाम
भागआसनहरदीन्हा॥बैठीशिवसमीपहरषाई॥पूरबजन्मकथा
चितआई॥पतिहियहेतुअधिकअनुमानी॥बिहसिउमाबोली
प्रियबानी॥कथाजोसकललोकहितकारी॥सोइपूछनचहशै
लकुमारी॥बिस्वनाथममनाथपुरारी॥त्रिभुवनमहिमाबिदि
ततुम्हारी॥चरअरुअचरनागनरदेवा॥सकलकरहिपदपंक
जसेवा॥दोहा॥प्रभुसमर्थसर्वज्ञशिवसकलकलागुणधाम॥
योगज्ञानवैराग्यनिधिप्रणतकल्पतरुनाम॥११९॥चौपाई॥
जौमोपरप्रसन्नसुखराशी॥जानियसत्यमोहिनिजदासी॥तौ
प्रभुहरहुमोरअज्ञाना॥कहिरघुनाथकथाबिधिनाना॥जासु
भवनसुरतरुतरहोई॥सहिकिदरिद्रजनितदुखसोई॥शशि
भूषणअसहृदयविचारी॥हरहुनाथममतिभ्रमभारी॥प्रभु
जेमुनिपरमारथबादी॥कहहिंरामकहंब्रह्मअनादी॥शेषशा
रदावेदपुराणा॥सकलकरहिंरघुपतिगुणगाना॥तुमपुनि
रामरामदिनराती॥सादरजपहुअनंगआराती॥रामसोअवध
नृपतिसुतसोई॥कीअजअगुणअलखगतिकोई॥दोहा॥जौ
नृपतनयतोब्रह्मकिमिनारिबिरहमतिभोरि॥देखिचरितमहि
मासुनतभ्रमतिबुद्धिअतिमोरि॥१२०॥चौपाई॥जौअनीहव्याप
कविभुकोऊ॥कहहुबुझाइनाथमोहिसोऊ॥अज्ञजानिरिसज

निउरधरहू॥ जेहिबिधिमोहमिटैसोइकरहू॥ मैबनदीख
रामप्रभुताई॥ अतिभयविकलनतुमहिंसुनाई॥ तदपिम
लिनमनबोधनआवा॥ सोफलभलीभांतिमैपावा॥ अजहूं
कछुसंशयमनमोरै॥ करहुकृपाविनऊंकरजोरै॥ प्रभु
तबमोहिबहुभांतिप्रबोधा॥ नाथसोसमुझिकरहुजनिक्रो
धा॥ तबकरअसविमोहअबनाही॥ रामकथापररुचिमन
माही॥ कहहुपुनीतरामगुणगाथा॥ भुजगराजभूषणसु
रनाथ॥ दोहा॥ बन्दौंपदधरिधरणिशिरविनयकरौंकरजो
रि॥ वर्णहुरघुवरविशदयशश्रुतिसिद्धान्तनिचोरि॥ ११०॥
चौपाई॥ यदपियोषिताअनअधिकारी॥ दासीमनक्रमवच
नतुम्हारी॥ गूढौतत्वनसाधुदुरावहिं॥ आरतअधिकारीज
हंपावहिं॥ अतिआरतिपूछौंसुरराया॥ रघुपतिकथाकहहु
करिदाया॥ प्रथमसोकारणकहहुविचारी॥ निर्गुणब्रह्म
सगुणवपुधारी॥ पुनिप्रभुकहहुरामअवतारा॥ बालचरि
तपुनिकहहुउदारा॥ कहहुयथाजानकीविवाही॥ राजत
जासोदूषणकाही॥ वनवसिकीन्हेउचरितअपारा॥ कहहु
नाथजिमिरावणमारा॥ राजबैठिकीन्हीबहुलीला॥ सक
लकहहुशंकरसुखशीला॥ दोहा॥ बहुरिकहहुकरुणाय

रामा०
बा०
३९

39

तनकीन्हजोअचरजराम॥ प्रजासहितरघुवंशमणिकिमि
गावनेनिजधाम॥१२२॥ चौपाई॥ पुनिप्रभुकहहुसोतत्वबखा
नी॥ जेहिविज्ञानमगनमुनिज्ञानी॥ भक्तिज्ञानविज्ञानविरागा
पुनिसबबरणहुसहितविभागा॥ औरौरामरहस्यअनेका॥
कहहुनाथअमितिविमलविवेका॥ जोप्रभुमैंपूछानहिंहोई॥
सोउदयालुराखहुजनिगोई॥ तुमत्रिभुवनगुरुवेदबखाना॥
आनजीवपामरकाजाना॥ प्रश्नउमाकीसहजसुहाई॥ छल
विहीनसुनिशिवमनभाई॥ हरहियरामचरितसबआये॥ प्रे
मपुलकलोचनजलछाये॥ श्रीरघुनाथरूपउरआवा॥ पर
मानन्दअमितसुखपावा॥ दोहा॥ मगनध्यानरसदण्डयुग
पुनिमनबाहिरकीन्ह॥ रघुपतिचरितमहेशतनहर्षितवर
णैलीन्ह॥१२३॥ चौपाई॥ झूंठोसत्यजाहिबिनुजानें॥ जिमिभु
जङ्गबिनुरजुपहिचानें॥ जेहिजानेंजगजाइहिराई॥ जागेंय
थासपनभ्रमजाई॥ बन्दौंबालरूपसोइरामू॥ सबसिधिसु
लभजपतजसुनामू॥ मङ्गलभवनअमङ्गलहारी॥ द्रवौसो
दशरथअजिरबिहारी॥ करिप्रणामरामहिंत्रिपुरारी॥ ह
रषिसुधासमगिराउचारी॥ धन्यधन्यगिरिराजकुमारी॥ तु
मसमाननहिंकोउउपकारी॥ पूछेहुरघुपतिकथाप्रसङ्गा॥

सकललोकजगपावनिगङ्गा॥ तुमरघुबीरचरणअनुरागी
कीन्हेहुप्रश्नजगतहितलागी॥ दोहा॥ रामकृपातेंपारवती
सपनेहुतवमनमाहिं॥ शोकमोहसन्देहभ्रममविचारक
छुनाहिं॥ १२४॥ चौपाई॥ तदपिअशङ्काकीन्हिउसोई॥ कहत
सुनतसबकरहितहोई॥ जिन्हहरिकथासुनीनहिंकाना॥ १
श्रवणरंध्रअहिभवनसमाना॥ नयननसंतदरशनहिंदेषा॥ लो
चननमोरपंखकरलेषा॥ तेसिरकटुतुम्बीरसमतूला॥ जेन
नमतहरिगुरुपदमूला॥ जिन्हहरिभक्तिहृदयनहिंआनी
जीवतसवसमानतेइप्राणी॥ जोनहिंकरैरामगुणगाना॥ २
जीहसोदादुरजीहसमाना॥ कुलिशकठोरनिठुरसोइछाती
सुनिहरिचरितनजोहरषाती॥ गिरिजासुनहुरामकीली
ला॥ सुरहितदनुजविमोहनशीला॥ दोहा॥ रामकथासुर
धेनुसमसेवतसवसुखदानि सन्तसमाजसुरलोकसम
कौनसुनैअसजानि॥ १२५॥ चौपाई॥ रामकथासुन्दरकरता
री॥ संशयविहगउडावनिहारी॥ रामकथाकलिविटपकुठा
री॥ सादरसुनुगिरिराजकुमारी॥ रामनामगुणचरितसु
हाए॥ जनमकरमअगणितश्रुतिगाए॥ जथाअनन्तराम
भगवाना॥ तथाकथाकीरतिगुणगाना॥ तदपिजथाश्रुति

रामा० बा० ५०

40

जसमतिमोरी॥ कहिहौंदेखिप्रीतिअतितोरी॥ उमाप्रश्न
तवसहजसुहाई॥ सुखदसन्तसंमतमुहिभाई॥ एकबात
नहिमोहिसोहानी॥ यदपिमोहवशकहेउभवानी॥ तुम
जोकहारामकोउआना॥ जेहिश्रुतिगावधरहिंमुनिध्याना॥
दोहा॥ कहहिंसुनहिंअसअधमनरग्रसेजेमोहपिशाच॥
पाषंडीहरिपदविमुखजाननहिंझूठनसांच॥ १२६॥ चौपाई॥
अज्ञअकोविदअन्धअभागी॥ काईविषयमुकुरमनलागी
लंपटकपटीकुटिलविशेषी॥ सपनेहुंसन्तसभानहिदेषी॥
कहहिंतेवेदअसंमतबाणी॥ जिन्हहिंनसूझलाभनहिंहानी
मुकुरमलिनअरुनयनविहीना॥ रामरूपदेखहिंकिमिदी
ना॥ जिनकेंअगुणनसगुणविवेका॥ जल्पहिंकल्पितवच
नअनेका॥ हरिमायावशजगतभ्रमाहीं॥ तिनहिंकहतक
छुअघटितनाहीं॥ बातुलभूतविवशमतवारे॥ तेनहिंबोल
हिंवचनसंभारे॥ जिनकृतमहामोहमदपाना॥ तिनकरक
हाकरियनहिंकाना॥ सोरठा॥ असनिजहृदयविचारितजसं
शयभजुरामपद॥ सुनुगिरिराजकुमारिभ्रमतमरविकरव
चनमम॥ १२७॥ चौपाई॥ सगुणहिंअगुणहिंनहिंकछुभेदा
गावहिंमुनिपुराणबुधवेदा॥ अगुणअरूपअलखअजजोई

भक्तप्रेमवशसगुणसोहोई॥जोगुणरहितसगुणसोकैसें॥।
जलहिमउपलविलगनहिंजैसें॥जासुनामभ्रमतिमिरपतङ्गा।
तिहिंकिमिकहियविमोहप्रसङ्गा॥रामसच्चिदानन्ददिनेश।
नहिंतहंमोहनिशालवलेशा॥सहजप्रकाशरूपभगवाना॥
नहिंतहंपुनिविज्ञानविहाना॥हरषविषादज्ञानअज्ञाना॥जी
वधर्मअहमितिअभिमाना॥रामब्रह्मव्यापकजगजाना॥प
रमानन्दपरेशपुराणा॥दोहा॥पुरुषप्रसिद्धप्रकाशनिधिप्र
गटपरावरनाथ॥रघुकुलमणिममस्वामिसोइकहिंशिव
नायउमाथ॥१२८॥चौपाई॥निजभ्रमनहिंसमुझहिंअज्ञानी
प्रभुपरमोहधरहिंजडप्राणी॥जथागगनघनपटलनिहारी
झंपेउभानुकहहिंकुविचारी॥चितवतलोचनअंगुलिलायें
प्रगटयुगलशशितेहिकेभायें॥उमारामविषयकअसमोहा
नभतमधूमधूरिजिमिसोहा॥विषयकरणसुरजीवसमेता॥।
सकलएकतेंएकसचेता॥सबकरपरमप्रकाशकजोई॥राम
अनादिअवधपतिसोई॥जगतप्रकाश्यप्रकाशकरामू॥माया
धीशज्ञानगुणधामू॥जासुसत्यतातेंजडमाया॥भाससत्यइव
मोहसहाया॥दोहा॥रजतसीपमहंभासजिमिजथाभानुकर
वारि॥यदपिमृषातिहुंकालसोइभ्रमनशकैकोउटारि॥१२९॥।

रामा० बा० ५८

५१

चौपाई॥ येहि विधि जग हरि आश्रित रहई॥ यदपि असत्य देत दुख अहई॥ ज्यों सपने शिर काटै कोई॥ विनु जागें दुख दूरि न होई॥ जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई॥ गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई॥ आदि अन्त कोउ जासु न पावा॥ मति अनुमान निगम अस गावा॥ विनु पद चलैं सुनै विनु काना॥ कर विनु कर्म करै विधि नाना॥ आनन रहित सकल रस भोगी॥ विनु वाणी वक्ता वड योगी॥ तनु विनु परस नयन विनु देषा॥ ग्रहै घ्राण विनु वास अशेषा॥ अस सब भांति अलौकिक करणी॥ महिमा जासु जाइ नहि वरणी॥ दोहा॥ जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान॥ सोइ दशरथ सुत भक्त हित कोशलपति भगवान॥ ११०॥

चौपाई॥ काशी मरत जन्तु अवलोकी॥ जासु नाम बल करौं विशोकी॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी॥ रघुवर सब उर अन्तरजामी॥ विवशहुं जासु नाम नर कहहीं॥ जन्म अनेक रचित अघ दहहीं॥ सादर सुमिरण जे नर करहीं॥ भव वारिधि गोपद इव तरहीं॥ राम सो परमात्मा भवानी॥ तहं भ्रम अति अविहित तव वानी॥ अस संशय आनत उर माहीं॥ ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं॥ सुनि शिव के भ्रम भञ्जन वचना॥ मिटि गइ सब कुतर्क की रचना॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती॥ दारुण असम्भावना॥

बीती॥ दोहा॥ पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पा
णि॥ बोली गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥ १४१॥ चौपाई॥
शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी॥ मिटा मोह शरदातप भारी॥
तुम कृपालु सब संशय हरेऊ॥ राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥ ना
थ कृपा अब गयेउ बिषादा॥ सुखी भइउँ प्रभु चरण प्रसादा॥ अब
मोहि आपनि किंकरि जानी॥ यदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ प्र
थम जो मैं पूछा सोइ कहहू॥ जौ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ राम
ब्रह्म चिन्मय अविनाशी॥ सर्व रहित सब उर पुर वासी॥ नाथ ध
रेउ नर तनु केहि हेतू॥ मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥ उमा ब
चन सुनि परम विनीता॥ राम कथा पर प्रीति पुनीता॥ दोहा॥
हिय हरषे कामारि तब शंकर सहज सुजान॥ बहु विधि उमहिं
प्रशंसि पुनि बोले कृपानिधान॥ १४२॥ सोरठा॥ सुनु शुभ कथा
भवानी रामचरितमानस विमल॥ कहा भुशुण्डि बखानि सुना
विहगनायक गरुड़॥ १४३॥ सो संवाद उदार जिहिं विधि भा आ
गें कहब॥ सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर अनघ॥ १४४॥
हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित॥ मैं निज मति
अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु॥ १४५॥ चौपाई॥ सुनु गिरिजा
हरि चरित सुहाये॥ विपुल विशद निगमागम गाये॥ हरि अ

रामा० बा० ५२

42

वतारहेतुजेहिहोइ॥ इदमित्थंकहिजाइनसोइ॥ रामअतर्क्य
बुद्धिमनबाणी॥ मतिहमारअससुनहुभवानी॥ तदपिसंतमु
निवेदपुराणा॥ जसकछुकहहिंस्वमतिअनुमाना॥ तसमैंसु
मुखिसुनावउँतोही॥ समुझिपरैजसकारणमोही॥ जबजब
होइधर्मकीहानी॥ बाढहिंअसुरअधमअभिमानी॥ करहिंअ
नीतिजाइनहिंवरणी॥ सीदहिविप्रधेनुसुरधरणी॥ तबतब
प्रभुधरिविविधशरीरा॥ हरहिंकृपानिधिसज्जनपीरा॥ दोहा
असुरमारिथापहिसुरन्हराखहिंनिजश्रुतिसेतु॥ जगवि
स्तारहिंविशदयशरामजन्मकरहेतु॥ १२१॥ चौपाई॥ सोइय
शगाइभक्तभवतरहीं॥ कृपासिंधुजनहिततनुधरहीं॥ राम
जन्मकेहेतुअनेका॥ परमविचित्रएकतेंएका॥ जन्मएकदुइ
कहौंवखानी॥ सावधानसुनुसुमतिभवानी॥ द्वारपालहरि
केप्रियदोऊ॥ जयअरुविजयजानसबकोऊ॥ विप्रशापतेंदो
नौंभाई॥ तामसअसुरदेहतिनपाई॥ कनककशिपुअरुहाट
कलोचन॥ जगतविदितसुरपतिमदमोचन॥ विजयीसमर
वीरविख्याता॥ धरिवराहवपुएकनिपाता॥ होइनरहरिदू
निहसरमारा॥ जनप्रहलादसुयशविस्तारा॥ दोहा॥ भएनि
शाचरजाइतेमहावीरबलवान॥ कुम्भकर्णरावणसुभट

सुरबिरंचीजगजाना॥१४७॥चौपाई॥मुक्तनभयेउहतेभगवा
ना॥तीनिजन्मद्विजबचनप्रमाणा॥एकबारतिनकेहितला
गी॥धरेउशरीरभक्तअनुरागी॥कश्यपअदितितहांपितुमा
ता॥दशरथकौशल्याविख्याता॥एककल्पएहिविधिअ
वतारा॥चरितपवित्रकियेसंसारा॥एककल्पसुरदेखिदुखा
रे॥समरजलन्धरसनसबहारे॥शंभुकीन्हसंग्रामअपारा॥
दनुजमहाबलमरैनमारा॥परमसतीअसुराधिपनारी॥ते
हिबलताहिनजीतहिंपुरारी॥दोहा॥छलकरिटारेउतासु
ब्रतप्रभुसुरकारजकीन्ह॥जबतेहिजानेउमरमतबशापको
पकरिदीन्ह॥१४८॥चौपाई॥तासुशापहरिकीन्हप्रमाणा॥
कौतुकनिधिकृपालुभगवाना॥तहांजलंधररावणभयऊ॥
रणहतिरामपरमपददयऊ॥एकजन्मकरकारणएहा॥
जेहिलगिरामधरीनरदेहा॥प्रतिअवतारकथाप्रभुकेरी॥
सुनिमुनिवरणीकविनघनेरी॥नारदशापदीन्हएकबारा॥
कल्पएकतेहिलगिअवतारा॥गिरिजाचकितभईसुनिवाणी
नारदविष्णुभक्तपुनिज्ञानी॥कारणकवनशापमुनिदीन्हा॥
काअपराधरमापतिकीन्हा॥यहप्रसंगमोहिकहहुपुरारी॥
मुनिमनमोहआचरजभारी॥दोहा॥बोलेविहंसिमहेशत

बज्ञानी मूढन कोइ॥ जेहि जिमि रघुपति करहिं जब सो तस तेहि
छन होइ॥१४९॥ सोरठा॥ कहौं राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सु
नहु॥ भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद॥१५०॥ चौ
पाई॥ हिमगिरि गुहा एक अति पावनि॥ बह समीप सुरसरित
सुहावनि॥ आश्रम परम पुनीत सुहावा॥ देखि देवरिषि मन
अति भावा॥ निरखि शैल सरि विपिन विभागा॥ भयेउ रमाप
ति पद अनुरागा॥ सुमिरत हरिहिं शाप गति बाधी॥ सहज वि
मल मन लागि समाधी॥ मुनि गति देखि सुरेश डेराना॥ का
महिं बोलि कीन्ह सनमाना॥ सहित सहाय जाहु मम हेतू॥ च
लेउ हरषि हिय जलचर केतू॥ सुनासीर मन महं असि त्रासा॥
चहत देवरिषि मम पुर वासा॥ जे कामी लोलुप जग माहीं॥ कु
टिल काक इव सबहिं डेराहीं॥ दोहा॥ सूख हाड लै भाग शठ
स्वान निरखि मृगराज॥ छीनि लेइ जनि जान जड तिमि सुरप
तिहिं न लाज॥१५१॥ चौपाई॥ तेहि आश्रमहिं मदन जब गयेऊ॥
निज माया वसन्त निर्मयेऊ॥ कुसुमित विविध विटप बहुरंगा॥
कूजहिं कोकिल गुञ्जहिं भृंगा॥ चली सुहावनि त्रिविध बया
री॥ काम कृसानु बढावनहारी॥ रम्भादिक सुरनारि नवीना॥
सकल असमसर कला प्रवीणा॥ करहिं गान बहु भांति तरंगा॥

बहुविधिक्रीडहिंपानिपतंगा॥ देखिसहायमदनहरषाना॥
कीन्हेसिपुनिप्रपञ्चविधिनाना॥ कामकलाकछुमुनिहिनव्यापी॥ निजभयडरेउमनोभवपापी॥ सिमकिचापिशकेकोउतासू॥ बडरखवाररमापतिजासू॥ दोहा॥ सहितसहायसभीतअतिमानिहारिमनमयन॥ गहेसिजारमुनिवरचरणकहिसुठिआरतवयन॥ १५२॥ चौपाई॥ भयेउननारदमनकछुरोषा॥ कहिप्रियवचनकामपरितोषा॥ नाईचरणशिरआयसुपाई॥ गयेउमदनतवसहितसहाई॥ मुनिसुशीलताआपनिकरणी॥ सुरपतिसभाजाईसववरणी॥
सुनिसवकेमनअचरजआवा॥ मुनिहिंप्रशंसिहरिहिंशिरनावा॥ तवनारदगवनेशिवपांही॥ जीतिकामअहमितिमनमांही॥ मारचरितशंकरहिंसुनावा॥ अतिप्रियजानिमहेशसिखावा॥ वारवारविनवऊंमुनितोही॥ जिमियहकथासुनायउमोही॥ तिमिजनिहरिहिंसुनावऊकवहूं॥ चलेडुंप्रसंगदुरापऊतवहूं॥ दोहा॥ शंभुदीन्ह उपदेशहिततनहिनारदहिंसुहान॥ भरद्वाजकोतुकसुनऊहरिइच्छावलवान॥ १५३॥
चौपाई॥ रामकीन्हचांहेंसोहोई॥ करैअन्यथाअसनहिकोई॥ शंभुवचनसुनिमननहिभाये॥ तवविरञ्चिकेलोकसिधाये॥

एकवारकरतलबरवीणा॥हरियशगावतपरमप्रवीणा॥
छीरसिंधुगवनेमुनिनाथा॥जहँांबसैंश्रीनिवासश्रीसाथा॥
हरषिमिलेउठिरमानिकेता॥वैठेआसनऋषिहिसमेता॥॥
वोलेविहसिचराचरराया॥वहुतैदिनकीन्हीमुनिदाया॥॥
कामचरितनारदसवभाषे॥यद्यपिप्रथमवरजिशिवराखे॥
अतिप्रचण्डरघुपतिकीमाया॥जेहिनमोहअसकोजगजाया॥
दोहा॥रूखवदनकरिवचनमृदुवोलेश्रीभगवान॥तुम्हरेसु
मिरणतेंमिटहिंमोहमारमदमान॥१५४॥चौपाई॥सुनुमु
निमोहहोइमनताके॥ज्ञानविरागहृदयनहिंजाके॥ब्रह्म
चर्यव्रतरतमतिधीरा॥तुमहिंकिकरैमनोभवपीरा॥नारद
कहेउसहितअभिमाना॥कृपातुम्हारिसकलभगवाना॥
करुणानिधिमनदीखविचारी॥उरअंकुरेउगर्वतरुभारी॥
वेगिसोमैंडारिहौंउपारी॥पणहमारसेवकहितकारी॥मु
निकरहितममकौतुकहोई॥अवशिउपायकरवमैसोई॥
तवनारदहरिपदशिरनाई॥चलेहृदयअहमितिअधिकाई
श्रीपतिनिजमायातवप्रेरी॥सुनहुकठिनकरणीतेहिकेरी
दोहा॥विरचेउमगमहंनगरतेहिंशतयोजनविस्तार॥श्री
निवासपुरतेंअधिकरचनाविविधप्रकार॥१५५॥चौपाई॥

बसहिंनगरसुन्दरनरनारी॥ जनुबहुमनसिजरतितनुधारी॥ तेहिपुरबसैशीलनिधिराजा॥ अगणितहयगजसेनसमाजा॥ शतसुरेशसमबिभवविलासा॥ रूपतेजबलशीलनिवासा॥ विश्वमोहिनीतासुकुमारी॥ श्रीबिमोहजेहिंरूपनिहारी॥ सोहरिमायासबगुणखानी॥ शोभातासुकिजाइबखानी॥ करैस्वयम्बरसोनृपबाला॥ आयेतहंअगणितमहिपाला॥ मुनिकौतुकीनगरतेहिगयेऊ॥ पुरबासिनसनबूझतभयेऊ॥ सुनिसबचरितभूपगृहआये॥ करिपूजानृपमुनिबैठाये॥ दोहा॥ आनिदिखाईनारदहिंभूपतिराजकुमारि॥ कहहुनाथगुणदोषसबहिकरहृदयविचारि॥ १५६॥ चौपाई॥ देखिरूपमुनिविरतिबिसारी॥ बडीबारलगिरहेनिहारी॥ लक्षणतासुविलोकिभुलाने॥ हृदयहर्षनहिंप्रगटबखाने॥ जोएहिबरैअमरसोहोई॥ समरभूमितेहिजीतनकोई॥ सेवहिंसकलचराचरताही॥ बरैशीलनिधिकन्याजाही॥ लक्षणसबविचारिउरराखे॥ कछुकबनाइभूपसनभाखे॥ सुतासुलक्षणकहिनृपपाहीं॥ नारदचलेशोचमनमाहीं॥ करौंजाइसोइयतनविचारी॥ जेहिप्रकारमोहिबरैकुमारी॥ जपतपकछुनहोइयहिकाला॥ हेविधिमिलैकवनविधिबाला॥ दोहा॥ यहिअवस

रामा०
बा०
४५

45

रचाहियपरमशोभारूपविशाल॥ जोविलोकिरीझैकुंअ
रितबमेलैजयमाल॥१५७॥ चौपाई॥ हरिसनमांगोंसुन्दर
ताई॥ होइहिजातगाहरुअतिभाई॥ मोरेहितहरिसमनहि
कोऊ॥ यहिअवसरसहायसोहोऊ॥ बहुविधिबिनयकी
न्हतेहिकाला॥ प्रगटेउप्रभुकौतुकीकृपाला॥ प्रभुवि
लोकिमुनिनयनजुडाने॥ होइहिंकाजहियेंहरषाने॥ अ
तिआरतकहिकथासुनाई॥ करहुकृपाप्रभुहोहुसहाई॥।
आपनरूपदेहुप्रभुमोही॥ आनभांतिनहिपावउंओही॥ जे
हिविधिनाथहोइहितमोरा॥ करहुसोवेगिदासमैंतोरा॥
निजमायाबलदेखिविशाला॥ हियहंसिबोलेदीनदयाला
दोहा॥ जेहिविधिहोइहिपरमहितनारदसुनहुतुम्हार॥
सोइहमकरबनआनककुवचननमृषाहमार॥१५८॥ चौपाई
कुपथ्यमांगरुजव्याकुलरोगी॥ वैदनदेइसुनहुमुनियोगी
इहिविधिहितहमारमैठयेऊ॥ कहिअसअन्तरहितप्रभु
भयेऊ॥ मायाविवशभयेमुनिमूढा॥ समुझिनहिंहरिगि
रानिगूढा॥ गवनेतुरततहांऋषिराई॥ जहांस्वयंवरभू
मिबनाई॥ निजनिजआसनबैठेराजा॥ बहुबनावकरिस
हितसमाजा॥ मुनिमनहर्षरूपअतिमोरे॥ मोहितजिआ
नहिवरिनहिभोरे॥ मुनिहितकारणकृपानिधाना॥ दीन्ह

ऊरूपनजाइबखाना॥सोचरित्रलखिकाहूनपावा॥नार
दजानिसबहिंशिरनावा॥दोहा॥रहेतहांदुइरुद्रगणतेजा
नहिंसबभेउ॥विप्रवेषदेखतफिरहिंपरमकौतुकीतेउ॥१५९
चौपाई॥जेहिसमाजबैठेमुनिजाई॥हृदयरूपअहमितिअ
धिकाई॥तहंबैठेमहेशगणदोऊ॥विप्रवेषगतिलखैनको
ऊ॥करहिंकूटनारदहिसुनाई॥नीकदीन्हहरिसुन्दरताइ
रीझिहिराजकुंअरिछविदेखी॥इनहिंवरिहिहरिजानिशे
षी॥मुनिहिंमोहमनहाथपराये॥हंसहिंशंभुगणअति
सचुपाये॥यदपिसुनहिंमुनिअटपटिवानी॥समुझिन
परैबुद्धिभ्रमसानी॥काहुनलखासोचरितविशेषी॥सोस्व
रूपनृपकन्यादेषी॥मर्कटवदनभयंकरदेही॥देखतहृ
दयक्रोधभातेही॥दोहा॥सखीसंगलैकुंअरितबचलिज
नुराजमराल॥देखतफिरैमहीपसबकरसरोजजयमा
ल॥१६०॥चौपाई॥जेहिदिशिबैठेनारदफूली॥सोदिशि
तेहिनविलोकेउभूली॥पुनिपुनिमुनिउकशहिंअकुला
हीं॥देखिदशाहरगणमुसकाहीं॥धरिनृपतनुतहंगय
उकृपाला॥कुंअरिहरषिमेलीजयमाला॥दुलहिनिलैग
येउलक्ष्मीनिवासा॥नृपसमाजसबभयोउनिराशा॥मुनि
अतिविकलमोहमतिनाठी॥मणिगिरिगईछूटिजनुगांठी

तबहरगणबोलेमुसुकाई॥ निजमुखमुकुरविलोकहु
जाई॥ असकहिदोउभागेभयभारी॥ बदनदीखमुनिवारि
निहारी॥ वेषविलोकिक्रोधअतिबाढा॥ तिनहिंशापदीन्हा
अतिगाढा॥ दोहा॥ होहुनिशाचरजाइतुमकपटीपापीदो
उ॥ हंसेहुहमहिंसोलेहुफलबहुरिहंसेहुमुनिकोउ॥१३१॥
चौपाई॥ पुनिजलदीखरूपनिजपावा॥ तदपिहृदयसन्तो
षनआवा॥ फरकतअधरकोपमनमांही॥ सपदिचलेकम
लापतिपांही॥ देहौंशापकिमरिहौंजाई॥ जगतमोरउपहा
सकराई॥ वीचहिंपन्थमिलेदनुजारी॥ सङ्गरमासोइराजकु
मारी॥ बोलेमधुरवचनसुरसांई॥ मुनिकिहिंचलेविकल
कीनांई॥ सुनतवचनउपजाअतिक्रोधा॥ मायावशानरहा
मनबोधा॥ परसम्पदाशकहुनहिदेखी॥ तुम्हरेंईर्षाकपट
विशेषी॥ मथतसिंधुरुद्रहिंबौरायेहु॥ सुरनप्रेरिविषपा
नकरायेहु॥ दोहा॥ असुरसुराविषशङ्करहिंआपुरमाम
णिचारु॥ स्वारथसाधककुटिलतुमसदाकपटव्यवहारु॥
१३२॥ चौपाई॥ परमस्वतंत्रनशिरपरकोई॥ भावैमनहिंकर
हुतुमसोई॥ भलेहिमन्दमन्दहिभलकरहू॥ विस्मयहर्षन
हियकछुधरहू॥ डहंकिडहंकिपरिचेहुसबकाहू॥ अतिअ
शंकमनसदाउछाहू॥ कर्मशुभाशुभतुमहिंनबाधा॥ अब।

लगिलगमहिनकाहूसाथा॥ भलेभवनअबबायनदीन्हा॥ पा
वैगेफलआपनकीन्हा॥ बञ्चेहुमोहिजवनधरिदेहा॥ सोइत
नुधरहुश्रापममएहा॥ कपिआकृतितुमकीन्हहमारी॥ करि
हहिंकीशसहाईतुम्हारी॥ ममअपकारकीन्हतुमभारी॥ ना
रिविरहतुमहोवदुखारी॥ दोहा॥ श्रापशीशधरिहरषिहिय
प्रभुबहुविनतीकीन्ह॥ निजमायाकीप्रबलताकर्षिकृपानि
धिलीन्ह॥ १३७॥ चौपाई॥ जबहरिमायादूरिनिवारी॥ नहित
हंरमानराजकुमारी॥ तबमुनिअतिसभीतहरिचरणा॥ गहे
पाहिप्रणतारतिहरणा॥ मृषाहोउममशापकृपाला॥ मम
इच्छाकहदीनदयाला॥ मैंदुर्वचनकहेउंबहुतेरे॥ कहमुनि
पापमिटहिंकिमिमेरे॥ जपहुजाइशङ्करशतनामा॥ होइ
हिहृदयतुरतविश्रामा॥ कोउनहिशिवसमानप्रियमोरे॥ अ
सप्रतीतित्यागेहुजनिभोरे॥ जेहिपरकृपानकरहिंपुरारी
सोनपावमुनिभक्तिहमारी॥ असउरधरिमहिविचरहुजाइ
अबनतुमहिंमायानियराइ॥ दोहा॥ बहुविधिमुनिहिंप्र
बोधिप्रभुभयतबअन्तरध्यान॥ सत्यलोकनारदचलेकरत
रामगुणगान॥ १३८॥ चौपाई॥ हरगणमुनिहिंजातपथदेषी
विगतमोहमनहर्षविशेषी॥ अतिसभीतनारदपहआये॥ ग

ह्रिपदआरतवचनसुनाये॥हरगणहमनविप्रमुनिराया॥
वडअपराधकीन्हफलपाया॥शापअनुग्रहकरहुकृपाला।
बोलेनारददीनदयाला॥निशिचरजाइहोहुतुमदोऊ॥वैभ
वविपुलतेजबलहोऊ॥भुजबलविश्वजीतवतुमजहिआ
धरिहहिंविष्णुमनुजतनुतहिआ॥समरमरणहरिहाथ
तुम्हारा॥होइहहुमुक्तनपुनिसंसारा॥चलेयुगलमुनिपद
शिरनाई॥भयनिशाचरकालहिपाई॥दोहा॥एककल्पएहि
हेतप्रभुलीन्हमनुजअवतार॥सुररञ्जनसज्जनसुखदहरि
भञ्जनभूभार॥१६५॥चौपाई॥एहिविधिजन्मकर्महरिके
रे॥सुन्दरसुखदविचित्रघनेरे॥कल्पकल्पप्रतिप्रभुअवतरा
हीं॥चारुचरितनानाविधकरहीं॥तवतवकथामुनीशनगा
ई॥परमपुनीतविचित्रसुहाई॥विविधप्रसङ्गअनूपवखा
ने॥करहिंनसुनिआश्चर्यमयाने॥हरिअनन्तहरिकथाअ
नन्ता॥कहहिंसुनहिंबहुविधिश्रुतिसन्ता॥रामचन्द्रकेच
रितसुहाये॥कल्पकोटिलगिजाइनगाये॥यहप्रसङ्गमै
कहाभवानी॥हरिमायामोहेमुनिज्ञानी॥प्रभुकौतुकीप्र
णतहितकारी॥सेवतसुलभसकलदुखहारी॥सोरठा॥
सुरनरमुनिकोउनांहिजेहिनमोहमायाप्रबल॥अमविचारि

मनमाहिंभजियमहामायापतिहिं ॥१६६॥ चौपाई ॥ अपरहेतु
सुनुशैलकुमारी ॥ कहौंविचित्रकथाविस्तारी ॥ जेहिकारण
अजअगुणअनूपा ॥ ब्रह्मभयेकोशलपुरभूपा ॥ जोप्रभुविपि
नफिरततुमदेषा ॥ बंधुसमेतधरैंमुनिवेषा ॥ जासुचरितअव
लोकिभवानी ॥ सतीशरीररहिउबौरानी ॥ अजहुंनछायामिट
ततुम्हारी ॥ तासुचरितसुनुभ्रमरुजहारी ॥ लीलाकीन्हजोते
हिअवतारा ॥ सोसबकहिहौंमतिअनुसारा ॥ भरद्वाजसुनिश
ङ्करबाणी ॥ सकुचिसप्रेमउमामुसुकानी ॥ लगेबहुरिवरणै
वृषकेतू ॥ सोअवतारभयउजेहिहेतू ॥ दोहा ॥ सोमैंतुमसनक
हबसबसुनुमुनीशमनलाई ॥ रामकथाकलिमलहरणि
मङ्गलकरणिसुहाई ॥१६७॥ चौपाई ॥ स्वायंभूमनुअरुशतरू
पा ॥ जिनतेंभैनरसृष्टिअनूपा ॥ दम्पतीधर्मआचरणनीका ॥
अजहुंगाववश्रुतिजिनकीलीका ॥ नृपउत्तानपादसुततासू ॥ ध्रु
वहरिभक्तभयेसुतजासू ॥ लघुसुतनामप्रियव्रतताही ॥ वेद
पुराणप्रशंसतजाही ॥ देवहूतीपुनितासुकुमारी ॥ सोमुनि
कर्दमकीप्रियनारी ॥ आदिदेवप्रभुदीनदयाला ॥ जठरधरेउ
जेहिकपिलकृपाला ॥ सांख्यशास्त्रजिनप्रगटवखाना ॥ तत्व
विचारनिपुणभगवाना ॥ तेहिमनुराजकीन्हबहुकाला ॥ प्रभु

आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ सोरठा ॥ होइ न विषय विराग
भवन बसत भा चौथपन ॥ हृदय बहुत दुख लाग जनम गयेउ
हरिभक्ति बिनु ॥१४८॥ चौपाई ॥ बरबस राज सुतहि तब दीन्हा
नारि समेत गमन बन कीन्हा ॥ तीरथ बर नैमिष विख्याता ॥
अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ बसहिं तहां मुनि सिद्ध समा
जा ॥ तहं हिय हरषि चलेउ मनु राजा ॥ पन्थ जात सोहहिं मतिधी
रा ॥ ज्ञान भक्ति जनु धरैं शरीरा ॥ पहुंचे जाइ धेनुमति तीरा ॥ ह
र्षि नहाने निर्मल नीरा ॥ आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी ॥ धर्म धु
रन्धर नृप ऋषि जानी ॥ जहं तहं तीरथ रहे सुहाए ॥ मुनिन स
कल सादर करवाए ॥ कृश शरीर मुनिपट परिधाना ॥ सन्त
समाज नित सुनहिं पुराना ॥ दोहा ॥ द्वादश अक्षर मंत्र वर
जपहिं सहित अनुराग ॥ वासुदेव पद पंकरुह दम्पति मन
अति लाग ॥१४९॥ चौपाई ॥ करहिं अहार शाक फल कन्दा ॥
सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ पुनि हरि हेतु करन तप लागे
वारि अहार मूल फल त्यागे ॥ उर अभिलाष निरन्तर होई ॥ दे
खिय नयन परम प्रभु सोई ॥ अगुण अखण्ड अनन्त अनादी ॥
जेहि चिन्तहिं परमारथवादी ॥ नेति नेति जेहि वेद निरूपा ॥
चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ शंभु विरञ्चि विष्णु भगवाना ॥

उपजहिंजासुअंशतेंनाना॥ ऐसेप्रभुसेवकबशअहहीं॥ भ
क्तहेतुलीलातनुगहहीं॥ जोयहवचनसत्यश्रुतिभाषा॥ तो
हमारपूजहिअभिलाषा॥ दोहा॥ एहिविधिबीतेवर्षषट्सह
स्रवारिआहार॥ सम्बतसप्तसहस्रपुनिरहेसमीरआधार॥ १४४
चौपाई॥ वरषसहस्रदशत्यागेउसोऊ॥ ठाढेरहेएकपददोऊ
विधिहरिहरतपदेखिअपारा॥ मनुसमीपआएबहुवारा॥।
मांगहुवरबहुभांतिलुभाये॥ परमधीरनहिचलहिचलाये
अस्थिमात्रहोयरहीशरीरा॥ तदपिमनागपिनहिंमनपीरा
प्रभुसर्वज्ञदासनिजजानी॥ गतिअनन्यतापसनृपराणी॥
मांगुमांगुनृपभयनभवानी॥ परमगंभीरकृपामृतसानी॥
मृतकजिआवनिगिरासुहाई॥ श्रवणरंध्रहोइउरजबआई॥
हृष्टपुष्टतनुभयेउसुहाये॥ मानहुंअबहिंभवनतेंआये॥।
दोहा॥ श्रवणसुधासमवचनसुनिपुलकप्रफुल्लितगात॥
बोलेमनुकरिदण्डवतप्रेमनहृदयसमात॥ १४५॥ चौपाई॥।
सुनुसेवकसुरतरुसुरधेनू॥ विधिहरिहरवन्दितपदरेनू॥
सेवतसुलभसकलसुखदायक॥ प्रणतपालसचराचरनाय
क॥ जोअनाथहितहमपरनेहू॥ तौप्रसन्नहोइयहवरदेहू॥
जोस्वरूपवसशिवमनमांहीं॥ जिहिंकारणमुनियत्नकराहीं

पंचम ५

जोभुसुण्डिमनमानसहंसा॥ सगुणअगुणजेहिनिगमप्र
शंसा॥ देखहिंसोस्वरूपभरिलोचन॥ कृपाकरहुप्रणतार
तिमोचन॥ दम्पतीवचनपरमप्रियलागे॥ मृदुलविनीतप्रेम
रसपागे॥ भक्तवत्सलप्रभुकृपानिधाना॥ विश्ववासप्रगटे
भगवाना॥ दोहा॥ नीलसरोरुहनीलमणिनीलनीरधरश्या
म॥ लाजहिंतनशोभानिरखिकोटिकोटिशतकाम॥ १४८॥
चौपाई॥ शारदमयङ्कमदनछविसींवा॥ चारुकपोलचिबु
कदरग्रीवा॥ अधरअरुणरदसुन्दरनासा॥ विधुकरनिकर
विनिन्दकहासा॥ नवअम्बुजअम्बकछविनीकी॥ चितवनि
ललितभावतीजीकी॥ भ्रुकुटिमनोजचापछविहारी॥ तिल
कललाटपटलद्युतिकारी॥ कुण्डलमकरमुकुटशिरभ्रा
जा॥ कुटिलकेशजनुमधुपसमाजा॥ उरश्रीवत्सरुचिरब
नमाला॥ पदिकहारभूषणमणिजाला॥ केहरिकन्धरचा
रुजनेऊ॥ बाहुविभूषणसुन्दरतेऊ॥ करिकरसरिससुभ
गभुजदण्डा॥ कटिनिषङ्गकरशरकोदण्डा॥ दोहा॥ तडि
तविनिन्दकपीतपटउदररेखवरतीनि॥ नाभिमनोहरले
तिजनुयमुनभ्रमरछविछीनि॥ १४९॥ चौपाई॥ पदराजी
ववरणिनहिंजाहीं॥ मुनिमनमधुपवसहिंजेहिमांहीं॥

वामभागशोभतिअनुकूला॥ आदिशक्तिछविनिधिजग
मूला॥ जासुअंशउपजहिंगुणखानी॥ अगणितलक्ष्मीउ
माब्रह्माणी॥ भृकुटिविलासजासुजगहोई॥ रामवामदि
शिसीतासोई॥ छविसमुद्रहरिरूपविलोकी॥ एकटकर
हेनयनपटरोकी॥ चितवहिंसादररूपअनूपा॥ तृप्तिन
मानहिंमनुशतरूपा॥ हर्षविवशतनुदशाभुलानी॥ परे
दंडइवगहिपदपाणी॥ सिरपरसेप्रभुनिजकरकंजा॥ तु
रतउठाएकरूणापुंजा॥ दोहा॥ बोलेकृपानिधानपुनिअ
तिप्रसन्नमोहिजानि॥ मांगहुवरजोइभावमनमहादानि
अनुमानि॥ १४॥ चौपाई॥ सुनिप्रभुवचनजोरियुगपाणी
धरिधीरजबोलेमृदुबाणी॥ नाथदेखिपदकमलतुम्हारे
अवपूरेसवकामहमारे॥ एकलालसावडिमनमाहीं॥ सुग
मअगमकहिजातिसुनाहीं॥ तुमहिंदेतअतिसुगमगो
सांई॥ अगमलागुमोहिनिजकृपणांई॥ यथादरिद्रीविबु
धतरुपाई॥ बहुसंपतिमांगतसकुचाई॥ तासुप्रभावजान
नहिसोई॥ तथाहृदयममसंशयहोई॥ सोतुमजानहुअं
तरजामी॥ पुरवहुमोरमनोरथस्वामी॥ सकुचविहाइमां
गुनृपमोही॥ मोरेनहिंअदेयकछुतोही॥ दोहा॥ दानिशिरो

मणिकृपानिधिनाथकहौंसतभाव॥ चाहौंतुमहिंसमा
नसुतप्रभुसनकवनदुराव॥१४५॥ चौपाई॥ देखिप्रीतिसुनि
वचनअमोले॥ एवमस्तुकरुणानिधिबोले॥ आपसरिस
खोजौंकहंजाई॥ नृपतवतनयहोबमैआई॥ शतरूपहि
बिलोकिकरजोरे॥ देविमांगुवरजोरुचितोरे॥ जोवरनाथच
तुरनृपमांगा॥ सोइकृपालमोहिअतिप्रियलागा॥ प्रभुप
रंतुसुठिहोतिढिठाई॥ यदपिभक्तहिततुमहिसुहाई॥
तुमब्रह्मादिजनकजगस्वामी॥ ब्रह्मसकलउरअन्तरजामी॥
अससमुझतमनसंशयहोई॥ कहाजोप्रभुप्रमाणपुनिसोई॥
जेनिजभक्तनाथतवअहहीं॥ सोसुखपावहिंसोगतिलहहीं॥
दोहा॥ सोइसुखसोइगतिभक्तिसोइसोइनिजचरणसनेहु॥
सोइविवेकसोइरहनिप्रभुहमहिंकृपाकरिदेहु॥१४६॥ चौ
पाई॥ सुनिमृदुगूढरुचिरवररचना॥ कृपासिंधुबोलेमृदु
वचना॥ जोकछुरुचितुम्हरेमनमांही॥ मैसोदीन्हसबसं
शयनांही॥ मातुविवेकअलौकिकतोरे॥ कबहुंनमिटिहि
अनुग्रहमोरे॥ वंदिचरणमनुकहेउबहोरी॥ अवरएकवि
नतीप्रभुमोरी॥ सुतविषयकतवपदरतिहोऊ॥ मोहिबडमू
ढकहैकिनकोऊ॥ मणीबिनुफणीजिमिजलबिनुमीना॥

ममजीवनतिमितुमहिंआधीना॥ असवरमांगिचरण
गहिरहेऊ॥ एवमस्तुकरुणानिधिकहेऊ॥ अबतुमम
मअनुशासनमानी॥ वसहुजाइसुरपतिरजधानी॥ सो
रठा॥ तहंकरिभोगविसालतातगयेंकछुकालपुनि॥
होइहुअवधभुआलतबमैहोवतुम्हारसुत॥१२२॥ चौपा
ई॥ इच्छामयनरवेषसंवारे॥ होइहौंप्रगटनिकेततुम्हारे
अंशानसहितदेहधरिताता॥ करिहौंचरितभक्तसुखदा
ता॥ जेसुनिसादरनरवडभागी॥ भवतरिहहिंममताम
दत्यागी॥ आदिशक्तिजिहिंजगउपजाया॥ सोअवतरि
हिमोरियहमाया॥ पुरउवमैअभिलाषतुम्हारा॥ सत्यस
त्यपणसत्यहमारा॥ पुनिपुनिअसकहिकृपानिधाना॥
अन्तर्धानभएभगवाना॥ दंपतीउरधरिभक्तिकृपाला॥ ते
हिआश्रमनिवसेकछुकाला॥ समयपाइतनुतजिअनया
सा॥ जाइकीन्हअमरावतिवासा॥ दोहा॥ यहइतिहासपु
नीतअतिउमहिंकहेउवृषकेतु॥ भरद्वाजसुनुअपरपुनि
रामजन्मकरहेतु॥१२३॥ चौपाई॥ सुनिमुनिकथापुनीत
पुराणी॥ जोगिरिजाप्रतिशंभुवखानी॥ विश्वविदितएक
केकयदेशू॥ सत्यकेतुतहंवसैनरेशू॥ धर्मधुरन्धरनीति

रामा०
बा०
५१

51

निधाना॥ तेजप्रतापशीलबलवाना॥ तेहिकेभयेयुगल
सुतबीरा॥ सबगुणधाममहारणधीरा॥ राजधनीजेठसु
तआही॥ नामप्रतापभानुअसताही॥ अपरसुतहिंअरिम
र्दननामा॥ भुजबलअतुलअचलसंग्रामा॥ भाइहिंभाइ
परस्परप्रीती॥ सकलदोषछलवर्जितरीती॥ जेठेसुतहिं
राजनृपदीन्हा॥ हरिहितआपुगवनवनकीन्हा॥ दोहा॥
जबप्रतापरविभयेउनृपफिरीदोहाईदेश॥ प्रजापालअ
तिवेदविधिकतहुंनहिंअघलेश॥८९॥ चौपाई॥ नृप
हितकारकसचिवसुजाना॥ नामधर्मरुचिशुक्रसमाना॥
सचिवसयानबंधुबलवीरा॥ आपुप्रतापपुञ्जरणधीरा॥
सेनसङ्गचतरङ्गअपारा॥ अमितसुभटसबसमरजुझारा॥
सेनविलोकिराउहरषाना॥ अरुवाजेगहगहेनिसाना॥
विजयहेतुकटकहीवनाई॥ सुदिनसाधिनृपचलेउबजाई॥
जहंतहंपरीअनेकलराई॥ जीतेसकलभूपवरिआई॥ सप्त
दीपभुजबलवशकीन्हे॥ लैलैदण्डछाडिनृपदीन्हे॥ स
कलअवनिमण्डलतेहिकाला॥ एकप्रतापभानुमहिपा
ला॥ दोहा॥ स्ववशविश्वकरिबाहुबलनिजपुरकीन्हप्रवे
श॥ अर्थधर्मकामादिसुखसेवहिसमयनरेश॥९०॥ चौपाई

भूपप्रतापभानुबलपाई॥कामधेनुभइभूमिसुहाई॥सब
दुखवर्जितप्रजासुखारी॥धर्मशीलसुन्दरनरनारी॥सचि
वधर्मरुचिहरिपदप्रीती॥नृपहितहेतुशिखावतनीती॥
गुरुसुरसन्तपितरमहिदेवा॥करैसदानृपसबकीसेवा॥
भूपधर्मजेबेदबखानै॥सकलकरैसादरसुखमानै॥दिन
प्रतिदेइविविधविधिदाना॥सुनैशास्त्रवरवेदपुराणा॥।
नानावापीकूपतड़ागा॥सुमनवाटिकासुन्दरवागा॥विप्र
भवनसुरभवनसुहाये॥सबतीरथनविचित्रवनाये॥दोहा
जहँलगिकहेपुराणश्रुतिएकएकसबयाग॥बारसहस्र
सहस्रनृपकिएसहितअनुराग॥१५१॥चौपाई॥हृदयनक
छुफलअनुसन्धाना॥भूपविवेकीपरमसुजाना॥करैजे
धर्मकर्ममनवाणी॥वासुदेवअर्पितनृपज्ञानी॥चढ़िव
रवाजिवारएकराजा॥मृगयाकरसबसाजिसमाजा॥विं
ध्याचलगंभीरवनगयेऊ॥मृगपुनीतबहुमारतभयेऊ॥।
फिरतविपिननृपदीखवराहू॥जनुवनदुरेउशशिहिंग्रसि
राहू॥बडविधुनहिंसमातमुखमाहीं॥मनहुंक्रोधवश
उगिलतनाहीं॥कोलकरालदशनछविगाई॥तनुविशा

लपीवरअधिकाई॥ घुरुघुरातहयआरवपाये॥ चकित
विलोकतकानउठायें॥ दोहा॥ नीलमहीधरशिखरसम
देखिविशालवराह॥ चपरिचलेउहयसुटुकिनृपहाँकि
नहोइनिबाह॥१५६॥ चौपाई॥ आवतदेखिअधिकरववा
जी॥ चलेउबराहमरुतगतिभाजी॥ तुरतकीन्हनृपशर
सन्धाना॥ महिमिलिगयेउविलोकितबाणा॥ तकित।
कितीरमहीशचलावा॥ करिछलसुअरशरीरबचावा॥
प्रगटदुरतजाइमृगभागा॥ रिसवशभूपचलेउसङ्गलागा
गयेउदूरिघनगहनवराहू॥ जहँनाहींगजबाजिनिबाहू॥
अतिअकेलबनविपुलकलेसू॥ तदपिनमृगमगतजेउन
रेसू॥ कोलविलोकिभूपबडधीरा॥ भागिपैठिगिरिगुहा
गभीरा॥ अगमदेखिनृपअतिपछिताई॥ फिरेउमहाबन
परेउभुलाई॥ दोहा॥ खेदखिन्नक्षुधिततृषितराजावाजि
समेत॥ खोजतब्याकुलसरितसरजलबिनुभयेउअचेत
१५७॥ चौपाई॥ फिरतविपिनआश्रमएकदेखा॥ तहँवसनृ
पतिकपटमुनिवेषा॥ जासुदेशनृपलीन्हछुडाई॥ सम
रसेनतजिगयेउपराई॥ समयप्रतापभानुकरजानी॥ आ

पनअतिअसमयअनुमानी॥ गयेउनगृहमनबहुतगलानी
मिलानराजहिनृपअभिमानी॥ रिसउरमारिरंकजिमिराजा
बिपिनबसैतापसकेसाजा॥ तासुसमीपगमननृपकीन्हा॥
यहप्रतापरबितेहिंतबचीन्हा॥ राउत्रिषितनहिंसोपहिचाना
देखिसुबेषमहामुनिजाना॥ उतरितुरगतेंकीन्हप्रनामा॥
परमचतुरनकहेउनिजनामा॥ **दोहा**॥ भूपतित्रिषितबिलो
कितेहिंसरबरदीन्हदेखाइ॥ मज्जनपानसमेतहयकीन्हनृ
पतिहरषाइ॥१५४॥ **चौपाई**॥ गैश्रमसकलसुखीनृपभयेऊ
निजआश्रमतापसलेगयेऊ॥ आसनदीन्हअस्तरबिजानी॥
पुनितापसबोलेउमृदुबानी॥ कोतुमकसबनफिरहुअकेले॥
सुन्दरजुबाजीवपरहेले॥ चक्रवर्तिकेलछनतोरे॥ देखत
दयालागिअतिमोरे॥ नामप्रतापभानुअवनीशा॥ तासुस
चिवमैंसुनहुमुनीशा॥ फिरतअहेरेहिंपरेउंभुलाई॥ बडेभा
गदेखेउंपदआई॥ हमकहंदुर्लभदरशतुम्हारा॥ जानतहौं
कछुभलहोनिहारा॥ कहमुनितातभयेउअंधियारा॥ योजन
सत्तरिनगरतुम्हारा॥ **दोहा**॥ निशाघोरगंभीरबनपन्थनसु
नहुसुजान॥ बसहुआजुअसजानितुमजायहुहोतबिहान॥
१५५॥ तुलसीजसभवितव्यतातैसीमिलैसहाइ॥ आपुनआवै

ताहिपैंकेतिहिंतहोलैजाइ॥९६॥चौपाई॥भलेहिनाथआ
यसुधरिशीशा॥बांधितुरगतरुबैठमहीषा॥नृपबहुभां
तिप्रशंसेउताही॥चरणबन्दिनिजभाग्यसराही॥पुनिबो
लेउमृदुगिरासुहाई॥जानिपिताप्रभुकरौंढिठाई॥मोहि
मुनीशसुतसेवकजानी॥नाथनामनिजकहहुवखानी॥
तिहिनजाननृपनृपहिंसोजाना॥भूपसुहृदयसोकपटस
याना॥वैरीपुनिछत्रीपुनिराजा॥छलबलकीन्हचहैनिज
काजा॥समुझिराजसुखदुखितअराती॥आवाअनलइव
सुलगैछाती॥सरलवचननृपकेसुनिकाना॥वयरसंभा
रिहृदयहरषाना॥दोहा॥कपटबोरिवाणीमृदुलबोलेउयु
क्तिसमेत॥नामहमारभिखारिअवनिर्धनरहितनिकेत॥९७
चौपाई॥कहहुनृपजेविज्ञाननिधाना॥तुमसारिखेगलितअ
भिमाना॥सदारहहिंअपनपोदुराए॥सवविधिकुशलकुवे
षवनाए॥तेहितेंकहहिंसन्तश्रुतिटेरे॥परमअकिञ्चनप्रि
यहरिकेरे॥तुमसमअधनभिखारिअगेहा॥होतविरञ्चिशि
वहिंसन्देहा॥योसिसोसितवचरणनमामी॥मोपरकृपा
करियअवस्वामी॥सहजप्रीतिभूपतिकीदेखी॥आपविष
यविश्वासविशेषी॥सवप्रकारराजहिंअपनाई॥बोलेउअधि

कसनेहजनाई॥ सुनुसतिभावकहौंमहिपाला॥ इहांब
सतबीतेबहुकाला॥ दोहा॥ अबलगिमोहिनमिलेउकोउ
मैंनजनायेउंकाहु॥ लोकमान्यताअनलसमकरतपकान
नदाहु॥१८८॥ सोरठा॥ तुलसीदेखिसुवेषभूलहिंमूढ
नचतुरनर॥ सुन्दरकेकिहिपेषवचनसुधासमअशनअ
हि॥१८९॥ चौपाई॥ तातेंगुप्तरहौंजगमांही॥ हरितजिकिम
पिप्रयोजननाही॥ प्रभुजानतसबविनहिंजनायें॥ कहहु
कवनसिधिलोकरिझायें॥ तुमशुचिसुमतिपरमप्रियमो
रे॥ प्रीतिप्रतीतिमोहिपरतोरे॥ अबजौंतातदुरावोंतोही॥ दा
रुणदोषघटैअतिमोही॥ जिमिजिमितापसकहैउदासा॥
तिमितिमिनृपहिउपजविश्वासा॥ देखास्ववशकर्म्ममन
बाणी॥ तबबोलेउतापसबकध्यानी॥ नामहमारएकतनु
भाई॥ सुनिनृपबोलेउपुनिशिरनाई॥ कहहुनामकरअर्थब
खानी॥ मोहिसेवकअतिआपनजानी॥ दोहा॥ आदिसृष्टिउ
पजीजबहिंतबउतपतिभइमोरि॥ नामएकतनुहेतुतेहिं
देहनधरीबहोरि॥१९०॥ चौपाई॥ जनिआश्चर्य्यकरहुमनमा
हीं॥ सुततपतेंदुर्लभकछुनाहीं॥ तपबलतेंजगसृजैविधाता
तपबलविष्णुभयपरित्राता॥ तपबलशंभुकरहिंसंघारा॥

तपतेंअगमनकछुसंसारा॥तपबलशेषधरहिंमहिभारा
तपअधारसबसृष्टिअपारा॥यहदुइपदक्षेपक॥भयउनृप
हिसुनिअतिअनुरागा॥कथापुरातनकहैसोलागा॥कर्म
धर्मइतिहासअनेका॥करैनिरूपणविरतिविवेका॥उद्भ
वपालनप्रलयकहानी॥कहसिअमितआश्चर्यबखानी॥
सुनिमहीपतापसबशभयेऊ॥आपननामकहनतबलयेऊ
कहतापसनृपजानौंतोही॥कीन्हेउकपटलागभलमोहि
सोरठा॥सुनुमहीशअसनीतिजहंतहंनामनकहहिंनृप॥
मोहितोहिपरअतिप्रीतिपरमचतुरतानिरखितव॥१५९॥
चौपाई॥नामतुम्हारप्रतापदिनेशा॥सत्यकेतुतवपितानरे
शा॥गुरुप्रसादसबजानियराजा॥कहियनआपनजानि
अकाजा॥देखितातसबसहजसुधाई॥प्रीतिप्रतीतिनीतिनि
पुणाई॥उपजिपरीममतामनमोरे॥कहौंकथानिजपूछे
तोरे॥अबप्रसन्नमैंसंशयनाहीं॥मांगुजोभूपभावमनमा
हीं॥सुनिसुबचनभूपतिहरषाना॥गहिपदविनयकी
न्हविधिनाना॥कृपासिंधुमुनिदरशनतोरे॥चारिपदारथ
करतलमोरे॥प्रभुहिंतथापिप्रसन्नविलोकी॥मांगिअगम
मवरहोउंअशोकी॥दोहा॥जरामरणदुखरहिततनुसमर

नजीतेकोउ॥ एककुत्ररिपुहीनमहिराजकल्पशतहोउ॥
१९२॥ चौपाई॥ कहनृतापसनृपऐसैंइहोऊ॥ कारणएककठि
नसुनुसोऊ॥ कालैंतवपदनाइहिशीशा॥ एकविप्रकुलछा
डिमहीशा॥ तपवलविप्रसदावरिआरा॥ तिनकेकोपनको
उरखवारा॥ जौविप्रनवशकरहुनरेशा॥ तौतववशविधिवि
ष्णुमहेशा॥ चलनब्रह्मकुलसैंवरिआई॥ सत्यकहौंदौभुजा
उठाई॥ विप्रशापविनुसुनुमहिपाला॥ तोरनाशनहिकव
निहुंकाला॥ हरषेउराउवचनसुनितासू॥ नाथनहोइमोरअ
वनासू॥ तवप्रसादप्रभुकृपानिधाना॥ मोकहंसर्वकालकल्या
णा॥ दोहा॥ एवमस्तुकहिकपटमुनिवोलाकुटिलवहोरि॥
मिलवहमारभुवालनिजकहहुतोमोरिनखोरि॥ १९३॥ चौपा॰
तातैंमैंतोहिवरजौंराजा॥ कहेंकथातवपरमअकाजा॥ छठे
श्रवणयहपरतकहानी॥ नाशतम्हारसत्यममवाणी॥ यह
प्रगटैअथवाद्विजशापा॥ नाशतोरसुनुभानुप्रतापा॥ आनउ
पायनिधननतवनाहीं॥ जोहरिहरकोपहिंमनमाहीं॥ सत्यना
थपदगहिनृपभाषा॥ द्विजगुरुकोपकहहुकोराषा॥ राखैंगु
रुजौकोपविधाता॥ गुरुविरोधनहिकोउजगत्राता॥ जौनच
लवहमकहेंतुम्हारे॥ होउनाशनहिशोचहमारे॥ एकहिडरडर
पतमनमोरा॥ प्रभुमहिदेवशापअतिघोरा॥ दोहा॥ होंहिवि

अवशकवनविधिकहहुकृपाकरिसोइ॥तुमतजिदीनदयाल
निजहितूनदेखौंकोउ॥१६४॥चौपाई॥सुनुनृपविविधयत्न
जगमाहीं॥कष्टसाध्यपुनिहोहिंकिनाहीं॥अहैएकअतिसु
गमउपाई॥तहांपरन्तुएककठिनाई॥ममअधीनयुक्तिनृपसोई
मोरजावतबनगरनहोई॥आजुलागिअरुजबतेंभयेऊं॥
काहूकेगृहग्रामनगयेऊं॥जोनजावतबहोइअकाजू॥बना
आइअसमंजसआजू॥सुनिमहीपबोलेमृदुबाणी॥नाथ
निगमअसनीतिबखानी॥बडेसनेहलघुनपरकरहीं॥गिरि
निजशिरनिसदातृणधरहीं॥जलधिअगाधमौलिबहफेनू
सन्ततधरणिधरतशिररेनू॥दोहा॥असकहिगहेनरेशपद
स्वामीहोहुकृपालु॥मोहिलागिदुखसहियप्रभुसज्जनदीनद
यालु॥१६५॥चौपाई॥जानिनृपहिंआपनअधीना॥बोलातप
सकपटप्रवीणा॥सत्यकहौंभूपतिसुनुतोही॥जगमहंनहिं
दुर्लभकछुमोही॥अवशिकार्य्यमैंकरिहौंतोरा॥मनतनुब
चनभक्ततैंमोरा॥योगयुक्तितपमंत्रप्रभाऊ॥फलैतबहिंज
बकरियदुराऊ॥जौनरेशमैंकरौंरसोई॥तुमपरसहुमोहि
जाननकोई॥अन्नसोजोइजोइभोजनकरई॥सोइसोइतवआ
यसुअनुसरई॥पुनितिनकेगृहजेवैंजोई॥तववशहोइभूपसु
नुसोई॥जाइउपायरचहुनृपएहू॥संवतभरिसंकल्पकरेहू॥दो

हा॥ नितनूतनद्विजसहससशतवरेहुसहितपरिवार॥ मैं
तुम्हरेसंकल्पलगिदिनहिंकरबजेवनार॥ १६८॥ चौपाई॥
एहिविधिभूपकष्टअतिथोरे॥ होइहहिंसकलविप्रवशतो
रे॥ करिहहिंविप्रहोममखसेवा॥ तेहिप्रसङ्गसहजहिंव
शदेवा॥ औरएकतोहिकहौंलखाऊ॥ मैयहिवेषनआउवका
ऊ॥ तुम्हरेउपरोहितकहंराया॥ हरिआनबमैंकरिनिजमा
या॥ तपबलतेहिंकरिआपुसमाना॥ रखिहौंइहांवरषपर
माणा॥ मैधरितासुवेषसुनुराजा॥ सबविधितोरसंवारब
काजा॥ गइनिशिवहुतशयनअवकीजे॥ मोहितोहिभूप
भेटदिनतीजे॥ मैतपबलतोहितुरगसमेता॥ पहुंचैहौंसो
वतहिंनिकेता॥ दोहा॥ मैंआउबसोइवेषधरिपहिचानेहु
तबमोहि॥ जबएकान्तबुलाइसबकथासुनाऊंतोहि॥ १६९
चौपाई॥ शयनकीन्हनृपआयसुमानी॥ आसनजाइवैठछ
लज्ञानी॥ श्रमितभूपनिद्राअतिआई॥ सोकिमिसोवशोच
अधिकाई॥ कालकेतुनिशिचरतहंआवा॥ जेहिशूकरहो
इनृपहिंभुलावा॥ परममित्रतापसनृपकेरा॥ जानेसोअति
कपटघनेरा॥ तेहिकेशतसुतअरुदशभाई॥ खलअतिअ
जयदेवदुखदाई॥ प्रथमहिंभूपसमरसबमारे॥ विप्रसन्तसु
रदेखिदुखारे॥ तेहिंखलपाछिलवयरसंभारा॥ तापसनृप

मिलिमंत्रविचारा॥जेहिंरिपुछयसोइरचेन्हउपाई॥भावी
वशनजानककुराई॥दोहा॥रिपुतेजसीअकेलअपिलघु
करिगणियनताहु॥अजहुंदेतदुखरविशशिहिशिरअव
शेषितराहु॥१७०॥चौपाई॥तापसनृपनिजसखहिनिहारी
हरषिमिलेउउठिभयउसुखारी॥मित्रहिकहिसबकथासु
नाई॥जातुधानबोलासुखपाई॥अबसाधेउरिपुसुनहुनरे
शा॥जौंतुमकीन्हमोरउपदेशा॥परिहरिशोचरहहुतुम
सोई॥विनुऔषधहिंव्याधिविधिखोई॥कुलसमेतरिपुमू
लवहाई॥चौथेदिवसमिलवमैंआई॥तापसनृपहिंबहुत
परितोषी॥चलामहाकपटीअतिरोषी॥भानुप्रतापहिंबा
जिसमेता॥पहुंचायेसिसोवतहिंनिकेता॥नृपहिंनारिपहं
सायनकराई॥हयगृहबांधेसिवाजिबनाई॥दोहा॥राजाके
उपरोहितहिंहरिलेगयउवहोरि॥लैराखेसिगिरिखोहम
हमायाकरिमतिभोरि॥१७१॥चौपाई॥आपुविरचिउपरो
हितरूपा॥पराजाइतेहिसेजअनूपा॥जागेउनृपअनभ
यउविहाना॥देखिभवनअतिअचरजमाना॥मुनिमहि
मामनमहंअनुमानी॥उठेउगवउजेहिजाननरानी॥का
ननगयेउवाजिचढितेही॥पुरनरनारिनजानेउकेही॥ग
येयामयुगभूपतिआवा॥घरघरउत्सवबाजबधावा॥उप

रोहितहिंदीखजबराजा॥चकितविलोकिसुमिरिसो
इकाजा॥जुगसमनृपहिंगएदिनतीनी॥कपटीमुनिपद
रहमतिलीनी॥समयजानिउपरोहितआवा॥नृपहिमतें
सबकहिसमुझावा॥दोहा॥नृपहर्षेपहिचानिगुरभ्र
मवशरहानचेत॥वरेतुरतशतसहसवरविप्रकुटुम्ब
समेत॥२००॥चौपाई॥उपरोहितजेवनारवनाई॥छरस
चारिविधिजसश्रुतिगाई॥मायामयतेहिकीन्हरसोई॥
व्यञ्जनवहुगणिसकैनकोई॥विविधमृगनकरआमि
षरान्धा॥तेहिमहंविप्रमासखलसान्धा॥भोजनकहं
सवविप्रवुलाये॥पदपखारिसादरवैठाये॥परसनला
गजवहिंमहिपाला॥भइअकाशवाणीतेहिकाला॥वि
प्रवृन्दउठिउठिगृहजाहू॥हैवडिहानिअन्नजनिखाहू॥
भयेउरसोईभूसुरमासू॥सवद्विजउठेमानिविश्वासू॥भू
पविकलमतिमोहभुलानी॥भावीवशनआवमुखवानी॥
दोहा॥वोलेविप्रसकोपतवनहिकछुकीन्हविचार॥जा
इनिशाचरहोहुनृपमूढसहितपरिवार॥२०१॥चौपाई॥
क्षत्रवन्धुतैंविप्रवुलाइ॥घालैलियेसहितसमुदाइ॥ईश्व
रराखाधर्म्महमारा॥जैहसितैंसमेतपरिवारा॥सम्वतम

रा॰मा॰
बा॰
५८
57

ध्यनाशतबहोऊ॥जलदातानरहहिंकुलकोऊ॥नृपसु
निशापविकलअतित्रासा॥भइबहोरिबरगिराअकाशा
विप्रहुशापविचारिनदीन्हा॥नहिंअपराधभूपकछुकी
न्हा॥चकितविप्रसबसुनिनभवानी॥भूपगयेजहंभोज
नखानी॥तहंनअशननहिंविप्रसुआरा॥फिरेउराउमन
शोचअपारा॥सबप्रसंगमहिसुरनसुनाई॥त्रासितपरे
उअवनीअकुलाई॥दोहा॥भूपतिभावीमिटैनहियदपि
नदूषणतोर॥कियेंअन्यथाहोइनहिंविप्रशापअतिघोर॥
चौपाई॥असकहिसबमहिदेवसिधाए॥समाचारपुरलो
गनपाए॥शोचहिंदूषणदैवहिंदेहीं॥विरचितहंसकाक
कियजेहीं॥उपरोहितभवनपहुंचाई॥असुरतापसहिंख
बरिजनाई॥तेहिंखलजहंतहंपत्रपठाये॥सजिसजिसैन्य
भूपसबआये॥घेरिन्हनगरनिसानबजाई॥विविधभांति।
नितिहोतिलराई॥जूझेसकलसुभटकरिकरणी॥बंधु
समेतपरेउनृपधरणी॥सत्यकेतुकुलकोउनबांचा॥विप्र
शापकिमिहोइअसांचा॥रिपुहिंजीतिनृपनगरबसाई॥
निजनिजपुरगेजयजशपाई॥दोहा॥भरद्वाजसुनुजाहिं
जबहोतविधाताबाम॥धूरिमेरुसमजनकयमताहिव्या

बिलावल

२०२

लसमदाम॥२०३॥चौपाई॥कालपाइमुनिसुनुसोइराजा
भयेउनिशाचरसहितसमाजा॥दशशिरताहिबीसभुजद
ण्डा॥रावणनामवीरवरिबण्डा॥भूपअनुजअरिमर्दनना
मा॥भयेउसोकुम्भकर्णबलधामा॥सचिवजोरहाधर्मरु
चिजासू॥भयेउबिमात्रबन्धुलघुतासू॥नामविभीषणजे
हिंजगजाना॥विस्नुभक्तविज्ञाननिधाना॥रहेजेसुतसेव
कनृपकेरे॥भयेनिशाचरघोरघनेरे॥कामरूपखलजिनि
सअनेका॥कुटिलभयङ्करविगतविबेका॥कृपारहितहिं
सकसबपापी॥वरणिनजाइविश्वपरतापी॥दोहा॥उपजे
यदपिपुलस्त्यकुलपावनअमलअनूप॥तदपिमहीसु
रशापवशभयेसकलअघरूप॥२०४॥चौपाई॥कीन्हवि
विधतपतीनिहुभाई॥परमउग्रसोवरणिनजाई॥गयेउ
निकटतपदेखिविधाता॥मांगहुवरप्रसन्नमैंताता॥करि
विनतीपदगहिदशशीशा॥बोलेउवचनसुनहुजगदी
शा॥हमकाहूकेमरहिंनमारे॥वानरमनुजजातिदुइवारे
एवमस्तुतुमबहुतपकीन्हा॥मैंब्रह्मामिलितेहिंवरदीन्हा
पुनिप्रभुकुम्भकर्णपहँगयेऊ॥तेहिविलोकिमनविस्मय
भयेऊ॥जौयहखलनितिकरबअहारा॥होइहिंसबउजा
रिसंसारा॥शारदप्रेरितासुमतिफेरी॥मांगेसिनींदमासषट

केरी॥ दोहा॥ गयेउविभीषणपासपुनिकहेउपुत्रवरमांगु
तेहिंमांगेउभगवन्तपदकमलअमलअनुरागु॥२०५॥ चौ
पाई॥ तिनहिंदेइवरब्रह्मसिधाए॥ हर्षिततेअपनेगृहआए
मयतनूजामन्दोदरिनामा॥ परमसुन्दरीनारिललामा॥
सोइमयदीन्हरावणहिंआनी॥ भईसोयातुधानपटरानी॥
हर्षितभयेउनारिभलिपाई॥ पुनिदोउबंधुविवाहेसिजाई॥
गिरित्रिकूटएकसिंधुमझारी॥ विधिनिर्मितदुर्गमअतिभा
री॥ सोमयदानवबहुरिसंवारा॥ कनकरचितमणिभवन
अपारा॥ भोगवतीजसअहिकुलवासा॥ अमरावतीजसश
क्रनिवासा॥ तिन्हतेअधिकरम्यअतिबंका॥ जगविख्या
तनामतेहिंलंका॥ दोहा॥ खाईसिन्धुगभीरअतिचारिउ
दिशिफिरिआव॥ कनककोटमणिखचितदृढवरणिन
जाइबनाव॥२०६॥ हरिप्रेरितजिहिंकल्पजोइजातुधान
पतिहोइ॥ सूरप्रतापीअतुलबलदलसमेतवससोइ॥२०७
चौपाई॥ रहैतहाँनिशिचरभटभारे॥ तेसबसुरनसमरसं
हारे॥ अबतहँरहहिंशक्रकेप्रेरे॥ रक्षककोटियक्षपतिकेरे
दशमुखकतहुंखबरिअसपाई॥ सैनसाजिगढघेरेसिजा
ई॥ देखिविकटभटबडिकटकाई॥ यक्षजीवलैगयेपराई॥॥
फिरिसबनगरदशाननदेखा॥ गयेउशोचसुखभयेउविशेषा

सुन्दरसहजअगामअनुमानी॥ कीन्हतहांरावणरजधा
नी॥ [illegible] ॥जेहिंजसयोगबांटिगृहदीन्हा॥ सुखीसकल
रजनीचरकीन्हा॥ एकबारकुवेरपरधावा॥ पुष्पकजानजी
तिलैआवा॥ दोहा॥ कौतुकहींकैलासपुनिलीन्हेसिजाई
उठाई॥ मनहुंतौलिभटबाहुबलचलाअधिकसुखपाई॥ २०८
देवयक्षगन्धर्वनरकिन्नरनागकुमारि॥ जीतिबरीनिज
बाहुबलबहुसुन्दरवरनारि॥ २०९॥ यहएकदोहाक्षेपक॥
चौपाई॥ सुखसम्पतिसुतसेनसहाई॥ जयप्रतापबलबु
द्धिबढाई॥ नितनूतनसबबाढतजाई॥ जिमिप्रतिलाभलो
भअधिकाई॥ अतिबलकुम्भकर्णअसभ्राता॥ जेहिकहंन
हिप्रतिभटजगजाता॥ करिमदपानसोवषटमासा॥ जाग
तहोइतिहुंपुरत्रासा॥ जौंदिनप्रतिआहारकरसोई॥ विश्व
वेगिसबचौपटहोई॥ समरधीरनहिंजाइबखाना॥ तेहि
समअधिकवीरबलवाना॥ बारिदनादजेठसुततासू॥ भ
भमहप्रथमलीकजगजासू॥ जेहिनहोइरणसन्मुखको
ई॥ सुरपुरनितहिंपरावनहोई॥ दोहा॥ कुमुखअकम्पन
कुलिशरदधूमकेतुअतिकाय॥ एकएकजगजीतिशक
ऐसेंसुभटनिकाय॥ २१०॥ चौपाई॥ कामरूपजानहिंसब

माया॥सपनेहुजिनकेधर्म्मनदाया॥दशमुखबैठसभाए
कवारा॥देखिअमितआपनपरिवारा॥सुतसमूहजनप
रिजननाती॥गनैकोपारनिशाचरजाती॥सैनविलोकि
सहजअभिमानी॥बोलाबचनक्रोधमदसानी॥सुनहुस
कलरजनीचरजूथा॥हमरेबैरीबिबुधबरूथा॥तेसमु
खनहिंकरहिंलराई॥देखिसबलरिपुजाहिंपराई॥ति
नकरमरणएकविधिहोई॥कहौंबुझाइसुनहुअबसोई॥
द्विजभोजनमखहोमशराधा॥सबकहँजाइकरहुतुम
बाधा॥दोहा॥छुधाछीणबलहीनसुरसहजहिंमिलिहि
हिंआइ॥तबमारिहौंकिछाडिहौंभलीभांतिअपनाइ॥१८१
चौपाई॥मेघनादकहंपुनिहंकरावा॥दीन्हसीखबलब
यरबढावा॥जेसुरसमरधीरबलवाना॥जिनकेलरिबे॰
करअभिमाना॥तिनहिंजीतिरणआनहुबांधी॥उठिसु
तपितअनुशासनसाधी॥यहिविधिसबहींआज्ञादी
न्ही॥आपुनचलेउगदाकरलीन्ही॥चलतदशाननडो॰
लतिअवनी॥गर्जतगर्भस्रवतसुररमणी॥रावणआ
वतसुनेउसकोहा॥देवनतके[illegible]गिरिखोहा॥दिक
पालनकेलोकसिधाये॥सूनैसकलदशाननआये॥७

त्रिभुनिसिंहनादकरिभारी॥देइदेवतन्हिगारिप्रचारी॥रण
मदमत्तफिरईजगधावा॥प्रतिभटखोजतकतहुंनपावा॥इ
हांत॥नारदमिलेकहिसिसुझकाई॥देवकहांमुनिदेहुदि
खाई॥सुनतश्रवननारदहिंनभावा॥खेतहीपतिहिंतरतप
गावा॥सागरउत्तरिपारसोगयेऊ॥नारिवृन्दतहंदेखतभये
ऊ॥तिन्हसनकहापतिनपहंजाहु॥कहिउकिआवनिषा
चरनाहु॥तबमैंतिन्हहिंजीतिसंग्रामा॥लैजैहौंतुमकोनि
जधामा॥सुनतवचनएकजवररिसानी॥धाइचरणगहिग
गनउठानी॥गईंडुरियरियरिक्षककोरा॥उरिमिसिन्धुम
ध्यत्रातिजोरा॥दोहा॥गयोपतालश्चेतह्वैमरैनविप्रप्रसाद
सावधानउठिगर्जेपुनिहियेंनहरषविषाद॥२१२॥चौपाई॥।
जीतेसिनागनगरसवझारी॥गयोबहुरिबलिलोकिसुरा
री॥वावनरावणआवतजाना॥कियेदेवऋषिसनअपमाना
खेलतरहेनगरशिशुनाना॥निजबलतिनहिंदीन्हभगवाना
धाइपरातिन्हपुरलैआए॥नगरनारिनरदेखनधाए॥बीसबा
हुदशकन्धरजाई॥विधियहगढनिकहाकीआई॥राखिन्हि
बांधिखिजावहिंभारी॥नामनकहैसहैवरुमारी॥बावनदी।
खबहुतसकुचाना॥तबकुडाइदियकृपानिधाना॥चलातुर

रामा०
ला०
६०

60

तनिषाचरनाहा॥ लाजषाहुंकछुनहिमनमाहा॥ दोहा॥
अतिनिर्लज्जदायारहितहिंसापरअतिप्रीति॥ रामविमुख
दषाकन्धषाठतापरचाहतजीति॥ २२३॥ भरद्वाजसुनुजाहि
जबहोइविधातावाम॥ कनककोचहैजाइतबलहैनकोडी
दाम॥ २२४॥ चौपाई॥ जहँकहुँफिरतदेवद्विजपावै॥ दाउलै
इबहुत्रासदिखावै॥ इहिविधिचरणफिरैदिनराती॥ महाघो
रमयखलउतपाती॥ तबलरतपम्यापुरआवा॥ बालिनाम
कपिपतिजिहिंठावा॥ दीखजाइइकसरवरशोभा॥ जेहिमु
नमहामुनिनकरलोभा॥ तहाँकपीशकरैनिजध्याना॥ आ
दरसैंहसंध्यासनमाना॥ जाइगउतहंभारजनीषा॥ टोकबाउ
गर्जितभुजबीषा॥ तबकपीषाचितवामुस्वकाई॥ ध्यानकी
औसरसिविसराई॥ तबरावणबोलाकरिक्रोधा॥ बकध्या
नीकपिषाटसुनुबोधा॥ दोहा॥ मोहिजितेंबिनुसमरसुनुन
करुध्यानपतिकीषा॥ अंजुलिदेइनपाइहैपापणकरौंअजई
षा॥ २२५॥ चौपाई॥ तबबालीबोलाविहसाई॥ बलतुम्हारपेसो
हैभाई॥ रहअंजुलिमैंदेउसप्रीती॥ फाफहोउजाइहमुहिजी
ती॥ तबनिषिचरपतिउठारिसाई॥ देकपियुद्धहकाडिकदरा
ई॥ तबहिंकीषापतिमनहिंविचारा॥ शिवबलदीन्हमरिहिन

हिमारा॥ दशकन्धरघरजाउविचारी॥ अजयपत्रम्हारी
स्त्रनीविधिचारी॥ बहुतभांतिबालीसमुझावा॥ कौनेहु
भांतिबोधनहिंआवा॥ तबसकोपपङ्कचिथराकपीशा॥
धरितिहिंकांखचांपिदशशीशा॥ अञ्जुलिदीन्हरविहिं
मनबाणी॥ अचरईसप्रहुउदधिकरपानी॥ जपाआदि
शाङ्कुरमनबाणी॥ तिहिंतणसंध्याबन्दिसिरानी॥ दोहा
आवघरहिंकपीशतबकांखरहालङ्केश॥ इहिविधिबी
तेमासषटपापबहुतकलेश॥ २२८॥ चौपाई॥ तेइकलेश
वशाकैउपाई॥ तहंनचलैककुआवरताई॥ बहुप्रखेदक
खरीमहुंजामा॥ अतिकुवासतहांभईथामा॥ कलमलाइ
रिसदशाननिकाटा॥ कचकरजाममनहुभ्रमचाटा॥ एक
दिवसरविअंजुलिसाजा॥ कांखतेनिसरिमहाधुनिगाजा
तबपुनिथरिकपीससोबांधा॥ लयआयोअङ्गदकेराधा॥ बी
सभुजादशशीशसथारा॥ चरणदोउपुनिथरिउरपारा॥ प
रिसमेटिदूमरीसमकीन्हा॥ बांधिसेजपरशोभादीन्हा॥
अंगदखेलिलातसिरमारा॥ किलकिलाइकिलकैकिल
कारा॥ दोहा॥ नानाविन्धिउरावणहिंतिहिंतणदीन्हकु
उाइ॥ जाइनरतलंकेशगृहबहुरियरिहिंकपिराइ॥ २२९॥ चौ

रामा०
बा०
६२
61

पाई॥ पुनि रावण आवा तिहिं ठांई॥ सहस बाहु जहां राम स
बनाई॥ जल क्रीडा कर संग सब नारी॥ विविध भांति शोभा
अति भारी॥ आइ राम मंडल जहं देवा॥ सुर नर नाग करहिं
सब सेवा॥ जाइ दीख रावण सुख नाना॥ हरष समेत हृदय
सुख माना॥ तहं लंकेश जाइ शिव देखा॥ मनहुं विरञ्चि र
चेउ बहु रेखा॥ तुलसी कमल पत्र सब आना॥ बिल्व पत्र अ
रु पुष्प प्रमाणा॥ जाइ कै जल तें भिउ दशशीशा॥ पाभिउ
मंत्र सुमिरि गवरीशा॥ दोहा॥ जब प्रचण्ड जल तें भप उव्रू
डै लाग समाज॥ सहस बाहु अति शंक मन सकल तिय न
उर लाज॥ २२८॥ चौपाई॥ तब राजा सन बोलहिं नारी॥ अति
सुन्दरी सब राजकुमारी॥ सुनहु नृपति आवा कोउ गाढ
अकस्मात महा नद बाढ॥ सुनि राजहिं भा क्रोध अपारा॥ ज
स त्रिनेत्र त्रिपुर कहं जारा॥ जाइ दीख रावण तहं ठाढा॥
जासु मंत्र जन्तु जल निधि बाढा॥ माया प्रबल महाबल भा
री॥ लङ्केस्वर कहं धरिसि प्रचारी॥ लै पुनि बांधि गयौ तिय
पासा॥ गाढ निदेखि सब परम हुलासा॥ करि अस्नान पूजि
गौरीशा॥ हय शाला बांधिसि दशशीशा॥ लज्जित दुष्ट म
ष्ट करि रहई॥ रिस उर मारि कष्ट बहु सहई॥ दोहा॥ सनु गिरि

माधूव

जापावनपरमअवयहकथारसाल॥लेहयशालाबांधि
तहिंबीसभुजादशभाल॥२१९॥चौपाई॥सकलआइदेख
हिंनरनारी॥मारहिंलातहंसहिंदेगारी॥नामनकहेरहे
सकुचाना॥बहुबिधिसुखकहिंनृपतिसुजाना॥नृत्यकर
हिंरम्भादिकनारी॥दशकुमाथदशदीपकबारी॥कछु
कदिवसइहिंभांतिगवांवा॥सोपुलस्तसुनिजाइकुआवा
चलातुरन्तमहाअभिमानी॥नलकीशापआइनियरानी
मारगजातदीखविधुधारी॥अतिअनूपसुन्दरिबरनारी
चन्दनपुष्पपत्रकरधारी॥पूजैचलीजायत्रिपुरारी॥देखि
उर्वशीमनसकुचानी॥तबरावणबोलामृदुबाणी॥कौन
मकहांगमनतियकीन्हा॥लज्जावशउन्हउत्तरनदीन्हा
दोहा॥निकटजाइदशकन्धरगहैसुअंकभरिलीन्ह॥पुत्र
वधूकुबेरकीनहिंविचारिकछुकीन्ह॥२२०॥चौपाई॥ची
न्हितियहिंमनशङ्काआई॥घाटिकर्मकीनेपछिताई॥
मनपछिताइशोचउरभयेऊ॥लङ्केश्वरलङ्काकहंगयेऊ
चलीउर्वशीआईताहां॥अलकापुरनलकूवरजाहां॥॥
समाचारसबपतिहिंसुनावा॥सुनीकथामनमहंपछि
तावा॥दीन्हशापकरिक्रोधअपारा॥रावणबंशहोइदुद
यकारा॥चलीशापपलंकामहंआई॥दशकन्धरवैठिउजि

हिठाई॥ आगेआइनारिभईशापा॥ तवलङ्केस्वरअति
भयकांपा॥ सउरसकोपचितवतिहिंघोरा॥ नलकूवरशा
पअतिघोरा॥ **दोहा**॥ शापहिंअङ्गिकारकरमनमहंकीन्ह
विचार॥ ऋषीन्हदाउनहिदीन्हमैंरोषेउलङ्कभुवार॥ २२१
चौपाई॥ दूतचारितिहिंपठवभवानी॥ भरद्वाजमुनिकथा
वखानी॥ आयेदूतऋषिन्हकेगेहा॥ देखतसवहिंभये
सन्देहा॥ पूछहिंऋषयकहांपगुधारा॥ कहहुकुशल
लङ्केशभुवारा॥ तातकुशलअवभइविपरीता॥ तमसन
मागिन्हदाउअभीता॥ देहुदाउअसकहहिंरिसाई॥ कै
गिरिकन्दरजाहुपराई॥ सुनिअसवचनसवहिंदुखपावा
तुरितएकतिन्हपात्रमंगावा॥ सवमिलकरिविचारइक
ठाए॥ भरिघटरुधिरऋषयलैआए॥ दूतनकहंसौंपामन
जानी॥ होइसकोपवोलेमृदुवाणी॥ **दोहा**॥ घटउघरत
तयहोइहिंसहितसकलपरिवार॥ लेयदूततहांआये
हिंजहांलङ्कभूवार॥ २२२॥ **चौपाई**॥ जिहिंदरवारनीति
नहिभाई॥ खलमण्डलीजरीतहांआई॥ आपदीखदूत
जवरावण॥ परमहुलासभयोमनभावन॥ आरौआनि
घटधराउतारी॥ देखिपाङ्कुलङ्कापतिभारी॥ वोलिन्ह
वचनकहायहभाई॥ सकलकथातिन्हनृपहिंसुनाई॥

इहिंघटतैंलङ्कापतिनाशा॥सबहूतनहुअसबचनप्रका
शा॥यहहघटलैउत्तरदिशिजाहू॥जतनसमेतधरहुलैता
हू॥सुनिनृपबचनचलैतेतैसें॥जनकरायकेदेशहिंपै
सें॥करहिंविचारकरियअबसोई॥उत्तमथलघटराखि
यजोई॥दोहा॥अतिउत्तमउत्तरदिशाजनकरायकरदेश
हूतन्हकरीविचारिमनकीन्होथलप्रवेश॥२२३॥चौ
पाई॥देत्रमाऊघटधराउतारी॥सोनपुनीतहेतविबुधा
री॥जनकयज्ञतहांकीन्हअरम्भा॥रचेकनकदलीके
खम्भा॥कियोमेखलामणिमयपूरी॥भूमिसुहावन
पावनभूरी॥शतानन्दअनुशासनपाई॥चामीकरहल
रचावनाई॥हाटकलांगलगहीसुधारी॥तहांप्रगटम
ईऋषियकुमारी॥भुजानामकहिनिकटबुलाए॥देवअ
देवसर्वतहांआए॥कन्यादेखिअनूपभवानी॥सुतामा
निराजागृहआनी॥नामजानकीपरमपुनीता॥नारदरू
आइकहापुनिसीता॥छन्दः॥कहिपुनिसीतापरमपुनी
ताआदिज्योतकीशक्तिसही॥नृपनीतिविधानापरमसु
जानाआदिमध्यअवसाननहीं॥२२॥भवउद्भवकरणीने
तिनेतियहवेदकहै॥तवकृत्यप्रकाशीभुजाविलासीती

निलोकमहंपूरिरहे ॥२४॥ दोहा ॥ सकलकथानृपजन
कसौंनारदकहीवखानि ॥ सकलसुलक्षणिलछिमिगुण
जगदम्बाजियजानि ॥२२४॥ चौपाई ॥ जनकसविनयक
हतकरजोरे ॥ नाथमनोरथपूरेमोरे ॥ चरणपखारिसु
फलवैडारी ॥ विनयकीन्हअस्तुतिविस्तारी ॥ परमउल्ला
सवचनशुभभाषा ॥ चरणोदकलैमाथेराखा ॥ धन्यधन्य
कहिसुताप्रभाऊ ॥ पुनिऋषिप्रीतिकीन्हिनदिकाऊ ॥
जोतुमकृपाकीन्हपगुधारे ॥ मिटेअमङ्गलदोषहमारे
अवमोहिआसरोसमुनिनाथा ॥ भयोधन्यमैंगुणगण
गाथा ॥ साधुविदेहराजऋषिजाकी ॥ उपमाऔरकहौंनृ
पकाकी ॥ तुमउपमाउपमेयऔरसव ॥ जहाँप्रगटभर
ऊजाग्याउअव ॥ दोहा ॥ जोगभोगमैंगोइमनकीयोनप्र
गटप्रभाउ ॥ भयेविदेहविदेहसुनिविदाभयेमुनिराउ ॥
२२५ ॥ चौपाई ॥ कहिसकथाऋषिराउसिधाए ॥ वहुरिहू
तलङ्कापुरआए ॥ कहहिजाइआपहमराखी ॥ सोपां
करगिरिजामनभाषी ॥ याज्ञवल्क्यमुनिकथारसाला
साधुसाधुमुनिपरमकृपाला ॥ पुनिमुनिकहिउकथा
उपदेशा ॥ जगजीतिहुंसवलंकनरेशा ॥ चारिमाउंहारि

सिभइत्रासा॥ सकलदेवकीन्हेनिंजदासा॥ इहांतांई॥
चौपाई ५२ तथा १४ दोहा॥ औरछन्द २ क्षेपकहै॥॥॥॥
रविशशिपवनवरुणधनधारी॥ अग्निकालयमसबअ
धिकारी॥ किन्नरसिद्धमनुजसुरनागा॥ हठिसबहीके
पन्थहिंलागा॥ ब्रह्मसृष्टिजहंलगितनुधारी॥ दशमुख
वशवर्तीनरनारी॥ आयसुकरहिंसकलभयभीता॥ न
मइंआईनितचरणविनीता॥ दोहा॥ भुजबलविश्ववश्य
करिराखेसिकोउनस्वतंत्र॥ मण्डलीकमणिरावणहिं
राजकरैनिजमंत्र॥ २२६॥ देवयक्षगन्धर्वनरकिन्नरना
गकुमारि॥ जीतिवरीनिजबाहुबलबहुसुन्दरिवरनारि॥
चौपाई॥ इन्द्रजीतसनजोकछुकहेऊ॥ सोसबजनुपहि
लैकरिरहेऊ॥ प्रथमहिंजिनकहंआयसुदीन्हा॥ तिन्ह
करचरितसुनहुजोकीन्हा॥ देखतभीमरूपसबपापी
निशिचरनिकरदेवपरितापी॥ करहिंउपद्रवअसुरनि
काया॥ नानारूपधरहिंकरिमाया॥ जेहिंबिधिहोइधर्म
निर्मूला॥ सोसबकरहिंबेदप्रतिकूला॥ जेहिंजेहिंदेश
धेनुद्विजपावहीं॥ नगरग्रामपुरआगिलगावहीं॥ शुभआ
चरणकतहूंनहिंहोइ॥ देवविप्रगुरुमाननकोइ॥ नहिंहरि

२२२

रामा०
बा०
६४

६४

३५

भक्तियत्तजपज्ञाना ॥ सपनेहुं सुनियन वेदपुराणा ॥
छन्दः ॥ जपयोगविरागा तपमखभागा श्रवणसुनैदश-
शीसा ॥ आपुनउठिधावै रहैनपावै धरिसबघालै खीसा
असभ्रष्टआचारा भासंसारा धर्मसुनियनहिंकाना ॥ तेहि
बहुविधित्रासै देशनिकासै जोकहवेदपुराणा ॥ २६ ॥ सो
रठा ॥ वरणिनजाइअनीति घोरनिशाचरजोकरहिं ॥ हिंसा
परअतिप्रीति तिनकेपापहिंकवनमिति ॥ २२८ ॥ चापाई ॥
बाढेखलबहुचोरजुआरा ॥ जेलंपटपरधनपरदारा ॥ मा
मानहिंमातुपितानहिंदेवा ॥ साधुनसोंकरवावहिंसेवा ॥
जिनकेयहआचरणभवानी ॥ तेजानहुनिशिचरशमप्रा
नी ॥ अतिशयदेखिधर्मकीहानी ॥ परमसभीतधराअकु-
लानी ॥ गिरिसरिसिंधुभारनहिंमोही ॥ जशमोहिगरुअ
एकपरद्रोही ॥ सकलधर्मदेखहिंविपरीता ॥ कहिनश
कैरावणभयभीता ॥ धेनुरूपधरिहृदयविचारी ॥ गईत
हांजहंसुरमुनिझारी ॥ निजसन्तापसुनायेसिरोई ॥ काहू
तेंकछुकाजनहोई ॥ छन्दः ॥ सुरमुनिगन्धर्वामिलिकरि
सर्वागयेविरञ्चिकेलोका ॥ संगगोतनुधारीभूमिविचारी
परमविकलभयशोका ॥ २७ ॥ ब्रह्मासबजाना मनअनुमा

ना मोरौ कछु न बसाई॥ जाकरि तैं दासी सो अबिनाशी ह
मरेउ तोर सहाई॥ २८॥ सोरठा॥ धरणि धरहु मन धीर कह
बिरञ्चि हरिपद सुमिरि॥ जानत जन की पीर प्रभु भञ्जिहि दा
रुण बिपति॥ २२९॥ चौपाई॥ बैठे सुर सब करहिं बिचारा॥
कहां पाइय प्रभु करिय पुकारा॥ पुर बैकुण्ठ जान कह कोई
कोउ कह पयनिधि महं बस सोई॥ जाके हृदय भक्ति जसि
प्रीती॥ प्रभु तेहिं प्रगट सदा यह रीती॥ तेहि समाज गिरि
जा मैं रहेऊं॥ अवसर पाय बचन इक कहेऊं॥ हरि व्यापक
सर्वत्र समाना॥ प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥ देश काल दि
शि विदिशिहु माहीं॥ कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं॥ अग
जगमय सब रहित विरागी॥ प्रेम तें प्रगट होइ जिमि आ
गी॥ मोर वचन सब के मन माना॥ साधु साधु करि ब्रह्म बखा
ना॥ दोहा॥ सुनि विरञ्चि मन हर्ष तनु पुलक नयन बह नीर
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर॥ २३०॥ छंद
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवन्त
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिन्धुसुता प्रियकन्ता॥ ३९
पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म जानै कोई॥ जो सहज
कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई॥ ४०॥ जय जय अवि

नाशीसबघटबासीव्यापकपरमानन्द॥अबिगतगोती
तेचरितपुनीतेमायारहितमुकुन्द॥४१॥जिहिलागिबिरा
गीअतिअनुरागीबिगतमोहमुनिवृन्द॥निशिवासरध्या
वहिंगुणगणगावहिंजयतिसच्चिदानन्द॥४२॥जेहिंसृ
ष्टिउपाईत्रिबिधबनाईसङ्गसहायनदूजा॥सोकरउअघारीचिन्तहमा
रीजानियभक्तिनपूजा॥४३॥जोभवभयभञ्जनमुनिमन
रञ्जनगञ्जनबिपतिबरूथा॥मनबचक्रमबाणीछाडि।
सयानीशरणसकलसुरयूथा॥४४॥शारदश्रुतिशेषा
ऋषयअशेषाजाकहुंकोउनहिजाना॥जिहिंदीनपियारे
वेदपुकारेद्रवोसोश्रीभगवाना॥४५॥भवबारिधिमन्दरस
बबिधिसुन्दरगुणमन्दिरसुखपुञ्जा॥मुनिसिद्धसकल
सुरपरमभयातुरनमतनाथपदकञ्जा॥४६॥दोहा॥जा
निसभयसुरभूमिसुनिवचनसमेतसनेह॥गगनगि
रागंभीरभइहरणिशोकसंदेह॥१८३॥चौपाई॥जिनिड
रपहुमुनिसिद्धसुरेशा॥तुमहिंलागिधरिहौंनरवेशा॥
अंशनसहितमनुजअवतारा॥लहौंदिनकरबंशउदारा॥
कश्यपअदितिमहातपकीन्हा॥तिनकहुंमैंपूरबबरदी
न्हा॥तेदशरथकौशल्यारूपा॥कोशलपुरीप्रगटनरभूपा

राम बालकांड

तिनकेगृहअवतरिहौंजाई॥ रघुकुलतिलकसोचारिउ
भाई॥ नारदवचनसत्यसबकरिहौं॥ परमशक्तिसमेतअ
वतरिहौं॥ हरिहौंसकलभूमिगरुआई॥ निर्भयहोहुदेव
समुदाई॥ गगनब्रह्मवाणीसुनिकाना॥ तुरतफिरेसुर
हृदयजुडाना॥ तबब्रह्माधरणिहिंसमुझावा॥ अभयभई
भरोसजियआवा॥ दोहा॥ निजलोकहिंविरञ्चिगे देवन्ह
इहै सिखाइ॥ वानरतनुधरिधरिमहिहरिपदसेवहुजाइ
चौपाई॥ गयेदेवसबनिजनिजधामा॥ भूमिसहितपायेउ
विश्रामा॥ जोकछुआयसुब्रह्मादीन्हा॥ हर्षेदेवविलम्ब
नकीन्हा॥ वानरदेहधरीछितिमाहीं॥ अतुलितबलप्र
तापतिनपाहीं॥ गिरितरुनखआयुधसबवीरा॥ हरिमा
रगचितवहिंरणधीरा॥ गिरिकाननजहंतहंभूरिपूरी॥
रहैनिजनिजअनीकरचिरूरी॥ यहसबरुचिरचरितमैं
भाषा॥ अबसोसुनहुंजोबीचहिंराषा॥ अवधपुरीरघुकु
लमणिराऊ॥ वेदविदिततिहिंदशरथनाऊ॥ धर्मधुरं
धरगुणनिधिज्ञानी॥ हृदयभक्तिमतिशारङ्गपाणी॥
दोहा॥ कौशल्यादिकनारिप्रियसबआचरणपुनीत॥ प
तिअनुकूलप्रेमदृढहरिपदकमलविनीत॥ २२३॥ चौपाई

रा॰मा॰
बा॰
६६

66

एकबारभूपतिमनमाहीं॥भैगलानिमोरेसुतनाहीं
गुरुगृहगयेतुरतमहिपाला॥चरणलागिकरिविनय
विशाला॥निजसुखदुखनृपगुरुहिंसुनायेऊ॥कहिव
शिष्ठबहुविधिसमुझायेऊ॥धरहुधीरहोइहिंसुतचारी
त्रिभुवनविदितभक्तभयहारी॥शृङ्गीऋषिहिंवशिष्ठबु
लावा॥पुत्रकामशुभयज्ञकरावा॥भक्तिसहितमुनिआ
हुतिदीन्हे॥प्रगटेअग्निचरूकरलीन्हे॥बोलेअनलप्रे॰
मयुतवाणी॥अतिप्रसन्ननहिंपरैवखानी॥यहदोपदक्षे
पक॥जोवशिष्ठकछुहृदयविचारा॥सकलकाजभासि
द्धतुम्हारा॥यहहविबाँटिदेहुनृपजाई॥यथायोगजेहि
भागबनाई॥दोहा॥तबअदृश्यपावकभयेसकलसभहिं
समुझाई॥परमानन्दमगननृपहर्षनहृदयसमाई॥
चौपाई॥तबहिंराउप्रियनारिबुलाई॥कौशल्यादितहां
चलिआई॥अर्द्धभागकौशल्याहिंदीन्हा॥उभयभागआ
धेकरकीन्हा॥केकयीकहंनृपसोदयेऊ॥रहेउसोउभय॰
भागपुनिभयेउ॥कौशल्याकैकेयीहाथधरि॥दीन्हसु
मित्रहिंमनप्रसन्नकरि॥यहिविधिगर्भसहितसबना
री॥भयेउहृदयहर्षितसुखभारी॥जोदिनतेंहरिगर्भहिं

राग
मालकोश
१

आये॥ सकललोकसुखसम्पतिछाये॥ मन्दिरमहंसबरा
जहिरानी॥ शोभाशीलतेजकीखानी॥ सुखयुतकछुकका
लचलिगयेऊ॥ जेहिंप्रभुप्रगटसोअवसरभयेऊ॥ दोहा॥
योगलग्नग्रहवारतिथिसकलभयेअनुकूल॥ चरअरुअचरह
र्षयुतरामजन्मसुखमूल॥२३५॥ चौपाई॥ नवमीतिथिमधुमा
सपुनीता॥ शुक्लपक्षअभिजितहरिप्रीता॥ मध्यदिवसअति
शीतनघामा॥ पावनकाललोकविश्रामा॥ शीतलमन्दसुर
भिवहवाऊ॥ हर्षितसुरसन्तनमनचाऊ॥ वनकुसुमितगिरि
गणमणिआरा॥ स्रवहिंसकलसरितामृतधारा॥ सोअवस
रविरञ्चिजबजाना॥ चलेसकलसुरसाजिविमाना॥ गगनवि
मलसंकुलसुरयूथा॥ गावहिंगुणगन्धर्ववरूथा॥ वर्षहिं
सुमनसुअंजलिसाजी॥ गहगहिगगनदुन्दुभीवाजी॥ अस्तु
तिकरहिंनागमुनिदेवा॥ बहुविधिलावहिंनिजनिजसेवा॥
दोहा॥ सुरसमूहविनतीकरीपहुंचेनिजनिजधाम॥ जगनि
वासप्रभुप्रगटेउअखिललोकविश्राम॥२३६॥ छन्दः॥ भयेप्र
गटकृपालादीनदयालाकौशल्याहितकारी॥ हर्षितमहता
रीमुनिमनहारी अद्भुतरूपविचारी॥१॥ लोचनअभिरामा
तनुघनश्यामानिजआयुधभुजचारी॥ भूषणवनमालानयन
विशालाशोभासिन्धुखरारी॥२॥ कहदुइकरजोरीअस्तुति

तोरीकेहिंविधिकरोंअनन्ता॥ मायागुणज्ञानातीतअमा
नावेदपुराणभगवन्ता॥४९॥ करुणासुखसागरसबगुण
आगरजेहिंगावहिंश्रुतिसन्ता॥ सोममहितलागीजनअनु
रागीप्रगटभयेश्रीकन्ता॥५०॥ ब्रह्माण्डनिकायानिर्म्मितमा
यारोमरोमप्रतिवेदकहै॥ ममउरसोवासीयहउपहासीसुन
तधीरमतिथिरनरहै॥५१॥ उपजाजबज्ञानाप्रभुमुसुकानाच
रितबहुतविधिकीन्हचहै॥ कहिकथासुनाईमातबुझाई
जेहिप्रकारसुतप्रेमलहै॥५२॥ मातापुनिबोलीसोमतिडोली
तजहुतातयहरूपा॥ कीजैशिशुलीलाअतिप्रियशीलाय
हसुखपरमअनूपा॥५३॥ सुनिवचनसुजानारोदनठानाहो
इबालकसुरभूपा॥ यहचरितजोगावहिंहरिपदपावहिंतेन
परहिंभवकूपा॥५४॥ दोहा॥ विप्रधेनुसुरसन्तहितलीन्हम
नुजअवतार॥ निजइच्छानिर्म्मिततनुमायागुणगोपार॥२२०
चौपाई॥ सुनिशिशुरुदनपरमप्रियवाणी॥ संभ्रमचलिआ
ईंसबराणी॥ हर्षितजहंतहंधाईंदासी॥ आनन्दमगनसकल
पुरवासी॥ दशरथपुत्रजन्मसुनकाना॥ मानहुंब्रह्मानन्दसमा
ना॥ परमप्रेममनपुलकशरीरा॥ चाहतउठनकरतमतिधीरा॥
जाकरनामसुनतशुभहोई॥ मोरेगृहआवाप्रभुसोई॥ परमा
नन्दपूरिमनराजा॥ कहाबुलाइबजावहुबाजा॥ गुरुवसिष्ठक

हँगयेउ हँकारा ॥ आए द्विजन्ह सहित नृपद्वारा ॥ अनुपम
बालक देखिन जाई ॥ रूपराशि गुण कहि न सिराई ॥ **दोहा**
नान्दीमुख श्राध करि जातकर्म सब कीन्ह ॥ हाटक धेनु ब
सन मणि नृप विप्रन कहँ दीन्ह ॥ २३८ ॥ **चौपाई** ॥ ध्वज पता
क तोरण पुर छावा ॥ कहि न जाइ जेहिं भांति बनावा ॥ सुमन
वृष्टि आकाश ते होई ॥ ब्रह्मानन्द मगन सब कोई ॥ वृन्द वृन्द
मिलि चलीं लुगाईं ॥ सहज सिङ्गार किये उठि धाई ॥ कनक
कलश मंगल भरि थारा ॥ गावत पैठहिं भूप दुआरा ॥ करि
आरती निछावर करहीं ॥ बार बार शिशु चरणन्ह परहीं ॥ माग
ध सूत बन्दिगण गायक ॥ पावन गुण गावहिं रघुनायक ॥ स
र्वस दान दीन्ह सब काहू ॥ जेहिं पावा राखा न हि ताहू ॥ मृग
मद चन्दन कुंकुम कीचा ॥ मची सकल बीथिन बिच बीचा ॥
दोहा ॥ गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटेउ सुखमा कन्द ॥ हर
षवन्त सब जहँ तहँ नगर नारि नर वृन्द ॥ २३९ ॥ **चौपाई** ॥ केक
यसुता सुमित्रा दोऊ ॥ सुन्दर सुत जन्मत भये ओऊ ॥ वह सुख
सम्पति समय समाजा ॥ कहि न सकै शारद अहिराजा ॥ अव
धपुरी सोहै एहि भांती ॥ प्रभुहिं मिलन आई जनु राती ॥ देखि भा
नु जनु मन सकुचानी ॥ तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ अगर धू

पजनुबहुअंधियारी॥ उडैअवीरमनहुअरुणारी॥ मन्दि
रमणिसमूहजनुतारा॥ नृपगृहकलशसोइन्दुउदारा॥ भ
वनवेदधुनिअतिमृदुबाणी॥ जनुखगमुखरसमयजनु
सानी॥ कौतुकदेखिपतङ्गभुलाना॥ एकमासतेहिंजातन
जाना॥ दोहा॥ मासदिवसकरदिवसभामरमनजानेकोइ
रथसमेतरविथाकेऊनिशाकवनविधिहोइ॥ १९०॥ चौपा
ई॥ यहरहस्यकाहूंनहिंजाना॥ दिनमणिचलेकरतगुण
गाना॥ देखिमहोत्सवसुरमुनिनागा॥ चलेभवनवरण
तनिजभागा॥ औरोएककहौंनिजचोरी॥ सुनुगिरिजाअ
तिदृढमतितोरी॥ काकभुसुण्डिसंगहमदोऊ॥ मनुज
रूपजानैनहिंकोऊ॥ परमानन्दप्रेमसुखफूले॥ बीथि
नफिरहिंमगनमनभूले॥ यहसवचरितजानपैसोई॥
कृपारामकीजापरहोई॥ तेहिंअवसरजोजेहिंविधिआवा
दीन्हभूपजोजेहिंमनभावा॥ गजरथतुरगहेमगोहीरा॥
दीन्हेंनृपनानाविधचीरा॥ दोहा॥ मनसन्तोषेसबनिके
जहंतहंदेहिंअशीशा॥ सकलतनयचिरजीवहुतुलसि
दासकेईशा॥ १९१॥ चौपाई॥ कछुकदिवसबीतेयहिभांती॥
जातनजानहिंदिनअरुराती॥ नामकरणकरअवसरजानी

भूपबोलिपठयेमुनिज्ञानी॥ करिपूजाभूपतिअसभाषा
धरियनामजोमुनिगुणिराषा॥ इनकेनामअनेकअनूपा
मैंनृपकहबस्वमतिअनुरूपा॥ जोआनन्दसिंधुसुखराशी
सीकरतेंत्रैलोकनिवासी॥ सोसुखधामरामअसनामा॥
अखिललोकदायकविश्रामा॥ विश्वभरणपोषणकरु
जोई॥ ताकरनामभरतअसहोई॥ जाकेसुमिरणतेंरिपु
नाशा॥ नामशत्रुहनवेदप्रकाशा॥ दोहा॥ लक्षणधाम
रामप्रियसकलजगतआधार॥ गुरुवशिष्ठतेहिंराखेउ
लक्ष्मणनामउदार॥ २५२॥ चौपाई॥ धरेनामगुरुहृदयवि
चारी॥ वेदतत्वनृपतवसुतचारी॥ मुनिजनधनसर्वस्वशि
वप्राणा॥ बालकेलिरसतेहिंसुखमाना॥ बारेहितेंनिज
हितपतिजानी॥ लक्ष्मणरामचरणरतिमानी॥ भरतश
त्रुहनदोनोभाई॥ प्रभुसेवकजसप्रीतिबडाई॥ श्यामगौर
सुन्दरदोउजोरी॥ निरखहिंछबिजननीतृणतोरी॥ चारि
उशीलरूपगुणधामा॥ तदपिअधिकसुखसागररामा॥
हृदयअनुग्रहइन्दुप्रकाशा॥ सूचतकिरणमनोहरहासा॥
कबहुंउछंगकबहुंवरपालन॥ मातदुलारैकहिप्रिय
लालन॥ दोहा॥ व्यापकब्रह्मनिरञ्जननिर्गुणविगतवि
नोद॥ सोअजप्रेमभक्तिवशकौशल्याकेगोद॥ २५३॥ चौपाई॥

कामकोटिछबिश्यामशरीरा॥ नीलकञ्जवारिदगंभीरा॥
अरुणचरणपङ्कजनखज्योती॥ कमलदलनवैठेजनुमोती
रेखकुलिशध्वजअंकुशसोहे॥ नूपुरध्वनिसुनिमुनिमनमो
है॥ कटिकिङ्किनीउदरत्रयरेखा॥ नाभिगंभीरजानजेहिंदे
खा॥ भुजविशालभूषणयुतभूरी॥ हियहरिनखशोभाअ
तिरूरी॥ उरमणिहारपदिककीशोभा॥ विप्रचरणदेख
तमनलोभा॥ कम्बुकण्ठअतिचिबुकसुहाए॥ आननअ
मितमदनछबिछाए॥ दुइदुइदशनअधरअरुणारे॥ ना
सातिलककोबरणैपारे॥ सुन्दरश्रवणसुचारुकपोला॥
अतिप्रियमधुरतोतरेबोला॥ नीलकमलदोउनयनविशा
ला॥ विकटभृकुटिलटकनिबरमाला॥ चिक्कणकचकुं
चितगभुआरे॥ बहुप्रकाररचिमातुसंवारे॥ पीतझंगुलि
यातनुपहिराए॥ जानुपाणिविचरतमोहिभाए॥ रूपस
कहिंनहिकहिश्रुतिशेषा॥ सोजानैसपनेहुजिन्हदेषा॥
दोहा॥ सुखसन्दोहमोहपरज्ञानगिरागोतीत॥ दम्पती
परमप्रेमवशकरशिशुचरितपुनीत॥ २४४॥ चौपाई॥
यहिविधिरामजगतपितुमाता॥ कोशलपुरवासिनसु
खदाता॥ जिनरघुनाथचरणरतिमानी॥ तिनकीयहगति
प्रगटभवानी॥ रघुपतिविमुखयत्नकरकोरी॥ कवनशकै

भवबन्धनछोरी॥ जीवचराचरवशकरिराषे॥ सोमाया
प्रभुसोंभयभाषे॥ भृकुटिविलासनचावेताही॥ असप्रभु
छाडिभजियकहुकाही॥ मनक्रमवचनछाडिचतुराई॥
भजतहिंकृपाकरैंरघुराई॥ इहिविधिशिशुविनोदप्रभु
कीन्हा॥ सकलनगरवासिनसुखदीन्हा॥ लैउछङ्गकब
हुंहलरावै॥ कबहुंपालनेंघालिझुलावै॥ दोहा॥ प्रेमम
गनकौशल्यानिशिदिनजातनजान॥ सुतसनेहवशमा
तअतिबालचरितकरिगान॥ २४५॥ चौपाई॥ एकबारज
ननीअन्हवाए॥ करिसिङ्गारपलनापौढाए॥ निजकुल
इष्टदेवभगवाना॥ पूजाहेतकीन्हअसनाना॥ करिपूजा
नैवेद्यचढावा॥ आपुगईजहपाकवनावा॥ बहुरिमात
तहंवांचलिआई॥ भोजनकरतदीखरघुराई॥ गईजननी
शिशुपहंभयभीता॥ देखाबालकतहांपुनीता॥ बहुरि
आइदेखासुतसोई॥ हृदयकंपमनधीरनहोई॥ इहांउहां
दुइबालकदेषा॥ मतिभ्रममोरिकिआनविशेषा॥ देखि
रामजननीअकुलानी॥ प्रभुहंसिदीन्हमधुरमुसकानी॥
दोहा॥ दिखरावामातहिंनिजअदभुतरूपअखण्ड॥ रो
मरोमप्रतिराजहिंकोटिकोटिब्रह्मण्ड॥ २४६॥ चौपाई॥

अगणितरविशशिशिवचतुरानन॥ बहुगिरिसरितसि
न्धुमहिकानन॥ कालकर्मगुणज्ञानस्वभाऊ॥ सोदेखाजो
सुनानकाऊ॥ देखीमायासबविधिगाढी॥ अतिसभीत
जोरैंकरठाढी॥ देखाजीवनचावैजाही॥ देखिभक्तिजोछो
रैताही॥ तनुपुलकितमुखवचननआवा॥ नयनमूंदि
चरणनिशिरनावा॥ विस्मयवन्तदेखिमहतारी॥ भयेब
हुरिशिशुरूपखरारी॥ अस्तुतिकरिनजाइभयमाना॥
जगतपितामैंसुतकरिजाना॥ हरिजननीबहुविधिसमु
झाई॥ यहजनिकतहुंकहसितैंमाई॥ दोहा॥ बारबारकौश
ल्याविनयकरैकरजोरि॥ अबजनिकबहूंव्यापैप्रभुमोहि
मायातोरि॥२४७॥ चौपाई॥ बालचरितहरिबहुविधिकीन्हा॥
अतिआनन्ददासनकहंदीन्हा॥ कछुककालवीतेसब
भाई॥ बडेभयेपरिजनसुखदाई॥ चूडाकरणकीन्हगुरुजा
ई॥ विप्रनपुनिदक्षिणाबहुपाई॥ परममनोहरचरितअपा
रा॥ करतफिरतचारिउसुकुमारा॥ मनक्रमवचनअगोच
रजोई॥ दशरथअजिरविचरप्रभुसोई॥ भोजनकरतबुला
वतराजा॥ नहिआवहिंतजिबालसमाजा॥ कौशल्याज
बबोलनजाई॥ ठुमुकिठुमुकिप्रभुचलहिंपराई॥ निगम

नेतिशिवअन्तनपावा॥ताहिधरैजननीहठिधावा॥धू
सरधूरिभरैतनुआए॥भूपतिविहंसिगोदवैठाए॥दोहा॥
भोजनकरतचपलचितइतउतअवसरपाइ॥भाजिचलैंकि
लकतवदनदधिओदनलपटाइ॥२४८॥चौपाई॥बालचरि
तअतिसरलसुहाए॥शारदशेषशंभुश्रुतिगाए॥जिनक
रमनइनसननहिंराता॥तेजनवञ्चितकियेविधाता॥भए
कुमारजवहिंसवभ्राता॥दीन्हजनेऊगुरुपितुमाता॥गुरु
गृहगएपढनरघुराई॥अल्पकालविद्यासवआई॥जाकी
सहजस्वासश्रुतिचारी॥सोहरिपढयहकौतुकभारी॥वि
द्याविनयनिपुणगुणशीला॥खेलहिंखेलसकलनृपली
ला॥करतलवाणधनुषअतिसोहा॥देखतरूपचराचर
मोहा॥जिनवीथिनविहरहिंसवभाई॥थकितहोहिंसव
लोकलुगाई॥दोहा॥कोशलपुरवासीनरनारीवृद्धअरु
वाल॥प्राणहूंतेंप्रियलागहिंसवकहंरामकृपाल॥२४९
चौपाई॥वन्धुसखासंगलेहिंवुलाई॥वनमृगयानितखे
लहिंजाई॥पावनमृगामारहिंजियजानी॥दिनप्रतिनृप
हिंदेखावहिंआनी॥जेमृगराजवाणकेमारे॥तेतनुतजि
सुरलोकसिधारे॥अनुजसखासंगभोजनकरहीं॥मातपि

ताअज्ञाअनुसरहीं॥ जेहिंबिधिसुखीहोंहिंपुरलोगा॥
करहिंकृपानिधिसोइसयोगा॥ वेदपुराणसुनहिंमना-
लाई॥ आपुकहहिंअनुजहिंसमुझाई॥ प्रातकालउठिके
रघुनाथा॥ मातपितागुरुनावहिंमाथा॥ आयसुमांगिक
रहिंपुरकाजा॥ देखिचरितहरषहिंमनराजा॥ दोहा॥
व्यापकअकलअनीहअजनिर्गुणनामनरूप॥ भक्तहे
तनानाविधहिंकरतचरित्रअनूप॥ २५०॥ चौपाई॥ यहस
वचरितकहामैंगाई॥ आगिलकथासुनहुमनलाई॥ वि
स्वामित्रमहामुनिज्ञानी॥ वसहिंविपिनशुभआश्रमजा
नी॥ तहंजपयज्ञयोगमुनिकरहीं॥ अतिमारीचसुबाहु
हिंडरहीं॥ देखतयज्ञनिशाचरधावहिं॥ करहिंउपद्रव-
मुनिदुखपावहिं॥ गाधितनयमनचिन्ताव्यापी॥ हरिबि
नुमरहिंननिशाचरपापी॥ तबमुनिवरमनकीन्हविचा
रा॥ प्रभुअवतरेउहरणमहिभारा॥ एहूमिसदेखौंप्रभु
पदजाई॥ करिविनतीआनौंदोभाई॥ ज्ञानविरागसक
लगुणअयना॥ सोप्रभुमैंदेखबभरिनयना॥ दोहा॥
बहुविधिकरतमनोरथजातनलागीवार॥ करिमज्जन
सरजूसलिलगयेभूपदरबार॥ २५१॥ चौपाई॥ मुनिआ

गमनसुनाजबराजा॥ मिलनगयउलैविप्रसमाजा॥ क
रिदंडवतमुनिहिंसनमानी॥ निजआसनबैठारिनआनी
चरणपखारिकीन्हअतिपूजा॥ मोसमआजुधन्यनहिंदूजा॥
विविधभांतिभोजनकरवावा॥ मुनिवरहृदयहर्षअतिपावा
पुनिचरणनमेलेसुतचारी॥ रामदेखिमुनिविरतिविसारी
भयेमगनदेखतमुखशोभा॥ जनुचकोरपूरणशशिलोभा॥
तबमनहर्षिवचनकहराऊ॥ मुनिअसकृपाकीन्हनहिंकाऊ
केहिंकारणआगमनतुम्हारा॥ कहहुसोकरतनलाउबवारा
असुरसमूहसतावहिंमोही॥ मैंयाचनआयउंनृपतोही॥ अ
नुजसमेतदेहुरघुनाथा॥ निशिचरवधमैंहोबसनाथा॥ दोहा
देहुभूपमनहर्षिततजहुमोहअज्ञान॥ धर्मसुयशनृपतु
मकहंइनकहंअतिकल्याण॥२५२॥ चौपाई॥ सुनिराजाअति
अप्रियबाणी॥ हृदयकंपमुखदुतिकुम्हिलानी॥ चौथेपन
पायउंसुतचारी॥ विप्रवचननहिंकहेहुविचारी॥ मांगहुभू
मिधेनुधनकोषा॥ सर्वस्वदेउंआजुसहरोषा॥ देहप्राणतेंप्रि
यकछुनाहीं॥ सोउमुनिदेउंनिमिषएकमांहीं॥ सबसुतप्रि
यमोहिप्राणकिनाईं॥ रामदेतनहिंबनैगुसांई॥ कहंनिशि
चरअतिघोरकठोरा॥ कहंसुन्दरसुतपरमकिशोरा॥ सुनिनृ

पगिराप्रेमरससानी॥ हृदयहर्षमानामुनिज्ञानी॥ तबवसि
ष्ठबहुविधिसमुझावा॥ नृपसन्देहनाशकहंपावा॥ अति
आदरदोउतनयबुलाये॥ हृदयलाइबहुभांतिसिखाये॥ मेरे
प्राणनाथसुतदोऊ॥ तुममुनिपिताआननहिंकोऊ॥ दोहा॥
सौंपेभूपतिऋषिहिंसुतबहुविधिदेइअशीस॥ जननीभ
वनगएप्रभुचलेनाइपदशीस॥ २५३॥ सोरठा॥ पुरुषसिंह
दोउवीरहर्षिचलेमुनिभयहरण॥ कृपासिन्धुमतिधीरअखि
लविश्वकारणकरण॥ २५४॥ चौपाई॥ अरुणनयनउरबाहु
विशाला॥ नीलजलजतनुश्यामतमाला॥ कटिपटपीत
कसेंवरभाथा॥ रुचिरचापसायकदुहुंहाथा॥ श्यामगौरसु
न्दरदोउभाई॥ विश्वामित्रमहानिधिपाई॥ प्रभुब्रह्मण्यदेवमैं
जाना॥ मोहितपितातजेउभगवाना॥ चलेजातमुनिदीन्हदि
खाई॥ सुनिताडकाक्रोधकरिधाई॥ एकहिंबाणप्राणहरि
लीन्हा॥ दीनजानितेहिंनिजपदीन्हा॥ तबऋषिनिजनाथ
हिंजियचीन्हा॥ विद्यानिधिकहंविद्यादीन्हा॥ जातेंलागनक्षु
धापियासा॥ अतुलितबलतनतेजप्रकाशा॥ दोहा॥ आयु
धसकलसमर्पिकरिप्रभुनिजआश्रमआनि॥ कन्दमूलफ
लभोजनदिएभक्तहितजानि॥ २५५॥ चौपाई॥ प्रातकहा

मुनिसनरघुराइ॥ निर्भययज्ञकरहुतुमजाई॥ होमकरण
लागेमुनिझारी॥ आपुरहेमखकीरखवारी॥ सुनिमारीच
निशाचरक्रोही॥ लैसहायधावामुनिद्रोही॥ बिनुफरबाण
रामतेहिंमारा॥ शतयोजनगासागरपारा॥ पावकशरसुबा
हुपुनिमारा॥ अनुजनिशाचरकटकसंघारा॥ मारिअसुरद्वि
जनिर्भयकारी॥ अस्तुतिकरहिंदेवमुनिझारी॥ तहंपुनिक
छुकदिवसरघुराया॥ रहेकीन्हविप्रनपरदाया॥ भक्तिहेतु
बहुकथापुराणा॥ कहेविप्रयद्यपिप्रभुजाना॥ तबमुनिसा
दरकहाबुझाई॥ चरितएकदेखियप्रभुजाई॥ धनुषयज्ञसुनि
रघुकुलनाथा॥ हर्षिचलेमुनिवरकेसाथा॥ आश्रमएकदी
खमगमाहीं॥ खगमृगजीवजन्तुतहंनाहीं॥ पूछामुनिहिं
शिलाप्रभुदेखी॥ सकलकथाऋषिकहीविशेषी॥ दोहा॥ गौ
तमनारीश्रापवशउपलदेहधरिधीर॥ चरणकमलरजचा
हतिकृपाकरहुरघुवीर॥ २१६॥ छन्दः॥ परसतपदपावन
शोकनशावनप्रगटभईतपपुंजसही॥ देखतरघुनायकज
नसुखदायकसम्मुखहोइकरजोरिरही॥ ५५॥ अतिप्रेमअ
धीरापुलकशरीरामुखनहिंआवैवचनकही॥ अतिशयबड़
भागीचरणनिलागीयुगलनयनजलधारबही॥ ५६॥ धीर

जमनकीन्हाप्रभुकहंचीन्हारघुपतिकृपाभक्तिपाई॥ अति
निर्म्मलबाणीअस्तुतिठानीज्ञानगम्यजयरघुराई॥५७॥ मैं
नारिअपावनप्रभुजगपावनरावणरिपुजनसुखदाई॥ रा
जीवलोचनभवभयमोचनपाहिपाहिशरणहिंआई॥५८॥
मुनिशापजोदीन्हाअतिभलकीन्हापरमअनुग्रहमैंमाना॥
देखेउंभरिलोचनहरिभवमोचनयहैलाभशङ्करजाना॥५९॥
बिनतीप्रभुमोरीमैंमतिभोरीनाथनबरमांगौंआना॥ पदप
द्मपरागारसअनुरागाममभनमधुपकरैपाना॥६०॥ जेहिं
पदसुरसरितापरमपुनीताप्रगटभईशिवशीसधरी॥ सो
ईपदपङ्कजजेहिंपूजतअजममशिरधरेउकृपालहरी॥६१॥
यहिभांतिसिधारीगोतमनारीबारबारहरिचरणपरी॥
जोअतिमनभावासोवरपावागइपतिलोकआनन्दभरी॥६२

दोहा॥ असप्रभुदीनबन्धुहरिकारणरहितकृपाल॥ तुल
सीदासशठताहिभजुछाडिकपटजञ्जाल॥२५१॥ चौपाई॥

चलेरामलक्ष्मणमुनिसंगा॥ गएजहांजगपावनिगंगा॥
यहप्रसङ्ग॥ अनुजसहितप्रभुकीन्हप्रणामा॥ बहुप्रकार
सुखपाएउरामा॥ पुनिसुरसरिउतपतिरघुराई॥ कौशिक
पहंहुकथाशिरनाई॥ कहमुनिप्रभुतबकुलएकराजा॥ ना

मसगरतिहुंलोकबिराजा॥ नृपकेंगुणभामिनिसुकुमा
री॥ केशिनिज्येष्ठसुमतिलघुप्यारी॥ सबप्रकारसंपतिगु
णभ्राजा॥ सुतविहीनमनविस्मयराजा॥ एकसमयभामि
नीदोऊसाथा॥ बनतपहेतुगएउरघुनाथा॥ सघनसुफल
तरुसुन्दरनाना॥ तहंभृगुमुनितपतेजनिधाना॥ दोहा॥
सहितनारिनृपमुदितमनरहेबरषशतएक॥ कीन्हातप
भलदेखिभृगुअस्तुतिकीन्हअनेक॥ २५८॥ चौपाई॥ कहि
निजदुखप्रणामनृपकीन्हा॥ दैअशीशतबमुनिबरदीन्हा
नृपरानीसनमुनिअसभाषा॥ लेउसोवरजोजिहिंअभिला
षा॥ सुनिमुनिचरणशीशतिन्हनावा॥ देउनाथतुमकहं
जोभावा॥ एकहिंएककहासुतहोना॥ दुसरिसहससुसादि
गुणलोना॥ हर्षितभयेउसुभगवरपाई॥ हाथजोरिचरण
निशिरनाई॥ सहितभामिनिन्हअवधहिंआयेउ॥ हर्षसहि
तकछुदिवसगमायेउ॥ जानिसुवरीनखतसुखदाई॥ त
बकेशिनिअसमंजसजाई॥ सुमतिप्रसबतमरीएकसोई॥
भएसुतप्रगटकहेमुनिजोई॥ हर्षसहितदियेदाननरेशू॥
पूजिविप्रगुरुगौरिगणेशू॥ चूनबसुन्दरतरतमंगाए॥ ते
सबसुतनृपतिन्हमजंगाए॥ दोहा॥ हरिबिधिभएतिहिं

रामा०
बा०
७४

74

सकलसुतपूजेसबमनकाम॥जाहिंदिवसनिशिहर्षेव
शासुनहुरामघनश्याम॥२५९॥चौपाई॥परिजनसबघर
घरनिनरेशू॥अतिआनन्दतनुमिटाकलेशू॥बालकेलि
करिभएउकुमारा॥लीलाकरैंअगमसंसारा॥हौंहिंसुका
जसकलमनचीते॥इहिंसुखवसतबहुतदिनबीते॥सर
जूनदीअवधिजोअहई॥विमलसलिलउत्तरदिशिबहई॥
प्रजालोगकेबालकनाना॥नित्तउठितहांकरहिंअसनाना
असमञ्जसतहांतरणीआनी॥तिन्हहिंचढाइबोरगहिपानी
भएप्रजासबपरमदुखारी॥बालकवधअवसुनहुखरारी
सकलगएजहंबैठनृपाला॥बोलेवचननाइपदलाभा॥त
जबदेशवरुसुनहुनरेशू॥विनानजैंनहिमिटबकलेशू॥
तुमनृपचहहुप्रजाप्रतिपाला॥सुततुम्हारभासबकरका
ला॥दोहा॥तवसुतकीन्हेपापबहुमारेबालकवृन्द॥तु
मकहंप्राणसमानसुतसकलप्रजनिकहंमन्द॥२६०॥
चौपाई॥प्रजागिरासुनिधीरजदीन्हा॥सुतहिंदेशतैंबा
हरकीन्हा॥तासुतनयजगविदितप्रभाऊ॥गुणनिधि
अंशुमानतिहिंनाऊ॥वसतहृदयनृपकेसोकैसें॥फणि
मणिमीनसलिलरहजैसें॥गएप्रजासबनिजनिजधामा

रागिणी
खंभावती
१

भयेविशोचमनहिंविश्रामा॥बहुरिनृपतिमनकीन्हवि
चारा॥आइभयेउपनचौथदमारा॥द्विजमंत्रिनिगुरुसुत
निबुलाए॥हिमगिरिविंध्यमध्यतबआए॥रुचिरबेदि
काएकबनाई॥देखतबनैबरणिनद्विजाई॥मखआरम्भ
कीन्हेउतबबरगा॥वेगवन्तदेखियजिमिउरगा॥दोहा॥
सुरपतिसुनिमखदारुणमनमहंकरिअनुमान॥आइ
तुरगतिन्हलीन्हेउमरमनकोऊजान॥२८॥चौपाई॥
राखेउआनिकपिलमुनिपाहीं॥कोऊनजानकाहुग
तिनाहीं॥युगवतरहैजेसुभटसयाने॥लेततुरगतिन
हूंनहिजाने॥तिनसबआइकहानृपपाहीं॥महाराज
हमकहतउराहीं॥लीन्हतुरगयहजाननकोई॥कहाक
रीयसोइआयसुहोई॥सुनतवचननृपविस्मयपायउ॥
सकलसुतनकहंतुरतबुलायउ॥जाइतुरगतुमहेरहु
जाई॥सकलचलेचरणनिशिरनाई॥सुरपतिसमदेवी
यबलबीरा॥सकलधनुर्धरअतिरणधीरा॥तिनहिंच
लतधरणीअकुलाई॥बलिपशुजीवभएसबआई॥सु
मनबाटिकाउपवनबागा॥सरितकूपवापिकातडागा
नगरगाउमुनिआश्रमनाना॥गिरिकाननकन्दरअस्था

ना॥सोरठा॥इहि बिधि खोजे जाइ आप सब मिलि भू
पपहि॥चरण निमाथो नाइ बोले प्रभु कहं अग्यनहि॥२८४
चौपाई॥खोज महि सुत फेरि पठाए॥चलै सकल पूरब दि
शि आए॥तिनके कर जनु वज्र समाना॥योजन भरि खोद
हिं बलवाना॥देखि अतल बल बिबुध उराने॥मरिहहिं
कहि विरञ्चि सन माने॥शोधत मही पाताल सब आए
दिग्गज देखि सब निसिर नाए॥तिहिं एका सब कथा
सुनाए॥बहुरि सकल दक्षिण दिशि आए॥इहि विधि सु
नि दूसर गज देखा॥अति उतंग गुण विमल विशेषा॥ना
इ कहं प्रणाम पुनि कीन्हा॥चले सकल पश्चिम चित दीन्हा
तीसर देखि प्रदक्षिणा कीन्हा॥पुनि उत्तर दिशि सोधन।
लीन्हा॥दिग्गज श्वेत देखि सुख पाए॥सकल कपिल
मुनि पर चलि आए॥खोदि सि मही कोउ पार न पावा॥।
सोई भा चलहुं दिशि जलधि सुहावा॥दोहा॥देखि सि
आइ तरहुं तब बांधा मुनिवर पास॥बोले बचन सक्रुद्ध।
हइ भा चहहु सब करनाश॥२८३॥चौपाई॥खोदा मही ह
म चारिहु कोथा॥रे रे दुष्ट बहुत तो हि शोधा॥कोऊ कह
चोर दीख बहु होई॥इहि सम छली अबर नहि कोई॥स

ननबचनसुनिचितबाजबहीं ॥ भएभस्मतणमहंसबत
बहीं ॥ उमावचनजिन्हिंसमुझिनबोला ॥ सथाहोइविप
तिन्हिंक्रमडोला ॥ पावकजानिथरैंकरप्राणी ॥ जरहिंन
काहेतेअभिमानी ॥ जानिगरलजेसंग्रहकरहीं ॥ सुनऊ
रामतेकाहेनमरहीं ॥ क्रोधकीन्हबिनकरैंबिचारा ॥ भएस
कलतिन्हिंतेंजरिछारा ॥ इहांनृपतिअंसुमानबुलाएऊ ॥
नहिंआएसुततिन्हहिंपठाएऊ ॥ दोहा ॥ दीन्हीनृपतिआ
षीषातबहुतिहितबारहिंबार ॥ वेगिफिरऊलैतुरगसु
तमेरेप्राणआधार ॥ २६४ ॥ चौपाई ॥ चलेऊनाईपदशीशा
कुमारा ॥ बिस्मभक्रतिकूलउजिआरा ॥ जहंकङंनिर
खिमुनिनिकेधामा ॥ पूछिखबरिकरिदएउप्रणामा ॥
चलेमुनिन्हसनपाइआशीषा ॥ खोजऊपैंहऊजाइमही
षा ॥ इहिंविधिखोजतमगमहजाता ॥ मिलेउगरुडसम
तिकरभ्राता ॥ चरणपरततबआशिषदएऊ ॥ जरेसकल
जिहिंविधिसोकहेऊ ॥ सुननतहिंवचनशोचभाभारी ॥ लै
खगेशदेखएउजलबारी ॥ अंसुमाननतहंमज्जनकीन्हा ॥
क्रमक्रमसबहिंतिलाञ्जलिदीन्हा ॥ बहुरिगरुडबोलेसु
नुभ्राता ॥ मैंनोहिकहौंकरैएकबाता ॥ सोरठा ॥ करुसुनसो
इउपाइगङ्गाआवहिंअवनिमहं ॥ दरशानतेंसबजाइमज्जन ।

कीन्हे परम हित ॥२६५॥ चौपाई ॥ षट् शत सहस्र सबत।
रिह हिंइ हि विधि ॥ गङ्गा पाइ परम पावन निधि ॥ सुनि अ
स वचन हृदय अति भाए ॥ सहित गरुड मुनिवर पहिं आए
तब खगेश मुनि चरणनि नायेऊ ॥ पूरब कथा नृप के रिस
नायेऊ ॥ आशिष देइ तुरग मुनि दीन्हा ॥ हर्षित हृदय गवन
तब कीन्हा ॥ नगर समीप गरुड पहुंचाई ॥ गयेउ भवन तब
निज खगराई ॥ इहां तुरङ्ग लेइ नृप पहिं सिर नाई ॥ षष्ठि सह
स्र शत मरण सुनाई ॥ विस्मय हर्ष विवस नृप भएऊ ॥ की
न्ह जज्ञ दान बहु दएऊ ॥ बहु विधि नृपति राज तब कीन्हा
प्रजा लोगन कहं अति सुख दीन्हा ॥ दोहा ॥ मनु कहं राज।
देइ नृप आपु गएऊ सुर धाम ॥ सुर सरि मही आए विना
मनु न लहैं विश्राम ॥२६६॥ चौपाई ॥ तासु तनय दिलीप
भएऊ ॥ मनु तप हेतु उत्तर दिशि गएऊ ॥ अति हिय अगम
तप कीन्ह नृपाला ॥ भए कालवश गएं कछु काला ॥ कि
हिं विधि कहौं दिलीप प्रभुताइ ॥ सेवहिं सकल नृपति ति
हिं आइ ॥ युग वत जासु सुख सुरपति रहई ॥ महिमा तासु
कवन कवि कहई ॥ भागीरथ अस सुत भएउ तासु ॥ पितु
सम नीति अधिक उतर तासु ॥ तिन्ह हिं बोलि तब दीन्हेउ रा
ज ॥ आपु चलेउ दिन पके काज ॥ मन महं करत पयस्य अनुमा

ना॥सुरसरिआवतजौंनतप्राणा॥जिमिमनुतनुदीन्हेति
मिटेऊ॥फिरिनिजनगरकनाउनलेऊ॥इहिविधिकरत
विचारभुवाला॥जाइकीन्हतपपरमविशाला॥सोरठा॥॥
करतविचारभुवालजाइकीन्हवनप्रबलतप॥वीतेकछुप
ककालदेहतजीकोउप्रगटनहि॥२६७॥चौपाई॥सुरसरि
लागितजेंतनभूपा॥सोतजिमूढपिअहिंजलकूपा॥इहां
भगीरथमनअसभएऊ॥पितनआववऊदिनचलिगएऊ
ककुतस्थनामतनयएकरहेऊ॥दीन्हाराजनीतिबहुकहे
ऊ॥कहिसबपूर्बकथासुतपाहा॥दीन्हअशीषचलेउन
रनाहा॥निकसतनगरसगुनभलपाए॥अतिहिनिबिउव
ननहांनृपआए॥देखिभगीरथमनअतिभावा॥सुरसरिहे
ततपहिंमनलावा॥एकचरणदोउभुजाउठाए॥रविसन्मु
खचितवहिंमनलाए॥वर्षसहसबीतेइहिभांती॥जातन
जानहिदिनअरुराती॥देखिउग्रतपविधिचलिआए॥बो
लेनृपसनवचनसुहाए॥चांहहिंनृपसुलेहुवरदाना॥बो
लेउनृपकरिअजहिप्रणामा॥जोमांगौंसोजानतअहहू॥।
सोमुहिमनमांगनप्रभुकिमिकहहू॥सोरठा॥तदपिकहौंप्र
भुदेहुवरशुभसन्तानवहु॥हमसैंकरउसनेहुगङ्गाआवहिअव

निमद॥२३८॥चौपाई॥एवमस्तुकहिपुनिविधिकहहीं
सुरसरिदेंउराखिकोसकहीं॥छूटेंजाइपुनितरतरसात
ल॥फिरहिनत्रृपतिसुनियमोभूतल॥तिहितेकहौएक
ताहिपांहीं॥अतिदयालुशङ्कुरमनमांहीं॥सोइसकैराखि
देवसरिआजू॥ताहिंजपेतबहोइहिंकाजू॥असकहिवि
धिअन्तरहितभएऊ॥बहुरिभगिरथशिवतपठएऊ॥वि
विधवर्षअंगुष्ठअधारा॥वारबारशिवनामउचारा॥शिव
कृपालुप्रगटेतबआई॥हाथजोरिनृपकहसिरनाई॥मैं
राखबसुरसरिताकहिईशा॥बहुरिउमापतिगएकैलासा
दोहा॥उहांदेवसरिशिववचनसुनिमनकीन्हविचार॥
जाउरसातलशिवसहितजातनलावौंवार॥२३९॥चौपाई
अन्तरजामीशिवरचाउपाई॥निजसिरजटासुअगमवना
ई॥इहांभगीरथअस्तुतिकीन्ही॥सुनिमृदुगिराछांडिवि
धिदीन्ही॥छूटनसोरभएउअतिभारी॥चकितदेवअहिदि
ग्गजचारी॥सुरसरिआइशिवजटासमानी॥एकवर्षत
हँरहीभुलानी॥कौतुकदेखिसकलसुरहर्षे॥कहिजय
जयतिसुमनतिन्हवर्षे॥बहुरिभगीरथसुमिरणकीन्हा
शिवतबउरिबून्दएकदीन्हा॥तिहिंतेंभईतीनितबधारा॥

एकगईनभएकपताराागईनभसोअवसोद्वकीसांपिनि
देवनिपरानाममन्दाकिनिासोरठाादूसरीगईपतालनाम
प्रभावतिहरणिदुखातीसरिगङ्गःविशालसुरसन्तनिक
हकरणिसुखा।२३०।चौपाईआइभगीरथतबशिरनावा
बोलीसुरसरिबिचनसुहावावेगवन्तनृपरथतैंआनूा।
तरगमरूतसुभगतिजिमिभानूातिहिंरथचढिनृपचलु
ममआगेंाचलिहौंमैंतवपाछेंलागेंासुनिनृपतुरतदिव्य
रथआनााचढउहृदयसुमिरतभगवानााचलीअग्रक
रिनृपहिंसुरसरीादेवन्हमुदितसुमनझरकरीाचलत
तेजकछुवरणिनजाईाटूटहितरुगिरिशिलासुहाई।।
करहिंकुलाहलजीवबहुजातीाकमठनक्रझषव्यालब
हुभांतिामज्जनकरहिंदेवताआईामुनिगणसिद्धरहैंतहं
छाईासोरठाातपनकरमनलाइहर्षहृदयनहिजातकहि
दरशनतैंअघजाइतरहिंसकलसुरमुनिकहंहिा२३१।चौ
पाईाकरिजोमज्जनतपमनलाइहिातिहिकीमहिमाकहि
नसिराइहिास्यन्दनपरनृपसोहइकैसेंातेजवन्तरविदेखि
यजैसेंालांघतशैलसुहावनदेशाापाछेंसुरसरिअघनरे
शााहरिद्वारसमीपतबआइातीर्थदेखिसुरसरिमनभाइ।।

रा०मा०
बा०
७८

78

तीरथउँमनभासुखभारी॥ आउप्रयागपडुंचीअघहारी॥
तहांमज्जनकीन्हेंदुखजाई॥ बहुरिदेवसरिकाशीआई॥ सो
शिवपुरीसहजसुखदाई॥ वरणिनजाइमनोहरताई॥ औ
रोतीर्थविविधविधिजानी॥ गईतहांकिमिकहौबखानी॥
मगलोगनकहंकरतिसनाथा॥ जाइचलीइहिविधिरघुना
था॥ दोहा॥ मिलीबहोरिउदधिमहंउदधिहृदयहरषान॥
लगेउसराहनभगीरथहितममसमधन्यनआन॥ २७२॥ चौ
पाई॥ कीन्हेउअसजशकरइनकोई॥ तपमहिमाबलकाई
नहोई॥ सगरतनयतरेततकाला॥ हर्षवन्ततबभएउभुवा
ला॥ औरोरहेजेकुलमहंकोऊ॥ तिन्हकेसकुंतरेसबओऊ॥
सकलसुरन्हसकुंतहांविधाता॥ नृपसनआइकहीअसिवा
ता॥ धन्यभगीरथजगयपशालपऊ॥ तुमसमाननृपअवरन
भएऊ॥ आपनिसत्यप्रतिज्ञाकरेऊ॥ संमतवेदसबहिंसुखद
एऊ॥ गङ्गासागरसबकोऊकहहीं॥ अबउलूकदेखतरवि
दुरहीं॥ भागीरथीअसनामकहेंहीं॥ सुरमुनिनागसिद्धय
पामहैंहीं॥ असकहिविधिनिजलोकसिधाए॥ इहांभगीर
थअतिसुखपाए॥ छन्दः॥ पापअमितसवबहुरिपूजेउसु
रसरिहिमनलाइकें॥ तबदीन्हआशिषमुदितगङ्गानृपम

वनगएसुखपाइकैं॥६२॥ दुइहिंभांतिसुनिगङ्गाकथातब
रामऋषिचरणनिनए॥ कहदाससुतुलसीरामलक्ष्मणदुहिंम
हामुनिआशिषदए॥६४॥ दोहा॥ कौशिकआशिषअमीयस
मसुनिहर्षेरघुनाथप्रभुसुखपाइकहाबहुरिवेगिचलिय
मुनिनाम॥२२३॥ यहतकक्षेपकहै॥ चौपाई॥ गाधिसुवन
सबकथासुनाई॥ जेहिंप्रकारसुरसरिमहीआई॥ तवप्रभु
ऋषिनसमेतअन्हाए॥ विविधदानमहिदेवनपाए॥ हरषि
चलैमुनिवृन्दसहाया॥ वेगिविदेहनगरनियराया॥ पुरर
म्यतारामजवदेषी॥ हर्षेअनुजसमेतविशेषी॥ वापीकूपस
रितसरनाना॥ सलिलसुधासममणिसोपाना॥ गुञ्जतमंजु
मत्तरसभृङ्गा॥ कूंजतकलबहुवरणविहङ्गा॥ वरणवरण
विकसेजलजाता॥ त्रिविधसमीरसदासुखदाता॥ दोहा॥ सु
मनवाटिकावागवनविपुलविहङ्गनिवास॥ फूलतफल
तसुपल्लवितसोहतपुरचहुंपास॥२२४॥ चौपाई॥ वनैंनवर
णतनगरनिकाई॥ जहांजाइमनतहांलुभाई॥ चारुबजा
रविचित्रअटारी॥ मणिमयविधिजनुस्वकरसंवारी॥ धनि
कवणिकवरधनदसमाना॥ बैठेसकलवस्तुलैनाना॥ चौह
टसुन्दरगलीसुहाई॥ सन्ततरहहिंसुगन्धसिचाई॥ मङ्गल

रा०म० बा० ७४

मयमन्दिरसबकेरे॥ चितितजनुरतिनाथचितेरे॥ पुरनर नारिसकलसुचिसन्ता॥ धर्मशीलज्ञानीगुणवन्ता॥ अतिअ नूपजहंजनकनिवासू॥ विथकहिविबुधविलोकिविलासू॥ होतचकितचितकोटविलोकी॥ सकलभुवनशोभाजनुरोकी॥ दोहा॥ धवलधाममणिपुरपटुसुघटितनानाभांति॥ सियनिवाससुन्दरसदनशोभाकिमिकहिजाति॥ २१५॥ चौपाय॥ सुभगद्वारसबकुलिशकपाटा॥ भूपभीरनटमागधभाटा॥ बनीविशालवाजिगजशाला॥ हयगजरथसंकुल सबकाला॥ शूरसचिवसेनपबहुतेरे॥ नृपगृहसरिससदनसबकेरे॥ पुरबाहिरसरसरितसमीपा॥ उतरेजहंतहंविपु लमहीपा॥ देखिअनूपएकअंमराई॥ सबसुपाससबभांतिसुहाई॥ कौशिककहेउमोरमनमाना॥ इहांरहियरघुवीरसुजाना॥ भलेहिनाथकहिकृपानिकेता॥ उतरेतहंमुनिवृन्दसमेता॥ विश्वामित्रमहामुनिआए॥ समाचारमिथिलापतिपाए॥ दोहा॥ संगसचिवशुचिभूरिभटभूसुरवरगुरुज्ञाति॥ चलेमिलनमुनिनायकहिंमुदितराउयहिभांति॥ २१६॥ चौपाई॥ कीन्हप्रणामचरणधरिमाथा॥ दीन्हअशीषनृपहिंमुनिनाथा॥ विप्रवृन्दसबसादरबन्दे॥ जानिभा

टोडी २

भागयबडउराउआनन्दे॥ कुशलप्रश्नकहिबारहिंबारा॥ विश्वा
मित्रनृपहिंबैठारा॥ तेहिंअवसरआएदोउभाई॥ गएरहेदे
खनफुलवाई॥ श्यामगौरमृदुबयसकिशोरा॥ लोचनसुख
दविश्वचितचोरा॥ उठेसकलजबरघुपतिआए॥ विश्वामित्र
निकटबैठाए॥ भएसबसुखीदेखिदोउभ्राता॥ वारिविलोचन
पुलकितगाता॥ मूरतिमधुरमनोहरदेषी॥ भयेउविदेहवि
देहविशेषी॥ दोहा॥ प्रेममगनमनजानिनृपकरिविवेकध
रिधीर॥ बोलेउमुनिपदनाइशिरगद्गदगिरागंभीर॥ २१७॥
चौपाई॥ कहहुनाथसुन्दरदोउबालक॥ मुनिकुलतिलककि
नृपकुलपालक॥ ब्रह्मजोनिगमनेतिकहिगावा॥ उभयवेष
धरिसोइकिआवा॥ सहजविरागरूपमनमोरा॥ थकितहोत
जिमिचन्द्रचकोरा॥ तातेंप्रभुपूछौंसदभाऊ॥ कहहुनाथजनि
करहुदुराऊ॥ इनहिविलोकतअतिअनुरागा॥ वरबसब्रह्मसु
खहिंमनत्यागा॥ कहमुनिविहंसिकहेउनृपनीका॥ वचन
तुम्हारनहोइअलीका॥ एप्रियसबहिंजहांलगिप्राणी॥ म
नमुसुकाहिंरामसुनिबाणी॥ रघुकुलमणिदशरथकेजाए॥
ममहितलागिनरेशपठाए॥ दोहा॥ रामलखणदोउबन्धुवर
रूपशीलबलधाम॥ मखराखेउसबसाखिजगजीतिअसुरसं

ग्राम ॥ २२८ ॥ चौपाई ॥ सुनि तव बचन देखि कह राऊ ॥ कहि
न सकौं निज पुण्य प्रभाऊ ॥ सुन्दर श्याम गौर दोउ भ्राता ॥ आन
न्दहू के आनन्द दाता ॥ इन की प्रीति परस्पर पावनि ॥ कहि न जा
इ मन भाव सुहावनि ॥ सुनहु नाथ कह मुदित विदेहू ॥ ब्रह्म जी
व इव सहज सनेहू ॥ पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नरनाहू ॥ पुलक
गात उर अधिक उछाहू ॥ मुनिहिं प्रशंसि नाइ पद शीशा ॥ च
लेउ लवाइ नगर अवनीशा ॥ सुन्दर सदन सुखद सब काला ॥
तहां वास लै दीन्ह भुआला ॥ करि पूजा सब विधि सेवकाई ॥ ग
येउ राउ गृह विदा कराई ॥ दोहा ॥ ऋषय सङ्ग रघुबंश मणि क
रि भोजन विश्राम ॥ बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि याम ॥
२२९ ॥ चौपाई ॥ लखन हृदय लालसा विशेषी ॥ जाइ जनकपु
र आइय देखी ॥ प्रभु भय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं ॥ प्रगट न क
हहिं मनहिं मुसुकाहीं ॥ राम अनुज मन की गति जानी ॥ भ
क्तवत्सलता हिय हुलसानी ॥ परम विनीत सकुचि मुसकाई ॥
बोले गुरु अनुशासन पाई ॥ नाथ लखन पुर देखन चहहीं ॥ प्र
भु संकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ जौं राउर आयसु मैं पाऊं ॥ नगर
देखाइ तुरत लै आऊं ॥ सुनि मुनीश कह वचन सप्रीती ॥ कस न
राम राखहु तुम नीती ॥ धर्म सेतु पालक तुम ताता ॥ प्रेम वि

वससेवकसुखदाता॥दोहा॥ जाइदेखिआवहुनगरसु
खनिधानदोउभाइ॥ करहुसुफलसबकेनयनसुन्दरवद
नदेखाइ॥२८०॥चौपाई॥ मुनिपदकमलबन्दिदोउभ्राता
चलेलोकलोचनसुखदाता॥ बालकबृन्ददेखिअतिशोभा
लगेसङ्गलोचनमनलोभा॥ पीतवसनपरिकरकटिभाथा
चारुचापशरसोहतहाथा॥ तनुअनुहरतसुचन्दनखोरी
श्यामलगौरमनोहरजोरी॥ केहरिकन्धरबाहुविशाला॥
उरअतिरुचिरनागमणिमाला॥ सुभगश्रवणसरसीरु
हलोचन॥ वदनमयङ्कतापत्रयमोचन॥ काननिकनक
फूलछविदेहीं॥ चितवतचितहिंचोरिजनुलेहीं॥ चितव
निचारुभृकुटिवरबांकी॥ तिलकरेखशोभाजनुचांकी॥
दोहा॥ रुचिरचौतनीसुभगशिरमेचककुंचितकेश॥ नख
शिखसुन्दरबन्धुदोउशोभासकलसुदेश॥२८१॥चौपाई॥
देखननगरभूपसुतआए॥ समाचारपुरवासिनपाए॥ धाये
धामकामसबत्यागी॥ मनहुंरङ्कनिधिलूटनलागी॥ निर
खिसहजसुन्दरदोउभाई॥ होहिंसुखीलोचनफलपाई॥
युवतीभवनझरोखनिलागी॥ निरखहिंरामरूपअनुरा
गी॥ कहहिंपरस्परवचनसप्रीती॥ सखिइनकोटिकामक

रामा०
बा०
८१

81

विजीती॥सुरनरअसुरनागमुनिमाहीं॥शोभाअसकहुं
सुनियतनाहीं॥विस्नुचारिभुजविधिमुखचारी॥विकट
वेषमुखपञ्चपुरारी॥अपरदेवअसकोजगआही॥यहछ
विसखिपटतरियैजाही॥दोहा॥वयकिशोरसुखमासदन
श्यामगौरसुखधाम॥अङ्गअङ्गपरवारियेकोटिकोटिश
तकाम॥२८२॥चौपाई॥कहहुसखीअसकोतनुधारी॥जो
नमोहयहरूपनिहारी॥कोउसप्रेमबोलीमृदुबाणी॥जो
मैंसुनासोसुनहुसयानी॥एदोउनृपदशरथकेढोटा॥
बालमरालनिकेकलजोटा॥मुनिकौशिकमखकेरखवा
रे॥जिनरणअजिरनिशाचरमारे॥श्यामगातकलकञ्ज
विलोचन॥जोमारीचसुभुजमदमोचन॥कौशल्यासुत
सोसुखखानी॥नामरामधनुशायकपाणी॥गौरकिशो
रवेषवरकाछे॥करशरचापरामकेपाछे॥लछमणनाम
रामलघुभ्राता॥सुनुसखितासुसुमित्रामाता॥दोहा॥
विप्रकाजकरिबन्धुदोउमगमुनिबधूउधारि॥आएदेख
नचापमखसुनिहरषीसबनारि॥२८३॥चौपाई॥देखिरा
मछबिकोउएककहई॥योग्यजानकीयहवरअहई॥जो
सखिइनहिंदेखिनरनाहू॥पणपरिहरिहठिकरैविवाहू॥

कोउकहएभूपतिपहिचाने॥ मुनिसमेतसादरसनमाने
सखिपरन्तुपणराउनतजई॥ विधिवशहठिअविवेकहि
भजई॥ कोउकहजौभलअहैविधाता॥ सबकहंसुनियउ
चितफलदाता॥ तौजानकिहिंमिलिहिंबरएहु॥ नाहि
नआलियहिंमहंसन्देहु॥ जौविधिवशअसवनैसंयोगू
तौकृतकृत्यहोइसवलोगू॥ सखिहमरैंआरतिअतितातैं
कवहुंकएआवहिंएहिनातैं॥ दोहा॥ नाहिंतहमकहुंसु
नहुसखिइन्हकरदरशनदूरि॥ यहसंघटतवहोइजव
पुण्यपुराकृतभूरि॥ २२४॥ चौपाई॥ वोलीअपरकहेउस
खिनीका॥ यहिविवाहअतिहितसवहीका॥ कोउकह
शङ्करचापकठोरा॥ एश्यामलमृदुगातकिशोरा॥ सव
असमंजसअहैसयानी॥ यहसुनिअपरकहैमृदुवाणी
सखिइनकहंकोउकोउअसकहहीं॥ वडप्रभावदेखतल
घुअहहीं॥ परसिजासुपदपङ्कजधूरी॥ तरीअहल्याकृत
अघभूरी॥ सोकिरहैविनुशिवधनुतोरे॥ यहप्रतीतिपरिह
रियनभोरे॥ जेहिंविरञ्चिरचिसीयसंवारी॥ तेहिंश्यामल
वररचेउविचारी॥ तासुवचनसुनिसवहरषानी॥ ऐसेइहो
उकहहिंमृदुवाणी॥ दोहा॥ हियहरषहिंवरषहिंसुमनसु

रामा॰
बा॰
८२

82

मुखिस्रलोचनिवृन्द ॥ जाहिंजहांजहंबन्धुदोउतहंतहं
परमानन्द ॥ २२५ ॥ चौपाई ॥ पुरपूरबदिशिगेदोउभाई ॥ ज
हांधनुषमखभूमिबनाई ॥ अतिविस्तारचारुगचढारी
विमलवेदिकारुचिरसंवारी ॥ चहुंदिशिकञ्चनमञ्चवि
शाला ॥ रचेजहांबैठहिंमहिपाला ॥ तेहिंपाछेंसमीपच
हुंपासा ॥ अपरमञ्चमण्डलीविलासा ॥ कछुकऊंचसब
भांतिसुहाई ॥ बैठहिंनगरलोगजहंजाई ॥ तिनकेनिक
टविशालसुहाए ॥ धवलधामबहुबरणबनाए ॥ जहंबै
ठेदेखहिंपुरनारी ॥ यथायोग्यनिजकुलअनुहारी ॥ पु
रबालककहिकहिमृदुबचना ॥ सादरप्रभुहिंदेखाव॰
हिरचना ॥ दोहा ॥ सबशिशुएहिमिसप्रेमबशपरसिम
नोहरगात ॥ तनपुलकहिंअतिहर्षहियदेखिदेखिदो
भ्रात ॥ २२६ ॥ चौपाई ॥ शिशुसबरामप्रेमबशजाने ॥ प्रीति
समेतनिकेतबखाने ॥ निजनिजरुचिसबलेहिंबुलाई ॥
सहितसनेहजाहिंदोउभाई ॥ रामदिखावहिंअनुजहिंर
चना ॥ कहिमृदुमधुरमनोहरबचना ॥ लवनिमेषमहंभु
वननिकाया ॥ रचैजासुअनुशासनमाया ॥ भक्तहेतुसो
इदीनदयाला ॥ चितवतचकितधनुषमखशाला ॥ को

तकदेखिचलेगुरुपाहीं॥ जानिबिलम्बत्रासमनमाहीं॥
जासुत्रासडरकहँडरहोई॥ भजनप्रभावदेखावतसोई॥ क
हिबातैंमृदुमधुरसुहाईं॥ कियेविदाबालकबरिआईं॥ दोहा
सभयसप्रेमविनीतअतिसकुचसहितदोउभाइ॥ गुरुपदप
कंजनाइशिरबैठेआयसुपाइ॥ २८७॥ चौपाई॥ निशिप्रवेशमु
निआयसुदीन्हा॥ सबहींसंध्यावन्दनकीन्हा॥ कहतकथाइ
तिहासपुराणी॥ रुचिररजनियुगयामसिरानी॥ मुनिवरश
यनकीन्हतबजाई॥ लगेचरणचापनदोउभाई॥ जिनकेचर
णसरोरुहलागी॥ करतविविधजपयोगविरागी॥ तेदोउबं
धुप्रेमजनुजीते॥ गुरुपदकमलपलोटतप्रीते॥ बारबारमु
निआज्ञादीन्हा॥ रघुवरजाइशयनतबकीन्हा॥ चापतचरण
लषणउरलाए॥ सभयसप्रेमपरमसुखपाए॥ पुनिपुनि
प्रभुकहसोवहुताता॥ पौढेधरिउरपदजलजाता॥ दोहा॥
उठेलषणनिशिविगतसुनिअरुणशिखाध्वनिकान॥ गुरु
तेंपहिलेंजगतपतिजागेरामसुजान॥ २८८॥ चौपाई॥ सकल
सौचकरिजाइनहाए॥ नित्यनिवाहिमुनिहिंशिरनाए॥ सम
यजानिगुरुआयसुपाई॥ लैनप्रसूनचलेदोउभाई॥ भूपबाग
वरदेखेउजाई॥ जहंवसन्तऋतुरहीलुभाई॥ लागेविटपमनो

रामा०
बा०
८३

83

हरनाना॥ बरण बरण बर बेलि बिताना॥ नवपल्लव फल
सुमन सुहाए॥ निज सम्पति सुर रूह लजाए॥ चातक
कोकिल कीर चकोरा॥ कूजत बिहग नटत कल मोरा॥ म
ध्य बाग सर सोह सुहावा॥ मणि सोपान बिचित्र बनावा॥ बि
मल सलिल सरसिज बहुरङ्गा॥ जल खग कूजत गुञ्जत भृ
ङ्गा॥ दोहा॥ बाग तड़ाग बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत॥ पर
म रम्य आराम यह जो रामहिं सुख देत॥ २२९॥ चौपाई॥ चहुं
दिशि चितै पूछि मालीगण॥ लगे लैन दल फूल मुदित मन
तेहिं अवसर सीता तहं आई॥ गिरिजा पूजन जननि पठाई॥
सङ्ग सखी सब सुभग सयानी॥ गावहिं गीत मनोहर बाणी॥
सर समीप गिरिजा गृह सोहा॥ बरणि न जाइ देखि मन मोहा
मज्जन करि सर सखी समेता॥ गई मुदित मन गौरि निकेता॥
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा॥ निज अनुरूप सुभग बर मांगा
एक सखी सिय सङ्ग बिहाई॥ गई रही देखन फुलवाई॥ तेहिं
दोउ बंधु बिलोके जाई॥ प्रेम बिवश सीता पहिं आई॥ दोहा॥
तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन॥ कहु कारण
निज हर्ष कर पूछहिं सब मृदु बयन॥ २३०॥ चौपाई॥ देखन बा
ग कुंवर दोउ आए॥ बय किशोर सब भांति सुहाए॥ प्रणम गौर

किमिकहौंबखानी॥ गिराअनयननयनबिनुबाणी॥ सु
निहरषीसबसखीसयानी॥ सियहियअतिउतकण्ठाजानी
एककहहिनृपसुततेआली॥ सुनेजेमुनिसङ्गआएकाली
निजनिजरूपमोहनीडारी॥ कीन्हेंस्ववशनगरनरनारी॥
बरणतछबिजहँतहँसबलोगू॥ अवशिदेखियैदेखनजो
गू॥ तासुवचनअतिसियहिसोहाने॥ दरशलागिलोचन
अकुलाने॥ चलीअग्रकरिप्रियसखिसोई॥ प्रीतिपुरातन
लखैनकोई॥ दोहा॥ सुमिरिसीयनारदवचनउपजीप्रीति
पुनीत॥ चकितविलोकतिसकलदिशिजनुशिशुमृगीस
भीत॥ २२९॥ चौपाई॥ कङ्कणकिङ्किणिनूपुरध्वनिसुनि॥
कहतलषणसनरामहृदयगुणि॥ मानहुमदनदुन्दुभी
दीन्हा॥ मनसाविश्वविजयकहँकीन्हा॥ असकहिफिरि
चितएतेहिंओरा॥ सियमुखशशिभयेनयनचकोरा॥ भ
येविलोचनचारुअचञ्चल॥ मनहुंसकुचिनिमितजेदृग
ञ्चल॥ देखीसीयशोभासुखपावा॥ हृदयसराहतवचनन
आवा॥ जनुविरञ्चिसबनिजनिपुणाई॥ विरचिविश्वकहँ
प्रगटदिखाई॥ सुन्दरताकहसुन्दरकरई॥ छविगृहदीप
शिखाजनुवरई॥ सबउपमाकविरहेजुठारी॥ केहिंपटत

रियविदेहकुमारी॥ दोहा॥ सियशोभाहियवरणिप्रभु
आपनिदशाविचारि॥ बोलेशुचिमनअनुजसनवचनस
मयअनुहारि॥२२९॥ चौपाई॥ तातजनकतनयायहसोई
धनुषयज्ञजेहिंकारणहोई॥ पूजनगौरिसखीलैआई॥ क
रतिप्रकाशफिरतिफुलवाई॥ जासुविलोकिअलौकिक
शोभा॥ सहजपुनीतमोरमनक्षोभा॥ सोसबकारणजान
विधाता॥ फरकहिंशुभगअंगसुनुभ्राता॥ रघुवंशिनक
रसहजस्वभाऊ॥ मनकुपन्थपगधरैनकाऊ॥ मोहिअ
तिशयप्रतीतिजियकेरी॥ जेहिंसपनेहुपरनारिनहेरी
जिनकीलहहिंनरिपुरणपीठी॥ नहिलावहिंपरतीयमन
डीठी॥ मंगनलहहिंनजिनकेनाहीं॥ तेनरवरथोरेजगमा
हीं॥ दोहा॥ करतबातकहीअनुजसनमनसियरूपलो
भान॥ मुखसरोजमकरन्दछविकरतमधुपइवपान॥२३
चौपाई॥ चितवतिचकितचहूंदिशिसीता॥ कहंगएनृप
किशोरमनचीता॥ जेहिंविलोकिमृगशावकनयनी॥
जनुतहंवर्षकमलसितश्रेणी॥ लताओटतबसखिन
लखाए॥ श्यामलगौरकिशोरसुहाए॥ देखिरूपलोच
नललचाने॥ हर्षेजनुनिजनिधिपहिचाने॥ थकेनयन

रघुपतिछविदेखें॥ पलकनहूंपरिहरीनिमेखें॥ अधिकस
नेहमईभोरी॥ शारदशशिहिंजनुचितवचकोरी॥ लोचन
मगुरामहिंउरआनी॥ दीन्हेपलककपाटसयानी॥ जबसि
यसखिनप्रेमबशजानी॥ कहिनसकहिंकछुमनसकुचानी
दोहा॥ लताभवनतेंप्रगटभए,तेहिंअवसरदोउभाइ॥ निकसे
जनुयुगविमलविधुजलदपटलबिलगाइ॥२२४॥ चौपाई
शोभासींवसुभगदोउबीरा॥ नीलपीतजलजाभशरीरा॥
काकपक्षशिरसोहतनीके॥ गुच्छाबिचबिचकुसुमकली
के॥ भालतिलकश्रमबिन्दुसुहाए॥ श्रवणसुभगभूषण
छबिछाए॥ विकटभृकुटिकचघूंघुरवारे॥ नवसरोजलोच
नरतनारे॥ चारुचिबुकनासिकाकपोला॥ हासविलासले
तमनुमोला॥ मुखछविकहिनजाइमोहिपाहीं॥ जेहिंबि
लोकिबहुकामलजाहीं॥ उरमणिमालकम्बुकलग्रीवा॥
कामकलभकरभुजबलसींवा॥ सुमनसमेतवामकरदो
ना॥ सांवरकुंअरसखीसुठिलोना॥ दोहा॥ केहरिकटिपट
पीतधरसुखमाशीलनिधान॥ देखिभानुकुलभूषणहिं
विसरासखिनअपान॥२२५॥ चौपाई॥ धरिधीरजएकसखी
सयानी॥ सीतासनबोलीगहिपाणी॥ बहुरिगौरिकरध्यान

करेहू॥ भूपकिशोरदेखिकिनलेहू॥ सकुचिसीयतबनय
नउघारे॥ सन्मुखदोउरघुसिंहनिहारे॥ नखशिखदेखिराम
कीशोभा॥ सुमिरिपितापणमनअतिछोभा॥ परवशसखि
नलखीजबसीता॥ भयेउगहरुसबकहहिंसभीता॥ पुनिआ
उबएहिबेरहिंकाली॥ असकहिमनबिहंसीएकआली॥ गू
ढगिरासुनिसियसकुचानी॥ भएउबिलम्बमातुभयमानी
धरिबडिधीररामउरआनी॥ फिरीअपनपौपितुवशजानी
दोहा॥ देखनमिसमृगविहंगतरुफिरैबहोरिबहोरि॥ नि
रखिनिरखिरघुवीरछबिबाढैप्रीतिनथोरि॥२३६॥ चौपाई
जानिकठिनशिवचापबिसूरति॥ चलीराखिउरश्यामल
मूरति॥ प्रभुजबजातजानकीजानी॥ सुखसनेहशोभागु
णखानी॥ परमप्रेममयमृदुमसिकीन्ही॥ चारुचित्तभीतर
लिखिलीन्ही॥ गईभवानीभवनबहोरी॥ बन्दिचरणबोली
करजोरी॥ जयजयजयगिरिराजकिशोरी॥ जयमहेशमु
खचन्द्रचकोरी॥ जयगजवदनषडाननमाता॥ जगतजन
निदामिनिद्युतिगाता॥ नहिंतवआदिमध्यअवसाना॥ अमि
तप्रभावबेदनहिंजाना॥ भवभवविभवपराभवकारिणि॥
विश्वमोहिनिस्ववशविहारिणि॥ दोहा॥ पतिदेवतासुतीयम

ह्मातुप्रथमतवरेष॥महिमाअमितनकहिशकहिंस
हसशारदाशेष॥२५७॥चौपाई॥सेवततोहिसुलभफल
चारी॥वरदायिनित्रिपुरारिपियारी॥देवीपूजिपदकमल
तुम्हारे॥सुरनरमुनिसबहोहिंसुखारे॥मोरमनोरथजान
हुनीके॥बसहुसदाउरपुरसबहीके॥कीन्हेंउप्रगटनका
रणतेही॥असकहिचरणगहेवैदेही॥विनयप्रेमवशभ
ईभवानी॥खसीमालमूरतिमुसकानी॥सादरसियप्रसा
दउरधरेऊ॥बोलीगौरिहर्षहियभरेऊ॥सुनुसियसत्य
असीषहमारी॥पूजिहिंमनकामनातुम्हारी॥नारदवच
नसदाशुचिसांचा॥सोवरमिलिहिंजाहिमनराचा॥छन्दः
मनजाहिंराचेउमिलिहिंसोवरसहजसुन्दरसांवरो॥क
रुणानिधानसुजानशीलसनेहजानतरावरो॥९५॥यहि
भांतिगौरिअसीससुनिसियसहितहियहर्षितअली॥तु
लसीभवानिहिंपूजिपुनिपुनिमुदितमनमन्दिरचली॥९६
सोरठा॥जानिगौरिअनुकूलसियहियहर्षनजायकहि
मंजुलमंगलमूलवामअंगफरकनलगे॥२५८॥चौपाई
हृदयसराहतसीयलुनाई॥गुरुसमीपगवनेदोउभाई॥।
रामकहासबकौशिकपांही॥सरलसुभावछुअछलना

हीं॥ सुमनपाइमुनिपूजाकीन्ही॥ पुनिअसीषदोउभाइन्ह
दीन्ही॥ सफलमनोरथहोउतुम्हारे॥ रामलषणसुनिभ
एसुखारे॥ करिभोजनमुनिवरविज्ञानी॥ लगेकहनकछु
कथापुराणी॥ विगतदिवसमुनिआयसुपाई॥ संध्याक
रणचलेदोउभाई॥ प्राचीदिशिशशिउयेउसुहावा॥ सियमु
खसरिसदेखिसुखपावा॥ बहुरिविचारकीन्हमनमाहीं॥
सीयवदनसमहिमकरनाहीं॥ दोहा॥ जन्मसिन्धुपुनिबं
धुविषदिनमलीनसकलङ्क॥ सियमुखसमतापावकि
मिचन्द्रवापुरोरङ्क॥ २५५॥ चौपाई॥ घटैवढैविरहिनिदुः
खदाई॥ ग्रसैराहुनिजसन्धिहिंपाई॥ कोकशोकप्रदपङ्क
जद्रोही॥ अवगुणबहुतचन्द्रमातोही॥ वैदेहीमुखपटत
रदीन्हें॥ होइदोषवडअनुचितकीन्हें॥ सियमुखछविवि
धुव्याजवखानी॥ गुरुपहिंचलेनिशावडिजानी॥ करि
मुनिचरणसरोजप्रणामा॥ आयसुपाइकीन्हविश्रामा॥
विगतनिशारघुनायकजागे॥ बंधुविलोकिकहनअसला
गे॥ उयेउअरुणअवलोकहुताता॥ पङ्कजकोकलोकसु
खदाता॥ वोलेलषणजोरियुगपाणी॥ प्रभुप्रभावसूचक
मृदुवाणी॥ दोहा॥ अरुणोदयसकुचेकुमुदउडुगणजोति

मलीन॥ तिमितम्हारआगमनसुनिभएनृपतिबलही
न॥२००॥ चौपाई॥ नृपसबनखतकरहिंउजियारी॥ टारि
नशकहिंचापतमभारी॥ कमलकोकमधुकरखगनाना
हरषेसकलनिशाअवसाना॥ ऐसेहिंप्रभुसबभक्ततुम्हा
रे॥ होइहहिंटूटैंधनुषसुखारे॥ उदयभानुविनुश्रमतम
नाशा॥ दुरेनखतजगतेजप्रकाशा॥ रविनिजउदयव्या
जरघुराया॥ प्रभुप्रतापसबनृपनदेखाया॥ तवभुजब
लमहिमाउदघाटी॥ प्रगटीधनुविघटनपरिपाटी॥ बं
धुवचनसुनिप्रभुमुसुकाने॥ होइसुचिसहजपुनीतनन्हा
ने॥ नित्यक्रियाकरिगुरुपहिंआए॥ चरणसरोजसुभग
शिरनाए॥ शतानन्दतबजनकबुलाए॥ कौशिकमुनि
पहिंतुरतपठाए॥ जनकविनयतिनआइसुनाई॥ हर्षेबो
लिलीएदोउभाई॥ दोहा॥ शतानन्दपदबन्दिप्रभुबैठेगु
रुपहिंजाइ॥ चलहुतातमुनिकहेउतबपठवाजनकबुला
इ॥२०१॥ चौपाई॥ सीयस्वयम्बरदेखियजाई॥ ईश्वरकाहि
धौंदेहिबडाई॥ लषणकहाजशभाजनसोई॥ नाथकृपा
तबजापरहोई॥ हर्षेसुनिसबमुनिवरबाणी॥ दीन्हिअशी
षसबहिंसुखमानी॥ पुनिमुनिबृन्दसमेतकृपाला॥ देखन
चलेधनुषमखशाला॥ रङ्गभूमिआएदोउभाई॥ असिसु

धिसवपुरवासिनपाई॥ चलेसकलगृहकाजविसारी॥॥ बालकयुवाजठरननारी॥ देखाजनकभीरभइभारी॥ सुचिसेवकसवलिएहंकारी॥ तुरतसकललोगनपहिंजाहू॥ आसनउचितदेहुसबकाहू॥ दोहा॥ कहिमृदुवचनविनीततिनवैठारेनरनारि॥ उतममध्यमनीचलघुनिजनिजथलअनुहारि॥ २०३॥ चौपाई॥ राजकुवरतेहिअवसरआए॥ मनहुमनोहरतातनछाए॥ गुणसागरनागरवरवीरा॥ सुन्दरश्यामलगौरशरीरा॥ राजसमाजविराजतरूरे॥ उडुगणमहंजनुयुगविधुपूरे॥ जिनकेरहीभावनाजैसी॥ प्रभुमूरतिदेखीतिनतैसी॥ देखहिंभूपमहारणधीरा॥ मनहुंवीररसधरेंशरीरा॥ डरेकुटिलनृपप्रभुहिंनिहारी॥ मनहुंभयानकमूरतिभारी॥ रहेअसुरछलछोणिपवेषा॥ तिनप्रभुप्रगटकालसमदेषा॥ पुरवासिनदेखेदोउभाई॥ नरभूषणलोचनसुखदाई॥ दोहा॥ नारिविलोकहिंहर्षिहियनिजनिजरुचिअनुरूप॥ जनुसोहतश्रृंगारधरिमूरतिपरमअनूप॥ २०३॥ चौपाई॥ विदुषनप्रभुविराटमयदीषा॥ बहुमुखकरपदलोचनशीषा॥ जनकजातिअवलोकहिंकैसें॥ सज्जनसगेप्रियलागहिंजैसें॥ सहितविदेहविलोकहिंराणी॥ शिशुसम

प्रीतिनजातिबखानी॥योगिनपरमतत्वमयभासा॥शा
न्तशुद्धसमसहजप्रकाशा॥हरिभक्तनदेखेदोउभ्राता॥
इष्टदेवइवसबसुखदाता॥रामहिंचितवभावजेहिंसी
या॥सोसनेहसुखनहिकथनीया॥उरअनुभवतिनक
हिसकसोऊ॥कवनप्रकारकहैकविकोऊ॥यहिविधिर
हाजाहिजशभाऊ॥तेहिंतसदेखेउकोशलराऊ॥दोहा॥
राजतराजसमाजमहंकोशलराजकिशोर॥सुन्दरश्या
मलगौरतनुविश्वविलोचनचोर॥२०४॥चौपाई॥सहज
मनोहरमूरतिदोऊ॥कोटिकामउपमालघुसोऊ॥शारद
चन्दनिन्दकमुखनीके॥नीरजनयनभावतेजीके॥चितव
निचारुमारमदहरणी॥भावतिहृदयजायनहिवरणी॥
कलकपोलश्रुतिकुण्डललोला॥चिबुकअधरसुन्दरमृ
दुबोला॥कुमुदबन्धुकरनिन्दकहासा॥भृकुटीविकटम
नोहरनासा भालविशालतिलकझलकाहीं॥कचविलो
किअलिअवलिलजाहीं॥पीतचौतनीशिरनसुहाई॥कुसु
मकलीविचबीचबनाई॥रेखारुचिरकम्बुकलग्रीवा॥ज
नुत्रिभुवनसुखमाकीसीवा॥दोहा॥कुञ्जरमणिकण्ठाक
लितउरतुलसीकीमाल॥वृषभकन्धकेहरिठवनिबलनि
धिबाहुविशाल॥२०५॥चौपाई॥कटितूणीरपीतपटबांधें॥

करशरधनुषवामकरकांधे॥पीतयज्ञउपवीतसुहाए
नखशिखमञ्जुमहाछविछाए॥देखिलोगसबभएसुखा
रे॥एकटकलोचनटरहिंनटारे॥हर्षेजनकदेखिदोउ
भाई॥मुनिपदकमलगहेतबजाई॥करिविनतीनिजक
थासुनाई॥रङ्गअवनिसबमुनिदेखाई॥जहँजहँजाहिं
कुअरवरदोऊ॥तहँतहँचकितचितवैसबकोऊ॥निज
निजरुचिरामहिंसबदेखा॥कोउनजानकछुमर्म्मविशे
षा॥भलिरचनानृपसनमुनिकहेऊ॥राजामुदितमहा
सुखलहेऊ॥दोहा॥सबमञ्चनतेंमञ्चएकसुन्दरविशद
विशाल॥मुनिसमेतदोउबन्धुतहँवैठारेमहिपाल॥२०६
चौपाई॥प्रभुहिदेखिसबनृपहियहारे॥जनुराकेशउद
यभएतारे॥असिप्रतीतिसबकेमनमाहीं॥रामचापतो
रबशंकनाहीं॥विनुभंजेहुंभवधनुषविशाला॥मेलहिं
सीयरामउरमाला॥असविचारिगवनेहुघरभाई॥जसप्र
तापबलतेजगवाँई॥विहँसेअपरभूपसुनिवाणी॥जेअवि
वेकअन्धअभिमानी॥तोरेहुधनुषव्याहअवगाहा॥विनु
तोरेंकोकुंवरिविवाहा॥एकवारकालहुकिनहोई॥सिय
हितसमरजीतवहमसोई॥यहसुनिअपरभूपमुसकाने॥
धर्म्मशीलहरिभक्तसयाने॥सोरठा॥सीयविवाहवरामगर्वहू

रिन्दपनकर॥जीतिकोशाकसंग्रामदशरथकेरणबांकुरे

चौपाई॥हृष्यामरहुजनिगालबजाई॥मनमोदकनहिभू
खविताई॥सीखहमारसतुपरमपुनीता॥जगदम्बाजान
हुजियसीता॥जगतपितारघुपतिहिविचारी॥भरिलोच
नछविलेहुनिहारी॥सुन्दरसुखदसकलगुणराशी॥प
दोउबंधुशम्भुउरबासी॥सुधासमुद्रसमीपविहाई॥मृग
जलनिरखिमरहुकतधाई॥करहुजाइजाकहजोइभावा
हमतोआजुजन्मफलपावा॥असकहिभलेभूपअनुरागे
रूपअनूपविलोकनलागे॥देखहिंसुरनभचढेविमाना
वरषहिंसुमनकरहिंकलगाना॥दोहा॥जानिसुअवसर
सीयतबपठवाजनकबुलाइ॥चतुरसखींसुन्दरिसकल
सादरचलींलिवाइ॥२०८॥चौपाई॥सियशोभानहिजाइव
खानी॥जगदम्बिकारूपगुणखानी॥उपमासकलमोहि
लघुलागी॥प्राकृतनारिअंगअनुरागी॥सीयवरणितेहि
उपमादेंही॥कोकविकहइअयसकोंलेंहीं॥जौपटतरि
यतीयसमसीया॥जगअसियुवतिकहांकमनीया॥गिरा
मुखरतनअर्द्धभवानी॥रतिअतिदुखितअतनुपतिजानी॥
विषवारुणीबंधुप्रियजेही॥कहियरमासमकिमिवैदेही
जौछविसुधापयोनिधिहोई॥परमरूपमयकच्छपसोई॥

गौरी ४

रा०मा०
बा०
५५

89

शोभारज्जुमन्दरशृङ्गारू॥ मथैपाणिपङ्कजनिजमारू
दोहा॥ एहिविधिउपजैलक्ष्मिजबसुन्दरतासुखमूल॥ त
दपिसकोचसमेतकविकहहिंसीयसमतूल॥ २०९॥ चौ
पाई॥ चलीसङ्गलैसखीसयानी॥ गावतिगीतमनोहरबा
णी॥ सोहनवलतनुसुन्दरसारी॥ जगतजननिअतुलि
तछविभारी॥ भूषणसकलसुदेशसुहाए॥ अङ्गअङ्ग
रचिसखिनबनाये॥ रङ्गभूमिजबसियपगुधारी॥ देखि
रूपमोहेनरनारी॥ हर्षिसुरनिदुन्दभीबजाई॥ वर्षिप्रसू
नअपसरागाई॥ पाणिसरोजसोहजयमाला॥ अवचट
चितपसकलभुवाला॥ सीयचकितचितरामहिचाहा
भएमोहवशसबनरनाहा॥ मुनिसमीपदेखेदोउभाई॥ ल
गेललकिलोचननिधिपाई॥ दोहा॥ गुरुजनलाजसमा
जबडिदेखिसीयसकुचानि॥ लागिविलोकनसखिनत
नरघुवीरहिंउरआनि॥ २१०॥ चौपाई॥ रामरूपअरुसिय
छविदेखें॥ नरनारिनपरिहरीनिमेषें॥ शोचहिंसकलक
हतसकुचाहीं॥ विधिसनविनयकरहिंमनमाहीं॥ हरुवि
धिवेगिजनकजउताई॥ मतिहमारीअसदेहुसुहाइ॥ वि
नुविचारपणतजिनरनाहू॥ सीयरामकरकरैविवाहू॥
जगभलकहहिंभावसबकाहू॥ हठकीन्हेंअन्तहुंउरदाहू॥

यहलालसामगनसबलोगू॥ बरसांवरजानकीजोगू॥ त
बवन्दीजनजनकबुलाए॥ विरदावलीकहतचलिआए॥
कहनृपजाइकहहुपणमोरा॥ चलेभाटहियहर्षनथोरा॥
दोहा॥ बोलेबन्दीबचनवरसुनहुसकलमहिपाल॥ पणवि
देहकरकहहिंहमभुजाउठाइविशाल॥२११॥ चौपाई॥ नृप
भुजबलविधुशिवधनुराहू॥ गरुअकठोरविदितसबकाहू॥
रावणबाणमहाभटभारे॥ देखिशरासनगवहिंसिधारे॥
सोइपुरारिकोदण्डकठोरा॥ राजसमाजआजुजेहितोरा॥
त्रिभुवनजयसमेतवैदेही॥ विनहिंविचारवरेहठितेही॥ सु
निपणसकलभूपअभिलाषे॥ भटमानीअतिशयमनमाषे॥
परिकरबांधिउठेअकुलाई॥ चलेइष्टदेवनशिरनाई॥ तम
किताकितकिशिवधनुधरहीं॥ उठइनकोटिभांतिबलकर
हीं॥ जिन्हकेकछुविचारमनमांहीं॥ चापसमीपमहीपनजां
हीं॥ दोहा॥ तमकिधरहिंधनुमूढनृपउठइनचलहिंलजाइ॥
मनहुंपाइभटबाहुबलअधिकअधिकगरुआइ॥२१२॥ चौपा
ई॥ भूपसहसदशएकहिंबारा॥ लगेउठावनटरइनटारा॥ ड
गैनशम्भुशरासनकैसें॥ कामीवचनसतीमनजैसें॥ स
बनृपभएयोगउपहांसी॥ जैसेविनुविरागसन्यासी॥ कीर

तिविजयवीरताभारी॥ चलेचापकरवरवसहारी॥ श्रीह
तभएहारिहियराजा॥ वैठेनिजनिजजाइसमाजा॥ नृप
निविलोकिजनकअकुलाने॥ वोलेवचनरोषजनुसाने॥
दीपदीपकेभूपतिनाना॥ आएसुनिहमजोपणठाना॥ देव
दनुजधरिमनुजशरीरा॥ विपुलवीरआएरणधीरा॥ दोहा
कुअरिमनोहरिविजयवडिकीरतिअतिकमनीय॥ पावन
हारविरञ्चिजनुरचेउनधनुदमनीय॥ २५१॥ चौपाई॥ कह
हुकाहियहलाभमनभावा॥ काहुनशङ्करचापचढावा॥
रहौचढाउवतोरवभाई॥ तिलभरिभूमिनशकेउछुडाई॥
अवजनिकोउमाषैभटमानी॥ वीरविहीनमहीमैजानी॥ त
जहुआशनिजनिजगृहजाहु॥ लिखानविधिवैदेहिविवा
हु॥ सुकृतजाइजौपणपरिहरऊं॥ कुंअरिकुआरिरहोका
करऊं॥ जौजानततेविनुभटभुवभाई॥ तौपणकरिहोंतेउन
हंसाई॥ जनकवचनसुनिसवनरनारी॥ देखिजानकीभए
दुखारी॥ माषेलषणकुटिलभैभौंहैं॥ रदपटफरकतनय
नरिसौंहैं॥ दोहा॥ कहिनशकयरघुवीरडरलगेवचनजनु
वाण॥ नाइरामपदकमलशिरवोलेगिराप्रमाण॥ २५२॥
चौपाई॥ रघुवंशिनमहंजहंकोउहोई॥ तेहिंसमाजअसकह

ईनकोई॥ कहीजनकजस्यअनुचितबाणी॥ विद्यमान
रघुकुलमणिजानी॥ सुनहुभानुकुलपंकजभानू॥ कहौं
स्वभावनकछुअभिमानू॥ जौंतुम्हारिअनुशासनपाऊं॥
कंदुकइवब्रह्माण्डउठाऊं॥ कांचेघटजिमिडारौंफोरी॥
सकौंमेरुमूलकइवतोरी॥ तवप्रतापमहिमाभगवाना॥ को
बापुरोपिनाकपुराणा॥ नाथजानिअसआयसुहोऊ॥ कौ
तुककरौंविलोकियसोऊ॥ कमलनालजिमिचापचढा
वौं॥ शतयोजनप्रमाणलैधावौं॥ दोहा॥ तोरौंछत्रकदंड
जिमितवप्रतापबलनाथ॥ जौंनकरौंप्रभुपदशपथपु
निनधरौंधनुहाथ॥ २५५॥ चौपाई॥ लषणसकोपवचनज
बबोले॥ डगमगानिमहिदिग्गजडोले॥ सकललोक
सबभूपडेराने॥ सियहियहर्षजनकसकुचाने॥ गुरुरघु
पतिसबमुनिमनमांही॥ मुदितभयेपुनिपुनिपुलकाहीं॥
सैनहिंरघुपतिलषणनिवारे॥ प्रेमसमेतनिकटबैठारे॥
विश्वामित्रसमयशुभजानी॥ बोलेअतिसनेहमयबाणी॥
उठहुरामभंजहुभवचापू॥ मेटहुतातजनकपरितापू॥
सुनिगुरुवचनचरणशिरनावा॥ हर्षविषादनकछुउरआ
वा॥ ठाढभयेउठिसहजस्वभाये॥ ठवनियुवामृगराजलजाये

दोहा॥ उदितउदयगिरिमञ्चपररघुबरबालपतङ्ग॥
विकसेसन्तसरोजबनहर्षेलोचनभृङ्ग॥२१८॥ चौपाई॥
नृपनकेरिआशानिशिनाशी॥ वचननषतअवलीनप्र
काशी॥ मानीमहिपकुमुदसकुचाने॥ कपटीभूपउलूक
लुकाने॥ भयविशोककोकमुनिदेवा॥ वर्षहिंसुमनजा
नावहिंसेवा॥ गुरुपदवन्दिसहितअनुरागा॥ राममुनि
न्हसनआयसुमांगा॥ सहजहिंचलेसकलजगस्वामी॥ म
त्तमंजुकुञ्जरवरगामी॥ चलतरामसबपुरनरनारी॥ पु
लकपूरितनभयसुखारी॥ बन्दिपितरसुरसुकृतसम्हारे
जोकछुपुण्यप्रभावहमारे॥ तोशिवधनुमृणालकीनाईं
तोरहिंरामगणेषगुसांईं॥ दोहा॥ रामहिंप्रेमसमेतल
खिसखिनसमीपबुलाइ॥ सीतामातुसनेहबशवचनक
हैबिलखाइ॥२१९॥ चौपाई॥ सखिसबकौतुकदेखनहारे
जोउकहावतहितूहमारे॥ कोउनबुझाइकहनृपपाहीं॥
एबालकअसहठभलनाहीं॥ रावणबाणछुआनहिंचाप
हारेसकलभूपकरिदापा॥ सोधनुराजकुंअरकरदेहीं॥
बालमरालकिमन्दरलेहीं॥ भूपसयानपसकलसिरानी
सखिविधिगतिकछुजातिनजानी॥ बोलीचतुरसखीमृदु

बाणी॥ तेजवन्तलघुगणियनराणी॥ कहुँकुम्भजक
हुँसिंधुअपारा॥ शोषेउसुयशसकलसंसारा॥ रविमंड
लदेखतलघुलागा॥ उदयतासुत्रिभुवनतमभागा॥ दोहा
मंत्रपरमलघुजासुबशविधिहरिहरसुरसर्ब॥ महामत्त
गजराजकहुँबशकरअंकुशखर्ब॥ २५७॥ चौपाई॥ कामकु
सुमधनुसायकलीन्हें॥ सकलभुवनअपनेबशकीन्हें॥
देवितजियसंशयअसजानी॥ भंजबधनुषरामसुनुरानी॥
सखीवचनसुनिभइपरतीती॥ मिटाविषादबढीअतिप्री
ती॥ तबरामहिंबिलोकिवैदेही॥ सभयहृदयबिनवतिजेहिं
तेही॥ मनहीमनमनायअकुलानी॥ होहुप्रसन्नमहेश
भवानी॥ करहुसफलआपनिसेवकाई॥ करिहितहरहु
चापगरुआई॥ गणनायकवरदायकदेवा॥ आजुलगेकी
न्हीतबसेवा॥ बारबारबिनतीसुनिमोरी॥ करहुचापगुरु
ताअतिथोरी॥ दोहा॥ देखिदेखिरघुबीरतनुसुरमनावधी
रिधीर॥ भरेबिलोचनप्रेमजलपुलकावलीशरीर॥ २५८
चौपाई॥ नीकेनिरखिनयनभरिशोभा॥ पितुपणसुमिरि
बहुरिमनक्षोभा॥ अहहतातदारुणहठठानी॥ समुझत
नहिंकछुलाभनहानी॥ सचिवसभयसिखदेइनकोई॥

बुधसमाजबड़अनुचितहोई॥ कहंधनुकुलिशहुचाहि
कठोरा॥ कहंश्यामलमृदुगातकिशोरा॥ विधिकेहिभां
तिधरौंउरधीरा॥ शिरिषसुमनकिमिबेधिहिहीरा॥ स
कलसभाकीमतिभइभोरी॥ अबमोहिशम्भुचापगति
तोरी॥ निजजड़तालोगनपरडारी॥ होहुहरुअरघुपति
हिनिहारी॥ अतिपरितापसीयमनमाहीं॥ लवनिमेष
युगसमचलिजाहीं॥ दोहा॥ प्रभुहिंचितैपुनिचितवम
हिराजतलोचनलोल॥ खेलतमनसिजमीनयुगजनु
विधुमण्डलडोल॥ २२०॥ चौपाई॥ गिराअलिनिमुखपंक
जरोकी॥ प्रगटनलाजनिशाअवलोकी॥ लोचनजलरु
हलोचनकोणा॥ जैसेंपरमकृपणकरसोना॥ सकुची
व्याकुलताबडिजानी॥ धरिधीरजप्रतीतिउरआनी॥ तनु
मनबचनमोरपणसांचा॥ रघुपतिपदसरोजमनराचा॥
तौभगवानसकलउरवासी॥ करिहहिंमोहिरघुपतिकी
दासी॥ जेहिकेजेहिंपरसत्यसनेहू॥ सोतेहिंमिलहिनक
छुसन्देहू॥ प्रभुतनचितैप्रेमपणठाना॥ कृपानिधानरा
मसबजाना॥ सियहिंविलोकितकेउधनुकैसें॥ चितवग
रुलघुव्यालहिंजैसें॥ दोहा॥ लषणलखेउरघुवंशमणि

ताकेउ हरकोदण्ड॥ पुलकिगातबोलेबचनचरणचां
पिब्रह्मण्ड॥ २२१॥ चौपाई॥ दिशिकुञ्जरहुकमठअहिको
ला॥ धरहुधरणिधरिधीरनडोला॥ रामचहहिंशङ्कर
धनुतोरा॥ होहुसजगसुनिआयसुमोरा॥ चापसमीप
रामजबआए॥ नरनारिन्हसुरसुकृतमनाए॥ सबक
रसंशयअरुअज्ञानू॥ मन्दमहीपनकरअभिमानू॥ भृ
गुपतिकेरिगर्बगरुआई॥ सुरमुनिबरनकेरिकदराई॥
सियकरशोचजनकपछितावा॥ रानिनकरदारुणदुः
खदावा॥ शम्भुचापबडबोहितपाई॥ चढेजाइसबसङ्ग
बनाई॥ रामबाहुबलसिन्धुअपारा॥ चहतपारनहिको
उकढहारा॥ दोहा॥ रामबिलोकेलोगसबचित्रलिखेसे
देखि॥ चितईसीयकृपायतनजानीबिकलबिशेखि॥ २ २२
चौपाई॥ देखीबिपुलबिकलबैदेही॥ निमिषबिहातक
ल्पसमतेही॥ तृषितबारिबिनुजौंतनत्यागा॥ मुएकरै
कासुधातडागा॥ काबर्षाजबकृषीसुखाने॥ समयचू
कपुनिकापछिताने॥ असजियजानिजानकीदेखी॥
प्रभुपुलकेलखिप्रीतिबिशेखी॥ गुरुहिंप्रणाममनहिं
मनकीन्हा॥ अतिलाघवउठाइधनुलीन्हा॥ दमकेउदा

मिनिजिमिघनलयऊ॥पुनिधनुनभमण्डलसमभयऊ
लेतचढावतखैंचतगाढे॥काहुनलखादेखसबठाढे।
तेहिछनराममध्यधनुतोरा॥भरेउभुवनध्वनिघोरक
ठोरा॥ छन्दः॥ भरिभुवनघोरकठोररववरविबाजितजि
मारगचले॥चिक्करहिंदिग्गजडोलमहिअहिकोल
कूरमकलमले॥६७॥सुरअसुरमुनिकरकानदीन्हेंस
कलविकलविचारहीं॥कोदण्डखण्डेउरामतुलसी
जयतिवचनउचारहीं॥६८॥ सोरठा॥ शङ्करचापजहा
जसागररघुवरबाहुबल॥बूडेउसकलसमाजचढेजे
प्रथमहिंमोहवश॥२६१॥ चौपाई॥ प्रभुदोउखण्डचाप
महिडारे॥देखिलोगसबभएसुखारे॥कौशिकरूपप
योनिधिपावन॥प्रेमवारिअवगाहसुहावन॥रामरू
पराकेशनिहारी॥बढतवीचिपुलकावलिभारी॥बाजे
नभगहगहेनिसाना॥देववधूनाचहिंकरिगाना॥ब्रह्मा
दिकसुरसिद्धमुनीशा॥प्रभुहिंप्रशंसहिंदेहिंअशीषा
वर्षहिंसुमनरङ्गबहुमाला॥गावहिंकिन्नरगीतरसा
ला॥रहीभुवनभरिजयजयबाणी॥धनुषभङ्गध्वनिजा
तनजानी॥मुदितकहहिंजहंतहंनरनारी॥भंजेउराम०

शम्भुधनुभारी॥दोहा॥ बन्दीमागधसूतगणविरदब
दहिंमतिधीर॥ करहिंनिछावरिलोगसबहयगजधन
मणिचीर॥२२४॥चौपाई॥ झांझिमृदङ्गशङ्खसहनाई॥
भेरीढोलदुन्दुभीबजाई॥ बाजहिंबहुबाजनेसुहाए॥
जहंतहंयुवतिनमङ्गलगाए॥ सखिनसहितहर्षितअ
तिरानी॥ सूखतधानपराजनुपानी॥ जनकलहेउसु
खशोचविहाई॥ पैरतथकेथाहजनुपाई॥ श्रीहतभए
भूपधनुटूटैं॥ जैसेंदिवसदीपछविछूटैं॥ सियहियसु
खवरणियकेहिभांती॥ जनुचातकपाइजलस्वांती॥
रामहिंलषणविलोकतकैसें॥ शशिहिंचकोरकिशोर
कजैसें॥ शतानन्दतबआयसुदीन्हा॥ सीतागमनसमीप
हिंकीन्हा॥दोहा॥ सङ्गसखीसुन्दरिचतुरिगावहिंमङ्ग
लचार॥ गवनीबालमरालगतिसुखमाअङ्गअपार॥२
चौपाई॥ सखिनमध्यसियसोहतिकैसी॥ छविगण
मध्यमहाछविजैसी॥ करसरोजजयमालसुहाई॥
विश्वविजयशोभाजिहिंछाई॥ तनुसंकोचमनपरमउछा
ह॥ गूढप्रेमलखिपरैनकाहू॥ जाइसमीपरामछविदे
खी॥ रहिजनुकुंअरिचित्रअवरेखी॥ चतुरसखीलखिक

गुरणकारी
२५॥

रामा॰
बा॰
९४

94

ह्वाबुझाई॥ पहिरावहुजयमालसुहाई॥ सुनतयुगल
करमालउठाई॥ प्रेमविवसपहिराइनजाई॥ सोहतम
नुयुगजलजसनाला॥ शशिहिंसभीतदेतजयमाला॥
गावहिंछविअवलोकिसहेली॥ सियजयमालरामउर
मेली॥ दोहा॥ रघुवरउरजयमालदेखिदेववरषहिंसु
मन॥ सकुचेसकलभुआलजनुविलोकिरविकुमुदग
ण॥ २२८॥ चौपाई॥ पुरअरुव्योमबाजनेबाजे॥ खलभये
मलिनसाधुसबराजे॥ सुरकिन्नरनरनागमुनीशा॥
जयजयजयकहिदेहिंअशीशा॥ नाचहिंगावहिंविबुध
वधूटी॥ बारबारकुसुमानवलिछूटी॥ जहँतहँविप्रबेद
ध्वनिकरहीं॥ बन्दीबिरदावलिउच्चरहीं॥ महिपाताल
नाकयशव्यापा॥ रामबरीसियभंजेउचापा॥ करहिंआ
रतीपुरनरनारी॥ देहिंनिछावरिवित्तविसारी॥ सोहत
सीयरामकीजोरी॥ छविशृंगारमनहुंएकठोरी॥ सखी
कहहिंप्रभुपदगहुसीता॥ करतिनचरणपरसअतिभी
ता॥ दोहा॥ गौतमतीयगतिसुरतिकरिनहिपरसतिपद
पाणि॥ मनविहंसेरघुवंशमणिप्रीतिअलौकिकजानि
२२९॥ चौपाई॥ तबसियदेखिभूपअभिलाषे॥ कूरकपूत

सूष मन माषे॥ उठि उठि पहरि सनाह अभागे॥ जहँ तहँ गा
ल वजावन लागे॥ लेहु छुडाइ सीय कह कोऊ॥ धरि बांधहु नृप
बालक दोऊ॥ तोरैं धनुष चाड नहिं सराई॥ जीवत हमहि कुंअ
रि को बरई॥ जौ बिदेह कछु करैं सहाई॥ जीतहु समर सहित दो
उ भाई॥ साधु भूप बोले सुनि बाणी॥ राजसमाजहिं लाज लजा
नी॥ बल प्रताप बीरता बडाई॥ नाक पिनाकहिं सङ्ग सिधाई॥
सोइ सूरता कि अब कहु पाई॥ असबुधि तौ विधि मुह मसि लाई॥
दोहा॥ देखहु रामहिं नयन भरि तजि ईर्षा मद मोहु॥ लषण
रोष पावक प्रबल जानि शलभ जनि होहु॥ २३८॥ चौपाई॥ बै
नतेय बलि जिमि चह कागू॥ जिमि शश चहहिं नाग अरि भा
गू॥ जिमि चहहु कुशल अकारण कोही॥ सर्ब सम्पदा चहहिं
शिवद्रोही॥ लोभी लोलुप कीरति चहई॥ अकलङ्कता कि
कामी लहई॥ हरि पद विमुख परम गति चाहा॥ तस तुम्हार
लालच नरनाहा॥ कोलाहल सुनि सीय शकानी॥ सखी लि
वाइ गई जहं राणी॥ राम सुभाय चले गुरु पांही॥ सिय सनेह
वरणत मन मांही॥ रानिन सहित शोच वश सीया॥ अब धौं
विधिहिं कहा करणीया॥ [illegible]॥
[illegible]

[illegible]॥ भूपवचनसुनिइतउतकहहीं॥ लखनरामडरबोलि
नशकहीं॥ दोहा॥ अरुणनयनभृकुटीकटिलचितवतनृप
नसकोप॥ मनहुमत्तगजगणनिरखिसिंहकिशोरहिंचोप
२२९॥ चौपाई॥ खरभरदेखिविकलपुरनारी॥ सबमिलिदेहिं
महीपनगारी॥ तेहिअवसरसुनिशिवधनुभङ्गा॥ आयउभृ
गुकुलकमलपतङ्गा॥ देखिमहीपसकलसकुचाने॥ बा
जझपटजनुलवालुकाने॥ गौरशरीरभूतिभलिभ्राजा॥ भा
लविशालत्रिपुण्डुविराजा॥ शीशजटाशशिवदनसुहावा
रिसिवशकछुकअरुणहोइआवा॥ भृकुटीकुटिलनयनरि
सिराते॥ सहजहिंचितवतमनहुंरिसाते वृषभकन्धउरबा
हुविशाला॥ चारुजनेउमालमृगछाला॥ कटिमुनिवसन
तूणदुइबांधे॥ धनुशरकरकुठारकलकांधे॥ दोहा॥ शान्त
वेषकरणीकठिनवरणिनजाइस्वरूप॥ धरिमुनितनुज
नुवीररसआयउजहंसबभूप॥ २२९॥ चौपाई॥ देखतभृगु
पतिवेषकराला॥ उठेसकलभयविकलभुआला॥ पितास
मेतकहिकहिनिजनामा॥ लगेकरणसबदण्डप्रणामा॥
जेहिंसुभावचितवहिंहितजानी॥ सोजानैजनुआयुखु
टानी॥ जनकबहोरिआइशिरनावा॥ सीयबुलाइप्रणाम

करावा॥आशिषदीन्हसखीहरषानी॥निजसमाजलैग
ईसयानी॥विश्वामित्रमिलेपुनिआई॥पदसरोजमेलेदोउ
भाई॥रामलषणदशरथकेढोटा॥दीन्हअशीषदेषिभ
लजोटा॥रामहिंचितयरहेथकिलोचन॥रूपअपारमा
रमदमोचन॥दोहा॥बहुरिविलोकिविदेहसनकहहुक
हाअतिभीर॥पूछतजानअजानजिमिव्यापेउकोपशरी
र॥२३१॥चौपाई॥समाचारकहिजनकसुनाए॥जेहिंकारण
महीपसबआए॥सुनतवचनफिरिअनतनिहारे॥देखेचा
पखण्डमहिडारे॥अतिरिसबोलेवचनकठोरा॥कहुजड
जनकधनुषकेहितोरा॥वेगिदेखाउमूढनतआजू॥उल
टौंमहीजहंलगितवराजू॥अतिडरउत्तरदेतनृपनाहीं॥
कुटिलभूपहरषेमनमाहीं॥सुरमुनिनागनगरनरनारी
सोचहिंसकलत्राससउरभारी॥मनपछितातिसीयमहतारी
विधिसवारिसबबातविगारी॥भृगुपतिकरसुभावसुनि
सीता॥अर्द्धनिमेषकल्पसमवीता॥दोहा॥सभयविलोके
लोगसबजानिजानकीभीरु॥हृदयनहर्षविषादकछुबो
लेश्रीरघुवीरु॥२३२॥चौपाई॥नाथशम्भुधनुभञ्जनिहारा॥
होइहिकोउएकदासतुम्हारा॥आयसुकहाकहियकिन

रामा॰
बा॰
९६

96

मोही॥सुनिरिसायबोलेमुनिकोही॥सेवकसोजोकरैसेव
काई॥अरिकरणीकरिकरियलराई॥सुनहुरामजेहिंशिव
धनुतोरा॥सहसबाहुसमसोरिपुमोरा॥सोविलगाउविहाइ
समाजा॥नतमारेजैहैंसबराजा॥सुनिमुनिवचनलषणमु
सुकाने॥बोलेपरसुधरहिंअपमाने॥बहुधनुहींतोरेउंलरि
काईं॥कबहुंनअसरिसिकीन्हगोसाईं॥इहिधनुपरममता
केहिंहेतू॥सुनिरिसायकहंभृगुकुलकेतू॥दोहा॥रेनृप
बालककालबशबोलततोहिनसम्भार॥धनुहीसमत्रिपु
रारिधनुविदितसकलसंसार॥२७२॥चौपाई॥लषणकहा
हंसिहमरेजाना॥सुनहुदेवसबधनुषसमाना॥कातति
लाभजीर्णधनुतोरे॥देखारामनयनकेकोरे॥छुवतटूटर
घुपतिहिनदोषू॥मुनिबिनुकाजकरियकतरोषू॥बोले
चितइपरसुकीओरा॥रेशठसुनेसिसुभाउनमोरा॥बाल
कबोलिवधौंनहितोही॥केवलमुनिजडजानेसिमोही॥बा
लब्रह्मचारीअतिकोही॥विश्वविदितक्षत्रीकुलद्रोही॥भुज
बलभूमिभूपविनुकीन्ही॥विपुलबारमहिदेवनदीन्ही॥स
हसबाहुभुजछेदनहारा॥परसुविलोकुमहीपकुमारा॥दो
हा॥मातपितहिंजनिशोचवशकरसिमहीपकिशोर॥ग

र्भनकेअर्भकदलनपरशुमोरअतिघोर॥२७४॥चौपाई॥
विहंसिलषणबोलेमृदुबाणी॥अहोमुनीशमहाभटमानी
पुनिपुनिमोहिदेखावकुठारा॥चहतउडावनफूंकिपहारा
इहांकोहंडुवतियाकोउनाहीं॥जेतर्जनीदेखतमरिजांहीं॥
देखिकुठारशरासनबाणा॥मैंकछुकहासहितअभिमाना॥
भृगुकुलसमुझिजनेउविलोकी॥जोकछुकहहुसहौंरिसरो
की॥सुरमहिसुरहरिजनअरुगाई॥हमरेकुलइन्हपरन
सुराई॥बधेपापअपकीरतिहारे॥मारतहुंपांपरियतुम्हारे
कोटिकुलिशसमवचनतुम्हारा॥व्यर्थधरहुधनुबाणकुठा
रा॥दोहा॥जेविलोकिअनुचितकहेउंछमहुमहामुनिधी
र॥सुनिसरोषभृगुवंशमणिबोलेगिरागम्भीर॥२७५॥चौ
पाई॥कौशिकसुनहुमन्दयहुबालक॥कुटिलकालवशनि
जकुलघालक॥भानुवंशराकेशकलंकू॥निपटनिरंकुश॥
अबुधअशंकू॥कालकवलहोइहिंछणमाहीं॥कहौंपुकारि
खोरिमोहिनाहीं॥तुमहटकहुजोचहहुउबारा॥कहिप्रता
पबलरोषहमारा॥लषणकहेउमुनिसुयशतुम्हारा॥तु
महिंअछतकोबरणैपारा॥अपनेमुखतुमआपनिकरणी
वारअनेकभांतिबहुबरणी॥नहिंसन्तोषतोपुनिकछुकहहु

जनिरिसरोकिदुसहदुखसहहू॥ वीरव्रतितुमधीरअछो
भा॥ गारीदेतनपावहुशोभा॥ दोहा॥ सूरसमरकरणीकर
हिंकहिनजनावहिंआपु॥ विद्यमानरणपाइरिपुकायर
कथहिंप्रलापु॥ २२६॥ चौपाई॥ तुमतौकालहांकिजनु
लावा॥ वारवारमोहिलागिबुलावा॥ सुनतलषणकेवच
नकठोरा॥ परशुसुधारिधरेउकरघोरा॥ अबजनिदेइदोष
मोहिलोगू॥ कटुबादीबालकवधयोगू॥ बालविलोकिब
हुतमैंबांचा॥ अबयहमरणहारभासांचा॥ कौशिककहा
क्षमियअपराधू॥ बालदोषगुणगणहिंनसाधू॥ करकुठा
रमैंअकारणकोही॥ आगेअपराधीगुरुद्रोही॥ उत्तरदेत
छाडौंविनुमारैं॥ केवलकौशिकशीलतुम्हारैं॥ नतयहि
काटिकुठारकठोरे॥ गुरुहिउरिणहोतेउश्रमथोरे॥ दोहा
गाधिसूनुकहहृदयहंसिमुनिहिंहरेहरेसूझ॥ अजगव
खण्डेउऊखजिमिअजहुंनबूझअबूझ॥ २२७॥ चौपाई॥ कहे
उलषणमुनिशीलतुम्हारा॥ कोनहिंजानविदितसंसारा॥
मातहिपितहिउरिणभएनीके॥ गुरुऋणरहाशोचबड
जीके॥ सोजनुहमरेहिंमाथेकाढा॥ दिनचलिगएव्याज
बहुबाढा॥ अबआनियव्यवहरियाबोली॥ तुरतदेवमैंथै

लीखोली॥सुनिकटुवचनकुठारसुधारा॥हाहाकहि
सबलोगपुकारा॥भृगुवरपरसुदेखावहुमोही॥विप्रवि
चारिवंचौंनृपद्रोही॥मिलेनकबहुंसुभटरणगाढे॥द्वि
जदेवताघरहिकेबाढे॥अनुचितकहिसबलोगपुकारे
रघुपतिसयनहिलषणनिवारे॥**दोहा**॥लषणउतरआहु
तिसरिसभृगुपतिकोपकृशानु॥बढतदेखिजलसमव
चनबोलेरघुकुलभानु॥२७८॥**चौपाई**॥नाथकरहुबालक
परछोहु॥सूधदूधमुखकरियनकोहु॥जौंपैंप्रभुप्रभावक
छुजाना॥तौकिवरावरकरतअयाना॥जौंलरिकाकछु
अनुचितकरहीं॥गुरुपितुमातुमोदमनभरहीं॥करिय
कृपाशिशुसेवकजानी॥तुमसमशीलधीरमुनिज्ञानी
रामवचनसुनिकछुकजुडाने॥कहिकछुलषणबहुरि
मुसकाने॥हंसतदेखिनखशिखरिसिव्यापी॥रामतोरभ्रा
तावडपापी॥गौरशरीरश्याममनमाहीं॥कालकूटमुख
पयमुखनाहीं॥सहजटेढअनुहरैनतोही॥नीचमीचुस
मदेखनमोही॥**दोहा**॥लषणकहेउहंसिसुनहुमुनि
क्रोधपापकरमूल॥जेहिवशजनअनुचितकरहिंचरहि
विश्वप्रतिकूल॥२७९॥**चौपाई**॥मैंतुम्हारअनुचरमुनिरा

या॥ परिहरिकोपकरियअवदाया॥ टूटचापनहिंजुरि
हिरिसाने॥ वैठियहोइहिंपायपिराने॥ जौअतिप्रियतौ
करियउपाई॥ जोरियकोउवडगुणीवुलाई॥ वोलतलख
णहिंजनकडेराहीं॥ मष्टकरहुअनुचितभलनाहीं॥ थ
रथरकांपहिंपुरनरनारी॥ छोटकुमारखोटअतिभारी॥
भृगुपतिसुनिसुनिनिर्भयवाणी॥ रिसतनुजरैहोइवल
हानी॥ वोलेरामहिंदेइनिहोरा॥ वचौविचारिवंधुलघु
तोरा॥ मनमलीनतनुसुन्दरकैसें॥ विषरसभराकन
कघटजैसें॥ दोहा॥ सुनिलछमणविहंसेवहुरिनयनतरे
रेराम॥ गुरुसमीपगवनेसकुचिपरिहरिवाणीवाम॥
२५०॥ चौपाई॥ अतिविनीतमृदुशीतलवाणी॥ वोलेराम
जोरियुगपाणी॥ सुनहुनाथतुमसहजसुजाना॥ वाल
कवचनकरियनहिकाना॥ वररैवालकएकसुभाऊ॥
इनहिंनसन्तविदूषहिंकाऊ॥ तिन्हनाहीकछुकाजविगा
रा॥ अपराधीमैंनाथतुम्हारा॥ कृपाकोपवधवंधगोसाईं
मोपरकरियदासकिनांई॥ कहियवेगिजेहिंविधिरिस
जाई॥ मुनिनायकसोइकरियउपाई॥ कहमुनिरामजाइ
रिसकैसें॥ अजहुंअनुजतवचितवअनैसें॥ एहिकेकण्ठ

पुत्र मात्र

उगारनदीन्हा॥तामैंकहाकोपकरिकीन्हा॥दोहा॥

गर्भस्रवहिंअवनिपरमणिसुनिकुठारगतिघोर॥पर
सुअछतदेखौंजियतवैरीभूपकिशोर॥२४१॥चौपाई॥

वहनहाथदहीरिसछाती॥भाकुठारकुंठितनृपघाती
भयउवामविधिफिरेउसुभाऊ॥मोरेहृदयकृपाकसका
ऊ॥आजुदयादुखदुसहसहावा॥सुनिसौंमित्रिविहं
सिशिरनावा॥नाथकृपामूरतिअनुकूला॥बोलतवच
नझरतजनुफूला॥जोंअसकृपाजरैंमुनिगाता॥क्रो
धभयतनुराखविधाता॥देखुजनकहठिबालकएहू
कीन्हचहतजउयमपुरगेहू॥वेगिकरहुकिनआंखि
नओटा॥देखतछोटखोटनृपछोटा॥विहंसेलखणक
हामुनिपाहीं॥मुंदियआंखिकतहूकोउनाहीं॥दोहा

परशुरामतवरामप्रतिबोलेवचनसक्रोध॥शंभुशा
रासननतोरिशठकरसिहमारप्रबोध॥२४२॥चौपाई॥

बन्धुकहैकटुसम्मततोरे॥तूंछलविनयकरसिकर
जोरे॥करुपरितोषमोरसंग्रामा॥नाहितछांडुकहा
उवरामा॥छलतजिकरहुसमरशिवद्रोही॥बन्धुस
हितनतमारौंतोही॥भृगुपतिकहहिंकुठारउठायें॥

रामा० बा० ९९

99

मनमुसुकाहिरामशिरनाये॥ गुणाअ्लघणाकरहम
पररोषू॥ कतअ्सथारअ्तैंबडदोषू॥ देषजानिशाङ्कास
बकाहू॥ वक्रचन्द्रमहिग्रसैनराहू॥ रामकहेउविसित।
जियमुनीशा॥ करअ्उठारआगैंयहशीशा॥ जेहिंरिसि।
जाइकरियसोइस्वामी॥ मोहिजानिआपनअनुगामी॥ दो
हा॥ प्रभुसेवकहिंसमरकसतजअ्विप्रवररोष॥ वेषवि
लोकिकहेसिकछुबालकअ्नहिंदोष॥ २४२॥ चौपाई॥
देखिकुठारबाणधनुधारी॥ भइलरिकहिंरिसिवीरविचा
री॥ नामजानपैंतमहिनचीन्हा॥ वंशसुभावउत्तरतेहिं
दीन्हा॥ जौतमअवतेअ्मुनिकीनाई॥ पदरजशिरशिशु
धरतगोसांई॥ छमअ्चूकअनजानतकेरी॥ चहियविप्र
उरकृपाघनेरी॥ हमहिंतमहिंसरवरिकसनाथा॥ क
हअ्तोकहांचरणकहंमाथा॥ राममात्रलघुनामहमा
रा॥ परशुसहितबडनामतम्हारा॥ देवएकगुणधनुष
हमारे॥ नवगुणपरमपुनीततम्हारे॥ सबप्रकारहमत
मसनहारे॥ छमअ्विप्रअपराधहमारे॥ दोहा॥ बार
बारमुनिविप्रवरकहारामसनराम॥ बोलेभृगुपतिसरु
षहोइतअ्बन्धुसमबाम॥ २४४॥ चौपाई॥ निपटहिंद्विज

करिजानसिंमोही॥ मैंजशविप्रसुनाऊंतोही॥ चापस्त्रु
वाशरआहुतिजानू॥ कोपमोरअतिघोरकृशानू॥ समि
धसेनचतुरंगसुहाई॥ महामहीपभयेपशुआई॥ मैंप
हिपरशुकाटिबलिदीन्हा॥ समरयज्ञजगकोटिनकीन्हा॥
मोरप्रभावविदितनहितोरे॥ बोलसिनिदरिविप्रकेभोरे॥
भंज्जेउचापदापबडबाढा॥ अहमितिमनहुंजीतिजगठा
ढा॥ रामकहामुनिकहहुविचारी॥ रिसिअतिबडिलघु
चूकहमारी॥ छुवतहिंटूटपिनाकपुराणा॥ मैंकेहिहे
तुकरौंअभिमाना॥ दोहा॥ जोहमनिंदरहिंविप्रवरसत्य
सुनहुभृगुनाथ तौअसकोजगसुभटजिहिंभयवश
नावहिंमाथ॥ २४५॥ चौपाई॥ देवदनुजभूपतिभटनाना
समबलअधिकहोउबलवाना॥ जौरणहमहिंपचारहिं
कोऊ॥ लरहिंसुखेनकालकिनहोऊ॥ क्षत्रियतनुधरिस
मरसकाना॥ कुलकलंकतेहिपांमरजाना॥ कहौंसु
भावनकुलहिंप्रशंसी॥ कालहुडरहिंनरणरघुवंशी॥
विप्रवंशकीअसप्रभुताई॥ अभयहोइजोतुमहिंडेराई॥
सुनिमृदुगूढवचनरघुपतिके॥ उघरेपटलपरशुधर
मतिके॥ रामरमापतिकरधनुलेहु॥ खैंचहुमोरमिटैस

न्हेऊ॥ देतचापआपुहिंचलिगयऊ॥ परशुराममनविस्मयभयऊ॥ दोहा॥ जानारामप्रभावतवपुलकप्रफुलितगात॥ जोरिपाणिबोलेवचनहृदयनप्रेमअमात॥२४

चौपाय॥ जयरघुवंशकमलवनभानू॥ गहनदनुजकुलदहनकृशानू॥ जयसुरविप्रधेनुहितकारी॥ जयमदमोहकोहभ्रमहारी॥ विनयशीलकरुणागुणसागर॥ जयतिवचनरचनाअतिनागर॥ सेवकसुखदसुभगसबअंगा॥ जयशरीरछविकोटिअनंगा॥ करौंकहामुखएकप्रशंसा॥ जयमहेशमनमानसहंसा॥ अनुचितबहुतकहेउअज्ञाता॥ छमहुछमामन्दिरदोउभ्राता॥ कहिजयजयजयरघुकुलकेतू॥ भृगुपतिगएवनहितपहेतू॥ अपभयकुटिलमहीपडेराने॥ जहंतहंकायरगवहिंपराने

दोहा॥ देवनदीन्हीदुन्दुभीप्रभुपरवरषहिंफूल॥ हरषेपुरनरनारिसबमिटामोहमयशूल॥२४०॥ चौपाई॥ अतिगहगहेबाजनेबाजे॥ सबहिंमनोहरमंगलसाजे॥ यूथयूथमिलिसुमुखिसुनयनी॥ करहिंगानकलकोकिलबयनी॥ सुखविदेहकरवरणिनजाई॥ जन्मदरिद्रमनहुंनिधिपाई॥ विगतत्रासभइसीयसुखारी॥

जनुविधुउदयचकोरकुमारी॥जनककीन्हकौशिकहिं
प्रणामा॥प्रभुप्रसादधनुभञ्जेउरामा॥मोहिकृतकृत्यकीन्ह
दुहुंभाई॥अबजोउचितसोकहियगोसांई॥कहमुनिसुनु
नरनाथप्रवीणा॥रहाविवाहुचापआधीना॥टूटतहींधनु
भयउविवाहू॥सुरनरनागविदितसबकाहू॥दोहा॥तद
पिजाइतुमकरहुअबयथावंशव्यवहार॥बूझिविप्रकुल
वृद्धगुरुवेदविदितआचार॥२८६॥चौपाई॥दूतअवधपुरप
ठवहुजाई॥आनहिंनृपदशरथहिंबुलाई॥मुदितराउकहि
भलेहिंकृपाला॥पठएदूतबोलितेहिंकाला॥बहुरिमहाज
नसकलबुलाए॥आइसबहिंसादरशिरनाए॥हाटबाटम
न्दिरसुरवासा॥नगरसंवारहुचारिहुपासा॥हरषिचलेनि
जनिजगृहआए॥पुनिपरिचारकबोलिपठाए॥रचहुवि
चित्रवितानबनाई॥शिरधरिवचनचलेसचुपाई॥पठएबो
लिगुणीतिन्हनाना॥जेवितानविधिकुशलसुजाना॥विधि
हिंवन्दितिन्हकीन्हअरम्भा॥विरचेकनककदलीकेखम्भा
दोहा॥हरितमणिनकेपत्रफलपद्मरागकेफूल॥रचना
देखिविचित्रअतिमनुविरञ्चिकभूल॥२८७॥चौपाई॥वेणु
हरितमणिमयसबकीन्हे॥सरलसपर्णपरहिंनहिचीन्हे

कनककलितअहिबेलिबनाई॥ लखिनहिपरैसपर्बसुहाई॥ तेहिकेरचिपचिबन्धबनाए॥ बिचबिचमुक्तादामसुहाए॥ माणिकमरकतकुलिशपिरोजा॥ चीरकोरपचिरचेसरोजा॥ किएभृङ्गबहुरङ्गबिहङ्गा॥ गुञ्जहिंकूजहिंपवनप्रसङ्गा॥ सुरप्रतिमाखम्भनगढिकाढी॥ मङ्गलद्रव्यलिएसबठाढी॥ चौकभांतिअनेकपुराई॥ सिन्धुरमणिमयसहजसुहाई॥ दोहा॥ सौरभपल्लवसुभगसुठिकिएनीलमणिकोर॥ हेममोरमरकतघवरिलसतपाटमयडोर॥ ३५०

चौपाई॥ रचेरुचिरवरवन्दनिवारे॥ मनहुंमनोभवफन्दसंवारे॥ मङ्गलकलशअनेकबनाए॥ ध्वजपताकपटचमरसुहाए॥ दीपमनोहरमणिमयनाना॥ जाइनवरणिविचित्रविताना॥ जेहिंमण्डपदुलहिनिबैदेही॥ सोवरणैअसमतिकविकेही॥ दूलहरामरूपगुणसागर॥ सोवितानतिहुंलोकउजागर॥ जनकभवनकीशोभाजैसी॥ गृहगृहप्रतिपुरदेखियतैसी॥ जेतिरहुतितेहिंसमयनिहारी॥ तेहिंलघुलगेभुवनदशचारी॥ जोसम्पदानीचगृहसोहा॥ सोविलोकिसुरनायकमोहा॥ दोहा॥ बसैनगरजेहिंलक्षिकरिकपटनारिवरवेष॥ तेहिंपुरकीशोभाकहतसकुचैंसारदशेष॥ ३५१॥

चौपाई॥ पहूंचे दूत राम पुर पावन॥ हरषे नगर विलोकि सुहावन॥ भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई॥ दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई॥ करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही॥ मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ वारि विलोचन बांचत पाती॥ पुलक गात आई भरि छाती॥ राम लषण उर कर बर चीठी॥ रहि गए कहत न खाटी मीठी॥ पुनि धरि धीर पत्रिका बांची॥ हरषी सभा बात सुनि सांची॥ खेलत रहे तहां सुधि पाई॥ आए भरत सहित हित भाई॥ पूछत अति सनेह सकुचाई॥ तात कहां तें पाती आई॥ दोहा॥ कुशल प्राणप्रिय बन्धु दोउ अहहिं कहहु केहि देश॥ सुनि सनेह साने वचन बांची बहुरि नरेश॥ ३५२॥ चौपाई॥ सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता॥ अधिक सनेह समात न गाता॥ प्रीति पुनीत भरत की देषी॥ सकल सभा सुख लहेउ विशेषी॥ तब नृप दूत निकट बैठारे॥ मधुर मनोहर वचन उचारे॥ भैया कहहु कुशल दोउ बारे॥ तुम नीके निज नयन निहारे॥ श्यामल गौर धरे धनु भाथा॥ वय किशोर कौशिक मुनि साथा॥ पहिचानहु तुम कहहु सुभाऊ॥ प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ॥ जा दिन तें मुनि गए लिवाई॥ तब तें आज सांचि सुधि पाई॥ कहहु विदेह कवन विधि जाने॥ सुनि प्रिय वचन दूत मुसकाने॥ दोहा॥ सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न कोउ॥ राम लषण जिनके तनय विश्व

विभूषणदोउ॥२५३॥ चौपाई॥ पूछनयोगनतनयतुम्हारे॥ पु
रुषसिंहतिहुंपुरउंजियारे॥ जिनकेयशप्रतापकेआगे॥ शशि
मलीनरविशीतललागे॥ तिनकहंकहियनाथकिमिचीन्हे॥
देषियरविकिदीपकरलीन्हे॥ सीयस्वयम्बरभूपअनेका॥
सिमिटेसुभटएकतेंएका॥ शम्भुशरासनकाहुनटारा॥ हा
रेसकलभूपबरियारा॥ तीनलोकमहंजेभटमानी॥ सबकी
शक्तिशम्भुधनुभानी॥ शकैउठाइसुरासुरमेरू॥ सोउहिय
हारिगएउकरिफेरू॥ जेहिंकौतुकशिवशैलउठावा॥ सोउ
तेहिंसभापराभवपावा॥ दोहा॥ तहांरामरघुवंशमणिसुनि
यमहामहिपाल॥ भंजेउचापप्रयासविनुजिमिगजपङ्कजना
ल॥२५४॥ चौपाई॥ सुनिसरोषभृगुनायकआए॥ बहुतभांति
तिनआंषिदेषाए॥ देषिरामबलनिजधनुदीन्हा॥ करिब
हुविनयगवनवनकीन्हा॥ राजनरामअतुलबलजैसें॥
तेजनिधानलषणपुनितैसें॥ कंपहिंभूपविलोकतजाके॥
जिमिगजहरिकिशोरकेताके॥ देवदेषितवबालकदोऊ॥
अबनिआंषितरआवनकोऊ॥ दूतवचनरचनाप्रियलागी॥
प्रेमप्रतापवीररसपागी॥ सभासमेतराउअनुरागे॥ दूतन्हि
देननिछावरिलागे॥ कहिअनीतितेमूंदहिंकाना॥ धर्म
विचारिसबहिंसुषमाना॥ दोहा॥ तबउठिभूपबसिष्ठक

हंदीन्हपत्रिकाजाइ॥कथासुनाईगुरुहिंसबसादरहूतबुला
इ॥२५५॥चौपाई॥सुनिबोलेमुनिअतिसुखपाई॥पुण्यपुरुष
कहंमहिसुखछाई॥जिमिसरितासागरमहंजांही॥यद्यपिता
हिकामनानाहीं॥तिमिसुखसम्पतिबिनहिबुलाए॥धर्मशील
पहंजाहिंसुहाए॥तुमगुरुविप्रधेनुसुरसेवी॥तसपुनीतकौ
शल्यादेवी॥सुकृतीतुमसमानजगमाहीं॥भयउनहैकोउहो
नेउनाहीं॥तुमतेंअधिकपुण्यबडकाके॥राजनरामसरिससु
तजाके॥बीरविनीतधर्मब्रतधारी॥गुणसागरबालकबरचा
री॥तुमकहंसर्वकालकल्याणा॥सजहुबरातबजाइनिसाना॥
दोहा॥चलेउबेगिसुनिगुरुबचनभलेहिंनाथशिरनाइ॥भूप
तिगवनेभवनतबहूतन्हिवासदिवाइ॥२५६॥चौपाई॥राजास
बरनिवासबुलाई॥जनकपत्रिकावांचिसुनाई॥सुनिसन्देशस
कलहरषानी॥अपरकथासबभूपबखानी॥प्रेमप्रफुल्लितरा
जाराणी॥मनहुंशिखिनसुनिबारिदबाणी॥मुदितअशीष
देहिंगुरुनारी॥अतिआनन्दमगनमहतारी॥लेहिंपरस्परअ
तिप्रियपांती॥हृदयलगाइजुडावहिंछाती॥रामलषणकी
कीरतिकरणी॥बारहिंबारभूपबरबरणी॥मुनिप्रसादकहि
द्वारसिधाये॥रानिन्हतबमहिदेवबुलाये॥दिएदानआनन्दस

बर्ल
२

मेता॥ चलेविप्रबरआशिषदेता॥ सोरठा॥ याचकलियेहंका
रिदीन्हनिछावरिकोटिविधि॥ चिरजीबहुसुतचारिचक्रवर्ति
दशरथके॥ २५७॥ चौपाई॥ कहतचलेपहिरैंपटनाना॥ हरषि
हनेगहगहेनिसाना॥ समाचारसबलोगनपाए॥ लागेघरघर
होनबधाए॥ भुवनचारिदशभरेउउछाहू॥ जनकसुतारघुवी
रविवाहू॥ सुनिशुभकथालोकअनुरागे॥ मगगृहगलींसंवा
रनलागे॥ यद्यपिअवधसदैवसुहावनि॥ रामपुरीमङ्गलमय
पावनि॥ तदपिप्रीतिकीरीतिसुहाई॥ मङ्गलरचनारचीबना
ई॥ ध्वजपताकपटचामरचारू॥ छावापरमविचित्रवजारू॥
कनककलशतोरणमणिजाला॥ हरददूबदधिअक्षतमाला॥
दोहा॥ मङ्गलमयनिजनिजभवनलोगनरचेबनाउ॥ बीथींसीं
चीचतुरसमचौकेचारुपुराउ॥ २५८॥ चौपाई॥ जहंतहंयूथयूथ
मिलिभामिनि॥ सजिनवसप्तसकलद्युतिदामिनि॥ विधुबदनी
मृगशावकलोचनि॥ निजस्वरूपरतिमानविमोचनि॥ गावहि
मङ्गलमञ्जुलबाणी॥ सुनिकलरवकलकण्ठलजानी॥ भूप
भवनकिमिजाउबषाना॥ विश्वविमोहनरचेउविताना॥ मङ्गल
द्रव्यमनोहरनाना॥ राजतबाजतविपुलनिसाना॥ कतहुंवि
रदवन्दीउच्चरहीं॥ कतहुंवेदध्वनिभूसुरकरहीं॥ गावहिंसुन्द

रिमंगलगीता॥ लैलैनामरामअरुसीता॥ बहुतउछाहभव
नअतिथोरा॥ मानहुंउमगिचलाचहुंओरा॥ दोहा॥ सो
भादशरथभवनकीकोकबिबरणैपार॥ जहांसकलसुर
शीषमणिरामलीन्हअवतार॥२५९॥ चौपाई॥ भूपभरतपु
निलियेबुलाई॥ हयगजस्यन्दनसाजहुजाई॥ चलहुवेगिर
घुबीरबराता॥ सुनतपुलकपूरेदोऊभ्राता॥ भरतसकलसा
हनीबुलाए॥ आयसुदीन्हमुदितउठिधाए॥ रचिरुचिजी
नतुरगतिनसाजे॥ वर्णवर्णवरवाजिविराजे॥ सुभगसक
लसुठिचंचलकरणी॥ अयइवजरतधरतपगधरणी॥ नानाभां
तिनजाहिंबषाने॥ निदरिपवनजनुचहतउड़ाने॥ तिनसब
छयलभएअसवारा॥ भरतसरिससबराजकुमारा॥ सबसु
न्दरसबभूषणधारी॥ करसरचापतूणकटिभारी॥ दोहा
छरेछबीलेछयलसबसूरसुजाननवीन॥ जुगपदचरअस
वारप्रतिजेअसिकलाप्रवीण॥२६०॥ चौपाई॥ बांधेविरदबी
ररणगाढे॥ निकसिभयेपुरबाहिरठाढे॥ फेरहिंचतुरतुर
गगतिनाना॥ हरषहिंध्वनिसुनिपवननिसाना॥ रथसारथि
नविचित्रबनाए॥ ध्वजपताकमणिभूषणलाए॥ चमर
चारुकिंकिणिध्वनिकरहीं॥ भानुयानशोभाअपहरहीं

स्यामकर्ण अगणित हय होते॥ ते तिन्ह रथन सारथिन जोते॥ सुन्दर सकल अलंकृत सोहैं॥ जिनहिं बिलोकत मुनि मन मोहैं॥ जे जल चलहिं थलहिं की नाईं॥ टाप न बूड़ बेग अधिकाईं॥ अस्त्र शस्त्र सब साज सजाईं॥ रथ सारथिन बिचित्र बनाईं॥ दोहा॥ चढ़ि चढ़ि रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात॥ होत सगुण सुन्दर सबहिं जो जेहिं कारज जात॥२९८॥ चौपाई॥।

कलित करीबरनि परीं अंबारी॥ कहि न जाइ जेहिं भांति संभारी॥ चले मत्त गज घंट बिराजे॥ मनहुं सुभग सावण घन गाजे॥ वाहन अपर अनेक बिधाना॥ शिबिका सुभग सुखासन याना॥ तिन चढ़ि चले बिप्रवर बृन्दा॥ जनु तनु धरैं सकल श्रुति छन्दा॥ मागध सूत बन्दि गुणगायक॥ चले यान चढ़ि जे जेहिं लायक॥ बेसर ऊंट बृषभ बहु जाती॥ चले वस्तु भरि अगणित भांती॥ कोटिन्ह कांवरि चले कहारा॥ बिबिध वस्तु को बरणै पारा॥ चले सकल सेवक समुदाई॥ निज निज साज समाज बनाई॥ दोहा॥ सब के उर निर्भर हरष पूरित पुलक शरीर॥ कबहिं देखिहैं नयन भरि राम लषण दोउ बीर॥२९९॥ चौपाई

गरजहिं गज घंटा ध्वनि घोरा॥ रथ रव बाजि हिंस चहुं ओरा॥ निदरि घनहिं घुम्मरहिं निसाना॥ निज पराय कछु सुनिय न काना॥

महाभीरभूपतिकेद्वारे॥ रजहोइजाइपषानपवारे॥ चढी
अटारिनदेखहिंनारी॥ लिएआरतीमङ्गलथारी॥ गावहिं
गीतमनोहरनाना॥ अतिआनन्दनहिजाइबखाना॥ तबसु
मन्तदुइस्यन्दनसाजी॥ जोतेरविहयनिन्दकबाजी॥ दोउर
थरुचिरभूपपहंआने॥ नहिसारदपतिजाहिंबखाने॥ रा
जसमाजएकरथसाजा॥ दूसरतेजपुञ्जअतिभ्राजा॥ दो
हा॥ तेहिंरथरुचिरवसिष्ठकहंहरषिचढाइनरेश॥ आपु
चढेउस्यन्दनसुमिरिहरगुरुगौरिगणेश॥ ३६३॥ चौपाई
सहितवसिष्ठसोहनृपकैसें॥ सुरगुरुसंगपुरन्दरजैसें॥
करिकुलरीतिवेदविधिराऊ॥ देखिसबहिंसबभातिबना
ऊ॥ सुमिरिरामगुरुआयसुपाई॥ चलेमहीपतिशंखबजा
ई॥ हरषेविबुधविलोकिबराता॥ बरषहिंसुमनसुमङ्गल
दाता॥ भयउकोलाहलहयगजगाजे॥ व्योमबरातबाजने
बाजे॥ सुरनरनारिसुमङ्गलगाई॥ सरसरागबाजहिंसह
नाई॥ घंटघंटिध्वनिबरणिनजाई॥ सरवकरहिंपायक
फहराई॥ करहिंविदूषककौतुकनाना॥ हासकुशलकल
गानसुजाना॥ दोहा॥ तुरगनचावहिंकुअरवरअकनि
मृदङ्गनिसान॥ नागरनटचितवहिंचकितडगहिंनतालबं

रामा०
बा०
१०५

105

थान॥ ३०४॥ चौपाई॥ बनैनबरणतबनीबराता॥ होउस
गुणसुन्दरशुभदाता॥ चारुचाषवामदिशिलेई॥ मनहुंस
कलमङ्गलकहिदेई॥ दाहिनकागसुखेतसुहावा॥ नकु
लदरशसबकाहूंनपावा॥ सानुकूलवहत्रिविधिवयारी॥
सघटसवालआवबरनारी॥ लावाफिरिफिरिदरशदिखा
वा॥ सुरभीसन्मुखशिशुहिंपिआवा॥ मृगमालादाहिन
फिरिआई॥ मङ्गलगणजनुदीन्हदिखाई॥ छेमङ्करीकह
छेमविशेषी॥ श्यामावामसुतरुपरदेषी॥ सन्मुखआयउ
दधिअरुमीना॥ करपुस्तकदुइविप्रप्रवीणा॥ दोहा॥ मङ्गं
लमयकल्याणमयअभिमतफलदातार॥ जनुसबसांचे
होंनहितभएशगुणएकवार॥ ३०५॥ चौपाई॥ मङ्गलशगु
णसुगमसबताके॥ सगुणब्रह्मसुन्दरसुतजाके॥ रामस
रिसवरदुलहिनिसीता॥ समधीदशरथजनकपुनीता॥
सुनिअसव्याहशगुणसबनाचे॥ अबकीन्हविरञ्चिहमसां
चे॥ यहिविधिकीन्हबरातपयाना॥ हयगजगाजहिंहनहिं
निसाना॥ आवतजानिभानुकुलकेतू॥ सरितजनकबंधा
धायेसेतू॥ बीचबीचबरबासबनाए॥ सुरपुरसरिससम्प
दाछाए॥ अशनशयनबरबसनसुहाए॥ पावहिंसबनिजनि

जमनभाए॥ नितनूतनसुखलखिअनुकूले॥ सकलवरा
तिनमन्दिरभूले॥ दोहा॥ आवतजानिबरातबरसुनिगहगहे
हेनिसान॥ सजिगजरथपदचरतुरगलैंनचलेअगवान॥ ५
चौपाई॥ कनककलसकलकोपरथारा॥ भोजनललितअ
नेकप्रकारा॥ भरेसुधासमसबपकवाना॥ भांतिभांतिनहि
जाहिंबखाना॥ फलअनेकवरबस्तुसुहाई॥ हरषिभेटहि
तभूपपठाई॥ भूषणवसनमहामणिनाना॥ खगमृगहय
गजबहुबिधियाना॥ मङ्गलसगुणसुगन्धसुहाए॥ बहुत
भांतिमहिपालपठाए॥ दधिचिउराउपहारअपारा॥ भरि
भरिकांवरिचलेकहारा॥ अगवानन्हजबदीखबराता॥ उर
आनन्दपुलकभरगाता॥ देखिबनावसहितअगवाना॥ मुदि
तबरातिनहनेनिसाना॥ दोहा॥ हरषिपरस्परमिलनहित
ककुकचलेवगमेल॥ जनुआनन्दसमुद्रदुइमिलतविहाइ
सुवेल॥ ३०५॥ चौपाई॥ वरषिसुमनसुरसुन्दरिगावहिं॥
मुदितदेवदुन्दुभीबजावहिं॥ वस्तुसकलराखीनृपआगे॥
विनयकीन्हतिन्हअतिअनुरागे॥ प्रेमसमेतरायसबलीन्हा॥
भइबकसीसयाचकनदीन्हा॥ करिपूजामान्यताबडाई॥ ज
नवांसेकहंचलेलिवाई॥ वसनविचित्रपांवडेपरहीं॥ देखि

९९॥

पनदयनमदपरिहरहीं॥ नृपदशरथतापरपगुधरहीं॥।
बरषिसुमनसुरजयजयकरहीं॥ यहहुईपदलेपकहैं॥
अतिसुन्दरदीन्हेंउजनवांसा॥ जहंसबकहःसबभांतिसुपा
सा॥ जानीसियबरातपुरआई॥ ककुनिजमहिमाप्रगटिज
नाई॥ हृदयसुमिरसबसिद्धिबुलाई॥ भूपपहुनईकरणपठ
ई॥ दोहा॥ सियआयसुधिरसिद्धियरिगईंजहांजनवास॥
लिपसंपदासकलसुखसुरपुरभोगविलास॥ ३६८॥ चौपा
ई॥ निजनिजबासविलोकिबरांती॥ सुरसुखसकलसुल
भसबभांती॥ विभवभेदकछुकाहुनजाना॥ सकलजनक
करकरहिंबखाना॥ सियमहिमारघुनायकजानी॥ हरषे
हृदयहेतुपहिचानी॥ पितुआगमनसुनतदोउभाई॥ हृद
यनअतिआनन्दअमाई॥ सकुचतकहिनशाकतगुरुपाहीं
पितदरशनलालचमनमाहीं॥ विश्वामित्रविनयबडिदेषी
उपजाउरसन्तोषविशेषी॥ हरषिबन्धुदोउहृदयलगाए॥ पु
लकअंगलोचनजलछाए॥ चलेजहांदशरथजनवासे॥।
मनहुसरोवरतकेपियासे॥ दोहा॥ भूपविलोकेजबहिंमुनि
आवतसुतनसमेत॥ उठेउहरषिसुखसिन्धुमहंचलेथाह
सीलेत॥ ३६९॥ चौपाई॥ मुनिहिंदण्डवतकीन्हमहीशा॥ बा

खवारपदरजधरिशीशा॥ कौशिकराउलिएउरलाइ॥ कहि
आशीषपूछीकुशलाइ॥ पुनिदंडवतकरतदोउभाइ॥ दे
खिनृपतिउरसुखनसमाइ॥ सुतहियलाइदुसहदुखमेटे॥
मृतकशरीरप्राणजनुभेटे॥ पुनिबसिष्ठपदशिरतिन्हनाए
प्रेममुदितमुनिबरउरलाए॥ विप्रवृन्दबन्देदुहुंभाइ॥ मनभा
वतिआशीषतिन्हपाइ॥ भरतसहानुजकीन्हप्रणामा॥ लि
एउठाइलाइउररामा॥ हरषेलषणदेखिदोउभ्राता॥ मिलेप्रे
मपरिपूरितगाता॥ दोहा॥ पुरजनपरिजनजातिजनयाच
कमंत्रीमीत॥ मिलेयथाविधिसबहिंप्रभुपरमकृपालविनीत ३२०॥
चौपाई॥ रामहिंदेखिबरातजुडानी॥ प्रीतिकीरीतिनजाइबखा
नी॥ नृपसमीपसोहहिंसुतचारी॥ जनुधनधर्मादिकतनुधा
री॥ सुतन्हसहितदशरथकहंदेषी॥ मुदितनगरनरनारिवि
शेषी॥ सुमनवरषिसुरहनहिंनिसाना॥ नाकनटीनाचहिंक
रिगाना॥ शतानन्दअरुविप्रसचिवगण॥ मागधसूतविदुष
बन्दीजन॥ सहितबरातराउसनमाना॥ आयसुमांगिफिरे
अगवाना॥ प्रथमबरातलगनतेंआई॥ तातेंपुरप्रमोदअधि
काई॥ ब्रह्मानन्दलोगसबलहहीं॥ बढउदिवसनिशिविधिस
नकहहीं॥ दोहा॥ रामसीयशोभाअवधिसुकृतअवधिदोउरा

ज॥जहंतहंपुरजनकहहिंअसमिलिनरनारिसमाज॥३१॥
चौपाई॥जनकसुकृतमूरतिबैदेही॥दशरथसुकृतराम
धरिदेही॥इनसमकाहुनशिवआराधे॥काहुनइनसमान
फलसाधे॥इनसमकोउनभएजगमाहीं॥हैनहिकतहूंहो
नेउनाहीं॥हमसबसुफलसुकृतकीराशी॥भयेजगजन्मि
जनकपुरबासी॥जिनजानकीरामछबिदेषी॥कोसुकृती
हमसरिसविशेषी॥पुनिदेखबरघुबीरविबाहू॥लेबभली
विधिलोचनलाहू॥कहहिंपरस्परकोकिलबयनी॥यहि
विवाहबडलाहसुनयनी॥बडेभागविधिबातबनाई॥नयन
अतिथिहोइहैदोउभाई॥दोहा॥बारहिंबारसनेहवशजन
कबोलाउबसीय॥लेनआइहहिंबन्धुदोउकोटिकामकमनी
य॥३२॥चौपाई॥विविधभांतिहोइहिंपहुनाई॥प्रियनका
हिअससासुरमाई॥तबतबरामलषणहिंनिहारी॥होइह
हिंसबपुरलोगसुखारी॥सखिजसरामलषणकरजोटा॥
तैसेइभूपसंगदुइढोटा॥श्यामगौरसबअंगसुहाए॥तेसब
कहहिंदेखिजेआए॥कहाएकमैंआजुनिहारे॥जनुविर
ञ्चिनिजहाथसंवारे॥भरतरामएकहिंअनुहारी॥सहसा
लखिनशकहिंनरनारी॥लषणशत्रुसूदनएकरूपा॥न

निर्वारी
३

खषिखषैंसबअङ्गअनूपा॥मनभावहिंमुखबरणिनजाहीं॥
उपमाकहंत्रिभुवनकोउनाहीं॥छन्दः॥उपमानकोउकहदास
तुलसीकतहुंकबिकोविदकहैं॥बलविनयविद्याशीलशोभा
सिन्धुइनसमएहैं॥६९॥पुरनारिसकलपसारिअञ्चलविधि
हिंवचनसुनावहीं॥व्याहियहुचारिउभाइएहिंपुरहमसुमङ्ग
लगावहीं॥७०॥सोरठा॥कहहिंपरस्परनारिवारिविलोचन।
पुलकतनु॥सखिसबकरबपुरारिपुण्यपयोनिधिभूपदोउ॥
चौपाई॥इहिविधिसकलमनोरथकरहीं॥आनन्दउमगिउम
गिउरभरहीं॥जेनृपसीयस्वयम्बरआए॥देखिबन्धुसबतिन
सुखपाए॥कहतरामयशविशदविशाला॥निजनिजभवन
गएमहिपाला॥गएबीतिकछुदिनयहिभांती॥प्रमुदितपुर
जनसकलबराती॥मंगलमूललगनदिनआवा॥हिमऋतुअ
गहनमाससुहावा॥ग्रहतिथिनखतयोगवरबारू॥लगनशो
धिबिधिकीन्हविचारू॥पठैदीन्हनारदसनसोऊ॥गनीजनक
केगणकहजोऊ॥सुनीसकललोगनयहबाता॥कहहिंजोति
षीविप्रविधाता॥दोहा॥धेनुधूलिबेलाविमलसकलसुमङ्गल
मूल॥विप्रनकहेउविदेहसनजानिसमयअनुकूल॥३१४॥॥
चौपाई॥उपरोहितहिंकहेउनरनाहा॥अबविलम्बकरकारणका

हा॥ शतानन्द तब सचिव बुलाए॥ मङ्गल सकल साजि सब
ल्याए॥ शंख निशान पनव बहु बाजे॥ मङ्गल कलश सगुन सु
भ साजे॥ सुभग सुआसिनि गावहिं गीता॥ करहिं वेद ध्वनि वि
प्र पुनीता॥ लेन चले सादर यहि भांती॥ गए जहां जनवास ब
राती॥ कोशलपति कर देखि समाजू॥ अति लघु लाग तिनहिं
सुरराजू॥ भयउ समय अब धारिय पाऊ॥ यह सुनि परा निसा
नन घाऊ॥ गुरुहिं पूछि करि कुल विधि राजा॥ चले संग मुनि
साधु समाजा॥ दोहा॥ भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्र
ह्मादि॥ लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज वादि॥ ३२५
चौपाई॥ सुरन सुमङ्गल अवसर जाना॥ बरषहिं सुमन बजाइ
निसाना॥ शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा॥ चढे विमानन्ह ना
ना यूथा॥ प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू॥ चले विलोकन राम
बिबाहू॥ देखि जनकपुर सुर अनुरागे॥ निज निज लोक सब
हिं लघु लागे॥ चितवहिं चकित विचित्र विताना॥ रचना सक
ल अलौकिक नाना॥ नगर नारि नर रूप निधाना॥ सुघर सु
धर्म सुशील सुजाना॥ तिनहिं देखि सब सुर सुरनारी॥ भए
नखत जनु विधु उजियारी॥ विधिहिं भयउ आश्चर्य विशेषी॥
निज करणी कछु कतहुं न देषी॥ दोहा॥ शिव समुझाए देव सब

जनिआश्चर्यभुलाहु॥ हृदयविचारहुधीरधरिसियरघुबीरविवाहु॥ ३१६॥ चौपाई॥ जेहिकरनामलेतजगमांही॥ सकलअमङ्गलमूलनशांही॥ करतलहोहिंपदारथचारी॥ तेसियरामकहेउकामारी॥ यहिविधिशम्भुसुरनसमुझावा॥ पुनिआगेवरवृषभचलावा॥ देवनदेखेदशरथजाता॥ महामोदमनपुलकितगाता॥ साधुसमाजसङ्गमहिदेवा॥ जनुतनुधरेकरहिंसुखसेवा॥ सोहतसाथसुभगसुतचारी॥ जनुअपवर्गसकलतनुधारी॥ मरकतकनकवरणवरजोरी॥ देखिसुरनभइप्रीतिनथोरी॥ पुनिरामहिंविलोकिहियहर्षे॥ नृपहिंसराहिसुमनतिन्हवर्षे॥ दोहा॥ रामरूपनखशिखसुभगवारहिंवारनिहारि॥ पुलकगातलोचनसजलउमासमेतपुरारि॥ ३११॥ चौपाई॥ केकीकण्ठदुतिश्यामलअंगा॥ तडितविनिन्दकवसनसुरंगा॥ ब्याहविभूषणविवियबनाए॥ मङ्गलमयसबभांतिसुहाए॥ शरदविमलविधुवदनसुहावन॥ नयननवलराजीवलजावन॥ सकलअलौकिकसुन्दरताई॥ कहिनजाइमनहीमनभाई॥ बंधुमनोहरसोहहिंसंगा॥ जातनचावतचपलतुरंगा॥ राजकुंअरवरबाजिनचावहिं॥ वंशप्रशंसकविरदसुनावहिं॥ जेहिंतुरङ्गप

रामा०
बा०
१०५

109

ररामविराजे॥ गतिविलोकिखगनायकलाजे॥ कहिनजा
इसबभांतिसुहावा॥ वाजिवेषजनुकामवनावा॥ छन्दः॥
जनुवाजिवेषबनाइमनसिजरामहितअतिसोहही॥ आप
नेवयबलरूपगुणगतिसकलभुवनमोहही॥ १५॥ जगम
गितजीनजडावजोतिसुमोतिमणिमाणिलगे॥ किंकिं
णीललामलगामललितविलोकिसुरनरमुनिठगे॥ २२
दोहा॥ प्रभुमानसहिलयलीनमनचलतवाजिछविपाव
भषितउडुगणतडितघनजनुवरवर्हिनचाव॥ ३१८॥ चौपाई
जेहिंवरवाजिरामअसवारा॥ तेहिंशारदऊनवरणैपारा॥
शङ्कररामरूपअनुरागे॥ नयनपंचदशअतिप्रियलागे॥
हरिहितसहितरामजवजोहे॥ रमासमेतरमापतिमोहे॥
निरषिरामछविविधिहरषाने॥ आठैनयनजानिपछिताने॥
सुरसेनपउरवहुतउछाहू॥ विधितेंवढेविलोचनलाहू॥
रामहिंचितवसुरेशसुजाना॥ गोतमशापपरमहितमा
ना॥ देवसकलसुरपतिहिंसिहाहीं॥ आजपुरन्दरसम
कोउनाहीं॥ मुदितदेवगणरामहिंदेषी॥ नृपसमाजदुहुं
हर्षविशेषी॥ छन्दः॥ अतिहर्षराजसमाजदुहुंदिशिदुन्दु
भीवाजहिंघनी॥ वरषहिंसुमनसुरहरषिकहिंजयजय

तिजयरघुकुलमणी॥३३॥इहिभांतिजानिबरातआव
तबाजनेबहुबाजहीं॥राणीसुआसिनीबोलिपरिछनहे
तुमंगलसाजहीं॥३४॥दोहा॥सजिआरतीअनेकविधिम
ङ्गलसकलसम्हारि॥चलीमुदितपरिछनकरणगज
गामिनिवरनारि॥३२५॥चौपाई॥विधुवदनीसबमृगशावक
लोचनि॥सबनिजतनछविरतिमदमोचनि॥पहिरेंबरण
बरणबरचीरा॥सकलविभूषणसजैंशरीरा॥सकलसु
मंगलअंगबनाए॥करहिंगानकलकंठलजाए॥कङ्क
णकिंकिणीनूपुरबाजहिं॥चालिविलोकिकामगज
लाजहिं॥बाजहिंबाजनविविधप्रकारा॥नभअरुनग
रसुमङ्गलचारा॥शचीशारदारमाभवानी॥जेसुरति
यशुचिसहजसयानी॥कपटनारिवरवेषबनाई॥मिली
सकलरनिवासहिंआई॥करहिंगानकलमङ्गलबाणी
हरषविवशसबकाहुनजानी॥छन्द॥कोजानकेहिआ
नन्दवशसबब्रह्मवरपरिछनचली॥कलगानमधुरनि
सानवरषहिंसुमनसुरशोभाभली॥३५॥आनन्दक
न्दविलोकिदूलहसकलहियहर्षितभई॥अम्भोजअ
म्बकअम्बुउमगिसुअङ्गपुलकावलिछई॥३६॥दोहा॥

रा.मा.० बा.० ११०

110

जो सुख भा सिय मातु मन देखि राम वर वेष॥ सो न शाकहिं कहि कल्प शत सहस शारदा शेष॥ ३८०॥ चौपाई॥ नयन नीर हटि मंगल जानी॥ परिछन करहिं मुदित मन रानी॥ वेद विहित अरु कुल व्यवहारू॥ कीन्ह भली विधि सब परिवारू॥ पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना॥ पट पांवडे परहिं विधि नाना॥ करि आरती अर्घ तिन दीन्हा॥ राम गवन मंडप तब कीन्हा॥ दशरथ सहित समाज विराजे॥ विभव विलोकि लोकपति लाजे॥ समय समय सुर वर्षहिं फूला॥ शान्ति पठहिं महिसुर अनुकूला॥ नभ अरु नगर कोलाहल होई॥ आपन पर कछु सुनै न कोई॥ इहि विधि राम मंडपहिं आए॥ अर्घ देइ आसन बैठाए॥ छन्दः॥ बैठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पावहीं॥ मणि वसन भूषण भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं॥ ११॥ ब्रह्मादि सुर वर विप्र वेष बनाइ कौतुक देखहीं॥ अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं॥ १२॥ दोहा॥ नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ॥ मुदित असीसहिं नाइ शिर हर्ष न हृदय समाइ॥ ३८१॥ [चौपाई]॥ मिले जनक दशरथ अति प्रीती॥ करि वैदिक लौंकिक सब रीती॥ मि

ललितमहादोउराजबिराजे॥ उपमाखोजिखोजिकबिला
जे॥ लहीनकतहुंहारिहियमानी॥ इनसमएउपमाउरआ
नी॥ समधीदेखिदेवअनुरागे॥ सुमनबरषियशगावनला
गे॥ जगबिरंचिउपजावाजबतें॥ देखेसुनेब्याहबहुत
बतें॥ सकलभांतिसमसाजसमाजू॥ समसमधीदेखेह
मआजू॥ देवगिरासुनिसुन्दरसांची॥ प्रीतिअलौकिक
दुहुंदिशिमांची॥ देतपांवडेअर्घसुहाए॥ सादरजनक
मण्डपहिंल्याए॥ छन्दः॥ मण्डपबिलोकिबिचित्ररचना
रुचिरतामुनिमनहरे॥ निजपाणिजनकसुजानसब
कहंआनिसिंहासनधरे॥ ७९॥ कुलइष्टसरिसबसिष्टपू
जेबिनयकरिआशिषलही॥ कौशिकहिंपूजतपरम
प्रीतिकीरीतीतौनपरैकही॥ ८०॥ दोहा॥ बामदेवआदि
कऋषयपूजेमुदितमहीश॥ दियेदिव्यआसनसबहिंस
बसनलहीआशीष॥ २८२॥ चौपाई॥ बहुरिकीन्हकोशल
पतिपूजा॥ जानिईशसमभावनदूजा॥ कीन्हजोरिकर
बिनयबडाई॥ कहिनिजभाग्यबिभवबहुताई॥ पूजेभूप
तिसकलबराती॥ समधीसमसादरसबभांती॥ आसन
उचितदिएसबकाहू॥ कहौंकहामुखएकउछाहू॥ सक

रामा०
बा०
१११

लवशतजनकसनमानी॥दानमानबिनतीबरबाणी॥बि
धिहरिहरुदिशिपतिदिनराऊ॥जेजानहिंरघुबीरप्रभाऊ
कपटविप्रबरवेषबनाए॥कौतुकदेखहिंअतिसचुपाए॥
पूजेजनकदेवसमजाने॥दिएसुआसनबिनुपहिचाने॥
छन्दः॥पहिचानकोकेहिजानसबहिंअपानसुधिभोरीभ
ई॥आनन्दकन्दविलोकिदूलहउभयदिशिआनन्दमई॥८
सुरलखेरामसुजानपूजेमानसिकआसनदए॥अवलो
किशीलसुभावप्रभुकौंबिबुधमनप्रमुदितभए॥८२॥
दोहा॥रामचन्द्रमुखचन्द्रछबिलोचनचारुचकोर॥करत
पानसादरसकलप्रेमप्रमोदनथोर॥३८३॥चौपाई॥सम
यविलोकिबसिष्ठबुलाए॥सादरशतानन्दसुनिआए
वेगिकुअरिअबआनहुजाई॥चलेमुदितमुनिआयसुपा
ई॥रानीसुनिउपरोहितबाणी॥प्रमुदितसखिनसमेत
सयानी॥विप्रबधूकुलवृद्धबुलाई॥करिकुलरीतिसुमङ्ग
लगाई॥नारिवेषजेसुरबरबामा॥सकलसुभायसुन्दरी
श्यामा॥तिनहिंदेखिसुखपावहिंनारी॥विनुपहिचानिप्रा
णतैंप्यारी॥वारवारसनमानहिंरानी॥उमारमाशारदसमजा
नी॥सीयसम्हारिसमाजबनाई॥मुदितमण्डपहिंचलीलिवाई

१

छन्दः॥ चलिलवाइसीतहिसखीसादरसजिसुमङ्गलभा
मिनी॥ नवसप्तसाजेसुन्दरीसबमत्तकुञ्जरगामिनी॥ ८३
कलगानसुनिमुनिध्यानत्यागहिंकामकोकिललाजहीं
मञ्जीरनूपुरकलितकङ्कणतालगतिवरबाजहीं॥ ८४॥ दो
हा॥ सोहतिवनिताबृन्दमहँसहजसोहावनिसीय॥ छबिल
लनागणमध्यजनुसुखमातियकमनीय॥ ३८४॥ चौपाई॥
सियसुन्दरतावरणिनजाई॥ लघुमतिबहुतमनोहरताई॥
आवतदेखिबरातिनसीता॥ रूपराशिसबभांतिपुनीता॥
सबहिंमनहिंमनकीन्हप्रणामा॥ देखिरामभएपूरणकामा
हर्षेदशरथसुतनसमेता॥ कहिनजाइउरआनन्दजेता॥ सु
रप्रणामकरिवर्षहिंफूला॥ मुनिआशीषध्वनिमंगलमू
ला॥ गाननिसानकोलाहलभारी॥ प्रेमप्रमोदनगरनरनारी
इहिविधिसीयमण्डपहिंआई॥ प्रमुदितशांतिपढहिंमुनि
राई॥ तेहिंअवसरकरिविधिव्यवहारू॥ दुहुंकुलगुरुसब
कीन्हआचारू॥ छन्दः॥ आचारकरिगुरुगौरिगणपति
मुदितविप्रपूजावहीं॥ सुरप्रगटिपूजालेंहिंदेहिंअशीष
अतिसुखपावहीं॥ ८५॥ मधुपर्कमङ्गलद्रव्यजोजेहिंसम
यमुनिमनमहंचहैं॥ भरेकनककोपरकलशसबलयेप

रिचारकरहैं॥८६॥कुलरीतिप्रीतिसमेतरविकहिदेतसब
सादरकियो॥यहिभांतिदेवपूजाइसीतहिंसुभगसिंहास
नदियो॥८७॥सियरामअवलोकनपरस्परप्रेमकाहुनल
खिपरै॥मनबुद्धिवरबाणीअगोचरप्रगटकविकैसेंकरै॥८८

दोहा॥होमसमयतनुधरिअनलअतिहितआहुतिलेहिं॥
विप्रवेषधरिवेदसबकहिविवाहविधिदेहिं॥३२४॥चौपाई

जनकपाटमहिषीजगजानी॥सीयमातुकिमिजाइबखानी
सुयशसुकृतसुखसुन्दरताई॥सबसमेटिविधिरचीबनाई॥
समयजानिमुनिवरनिबुलाई॥सुनतसुवासिनिसादरल्याई
जनकवामदिशिसोहसुनयना॥हिमगिरिसंगबनीजनुमय
ना॥कनककलशमणिकोपररूरे॥शुचिसुगन्धमङ्गलज
लपूरे॥निजकरमुदितराउअरुरानी॥धरेरामकेआगेआनी
पढहिंवेदमुनिमङ्गलबाणी॥गगनसुमनझरिअवसर
जानी॥वरविलोकिदम्पतीअनुरागे॥पायपुनीतपखारण
लागे॥छन्द॥लागेपखारणपादपङ्कजप्रेमतनुपुलका
वली॥नभनगरगाननिसानजयध्वनिउमगिजनुचहुंदि
शिचली॥८९॥जेपदसरोजमनोजअरिउरसरसदैवविरा
जहीं॥जेसुकृतसुमिरतविमलतामनसकलकलिमल

भाजहीं॥ ९०॥ जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातक
मई॥ मकरन्द जिनको शम्भु शिर शुचिता अवधि सुर बरनई
करि मधुप मुनि मन योगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैं॥
ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सब कहैं॥ ९२॥ वर
कुंअरि करतल जोरि शाखोचार दोउ कुलगुरु करैं॥ भयो पाणि
गहण बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरैं॥ ९३॥ सुख
मूल दूलह देखि दम्पती पुलक तनु हुलसो हियै॥ करि लोक
वेद बिधान कन्यादान नृपभूषण कियौ॥ ९४॥ हिमवन्त जि
मि गिरिजा महेशहिं हरिहिं श्री सागर दई॥ तिमि जनक राम
हिं सिय समर्पी बिश्व कल कीरति नई॥ ९५॥ क्यों करै बिनय
बिदेह कियो बिदेह मूरति सांवरी॥ करि होम बिधिवत गां
ठि जोरी होन लागी भांवरी॥ ९६॥ दोहा॥ जय ध्वनि बन्दी बेद
ध्वनि मङ्गल गान निसान॥ सुनि हरषहिं वरषहिं बिबुध सु
रतरु सुमन सुजान॥ ३२८॥ चौपाई॥ कुंअर कुंअरि कल भा
वरि देहीं॥ नयन लाभ सब सादर लेहीं॥ जाइ न वरणि मनो
हर जोरी॥ जो उपमा कछु कहौं सो थोरी॥ राम सीय सुन्दर प
रिछाहीं॥ जगमगात मणि खम्भन माहीं॥ मनहुं मदन र
तिधरि बहु रूपा॥ देखहिं राम बिवाह अनूपा॥ दरश लालसा

सकुचनथोरी॥ प्रगटतदुरतबहोरिबहोरी॥ भएमगनस
बदेखनिहारे॥ जनकसमानअपानबिसारे॥ प्रमुदितमु
निनभांवरीफेरी॥ नेगसहितसबरीतिनिबेरी॥ रामसीयसि
रसिंदुरदेहीं॥ सोभाकहिनजातबिधिकेहीं॥ अरुणपरा
गजलजभरिनीके॥ ससिहिंभूषअहिलोभअमीके॥ बहु
रिबसिष्ठदीन्हअनुसासन॥ बरदुलहिनिबैठेएकआसन॥

छन्दः॥ बैठेबरासनरामजानकीमुदितमनदसरथभये॥ त
नुपुलकिपुनिपुनिदेखिअपनेसुकृतसुरतरुफलनये॥ ९
भरिभुवनरहाउछाहरामबिबाहभासबहींकहा॥ केहिभां
तिबरणिसिरातरसनाएकसुखमंगलमहा॥ ९८॥ तबज
नकपाइबसिष्ठआयसुब्याहसाजसंवारिकै॥ माण्डवी
श्रुतिकीरतिउर्मिलाकुंअरिलईहंकारिकै॥ ९९॥ कुशके
तुकन्याप्रथमजोगुणशीलसुखशोभामयी॥ सबरीति
प्रीतिसमेतकरिसोब्याहिनृपभरतहिंदयी॥ १००॥ जान
कीलघुभगिनिपरमसुन्दरिशिरोमणिजानकै॥ सोजन
कदीन्हीब्याहिलषणहिंसकलबिधिसनमानिकै॥ जेहिं
नामश्रुतिकीरतिसुलोचनिसुमुखिसबगुणआगरी
सोदईरिपुसूदनहिंभूपतिरूपशीलउजागरी॥ १०२॥ अ

नुरूपवरदुलनिपरस्परलखीसकुचिहियहरषहीं॥ सब
मुदितसुन्दरतासराहहिंसुमनसुरगणवरषहीं॥ १०३॥ सु
न्दरीसुन्दरवरणसबएकमण्डपराजहीं॥ जनुजीवउर
चारिउअवस्थाविभुनसहितविराजहीं॥ दोहा॥ मुदितअ
वधपतिसकलसुतबधून्हसमेतनिहारि॥ जनुपाएमहिपा
लमणिक्रियनसहितफलचारि॥ ३२७॥ चौपाई॥ जसरघुबी
रव्याहविधिवरणी॥ सकलकुंअरव्याहेतेहिंकरणी॥ क
हिनजाइकछुदाइजभूरी॥ रहाकनकमणिमण्डपपूरी॥
कम्बलवसनविचित्रपटोरे॥ भांतिभांतिबहुमोचनथोरे॥
गजरथतुरगदासअरुदासी॥ धेनुअलंकृतकामदुधासी
वस्तुअनेककरियकिमिलेखा॥ कहिनजाइजानहिंजिनदे
खा॥ लोकपालअवलोकिसिहाने॥ लीन्हअवधपतिसबु
सुखमाने॥ दीन्हयाचकन्हजोजेहिंभावा॥ उबरसोजनवास
हिंआवा॥ तबकरजोरिजनकमृदुबाणी॥ बोलेसबबरातस
नमानी॥ छन्दः॥ सनमानिसकलबरातआदरदानविनय
बढाइकै॥ प्रमुदितमहामुनिबृन्दबन्देपूजितेमलउाइके
१०५॥ सिरनाइदेवमनाइसबसनकहतकरसंपुटकिये॥
सुरसाधुचाहतभावसिन्धुकितोषजलअञ्जलिदिये॥ १०६

करजोरिजनकबहोरिबन्धुसमेतकोशलरायसों॥बोले
मनोहरवचनसानिसनेहशीलसुभायसों॥१०७॥सम्बन्धराए
जनरावरेहमबडेअवसबविधिभए॥यहराजसाजसमेत
सेवकजानिबीबिनुगथलए॥१०८॥एदारिकापरिचारि
काकरिपालवीकरुणामयी॥अपराधछमिबोबोलिपठ
एवहुहौंढीठीदयी॥१०९॥पुनिभानुकुलभूषणसकलस
नमानविधिसमधीकिए॥कहिजातनहिंविनतीपरस्पर
प्रेमपरिपूरणहिए॥११०॥वृन्दारकागणसुमनवरषहिंरा
उजनवासहिंचले॥दुन्दुभीध्वनिअरुवेदध्वनिनभनगरकु
तूहलभले॥१११॥तवसखिनमङ्गलगानकरतिमुनीशआ
यसुपाइके॥दूलहदुलहिनिसहितसुन्दरिचलीकोहब
रल्याइके॥११२॥दोहा॥पुनिपुनिरामहिंचितवसियसकु
चतिमनसकुचैन॥हरतिमनोहरमीनछविप्रेमपियासेनै
न॥३८८॥चोपाई॥श्यामशरीरसुभायसुहावन॥शोभाको
टिमनोजलजावन॥यावकयुतपदकमलसुहाए॥मुनि
मनमधुपरहतजहंछाए॥पीतपुनीतमनोहरधोती॥ह
रतबालरविदामिनिजोती॥कलकिङ्किणीकटिसूत्र
मनोहर॥बाहुविशालविभूषणसोहर॥पीतजनेउमहाछ

मिष्टांग ४

बिदेई॥ करमुद्रिका चोरि चित लेई॥ सोहत ब्याह साज सब सा
जे॥ उर आयत उरभूषण राजे॥ पीत उपरणी कांखासोती॥ दुहुं
आचरनि लागे मणि मोती॥ नयन कमल कल कुण्डल काना॥
बदन सकल सौन्दर्य्य निधाना॥ सुन्दर भृकुटि मनोहर नासा॥
भाल तिलक सुचिरु बिर निवासा॥ सोहत मौर मनोहर माथे॥
मंगलमय मुकुता मणि गांथे॥ छन्दः॥ गांथे महामणि मौ
र मंजुल अङ्ग सब चित चोरहीं॥ पुरनारि सुन्दर बर बिलोक
हिं निरषि छवि तृण तोरहीं॥ ११३॥ मणि बसन भूषण वारि
आरति करहिं मङ्गल गावहीं॥ सुर सुमन बर्षहिं सूत मागध
वन्दि सुयश सुनावहीं॥ ११४॥ कोहबरहिं आने कुंअर कुंअरि
सुआसिनिन्ह सुख पाइ के॥ अति प्रीति लौकिक रीति लागी क
रण मङ्गल गाइ के॥ ११५॥ लहिकोरि गौरि शिखाव रामहिं सी
य सन सादर कहैं॥ रनिवांस हास बिलास रस बश जन्म को
फल सब लहैं॥ ११६॥ निज पाणि मणि महं देखि प्रतिमूरति।
स्वरूप निधान की॥ चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह ब।
श भइ जानकी॥ ११७॥ कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जा
नहिं अली॥ बर कुंअरि सुन्दर सकल सखीन लिवाइ जनवास
हि चली॥ ११८॥ तेहि समय सुनिय अशीष जहं तहं नगर नभ।
आनन्द महा॥ चिरंजियहु जोरी चारु चारिउ मुदित मन सबहीं

कहा॥११९॥ योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि ह
नी॥ चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी
॥ दोहा॥ सहित बधून कुंअर सब तब आये पितु पास॥ शोभा मं
गल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास॥२२९॥ चौपाई॥ पुनि जेव
नार भए उ बहु भांती॥ पठये जनक बुलाइ बराती॥ परत पांव
डे बसन अनूपा॥ सुतन समेत गवन किय भूपा॥ सादर सबके
पाद पखारे॥ यथा योग्य पीढन बैठारे॥ धोए जनक अवधप
ति चरणा॥ शील सनेह जाइ नहिं बरणा॥ बहुरि राम पद
पङ्कज धोए॥ जे हर हृदय कमल महं गोए॥ तीनौ भाइ राम
सम जानी॥ धोए चरण जनक निज पाणी॥ आसन उचित स
बहि नृप दीन्हे॥ बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ सादर लगे पर
न पनवारे॥ कनक कील मणि परण सम्हारे॥ दोहा॥ सूपो
दन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत॥ छण महं सबके परु
सिगे चतुर सुआर विनीत॥२३०॥ चौपाई॥ पंच कवल करि
जेंवन लागे॥ गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ भांति अनेक प
रे पकवाना॥ सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाना॥ परुसन लागे
सुघर सुआरा॥ व्यञ्जन विविध को बरणै पारा॥ चारि भांति भो
जन विधि गाई॥ एक एक विधि बरणि न जाई॥ छ रस रुचिर व्य
ञ्जन बहु जाती॥ एक एक रस अगणित भांती॥ जेंवत देहिं मधुर

ध्वनि गारी॥ ले ले नाम पुरुष अरु नारी॥ समय सुहावन गा
रि बिराजा॥ हसत राउ सुनि सहित समाजा॥ यहि बिधि स
बही भोजन कीन्हा॥ आदर सहित आचमन लीन्हा॥ दोहा॥
देइ पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज॥ जनवासे गवने मु
दित सकल भूप शिरताज॥३९१॥ चौपाई॥ नित नूतन मंगल
पुर माहीं॥ निमिष सरिस दिन यामिनि जाहीं॥ बडे भोर भूपति
मणि जागे॥ याचक गुणगण गावन लागे॥ देखि कुंअर बर
बधून समेता॥ किमि कहि जात मोद मन जेता॥ प्रातक्रिया क
रि गे गुरु पाहीं॥ महाप्रमोद प्रेम मन माहीं॥ करि प्रणाम पूजा
कर जोरी॥ बोले गिरा अमिय जनु बोरी॥ तुम्हरी कृपा सुनि
मुनिराजा॥ भयउ आजु मम पूरण काजा॥ अब सब विप्र बु
लाइ गोसाई॥ देहु धेनु सब भांति बनाई॥ सुनि गुरु करि महि
पाल बडाई॥ पुनि पठए मुनि वृन्द बुलाई॥ दोहा॥ वामदेव अ
रु देव ऋषि बालमीक जाबालि॥ आए मुनिबर निकर तब कौ
शिकादि तपशालि॥३९२॥ चौपाई॥ दण्ड प्रणाम सबहि नृप
कीन्हा॥ पूजि सप्रेम बरासन दीन्हा॥ चारि लक्ष बर धेनु मंगा
ई॥ कामसुरभि सम शील सुहाई॥ सब बिधि सकल अलंकृत की
न्ही॥ मुदित महीप ऋषिन कहं दीन्ही॥ करत बिनय बहु बिधि
नरनाहू॥ लहेउ आजु जग जीवन लाहू॥ पाइ अशीष महीश।

अनन्दा॥ लियेबोलिमुनियाचकबृन्दा॥ कनकबसनमणि
हयगजस्यंद॥ दियेबूझिरुचिरबिकुलनन्दन॥ चलेपढत
गावतगुणगा(था)॥ जयजयजयदिनकरकुलनाथा॥ इहिविधि
रामबिवाहउछाहू॥ शकैनबरणिसहससुखजाहू॥ दोहा॥
बारबारकौशिकचरणशीसनाइकहराउ॥ यहसबसुख
मुनिराजतबकृपाकटाक्षप्रभाउ॥ ३५३॥ चौपाई॥ जनकस
नेहशीलकरतूती॥ नृपसबरातिसराहबिभूती॥ दिनउठि
बिदाअवधपतिमांगा॥ राखहिंसहितजनकअनुरागा॥
नितनूतनआदरअधिकाई॥ दिनप्रतिसहसभांतिपहुनाई॥
नितनवनगरअनन्दउछाहू॥ दशरथगवनसोहाइनका
हू॥ बहुतदिवसबीतेइहिभांती॥ जनुसनेहरजुबंधेबराती
कौशिकशतानन्दतबजाई॥ कहाबिदेहनृपहिंसमुझाई॥
अबदशरथकहंआयसुदेहू॥ यद्यपिछांडिनसकहुसनेहू॥
भलेहिनाथकहिसचिवबुलाए॥ कहिजयजीवशीसतिन्ह
नाए॥ दोहा॥ अवधनाथचाहतचलनभीतरकरहुजनाउ॥
भएप्रेमबशसचिवसुनिविप्रसभासदराउ॥ ३५४॥ चौपाई॥
पुरबासिनसुनिचलीबराता॥ बूझतबिमलपरस्परबाता॥
सत्यगवनसुनिसबबिलखाने॥ मनहुसांझसरसिजसकु
चाने॥ जहंजहंआवतबसेबराती॥ तहंतहंसिद्धचलीबहुभांती

विविधभांतिमेवापकवाना॥ भोजनसाजनजाइबखाना॥
भरिभरिवसहअपारकहारा॥ पठएजनकअनेकसुआरा
तुरगलाखरथसहसपचीसा॥ सबलसंवारेनखअरुशीसा
मत्तसहसदशसिंधुरसाजे॥ जिनहिंदेखिदिशिकुंजरलाजे॥
कनकवसनमणिभरिभरिजाना॥ महिषीधेनुवस्तुविधि
नाना॥ दोहा॥ दाइजअमितनशाकियकहिदीन्हविदेहबहो
रि॥ जोअवलोकतलोकपतिलोकसम्पदाथोरि॥ ३२५॥
चौपाई॥ सबसमाजइहिभांतिबनाई॥ जनकअवधपुरदी
न्हपठाई॥ चलिहिंबरातसुनतसबरानी॥ विकलमीन
गणजनुलघुपानी॥ पुनिपुनिसीयगोदकरिलेहीं॥ देइअ
शीषसिखावनदेहीं॥ होइहुसन्ततपतिहिंपियारी॥ चि
रअहिवातअशीषहमारी॥ सासुससुरगुरुसेवाकरिहू॥
पतिरुखलखिआयसुअनुसरिहू॥ अतिसनेहवशसखी
सयानी॥ नारीधर्मसिखावहिंमृदुबाणी॥ सादरसकलकुं
अरिसमुझाई॥ रानिनवारवारउरलाई॥ बहुरिबहुरिभें
टहिंमहतारी॥ कहहिंविरञ्चिरचीकतनारी॥ दोहा॥ तेहि
अवसरभाइनसहितरामभानुकुलकेतु॥ चलेजनकम
न्दिरमुदितविदाकरावनहेतु॥ ३२६॥ चौपाई॥ चारिउभाइसु
भायसुहाए॥ नगरनारिनरदेखनधाए॥ कोउकहचलनच

रा॰मा॰
बा॰
२१२

117

इत तह हिं आजू ॥ कीन्ह विदेह विदा कर साजू ॥ लेहु नयन भ
रि रूप निहारी ॥ प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ को जाने केहि सु
कृत सयानी ॥ नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ मरत भूख ।
जिमि पाव पियूषा ॥ सुरतरु लहै जन्म कर भूषा ॥ पाव ना
रकी हरि पद जैसें ॥ इन कर दरशन हम कहं तैसें ॥ निरखि रा
म शोभा उर धरहु ॥ निज मन फणि मूरति मणि करहु ॥ इहि
विधि सबहिं नयन फल देता ॥ गये कुंअर सब राज निकेता ॥

दोहा ॥ रूप सिंधु सब बंधु लखि हर्षि उठेउ रनिवासु ॥ करहिं
निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३२७ ॥ चौपाई ॥ देखि
राम छवि अति अनुरागी ॥ प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी
रही न लाज प्रीति उर छाई ॥ सहज सनेह वरणि किमि जाई ॥ ।
भाइन सहित उवटि अन्हवाये ॥ छरस अशन अति हेत जेंवाये
बोले राम सुअवसर जानी ॥ शील सनेह सकुचमय वाणी ॥
राउ अवधपुर चहत सिधाए ॥ विदा होन हित हमहिं पठाए ॥
मातु मुदित मन आयसु देहू ॥ बालक जानि करब नित नेहू ॥
सुनत वचन विलखेउ रनिवासू ॥ बोलि न सकहिं प्रेमवश
सासु ॥ हृदय लगाइ कुंअरि सब लीन्ही ॥ पतिन सौंपि विन
ती अति कीन्ही ॥ छन्दः ॥ करि विनय सिय रामहिं समर्पी जो
रि कर पुनि पुनि कहै ॥ बलि जाउं तात सुजान तुम कहं विदि

तगतिसबकीसुद्धहै॥१२१॥ परिवारपुरजनमोहिराजहिंप्रा
णप्रियसियजानिबी॥ तुलसीसुषीलसनेहलखिनिज
किंकरीकरिमानबी॥१२२॥सोरठा॥ तुमपरिपूरणकाम
जानिशिरोमणिभावप्रिय॥ जनगुणगाहकरामदोषदल
नकरुणायतन॥२९८॥चौपाई॥ असकहिरहीचरणगहि
रानी॥ प्रेमपंकजनुगिरासमानी॥ सुनिसनेहसानीवरबा
णी॥ बहुविधिरामसासुसनमानी॥ रामविदामांगतकर
जोरी॥ कीन्हप्रणामबहोरिबहोरी॥ पाइअशीषबहुरिशि
रनाई॥ भाइनसहितचलेरघुराई॥ मंजुमधुरमूरतिउरआ
नी॥ भईसनेहसिथिलसबरानी॥ पुनिधीरजधरिकुंअरि
हंकारी॥ वारवारभेंटहिंमहतारी॥ पहुंचावहिंफिरिमिल
हिंबहोरी॥ बढीपरस्परप्रीतिनथोरी॥ पुनिपुनिमिलति
सखिनविलगाई॥ बालबत्सजिमिधेनुलवाई॥दोहा॥
प्रेमविवशनरनारिसबसखिनसहितरनिवास॥ मा
नहुंकीन्हविदेहपुरकरुणाविरहनिवास॥२९९॥चौपा
ई॥ शुकशारिकाजानकीजिआए॥ कनकपिंजरनरा
खिपढाए॥ व्याकुलकहहिंकहांवैदेही॥ सुनिधी
रजपरिहरैनकेही॥ भएविकलखगमृगएहिभांती
मनुजदशाकैसेंकहिजाती॥ बंधुसमेतजनकतब

आपु॥ प्रेमउमगिलोचनजलछाए॥ सीयबिलोकिधीरता
भागी॥ रहेकहावतपरमबिरागी॥ लीन्हराउउरलाइजानकी
मिटीमहामर्य्यादज्ञानी॥ समुझावतसबसचिवसयाने॥
कीन्हबिचारअनवसरजाने॥ बारहिंबारसुताउरलाई॥ सजि
सुन्दरपालकींमंगाई॥ दोहा॥ प्रेमबिवसपरिवारसबजानि
सुलगननरेस॥ कुंअरिचढाईपालकीसुमिरेसिद्धगणेश
३००॥ चौपाई॥ बहुबिधिभूपसुतासमुझाई॥ नारीधर्मकुल
रीतिसिखाई॥ दासीदाससदिएबहुतेरे॥ सुचिसेवकजेप्रिय
सियकेरे॥ सीयचलतव्याकुलपुरवासी॥ होंहिंसगुणशुभ
मंगलरासी॥ भूसुरसचिवसमेतसमाजा॥ संगचलेपहुं
चावनराजा॥ रथगजवाजिबरातिनराजे॥ समयबिलोकि
बाजनेबाजे॥ दसरथविप्रबोलिसबलीन्हे॥ दानमानपरि
पूरणकीन्हे॥ चरणसरोजधूरिधरिशीषा॥ मुदितमहीप
तिपाइअसीषा॥ सुमिरिगजाननकीन्हपयाना॥ मंगल
मूलसगुणभएनाना॥ दोहा॥ सुरप्रसूनबरषहिंहरषि
करहिंअपसरागान॥ चलेअवधपतिअवधपुरमुदितब
जाइनिसान॥ ३०१॥ चौपाई॥ नृपकरिबिनयमहाजनफे
रे॥ सादरसकलमांगनेटेरे॥ भूषणबसनबाजिगजदीन्हे
प्रेमपोषिठाढेसबकीन्हे॥ बारबारबिरदावलिभाषी॥ फि

रेमसकलरामहिंउरराषी॥ बहुरिबहुरिकोशलपतिकहहीं
जनकप्रेमवशफिरानचहहीं॥ पुनिकहभूपतिवचनसुहाए
फिरियमहीशदूरिवडिआए॥ राउबहोरिउतरिभएठाढे॥ प्रे
मप्रबाहविलोचनबाढे॥ तवविदेहबोलेकरजोरी॥ वचन
सनेहसुधाजनुबोरी॥ करौंकवनविधिविनयसुहाई॥ महा
राजमोहिदीन्हबडाई॥ दोहा॥ कोशलपतिसमधीसजनस
नमानेसबभाति॥ मिलनपरस्परबिनयअतिप्रीतिनहृदय
समाति॥ ३०२॥ चौपाई॥ मुनिमएडलिहिंजनकसिरनावा॥
आशीर्वादसबहिंसनपावा॥ सादरपुनिभेटेजामाता॥ रूप
शीलगुणनिधिसबभ्राता॥ जोरिपङ्करुहपाणिसुहाए॥
बोलेबचनप्रेमजनुजाए॥ रामकरौंकेहिभांतिप्रसंसा॥ मु
निमहेशमनमानसहंसा॥ करहिंयोगयोगीजेहिलागी॥ को
हमोहममतामदत्यागी॥ व्यापकब्रह्मअलखअविनाशी॥ चि
दानन्दनिर्गुणगुणराशी॥ मनसमेतजेहिंजाननबाणी॥ त
रकिनशकहिंसकलअनुमानी॥ महिमानिगमनेतिकरिक
हहीं॥ जोतिहुंकालएकरसरहहीं॥ दोहा॥ नयनविषयमोक
हंभएउसोसमस्तसुखमूल॥ सबहिलाभजगजीवकहंभ
एईशअनुकूल॥ ३०३॥ चौपाई॥ सबहिंभांतिमोदीन्हबडाई॥

रामा०
बा०
११९

119

निजजनजानिलीन्हअपनाई॥ होंहिंसहसदशशारदशेषा॥
करहिंकल्पकोटिकभरिलेखा॥ मोरभाग्यराउरगुणगाथा॥
कहिनसिराहिंसुनियरघुनाथा॥ मैंकछुकहौंएकबलमोरें॥
तुम्हरीझउसनेहसुठिथोरें॥ वारवारमांगौंकरजोरें॥ मनप
रिहरैचरणजनिभोरें॥ सुनिवरवचनप्रेमजनुपोषे॥ पूरण
कामरामपरितोषे॥ करिवरविनयससुरसनमाने॥ पितुकौ
शिकवसिष्ठसमजाने॥ विनतीबहुतभरतसनकीन्हा॥ मिलि
सप्रेमपुनिआशिषदीन्हा॥ दोहा॥ मिलेलषणरिपुसूदनहिं
दीन्हअशीषमहीश॥ भयपरस्परप्रेमवशफिरिफिरिनावहिं
सीश॥ ३०४॥ चौपाई॥ वारवारकरिविनयवडाई॥ रघुपतिच
लेसङ्गसबभाई॥ जनकगहेकौशिकपदजाई॥ चरणरेणशि
रनयननिलाई॥ सुनुमुनीशवरदरशनतोरे॥ अगमनकछु
प्रतीतिमनमोरे॥ जोसुखसुयशलोकपतिचहहीं॥ करतम
नोरथसकुचतअहहीं॥ सोसुखसुयशसुलभमोहिस्वामी
सवसिधितवदरशनअनुगामी॥ कीन्हविनयपुनिपुनिसि
रनाई॥ फिरेमहीपतिआशिषपाई॥ चलीवरातनिसानवजा
ई॥ मुदितछोटवडसबसमुदाई॥ रामहिंनिरखिग्रामनरना
री॥ पाइनयनफलहोंहिंसुखारी॥ दोहा॥ वीचवीचवरवास

वंद्गमास
५

करिमगलोगानसुखदेन॥ अवधसमीपपुनीतदिनपहुंची
आइजिनेत॥ ३०५॥ चौपाई॥ हनेनिसानपणवबरबाजे॥ भे
रीशंखधुनिहयगजगाजे॥ झांझमृदङ्गडिमडिमीसुहाई॥
सरसरागबाजेसहनाई॥ पुरजनआवतअकनिबराता॥ मु
दितसकलपुलकावलिगाता॥ निजनिजसुन्दरसदनसंवा
रे॥ हाटबाटचौहटपुरद्वारे॥ गलीसकलअरगजहिंसिंचा
ई॥ जहंतहंचौकेचारुपुराई॥ बनाबजारनजाइबखाना॥।
तोरणकेतुपताकबिताना॥ सफलपुङ्गिफलकदलिरसा
ला॥ रोपेबकुलकदम्बतमाला॥ लगेसुभगतरुपरसत
धरणी॥ मणिमयआलबालकलकरणी॥ दोहा॥ बिबि।
धभांतिमङ्गलकलशगृहगृहरचेसंवारि॥ सुरब्रह्मादिसि
हाहिंसबरघुवरपुरीनिहारि॥ ३०६॥ चौपाई॥ भूपभवनतहि
अवसरसोहा॥ रचनादेखिमदनमनमोहा॥ मङ्गलसगुण
मनोहरताई॥ ऋधिसिधिसुखसम्पदासुहाई॥ जनुउछाह
सबसहजसुहाए॥ तनुधरिधरिदशरथगृहआए॥ देखन
हेतुरामबैदेही॥ कहहुलालसाहोइनकेही॥ यूथयूथमि
लिचलीसुआसिनि॥ निजछबिनिदरहिंमदनबिलासिनि॥।
सकलसुमंगलसजेंआरती॥ गावहिंजनुबहुवेषभारती॥ भू

भूपतिभवकोलाहलहोई॥ जाइनवरणिसमयसुखसोई
कौशल्यादिराममहतारी॥ प्रेमविवशतनुदशाविसारी
दोहा॥ दियेदानविप्रनविपुलपूजिगणेशपुरारि॥ प्रमु
दितपरमदरिद्रजनुपाइपदारथचारि॥१९६॥ चौपाई॥
मोदप्रमोदविवशसबमाता॥ चलहिंनचरणसिथिलभ
एगाता॥ रामदरशहितअतिअनुरागी॥ परिछनसाजस
जनसबलागी॥ विविधविधानबाजनेबाजे॥ मङ्गलमुदि
तसुमित्रासाजे॥ हरदहूबदधिपल्लवफूला॥ पानपुङ्ग
फलमंगलमूला॥ अक्षतअंकुररोचनलाजा॥ मंजुलम
ञ्जरितुलसिविराजा॥ छुहेपुरटघटसहजसुहाए॥ मद
नशकुनिजनुनीडबनाए॥ सगुणसुगन्धनजाहिंबखा
नी॥ मंगलसकलसजहिंसबराणी॥ रचीआरतीविवि
धविधाना॥ मुदितकरहिंकलमङ्गलगाना॥ दोहा॥ क
नकथारभरिमंगलन्हिकमलकरनिलियेंमात॥ चली
मुदितपरिछनकरणपुलकपल्लवितगात॥१९७॥ चौपा
ई॥ धूपधूमनभमेचकभयऊ॥ सावणघनघमण्डजनु
ठयऊ॥ सुरतरुसुमनमालसुरवर्षहिं॥ मनहुंबलाक
अवलिमनकर्षहिं॥ मंजुलमणिमयबन्दनिवारा॥ मनहुं

पाकरिपुचापसंवारा॥ प्रगटहिंदरहिंअटन्हिपरभामि
नी॥ चारुचपलजनुदमकहिंदामिनी॥ दुन्दुभिध्वनिघन
गरजहिघोरा॥ याचकचातकदादुरमोरा॥ सुरसुगन्धसु
चिवर्षहिंवारी॥ सुखीसकलशशिपुरनरनारी॥ समय
जानिगुरुआयसुदीन्हा॥ पुरप्रवेशरघुकुलमणिकीन्हा॥
सुमिरिशम्भुगिरिजागणराजा॥ मुदितमहीपतिसहि
तसमाजा॥ दोहा॥ होहिंसगुणवर्षहिंसुमनसुरदुन्दुभी
बजाइ॥ विबुधवधूनाचहिंमुदितमंजलमङ्गलगाइ॥ ३०९
चौपाई॥ मागधसूतवन्दिनटनागर॥ गावहिंयशतिहुंलोक
उजागर॥ जयध्वनिविमलवेदवरबाणी॥ दशदिशिसुनि
यसुमंगलसानी॥ विपुलवाजनेवाजनलागे॥ नभसुरन
गरलोगअनुरागे॥ वनेबरातीवरणिनजाहीं॥ महामुदित
मनसुखनसमाहीं॥ पुरवासिनतवराउजोहारे॥ देखतरा
महिंभएसुखारे॥ करहिंनिछावरिमणिगणचीरा॥ बारि
विलोचनपुलकशरीरा॥ आरतिकरहिंमुदितपुरनारी॥
हर्षहिंनिरखिकुंअरवरचारी॥ शिविकासुभगउहारउघा
री॥ देखिदुलहिनिन्हहोहिंसुखारी॥ दोहा॥ इहिविधिसब
हीदेतसुखआएराजदुआर॥ मुदितमातपरिछनकरहिंव

सुतसमेतकुमार ॥ ३४० ॥ चौपाई ॥ करहिं आरती बारहिं बारा ॥ प्रेम प्रमोद कहै को पारा ॥ भूषण मणि पट नाना जाती ॥ करहिं निछावरि अगणित भांती ॥ बधुन्ह समेत देखि सुत चारी ॥ परमानन्द मगन महतारी ॥ पुनि पुनि सीय राम छवि देखी ॥ मुदित सुफल जग जीवन लेखी ॥ सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही ॥ गान करहिं निज सुकृत सराही ॥ बरषहिं सुमन छनहिं छन देवा ॥ नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ देखि मनोहर चारिउ जोरी ॥ शारद उपमा सकल ढंढोरी ॥ देत न बनहिं निपट लघु लागी ॥ एकटक रहीं रूप अनुरागी ॥ दोहा ॥ निगम नीति कुल रीति करि अर्घ पांवडे देत ॥ बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लिवाइ निकेत ॥ ३४१ ॥ चौपाई ॥ चारि सिंहासन सहज सुहाये ॥ जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ तिन पर कुँअरि कुँअर बैठारे ॥ सादर पाय पुनीत पखारे ॥ धूप दीप नैवेद्य वेद विधि ॥ पूजे वर दुलहिनि मंगल निधि ॥ बारहिं बार आरती करहीं ॥ व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ वस्तु अनेक निछावरि होहीं ॥ भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ पावा परम तत्व जनु योगी ॥ अमृत लहा जनु सन्तत रोगी ॥ जन्म रङ्क जनु पारस पावा ॥ अन्धहिं लोचन लाभ सुहावा ॥

मूकबदनजनुशारदछाई॥मानहुंसमरसूरजयपाई॥
दोहा॥यहिसुखतेंशतकोटिगुणपावहिंमातअनन्द॥
भाइनसहितविवाहिघरआयेरघुकुलचन्द॥३५२॥लो
करीतिजननीकरहिंवरदुलहिनिसकुचाहिं॥मोदवि
नोदविलोकिवडरामममनहिमुसकाहिं॥३५३॥**चौपाई**॥
देवपितरपूजेविधिनीकी॥पूजीसकलवासनाजीकी॥
सवहिंवन्दिमांगहिंवरदाना॥भाइनसहितरामकल्याणा
अन्तरहितसुरआशिषदेहीं॥मुदितमातअञ्चलभरिले
हीं॥भूपतिवोलिवरातीलीन्हे॥यानवसनमणिभूषण
दीन्हे॥आईसुपाइराखिउररामहिं॥मुदितगयसवनिज
निजधामहिं॥पुरनरनारिसकलपहिराये॥घरघरवज
हिंआनन्दवधाये॥याचकजनयाचहिंजोइजोई॥प्रमुदि
तराउदेहिंसोइसोई॥सेवकसकलवजनियांनाना॥पूरण
कियेदानसनमाना॥**दोहा**॥देहिंअशीशजुहारिसवगाव
हिंगुणगणगाथ॥तवगुरुभूसुरसहितगृहगवनकीन्ह
नरनाथ॥३५४॥**चौपाई**॥जोवसिष्ठअनुशासनदीन्हा॥लो
कवेदविधिसादरकीन्हा॥भूसुरभीरदेखिसवरानी॥साद
रउठीभाग्यवडजानी॥पायपखारिसकलअन्हवाये॥पूजि

भलीविधिभूपजेंवाये॥ आदरदानप्रेमपरिपोषे॥ देत अशीषचलेमनतोषे॥ बहुविधिकीन्हगाधिसुतपूजा॥ नाथमोहिसमधन्यनदूजा॥ कीन्हप्रशंसाभूपतिभूरी॥ राणिनसहितलीन्हपदधूरी॥ भीतरभवनदीन्हवरवासू॥ मनजुगवतरहनृपरनिवासू॥ पूजेगुरुपदकमलवहोरी॥ कीन्हविनयमनप्रीतिनथोरी॥ दोहा॥ वधूनसमेतकुमारसवराणिनसहितमहीश॥ पुनिपुनिवन्दतगुरुचरणादेतअशीषमुनीश॥ ३५१॥ चौपाई॥ विनयकीन्हउरअतिअनुरागे॥ सुतसम्पदाराखिसवआगे॥ नेगमांगिमुनिनायकलीन्हा॥ आशीर्वादबहुतविधिदीन्हा॥ उरधारिरामहिंसीयसमेता॥ हरषिकीन्हगुरुगमननिकेता॥ विप्रवधूकुलवृद्धबुलाईं॥ चीरचारुभूषणपहिराईं॥ बहुरिबुलाईसुआसिनिलीन्ही॥ रुचिविचारिपहिरावनदीन्ही॥ नेगीनेगयोगसवलेहीं॥ रुचिअनुरूपभूपमणिदेहीं॥ प्रियपाहुनेपूज्यजेजाने॥ भूपतिभलीभांतिसनमाने॥ देवदेखिरघुवीरविवाहू॥ वरषिप्रसूनप्रशंसिउछाहू॥ दोहा॥ चलेनिसानवजाइसुरनिजनिजपुरसुखपाइ॥ कहतपरस्पररामयशप्रेमनहृदयसमाइ॥ ३५२॥ चौपाई॥ सवविधि

सबहिंमुदितनरनाहू॥ रहाहृदयभरिपूरिउछाहू॥ जहं
रनिवासतहांपगुधारे॥ सहितबधूटिनकुंअरनिहारे॥ लि
एगोदकरिमोदसमेता॥ कोकहिसकैभएउसुखजेता॥
बधूसप्रेमगोदबैठारी॥ वारबारहियहर्षिदुलारी॥ देखि
समाजमुदितरनिवासू॥ सबकेउरआनन्दबिलासू॥ कहे
उभूपजिमिभएउबिवाहू॥ सुनिसुनिहर्षहोतसबकाहू॥
जनकराजगुणशीलबडाई॥ प्रीतिरीतिसंपदासुहाई॥ ब
हुविधिभूपभाटजिमिवरणी॥ राणीसबप्रमुदितसुनिक
रणी॥ दोहा॥ सुतनसमेतनहाइनृपबोलिविप्रगुरुज्ञाति
भोजनकीन्हअनेकविधिघरीपञ्चगइराति॥ ४१७ ॥ चौपाई॥
मङ्गलगानकरहिंवरभामिनि॥ भइसुखमूलमनोहरयामि
नि॥ अचैपानसबकाहूंपाए॥ स्रगसुगन्धभूषितछविछाए॥
रामहिंदेखिरजायसुपाई॥ निजनिजभवनचलेसिरनाई॥ १
प्रेमप्रमोदविनोदबडाई॥ समयसमाजमनोहरताई॥ कहि
नसकहिंशतशारदशेषू॥ वेदविरञ्चिमहेशगणेषू॥ सो
मैंकहौंकवनविधिवरणी॥ भूमीनागसिरधरैकिधरणी॥ १
नृपसबभांतिसबहिंसनमानी॥ कहिमृदुवचनबुलाईरानी॥
बधूलरिकिनीपरघरआईं॥ राखेहुनयनपलककीनाईं॥ दो

हा॥ लरिकाश्रमितउनीन्दवशशायनकराबहुजाइ॥ अस
कहिगेविश्रामगृहरामचरणचितलाइ॥ ३५५॥ चौपाई॥ भू
पवचनसुनिसहजसुहाए॥ जटितकनकमणिपलङ्गडसा
ए॥ सुभगसुरभिपयफेनुसमाना॥ कोमलकलितसुपेती
नाना॥ उपवर्हणबरवरणिनजाहीं॥ स्रगसुगन्धिमणिम
न्दिरमाहीं॥ रतनदीपसुठिचारुचन्दोवा॥ कहतनबनैजान
जेहिंजोवा॥ सेजरुचिररचिरामउठाये॥ प्रेमसमेतपलङ्गपौ
ढाये॥ आज्ञापुनिपुनिभाइनदीन्ही॥ निजनिजसेजशयनति
नकीन्ही॥ देखिश्याममृदुमञ्जुलगाता॥ कहहिंसप्रेमवचन
सबमाता॥ मारगजातभयावनिभारी॥ केहिविधितातताड़
कामारी॥ दोहा॥ घोरनिशाचरविकटभटसमरगनैनहि।
काहु॥ मारेसहितसहायकिमिखलमारीचसुबाहु॥ ३५६॥
चौपाई॥ मुनिप्रसादबलिताततुम्हारी॥ ईशअनेककरवरैंटा
री॥ मखरखवारीकरिदुहुंभाई॥ गुरुप्रसादसबविद्यापाई॥ मु
नितियतरीलगतपदधूरी॥ कीरतिरहीभवनभरिपूरी॥ क
मठपीठिपविकूटकठोरा॥ नृपसमाजमहंशिवधनुतोरा॥।
विश्वविजययशजानकिपाई॥ आएभवनब्याहिसबभाई॥ स
कलअमानुषकर्मतुम्हारे॥ केवलकौशिककृपासुधारे॥ आ

जसफलजगजन्महमारे॥ देखितातबिधुबदनतुम्हारे
जेदिनगएतुमहिंबिनुदेखे॥ सोबिरञ्चिजनिपारहिलेखे॥
दोहा॥ रामप्रतोषीमातसबकहिबिनीतबरबयन॥ सुमिरि
शंभुगुरुबिप्रपदकियेनीन्दबशनयन॥ ३२०॥ चौपाई॥ नी
न्दहुबदनसोहसुठिलोना॥ मनहुंसांझसरसीरुहसोना
घरघरकरहिंजागरणनारी॥ देहिंपरस्परमङ्गलगारी॥ पु
रीबिराजतिराजतिरजनी॥ रानीकहहिंबिलोकहुसजनी
सुन्दरबधुनसासुलैसोई॥ फणिपतिजनुशिरमणिउर
गोई॥ प्रातपुनीतकालप्रभुजागे॥ अरुणचूडबरबोलन
लागे॥ बन्दीमागधगुणगणगाए॥ पुरजनद्वारजोहारन
आए॥ बन्दिबिप्रसुरगुरुपितुमाता॥ पाइअशीषमुदितस
बभ्राता॥ जननीसादरबदननिहारे॥ भूपतिसङ्गद्वारपगु
धारे॥ दोहा॥ कीन्हशौचसबसहजशुचिसरितपुनीतनहा
इ॥ प्रातक्रियाकरितातपहिंआयेचारिउभाइ॥ ३२१॥ चौपाई
भूपबिलोकिलयेउरलाई॥ बैठेहरषिरजायसुपाई॥ देखि
रामसबसभाजुड़ानी॥ लोचनलाभअवधिअनुमानी॥ पुनि
बसिष्ठमुनिकौशिकआए॥ सुभगआसनन्हिमुनिबैठाए॥
सुतनसमेतपूजिपदलागे॥ निरखिरामदोउगुरुअनुरागे॥

श्रमरागः ६

कहहिंबसिष्ठधर्मइतिहासा॥सुनहिंमहीशसहितरा
निवासा॥मुनिमनअगमगाधिसुतकरणी॥मुदितब
सिष्ठविपुलविधिवरणी॥बोलेबामदेवसबसांची॥कीर
तिकलितलोकतिहुंमांची॥सुनिआनन्दभयसबकाहू॥
रामलषणउरअधिकउछाहू॥दोहा॥मङ्गलमोदउछाह
नितजाहिंदिवसइहिभांति॥उमगीअवधआनन्दभरिअ
धिकअधिकअधिकाति॥३२२॥चौपाई॥सुदिनशोधिक
लकङ्कणछोरे॥मङ्गलमोदविनोदनथोरे॥नितनवसु
खसुरदेखिसिहाहीं॥अवधजन्मयाचहिंविधिपाहीं॥
विश्वामित्रचलननितचहहीं॥रामसप्रेमविनयवशरह
हीं॥दिनदिनशतगुणभूपतिभाऊ॥देखिसराहमहामु
निराऊ॥मांगतविदाराउअनुरागे॥सुतनिसमेतठाढभ
एआगे॥नाथसकलसंपदातुम्हारी॥मैंसेवकसमेतसुतन
नारी॥करबसदालरिकनपरछोहू॥दरशनदेतरहबमु
निमोहू॥असकहिराउसहितसुतरानी॥परेउचरणमुख
आवनबाणी॥दीन्हिअशीषविप्रबहुभांती॥चलेनप्रीति
रीतिकहिजाती॥रामसप्रेमसङ्गसबभाई॥आयसुपाइफि
रेपहुंचाई॥दोहा॥रामरूपभूपतिभगतिब्याहउछाहआन

न्दू॥ जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचन्दू॥ ४

चौपाई॥ वामदेव रघुकुलगुरु ज्ञानी॥ बहुरि गाधिसुत क
था बखानी॥ सुनि मुनि सुयश मनहिं मन राऊ॥ बरणत
आपन पुण्य प्रभाऊ॥ बहुरे लोग रजायसु भयऊ॥ सुतन
समेत नृपति गृह गयऊ॥ जहँ तहँ राम ब्याह सब गावा॥
सुयश पुनीत लोक तिहुँ छावा॥ आए ब्याहि राम घर जब
तें॥ बसे आनन्द अवध सब तब तें॥ प्रभु बिवांह जश भयउ
उछाहू॥ सकहिं न बरणि गिरा अहिनाहू॥ कविकुल जी
वन पावन जानी॥ राम सीय यश मंगल खानी॥ तेहिं तें मैं
कछुक कहा बखानी॥ करण पुनीत हेतु निज बाणी॥ छन्द

निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलसी कह्यो॥
रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कवने लह्यो॥ १३
उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनहिं सादर गावहीं॥ बैदेहि
राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ १४॥ सुनि गाई क
हौं गिरीश कन्या पन्थ अधिकारी सही॥ दोपक॥ नित प्रीति
नन न सुनत हरि गुण भगति अनुपम तें लही॥ १५॥ रघु
बीर पद अनुराग जल लौं भागि वेगि बुझावहीं॥ पहिजानि
तुलसीदास मन क्रम वचन हरि गुण गावहीं॥ १६॥ दोहा

रामा॰
बा॰
१२५
125

कठिनकालमलग्रसितमनुसाधनककुनहोइ॥ यहबिचारिबिस्वासकरिहरिसुमिरैबुधसोइ॥ ४२४॥ दोपक॥ सोरठा॥ मनहरिपदअनुरागुकरउत्यागिनानाकपट॥ महामोहनिसिजागुसोवतबीतेकालबहु॥ ४२५॥ सियरघुबीरबिवाहजेसप्रेमसादरसुनहिं॥ तिनकहंसदाउछाहमङ्गलायतनरामयश॥ ४२६॥ दोपक॥ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषबिध्वंसनेबिमलविज्ञानवैराग्यसन्तोषसंपादनोनामतुलसीकृतबालकाण्डःप्रथमःसोपानःसमाप्तः॥ शुभमस्तु॥ सिद्धिरस्तु॥॥॥ रामायनमः

ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ अथ अयोध्याकाण्ड लिख्यते॥ श्लोक॥

वामाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके॥ भाले बाल
विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्॥ सोयम्भूति विभूष
णः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा॥ शर्वः सर्वगतः शिवः शशि
निभः श्रीशङ्करः पातु माम्॥ प्रसन्नतां या न गताभिषेकत
स्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः॥ मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य
मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदम्॥ नीलाम्बुजश्यामल
कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्॥ पाणौ महासायक
चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥ दोहा॥ श्रीगुरु
चरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधारि॥ वरणौं रघुवर वि
मलयश जो दायक फल चारि॥ चौपाई॥ जब तें राम ब्याहि घ
र आए॥ नित नव मंगल मोद बधाए॥ भुवन चारिदश भूधर भा
री॥ सुकृत मेघ वरषहिं सुख वारी॥ ऋधि सिधि संपति नदी
सुहाई॥ उमगि अवध अम्बुधि कहं आई॥ मणिगण पुर नर
नारि सुजाती॥ शुचि अमोल सुन्दर सब भांती॥ कहि न जाइ
कछु नगर विभूती॥ जनु इतनी य विरञ्चि करतूती॥ सब वि
धि सब पुर लोग सुखारी॥ रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी॥ मुदि
त मात सब सखी सहेली॥ फलित विलोकि मनोरथ वेली॥

रामरूपगुणसीलसुभाऊ॥प्रमुदितहोहिंदेखिसुनिराऊ
दोहा॥सबकेउरअभिलाषअसकहहिंमनाइमहेश॥आपु
अछतयुवराजपदरामहिंदेहिंनरेश॥१॥चौपाई॥एकसम
यसबसहितसमाजा॥राजसभारघुराजविराजा॥सकल
सुकृतमूरतिनरनाहू॥रामसुजशसुनिअतिहिंउछाहू॥
नृपसबरहहिंकृपाअभिलाषे॥लोकपकरहिंप्रीतिरुषरा
खे॥त्रिभुवनतीनिकालजगमाहीं॥भूरिभागदशरथसम
नाहीं॥मंगलमूलरामसुतजासू॥जोकछुकहियथोरसब
तासू॥रामसुभायमुकुरकरलीन्हा॥वदनविलोकिमु
कुटसमकीन्हा॥श्रवणसमीपभएसितकेशा॥मनहुंचौ
थपनअसउपदेशा॥नृपयुवराजरामकहंदेहू॥जीवनज
न्मसुफलकरिलेहू॥दोहा॥यहविचारउरआनिनृपसुदिन
सुअवसरपाइ॥तनपुलकितमनमुदितअतिगुरहिंसुना
यउजाइ॥२॥चौपाई॥कहेउभुआलसुनियमुनिनायक॥
भएरामसबविधिसबलायक॥सेवकसचिवसकलपुर
वासी॥जेहमारअरिमित्रउदासी॥सबहिंरामप्रियजेहिंवि
धिमोही॥प्रभुआशीषजनुतनुधरिसोही॥विप्रसहितप
रिवारगोसाईं॥करहिंछोहसबरौरीहिंनाईं॥जेगुरुचरण

रेणुशिरधरहीं॥ तेजनुसकलविभववशकरहीं॥ मोहि
समानअनुभयउनदूजे॥ सबपायउँप्रभुपदरजपूजे॥ अब
अभिलाषएकमनमोरे॥ पूजिहिनाथअनुग्रहतोरे॥ मु
निप्रसन्नलखिसहजसनेहू॥ कहेउनरेशरजायसदेहू॥
दोहा॥ राजनराउरनामयशसबअभिमतदातार॥ फलअ
नुगामीमहिपमणिमनअभिलाषतुम्हार॥४॥ चौपाई॥
सबविधिगुरुप्रसन्नजियजानी॥ बोलेउराउविहँसिमृ
दुबाणी॥ नाथरामकहँकरियुवराजू॥ कहियकृपाकरि
करियसमाजू॥ मोहिअछतयहहोइउछाहू॥ लहहिंलोग
सबलोचनलाहू॥ प्रभुप्रसादशिवसबैनिवाही॥ यहैला
लसाहैमनमाहीं॥ पुनिनशोचतनुरहौकिजाऊ॥ जेहि
नहोइपाछेपछिताऊ॥ सुनिमुनिदशरथवचनसुहाए॥
मङ्गलमोदमूलमनभाए॥ सुनिनृपजासुविमुखपछिता
हीं॥ जासुभजनविनुजरनिनजाहीं॥ भयउतुम्हारतनयसो
इस्वामी॥ रामपुनीतप्रेमअनुगामी॥ दोहा॥ वेगिविलम्ब
नकरियनृपसाजियसबैसमाज॥ सुदिनसुमंगलतबहि
जबरामहोहिंयुवराज॥५॥ चौपाई॥ मुदितमहीपतिमन्दि
रआए॥ सेवकसचिवसुमंत्रबुलाए॥ कहिजयजीवसीश॥

तिन्हनाम॥भूपसुमंगलवचनसुनाए॥प्रमुदितमोहि
कहेउगुरुआजू॥रामहिंराजदेहुजुवराजू॥जौंपांचहिं
मतलागैनीका॥करहुहरषिहियरामहिंटीका॥मंत्रीमु
दितसुनतप्रियवाणी॥अभिमतविरवपरेउजनुपानी॥
विनतीसचिवकरहिंकरजोरी॥जियहुजगतपतिवरष
करोरी॥जगमंगलभलकाजविचारा॥वेगाहिंनाथनला
इयवारा॥नृपहिंमोदसुनिसचिवसुभाषा॥वढतविटप
जनुलहीसुशाखा॥दोहा॥कहतभूपमुनिराजकरजो।
जोआयसुहोइ॥रामराजअभिषेकहितवेगिकरहुसोइसो
इ॥४॥चौपाई॥हरषिमुनीशकहेउमृदुवाणी॥आनहुसक
लसुतीरथपानी॥औषधिमूलफूलफलपाना॥कहेना
मगणिमंगलनाना॥चामरचरमवसनबहुभांती॥रोम
पाटपटअगणितजाती॥मणिगणमंगलवस्तुअनेका॥
जोजगयोगभूपअभिषेका॥वेदविदितकहिसकलवि
धाना॥कहेउरचहुंपुरविविधविताना॥सकलरसालपुङ्ग
फलकेरा॥रोपहुवीथिनपुरचहुंफेरा॥रचहुमञ्जुमणि
चौकेचारू॥कहहुवनावनवेगिबजारू॥पूजहुगणप
तिगुरुकुलदेवा॥सबविधिकरहुभूमिसुरसेवा॥दोहा॥

ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग ॥ शि
र धरि मुनिवर वचन सब निज निज काजहिं लाग ॥ ७ ॥
चौपाई ॥ सुनि सब मंत्र मन अति हरषाना ॥ जीवन जन्म
सफल करि माना ॥ जहँ तहँ धावन कोटि पठाए ॥ मङ्ग
ल द्रव्य सकल लै आए ॥ कनक कलश सजि धरे द्वारे ॥
गज रथ तुरग अनेक सवारे ॥ बहु विधि बांधे वन्दनवारा
ध्वज पताक मणि वसन अपारा ॥ बना नगर नहि वरणा
जाई ॥ सकल लोक शोभा पर छाई ॥ तें इहां तक क्षेपक
है ॥ जो मुनीश जो आयसु दीन्हा ॥ सो जनु काज प्रथम
तेहु कीन्हा ॥ विप्र साधु सुर पूजत राजा ॥ करत राम हित
मंगल काजा ॥ सुनत राम अभिषेक सुहावा ॥ बाजे ग
हगहे अवध बधावा ॥ राम सीय तनु सगुन जनाए ॥ फ
रकहिं मंगल अङ्ग सुहाए ॥ पुलकि सप्रेम परस्पर क
हहीं ॥ भरत आगमन सूचक अहहीं ॥ भए बहुत दिन अ
ति अवसेरी ॥ सगुण प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ भरत सरि
स प्रिय को जग माहीं ॥ यहै सगुण फल दूसर नाहीं ॥ रा
म हिं सोच बंधु दिन राती ॥ अण्डनि कमठ हृदय जेहिं भां
ती ॥ दोहा ॥ इहिं अवसर मंगल परम सुनि हरषेउ रनिवा

म॥ शोभितलखिविधुबढतजनुवारिधिवीचिविलास

चौपाई॥ प्रथमजाइजिन्हवचनसुनाए॥ भूषणवसनभू
रितिन्हपाए॥ प्रेमपुलकतनमनअनुरागी॥ मंगलसा
जसजनसवलागी॥ चौकेचारुसुमित्रापूरे॥ मणिमय
विविधभांतिअतिरूरे॥ आनन्दमगनराममहतारी॥
दिएदानवहुविप्रहंकारी॥ पूजेउग्रामदेवसुरनागा॥ क
हेउवहोरिदेनवलिभागा॥ जेहिंविधिहोइरामकल्याण
गावहिंमङ्गलकोकिलवयनी॥ विधुवदनीमृगशावक
नयनी॥ दोहा॥ रामराजअभिषेकसुनिहियहरषेनर
नारि॥ लगीसुमंगलसजनसवविधिअनुकूलविचारि

चौपाई॥ तवनरनाहवसिष्ठवुलाये॥ रामधामशिषदेन
पठाये॥ गुरुआगमनसुनतरघुनाथा॥ द्वारआइनाये
उपदमाथा॥ सादरअर्घदेइघरआने॥ षोडशभांतिपू
जिसनमाने॥ गहेचरणसियसहितवहोरी॥ वोलेराम
कमलकरजोरी॥ सेवकसदनस्वामिआगमनू॥ मङ्ग
लमूलअमङ्गलदमनू॥ तदपिउचितअसवोलिसप्रीती
पठइअनाथकाजअसनीती॥ प्रभुतातजिप्रभुकीन्हस
नेहू॥ भएउपुनीतआजुममगेहू॥ आयसहोइसोकरि

यगोसाई॥ सेवककल है स्वामिसेवकाई॥ दोहा॥ सुनिस
नेहसानेबचनमुनिरघुवरहिप्रसंश॥ रामकसनतुम
कहहुअसहंसबंशअवतंस॥१०॥ चौपाई॥ वरणिराम
गुणशीलसुभाऊ॥ बोलेप्रेमपुलकिमुनिराऊ॥ भूपस
जेउअभिषेकसमाजू॥ चाहतदेनतुमहिंयुवराजू॥ रा
मकरहुसबसंयमआजू॥ जौंविधिकुशलनिवाहैका
जू॥ गुरुशिखदेइराउपहिंगयऊ॥ रामहृदयअसविस
यमभयऊ॥ जनमेएकसङ्गसबभाई॥ भोजनशयनके
लिलरिकाई॥ कर्णवेधउपवीतविवाहा॥ सङ्गसङ्गस
बभएउछाहा॥ विमलवंशयहअनुचितएकू॥ बंधुवि
हाइबडेहिअभिषेकू॥ प्रभुसप्रेमपछितानिसुहाई॥ ह
रहिंभक्तमनकीकुटिलाई॥ दोहा॥ तेहिअवसरआएल
षणमगनप्रेमआनन्द॥ सनमानेप्रियवचनकहिरवि
कुलकैरवचन्द॥११॥ चौपाई॥ बाजहिंबाजनविविधवि
धाना॥ पुरप्रमोदनहिंजाइबखाना॥ भरतआगमनस
कलमनावहिं॥ आवहिंवेगिनयनफलपावहिं॥ हाट
बाटघरगलीअथाई॥ कहहिंपरस्परलोकलुगाई॥ का
लिलगनभलिकेतिकवारा॥ पूजिहिंविधिअभिलाष

हमारा॥ कनकसिंहासनसीयसमेता॥ बैठहिंरामहोइचितचेता॥ सकलकहहिंकबहोइहिंकाली॥ बिघ्ननमनावहिंदेवकुचाली॥ तिनहिंसोहावनअवधवधावा॥ चोरहिंचांदनिरातिनभावा॥ शारदबोलिबिनयसुरकरहीं॥ बारहिंबारपांइलैपरहीं॥ दोहा॥ बिपतिहमारिबिलोकिबडिमातकरियसोइआजु॥ रामजाहिंबनराजतजिहोइसकलसुरकाजु॥ १२॥ चौपाई॥ सुनिसुरबिनयठाढिपछिताती॥ भईउसरोजबिपिनहिमराती॥ देखिदेवपुनिकहहिंनिहोरी॥ मातनोहिनहिंथोरीउखोरी॥ बिस्मयहर्षरहितरघुराऊ॥ तुमजानहुरघुबीरसुभाऊ॥ जीवकर्म्मवशदुखदुखभागी॥ जाइयअवधदेवहितलागी॥ बारबारगहिचरणसकोची॥ चलीबिचारिबिबुधमतिपोची॥ उंचनिवासनीचकरतूती॥ देखिनशाकहिंपराइबिभूती॥ आगिलकाजबिचारिबहोरी॥ करिहैंचाहकुशलकबिमोरी॥ हरषिहृदयदशरथपुरआई॥ जनुग्रहदशादुसहदुखदाई॥ दोहा॥ नाममन्थरामन्दगतिचेरीकेकयिकेरि॥ अयशपिटारीताहिकरिगईगिरामतिफेरि॥ १३॥ चौपाई॥ देखिमन्थरानगरबनावा॥ मङ्गलमञ्जुलबाजबधावा॥ पूछेसिलोगन्हका

हउछाहू॥ रामतिलकसुनिभाउरदाहू॥ करैविचारकुबुद्धि
कुजाती॥ होइअकाजकवनविधिराती॥ देखिलागिमधुकुटि
लकिराती॥ जिमिगवतकैलेउँकेहिभाँती॥ भरतमातुपहिंग
इबिलखानी॥ काअनमनीहंसिकहहसिरानी॥ उतरदेइन
लेइउसासू॥ नारिचरितकरिढारतिआंसू॥ हंसिकहरानिगा
लबडतोरे॥ दीन्हलषणशिषअसमनमोरे॥ तबहुंनबोलि
चेरिबडिपापिनी॥ छाडैस्वासकारिजनुसांपिनी॥ दोहा॥ सभ
यरानिकहकहसिकिनकुशलराममहिपाल॥ भरतलषण
रिपुदवनसुनिभाकुवरीउरशाल॥ १४॥ चौपाई॥ कतशिखदे
इहमहिंकोउमाई॥ गालकरबकिहिकरबलपाई॥ रामहिं
छाडिकुशलकेहिआजू॥ जाहिनरेशदेतयुवराजू॥ भाकौश
ल्यहिंविधिअतिदाहिन॥ देखतगर्वरहतउरनाहिन॥ देखहु
कसनजाइसबशोभा॥ जोअवलोकिमोरमनछोभा॥ पूतवि
देशनशोचतुम्हारे॥ जानतिहौवशनाहहमारे॥ नींदबहुत
प्रियसेजतुराई॥ लषहुनभूपकपटचतुराई॥ सुनिप्रियवच
नमलिनमनजानी॥ झुकिकुवरीसनकहअसरानी॥ पुनिअ
सकबहुंकहसिघरफोरी॥ तौधरिजीभकढावौंतोरी॥ दोहा॥
कानेखोरेकूवरेकुटिलकुचालीजानि॥ तियविशेषपुनिचेरि

रामा०
अ०
५

कहिभरतमातसुसकाति ॥१५॥ चौपाई ॥ प्रियवादिनिसि-
खदीन्हेउतोही ॥ सपनेहुँतोपरकोपनमोही ॥ सुदिनसुमङ्गु-
लदायकसोई ॥ तोरकहाफुरजिहिंदिनहोई ॥ जेठस्वामिसे-
वकलघुभाई ॥ यहदिनकरकुलरीतिसुहाई ॥ रामतिलक
जौंसाचेहुंकाली ॥ मंगुदेउंमनभावतआली ॥ कौशल्याशम
शबमहतारी ॥ रामहिंसहजसुभावपियारी ॥ मोपरकरहिं
सनेहविशेषी ॥ मैंकरिप्रीतिपरीक्षादेखी ॥ जौंविधिजन्मदेइ
करिछोहू ॥ होहिंराममियपूतपतोहू ॥ प्राणतेंअधिकराम
प्रियमोरे ॥ तिनकेतिलकक्षोभकसतोरे ॥ दोहा ॥ भरतशप
थतोहिसत्यकहुंपरिहरिकपटदुराव ॥ हर्षसमयविस्मयक
रसिकारणमोहिसुनाव ॥१६॥ चौपाई ॥ एकहिंवारआशसब
पूजी ॥ अवकछुकहवजीभकरिदूजी ॥ फोरेयोगकपारअभा
गा ॥ भलोकहततुदुखरोरेहुंलागा ॥ कहहिंझूठफुरवातवनाई
तेप्रियतमहिंकरुइमैंमाई ॥ हमहुंकहवअवठकुरसोहाती
नाहिंतमौनरहवदिनराती ॥ करिकुरूपविधिपरवशकीन्हा
वावासोलुनियचहिजोदीन्हा ॥ कोउनृपहोउहमैंकाहानी ॥
चेरीछांडिनहोउवरानी ॥ जारैजोगसुभावहमारा ॥ अनभ
लदेखिनजाइतुम्हारा ॥ तातेंककुकवातअनुसारी ॥ छमव

देखिबडिकूकहमारी॥दोहा॥मूढकपटप्रियवचनसुनिती
यअधरबुधिरानि॥सुरमायावशवैरिनिहिंसुहृदजानिपति
आनि॥१७॥चौपाई॥सादरपुनिपुनिपूछतिओही॥शबरीगा
नमृगीजनुमोही॥तसमतिफिरीअहैजसभावी॥रहसिचेरि
घातजनुफावी॥तुमपूछहुमैंकहतडेराऊं॥धरेहुमोरघर
फोरीनाऊं॥सजिप्रतीतिबहुविधिगढिछोली॥अवधसा
ढसातीतवबोली॥प्रियसियरामकहातुमरानी॥रामहितु
मप्रियसोफुरवानी॥रहाप्रथमदिनसोअववीते॥समयपा
इरिपुहोहिंपिरीते॥भानुकमलकुलपोषनिहारा॥विनुज
लजारिकरैसोइछारा॥जरितुम्हारिचहसवतिउखारी॥रूं
धहुकरिउपाइवरवारी॥दोहा॥तुमहिनसोचसोहागवल
निजवशजानहुराव॥मनमलीनमुहमीठनृपराउरसरल
सुभाव॥१८॥चौपाई॥चतुरगंभीररामममहतारी॥बीचपाइनि
जकाजसम्हारी॥पठएभरतभूपननिऔरे॥राममातुमति
जानवबौरे॥सेवहिंसकलसवतिमोहिनीके॥गर्वितभरत
मातुबलपीके॥सालतुम्हारकौशिलहिमाई॥चतुरकपट
नहिपरतलखाई॥राजहितुमपरप्रीतिविशेषी॥सवतिसुभा
वशकैनहिदेषी॥रचिप्रपंचभूपहिंअपनाई॥रामतिलकहि

तलगनभराई॥ रहिंहिकुलउचितरामकहटीका॥ सबहिंसो
हाइमोहिसुठिनीका॥ आगिलबातसमुझिडरमोही॥ देउंदै
वफिरिसोफलओही॥ दोहा॥ रचिपचिकोटिककुटिलप
नकीन्हेसिकपटप्रबोध॥ कहेसिकथाशतसौतिकरजातेब
ढैविरोध॥ १९॥ चौपाई॥ भावीवशप्रतीतिउरआई॥ पूंछिरानि
निजशपथदिवाई॥ कापूंछहुतुमअबहुंनजाना॥ निजहि
तअनहितपशुपहिचाना॥ भयउपाखदिनसजतसमाज॥ तु
मसुधिपायहुमोसनआज॥ खाइयपहिरियराजतुम्हारे॥ स
त्यकहेंनहिंदोषहमारे॥ जौंअसत्यकछुकहबबनाई॥ तौवि
धिदेइहिंमोहिसजाई॥ रामहिंतिलककालिजौंभयऊ॥ तुम
कहंविपतिबीजविधिबयऊ॥ रेखाखैंचिकहौंबलभाखी॥
भामिनिभयिदूधकीमाखी॥ जौंसुतसहितकरहुसेवका
ई॥ तौघररहहुनआनउपाई॥ दोहा॥ कद्रुविनीतहिंदीन्हदुख
तुमहिंकौशिलादेव॥ भरतबन्दिगृहसेइहैंरामलषणाकरने
व॥ २०॥ चौपाई॥ केकयसुतासुनतकटुबाणी॥ कहिनसकै
कछुसहमिसुखानी॥ तनुपसेवकदलीजिमिकांपी॥ कुबरी
दशनजीभतबचांपी॥ कहिकहिकोटिककपटकहानी॥
धीरजधरहुप्रबोधेसिरानी॥ कीन्हेसिकठिनपढाइकपाठु॥

जिमिननवैफिरिउकठिकुकाठू॥ फिराकर्मप्रियलागिकुचाली
बकिहिंसराहतिमनइमराली॥ सुनुमन्थरावातफुरतोरी॥ दा
हिनआँखिफरकनितमोरी॥ दिनप्रतिदेखौंरातिकुसपना॥
कहौंनतोहिमोहवशअपना॥ काहकरौंसखिसुद्धसुभाऊ॥ द
हिनवामजानौंनहिकाऊ॥ दोहा॥ अपनेचलतनआजुलगिअ
नभलकाहुककीन्ह॥ केहिअघएकहिंबारमोहिदैवदुसहदु
खदीन्ह॥२१॥ चौपाई॥ नैहरजन्मभरबबरुजाई॥ जिअतनकर
बसवतिसेवकाई॥ अरिवशदैवजिआवैजाही॥ मरणनीक
तेहिजीवनचाही॥ दीनवचनकहबहुविधिरानी॥ सुनिकुवरी
तियमायाठानी॥ असकसकहहुमानिमनऊना॥ सुखसोहा
गतुमकहदिनदूना॥ जोराउरअतिअनभलताका॥ सोपाइहि
यहफलपरिपाका॥ जबतेंकुमतिसुनामेंस्वामिनि॥ भूखन
वासरनींदनयामिनि॥ पूछागुणिन्हरेखतिनखांची॥ भरत
भुआलहोवयहसांची॥ भामिनिकरहुतोकहौंउपाऊ॥ हैंतु
म्हरेसेवावशराऊ॥ दोहा॥ परौंकूपतववचनलगिसकौंपूत
पतित्यागि॥ कहेसिमोरदुखदेखिबडकसनकरबहितलागि
चौपाई॥ कुवरीकरीकबुलिकैकेई॥ कपटछुरीउरपाहनटेई॥
लखैनरानिनिकटदुखकैसे॥ चरैहरिततृणबलिपशुजैसे॥

२२

सुनतवातमृदुअन्तकठोरी॥ देतिमनहुंमधुमाहुरघोरी॥
कहैचेरिसुधिअहैकिनाही॥ स्वामिनिकहुकथामोहिपांही
दुइवरदानभूपसनथाती॥ मांगहुआजुजुडावहुछाती॥ सु
तहिराजरामहिवनवासू॥ देहुलेहुसवसवतिहुलासू॥ भू
पतिरामशपथजवकरई॥ तवमांगहुजेहिवचनटरई॥ हो
इअकाजुआजुनिशिवीते॥ वचनमोरफुरमानहुजीते॥ दोहा
वडकुघातकरिपातकिनिकहेसिकोपगृहजाहु॥ काजसं
वारहुसजगहोहुसहसाजनिपतिआहु॥२२॥ चौपाई॥ कुबरि
हिरानिप्राणप्रियजानी॥ वारवारवडिबुद्धिवखानी॥ तोहि
समहितनमोहिसंसारा॥ वहेजातकैभयिसिअधारा॥ जौं
विधिपुरवमनोरथकाली॥ करौंतोहिचखपूतरिआली॥ व
हुविधिचेरिहिआदरदेई॥ कोपभवनगवनीकेकेई॥ विपति
वीजवर्षाऋतुचेरी॥ भूइभइकुमतिकैकयीकेरी॥ पाइकप
टजलअंकुरजामा॥ वरदोउदलफलदुखपरिणामा॥ कोपस
माजसाजिसवसोई॥ राजकरतनिजकुमतिविगोई॥ राउर
नगरकोलाहलहोई॥ यहकुचालिकछुजाननसोई॥ दोहा॥
प्रमुदितपुरनरनारिसवसाजिसुमंगलचार॥ एकप्रविश
हिंएकनिर्गमहीभीरभूपदरवार॥२४॥ चौपाई॥ वालसखासु

तिहियहरषाहीं॥ मिलिदशपांचरामपहिंजाहीं॥ प्रभुआद
रहिंप्रेमपहिचानी॥ पुछहिंकुशलखेममृदुवाणी॥ फिरहिंभ
वनप्रभुआयसुपाई॥ करतपरस्पररामबडाई॥ कोरघुवीरसरि
ससंसारा॥ शीलसनेहनिवाहनहारा॥ जेहिंजेहिंयोनिकर्मव
शभ्रमहीं॥ तहंतहंईशदेवयहहमहीं॥ सेवकहमस्वामीसि
यनाहू॥ होउनाथयहओरनिवाहू॥ असअभिलाषहृदयसब
काहू॥ केकयसुताहृदयअतिदाहू॥ कोनकुसंगतिपाइनशाई
रहैननीचमतेचतुराई॥ दोहा॥ सांझसमयसानन्दनृपगयउके
कयीगेह॥ गवननिठुरतानिकटकियजनुधरिदेहसनेह॥२
चौपाई॥ कोपभवनसुनिसकुचेराऊ॥ भयवशअगमनपरैनपा
ऊ॥ सुरपतिवसहिंबाहुबलजाके॥ नरपतिरहहिंसकलरुख
ताके॥ सोसुनितियरिसगयउसुखाई॥ देखहुकामप्रतापबडा
ई॥ सूलकुलिशअसिअंगवनिहारे॥ तेरतिनाथसुमनश
रमारे॥ सभयनरेशप्रियापहंगयऊ॥ देखिदशादुखदारुणभ
यऊ॥ भूमिशयनपटमोटपुराणा॥ दियेडारितनभूषणनाना
कुमतिहिंकसकुरूपताफावी॥ अनअहिवातसूचजनुभावी
जाइनिकटनृपकहमृदुवाणी॥ प्राणप्रियाकेहिहेतुरिसानी
छन्दः॥ केहिहेतुरानिरिसानिपरसतपाणिपतिहिंनिवारई॥

५

मानहुंसरोषभुजङ्ग॰भामिनिविषमभांतिनिहारई ॥१॥ द्वैवा
सनारसनादशनवरमर्मठाहरदेखई ॥ तुलसीनृपतिभवित
व्यताबशाकामकौतुकलेखई ॥४॥ सोरठा ॥ वारवारकहराउ
सुमुखिसुलोचनिपिकवयनि ॥ कारणमोहिसुनाउगज
गामिनिनिजकोपकर ॥२६॥ चौपाई ॥ अनहिततोरप्रियाके॰
हिंकीन्हा ॥ केहिदुइशिरकेहियमचहलीन्हा ॥ कहुकेहिरंक
हिंकरौंनरेशू ॥ कहुकेहिनृपहिनिकारौंदेशू ॥ शकौंतोरअ
रिअमरहुंमारी ॥ कहाकीटबपुरेनरनारी ॥ जानसिमोरसुभा
ववरोरू ॥ मनतवआननचन्द्रचकोरू ॥ प्रियाप्राणसुतसर्व
समोरे ॥ परिजनप्रजासकलवशतोरे ॥ जोकछुकहौंकपट॰
करितोही ॥ भामिनिरामशपथशतमोही ॥ विहंसिमांगुम
नभावतिबाता ॥ भूषणसाजुमनोहरगाता ॥ घरीकुघरीसमु
झिजियदेखू ॥ वेगिप्रियापरिहरहुकुवेषू ॥ दोहा ॥ यहसुनि
मनगुणिशपथबडिविहंसिउठीमतिमन्द ॥ भूषणसजति
विलोकिमृगमनहुंकिरातिनिफन्द ॥२७॥ चौपाई ॥ पुनिकह
राउसुहृदजियजानी ॥ प्रेमपुलकिमृदुमञ्जुलबाणी ॥ भामि
निभयउतोरमनभावा ॥ घरघरनगरआनन्दवधावा ॥ रामहिं
देउंकालियुवराजू ॥ सजहुसुलोचनिमङ्गलसाजू ॥ दलकि

उठीसुनिवचनकठोरा॥जनुछुइगयउपाकबरतोरा॥ऐसी
पीरबिहंसिउरगोई॥चोरनारिजिमिप्रगटनरोई॥लखीभू
पकपटचतुराई॥कोटिकुटिलमणिगुरूपढाई॥यद्यपि
नीतिनिपुणनरनाहू॥नारिचरितजलनिधिअवगाहू॥
कपटसनेहूबढाइबहोरी॥बोलीबिहंसिनयनमुखमोरी॥
दोहा॥मांगुमांगुतुम्हकहहुपियकबनदेहुनहिंलेहु॥दे
नकहेउबरदानदुइसोउपावनसन्देहु॥२८॥चौपाई॥जानेउं
मर्मराउहंसिकहई॥तुमहिकोहावपरमप्रियअहई॥था
तीराखिनमागेउकाऊ॥बिसरिगयउमममोरसुभाऊ॥झू
ठहुंदोषहमहिजनिदेहू॥दुइकेचारिमांगिकिनलेहू॥र
घुकुलरीतिसदाचलिआई॥प्राणजाइबरुबचननजाई॥
नहिअसत्यसमपातकपुञ्जा॥गिरिसमहोंहिकिकोटिक
गुञ्जा॥सत्यमूलसबसुकृतसुहाए॥वेदपुराणविदित
मुनिगाए॥तेहिंपररामशपथकरिआई॥सुकृतसनेहअ
वधिरघुराई॥बातदृढाइकुमतिहंसिबोली॥कुमतिविह
गकुलहजनुखोली॥दोहा॥भूपमनोरथसुभगवनसु।
ख[illegible]सुविहङ्गसमाज॥भिलिनिजिमिछाडनचहतिवच
नभयङ्करबाज॥२९॥चौपाई॥सुनहुप्राणपतिभावतजीका

देहु एक वर भरतहि टीका: ॥ दूसर वर मांगौं कर जोरी ॥ ना
थ मनोरथ पुरवहु मोरी ॥ तापस वेष विशेष उदासी ॥ चौ
दह वर्ष राम वनवासी ॥ सुनि निय वचन भूप उर शोकू ॥ श
शि कर छुअत विकल जिमि कोकू ॥ संभ्रम मुरछि परे नृ
प कैसे ॥ काटेउ पंख परा खग जैसे ॥ अति व्याकुल तनु विव
रन केशा ॥ धरि थीरज तव ऊठे नरेशा ॥ गापसहमि कछुक
हि न हि आवा ॥ जनु सिचान वन झपटेउ लावा ॥ विवरण
भयउ निपट महिपालू ॥ दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू ॥
माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन ॥ तनु धरि शोच लाग जनु शो
चन ॥ मोर मनोरथ सुरतरु फूला ॥ फलत करिणी जमु
हतेउ समूला ॥ अवध उजारि कीन्ह कैकेई ॥ दीन्हेसि अच
ल विपति कै नेई ॥ दोहा ॥ कवने अवसर का भयउ गयउ
नारि विश्वास ॥ योग सिद्धि फल समय जिमि यतिहि अ
विद्या नाश ॥ २० ॥ चौपाई ॥ इहि विधि राउ मनहिं मन झाषा
देखि कुभांति कुमति मन माषा ॥ भरत कि राउर पूत न हो
ही ॥ आनेहु मोल वेसाहि कि मोही ॥ जो सुनि शर अस ला
गत म्हारे ॥ काहे न बोलहु वचन सम्भारे ॥ देहु उतर अस
कहहु कि नाही ॥ सत्यसिन्धु तुम रघुकुल माही ॥ देन कहे

ऊवरअवजनिदेऊ॥ तजऊसत्यजगअपयशलेऊ॥ सत्य
सराहिकहेउवरदेना॥ जानेऊलेइहिंमांगिचवेना॥ शिवि
दधीचिवलिजोकछुभाषा॥ तनुधनतजेउवचनपणराषा
अतिकटुवचनकहतिकैकेई॥ मानऊलोनजरेपरदेई॥ दो
हा॥ धर्म्मधुरन्धरधीधरिनयनउघारेराउ॥ शिरधुनिलीन्ह
उसांसअसिमारेसिमोहिकुघाउ॥ ३१॥ चौपाई॥ आगेदेखिज
रतिरिसभारी॥ मनऊंरोषतरवारिउघारी॥ मूठकुवुद्धिधा
रनिठुराई॥ धरिकुवरीखरशानवनाई॥ लषेउमहीपकरा
लकठोरा॥ सत्यहिंजीवनलेइहिंमोरा॥ वोलेराउकठिनक
रिछाती॥ वाणीविनयनताहिसोहाती॥ मोरेभरतरामदो
उआंखी॥ सत्यकहौंकरिशङ्करसाखी॥ प्रियावचनकसक
हसिकुभांती॥ रीतिप्रतीतिप्रीतिकरिहाती॥ अवशिहूतमैं
पठउवप्राता॥ ऐहैंवेगिसुनतदोउभ्राता॥ सुदिनसाधि
सवसाजसजाई॥ देहौंभरतहिंराजवजाई॥ दोहा॥ लोभ-
नरामहिंराजकरवऊतभरतपरप्रीति॥ मैंवडछोटविचा
रकरिकरतरहेउंनृपनीति॥ ३२॥ चौपाई॥ रामशपथशत
कहेउंसुभाउ॥ राममातुमोहिकहानकाउ॥ मैंसवकीन्ह
तोहिविनुपूछे॥ तातेपरेउमनोरथछूछे॥ रिसपरिहरुअ

वमंगलसाजू॥ कछुदिनगएभरतयुवराजू॥ एकहिं
वातमोहिदुखलागा॥ वरदूसरअसमंजसमांगा॥ अज
हूंहृदयदहततेहिआंचा॥ रिसपरिहासकिसांचहूंसांचा
कहहुतजिरोषरामअपराधू॥ सबकोउकहतरामसुठिसाधू
तैंहूंसराहसिकरसिसनेहू॥ अवसुनिमोहिभएउसन्देहू
जासुसुभावअरिहिअनुकूला॥ सोकिमिकरहिंमातुप्र
तिकूला॥ दोहा॥ प्रियाहासरिसपरिहरहुमांगुविचा
रिविवेक॥ जेहिंदेखौंअवनयनभरिभरतराजअभिषे
क॥ ३३॥ चौपाई॥ जियैमीनवरुवारिविहीना॥ मणिवि
नुफणिकजियैदुखदीना॥ कहौंसुभावनछलमनमा
हीं॥ जीवनमोररामविनुनाहीं॥ समुझिदेखुतैंप्रियाप्रवी
णा॥ जीवनरामदरशआधीना॥ सुनिमृदुवचनकुमति
अतिजरई॥ मनहुंअनलआहुतिघृतपरई॥ कहइकर
हुकिनकोटिउपाया॥ इहांनलागिहिराउरमाया॥ देहु
किलेहुअयशकरिनाहीं॥ मोहिनवहुतप्रपंचसोहाहीं
रामसाधुतुमसाधुसुजाना॥ राममातुभलिसवपहि
चाना॥ जसकौशल्यामोरभलताका॥ तसफलदेउंउन्हें
करिसाका॥ दोहा॥ होतप्रातमुनिवेषधरिजौंनरामुवन

जाहिं॥ मोरमरणुराउरअयशनृपसमुझियमनमाहिं॥ ३४
चौपाई॥ असकहिकुटिलभईउठिठाढी॥ मानहुंरोषतरङ्गि
निबाढी॥ पापपहारप्रगटभइसोई॥ भरीक्रोधजलजाइनजो
ई॥ दुइबरकूलकठिनहठधारा॥ भवरकूबरीबचनप्रचारा॥
ढाहतिभूपरूपतरुमूला॥ चलीविपतिवारिधिअनुकूला॥
लखीनरेशबातसबसांची॥ तियमिषमीचुशीसपरनाची॥
गहिपदबिनयकीन्हबैठारी॥ जनिदिनकरकुलहोसिकुठा
री॥ मांगुमाथअबहींदेउंतोही॥ रामविरहजनिमारसिमोही
राखुरामकहंजेहितेहिभांती॥ नाहितजरिहिंजन्मभरिछा
ती॥ दोहा॥ देखीब्याधिअसाध्यनृपपरेउधरणिधुनिमाथ॥ क
हतपरमआरतवचनरामरामरघुनाथ॥ ३५॥ चौपाई॥ ब्याक
लराउशिथिलसबगाता॥ करिणीकल्पतरुमनहुनिपाता
कण्ठसूखमुखआवनबाणी॥ जिमिपाठीनदीनबिनुपानी॥
पुनिकहकटुकठोरकैकेई॥ मनहुघावमहंमाहुरदेई॥ जौंअ
न्तहुअसकरतवरहेऊ॥ मांगुमांगुतुमकिंहिंबलकहेऊ॥ दुइ
किहोइएकसमयभुआला॥ हंसबठठाइफुलाइबगाला॥ दानि
कहाउबअरुकृपणाई॥ चाहियक्षेमकुशलरौताई॥ छाडहुब
चनकिधीरजधरहू॥ जनिअबलाइवकरुणाकरहू॥ तनुतिय

तनयधामधनधरणी॥ सत्यसिंधुकहंकिधीरजधरहू॥
जनिअबलाइवकरुणाकरहू॥ तनुतियतनयधामधनध
रणी॥ सत्यसिंधुकहंतृणसमवरणी॥ दोहा॥ मर्म्मवचन
सुनिराउकहकछुकदोषनहितोर॥ लागेउतोहिपिशाच
जिमिकालकहावतमोर॥ २९॥ चौपाई॥ चहतनभरतभूप
तिहिंभोरे॥ विधिवशकुमतिबसीउरतोरे॥ सोसबमोरपाप
परिणामू॥ भयउकुठाहरजिहींविधिवामू॥ सुवसबसिहि
फिरिअवधसुहाई॥ सबगुणधामरामप्रभुताई॥ करिहहिं
भाइसकलसेवकाई॥ होइहैंतिहुंपुररामबडाई॥ तोरकल
ंकुमोरपछिताऊ॥ मुयेहुनमिटहिनजाइहिकाऊ॥ अबतोहि
नीकलागुकरुसोई॥ लोचनवोटबैठमुखगोई॥ जौलौजि
यौंकहौंकरजोरी॥ तौलौजनिकछुकहसिबहोरी॥ फिरि
पछितैहसिअन्तअभागी॥ मारेसिगायनहारूलागी॥
दोहा॥ परेउराउकहिकोटिविधिकाहेकरसिनिदान॥ कप
टसयानिनकहतिकछुजागतिमनहुमसान॥ ३०॥ चौपाई॥
रामरामरटिविकलभुआलू॥ जनुविनुपंखविहंगविहालू॥
हृदयमनावभोरजनिहोई॥ रामहिंजानकहइंजनिकोई॥
उदयकरहुजनिरविरघुकुलगुर॥ अवधविलोकिशूलहो

इहिंउर॥भूपप्रीतिकैकयिनिठुराई॥उभयअवधिविधिरची
बनाई॥बिलपतनृपहिभयउभिनुसारा॥बीणाबेणुशंखधु
निद्वारा॥पढहिंभाटगुणगावहिंगायक॥सुनतनृपतिहिं
जनुलागहिंशायक॥मंगलसकलसुहाहिंनकैसें॥सहगा
मिनीविभूषणजैसें॥तेहिनिशिनीन्दपरीनहिंकाहू॥रामद
रशलालसाउछाहू॥दोहा॥द्वारभीरसेवकसचिवकहहिंउ
दितरविदेखि॥जागेअजहुंनअवधपतिकारणकवनविशे
षि॥३८॥चौपाई॥पछिलेपहरभूपनितजागा॥आजुहम
हिबडअचरजलागा॥जाहुसुमंत्रजगावहुजाई॥कीजिय
काजरजायसुपाई॥गेसुमन्त्रनृपमन्दिरमाही॥देखिभया
नकजातडेराही॥धाइखाइजनुजाइनहेरा॥मानहुंविपतिवि
षादबसेरा॥पूछतकोउनऊतरदेई॥गेजहिंभवनभूपकैके
ई॥कहिजयजीवबैठुशिरनाई॥देखिभूपगतिगयउसुखाई॥
शोचविकलविवरणमहिपरेऊ॥मानहुंकमलमूलपरिह
रेऊ॥सचिवसभीतसकैनहिंपूछी॥शोचविकलविवरणम
हिपरेऊ॥मानहुंकमलमूलपरिहरेऊ॥सचिवसभीतसकैन
हिंपूछी॥बोलीअशुभभरीशुभछूछी॥दोहा॥परीनराजहि
नींदनिशिमर्मजानजगदीश॥रामरामरटिभोरकियहेतु

हिंडोल

नकदेउमहीशा॥३९॥चौपाई॥आनहुरामहिंबेगिबुलाई
समाचारसबपूछहुआई॥चलेउसुमन्तराउरुषजानी॥ल
खीकुचालिकीन्हकछुरानी॥शोचबिकलमगपरेनपाऊ॥
रामहिबोलिकहहिकाराऊ॥उरधरिधीरजगएउदुआरे
पूछहिंसकलदेखिमनमारे॥समाधानसोकरिसबहीका
गएजहांदिनकरकुलटीका॥रामसुमन्तहिआवतदेखा
आदरकीन्हपितासमलेखा॥निरखिवदनकहिभूपरजा
ई॥रघुकुलदीपहिचलेलिवाई॥रामकुभांतिसचिवसङ्ग
जाहीं॥देखिलोगजहंतहंबिलखाहीं॥दोहा॥जाइदीख
रघुवंशमणिनरपतिनिपटकुसाज॥सहमिपरेउलखि
सिंहिनिहिमनहुबृद्धगजराज॥४०॥चौपाई॥सूषहिंअध
रजरैसबअङ्गू॥मनहुदीनमणिहीनभुवङ्गू॥सरुषसमी
पदेखिकैकेई॥मानहुमीचुघरीगणिलेई॥करुणामयमृ
दुरामसुभाऊ॥प्रथमदीखदुखसुनानकाऊ॥तदपिधी
रधरिसमयविचारी॥पूछीमधुरवचनमहतारी॥मोहि
कहुमाततातदुखकारण॥करियजतनजेहिहोइनिवा
रण॥सुनहुरामसबकारणएहू॥राजहितुमपरबहु
तसनेहू॥देनकहेमोहिदुइबरदाना॥मांगेउजोकछु

मोहि सोहाना॥ सो सुनि भयेउ भूप उर शोचू॥ कहि न शकहिं
तुम्हार सकोचू॥ दोहा॥ सुत सनेह इत वचन उत संकट परेउ न
रेश॥ शकहु तो आयसु धरहु शिर मेटहु कठिन कलेश॥ ४०
चौपाई॥ नियरक पैठि कहइ कटु बाणी॥ सुनत कठिनता अ
ति अकुलानी॥ जीभ कमान वचन शर नाना॥ मनहुं महीप
मृदु लछ समाना॥ जनु कठोरपण धरें शरीरू॥ शीखइ धनु
षविद्या वरवीरू॥ सब प्रसंग रघुपतिहिं सुनाई॥ वैठी मनहु त
नु धरि निठुराई॥ मन मुसुकाहिं भानुकुल भानू॥ राम सहज
आनन्द निधानू॥ बोले वचन विगत सब दूषण॥ मृदु मंजुल
जनु बाग विभूषण॥ सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी॥ जो पि
तु मातु वचन अनुरागी॥ तनय मातु पितु पोषनहारा॥ दु
र्लभ जननी यह संसारा॥ दोहा॥ मुनिगण मिलन विशेष वन
सबहि भांति हित मोर॥ तेहि महं पितु आयसु बहुरि सम्मत
जननी तोर॥ ४१॥ चौपाई॥ भरत प्राणप्रिय पावहिं राजू॥ विधि
सब विधि मोहि सन्मुख आजू॥ जौं न जाव वन ऐसेहु काजा॥
प्रथम गणिय मोहि मूढ समाजा॥ सेवहिं अरंडु कल्पतरु त्या
गी॥ परिहरि अमिय लेहिं विष मांगी॥ तेउ न पाइ अस समय
चुकाहीं॥ देखि विचारि मातु मन माहीं॥ अंब एक दुख मोहि

रामा॰ अ॰ १३

13

विशेषी॥ निपटविकलनरनायकदेषी॥ थोरीबातपितु‸
हिदुखभारी॥ होतिप्रतीतिनमुहिमहतारी॥ राउधीरगुण
उदधिअगाधू॥ भामोतेकछुबडअपराधू॥ जातेंमोहिनकह
तकछुराऊ॥ मोरशपथतोहिकहुसतिभाऊ॥ दोहा॥ सह
जसरलरघुवरबचनकुमतिकुटिलकरिजान॥ चलैजोंक
जिमिवक्रगतियद्यपिसलिलसमान॥ ४१॥ चौपाई॥ रहसी
रानिरामरुखपाई॥ बोलीकपटसनेहजनाई॥ शपथतुम्हा
रभरतकैरआना॥ हेतुनदूसरमैंकछुजाना॥ तुमअपराध
योगनहिताता॥ जननीजनकबंधुसुखदाता॥ रामसत्य‸
सबजोकछुकहहू॥ तुमपितुमातुवचनरतअहहू॥ पितु
हिबुझाइकहहुबलिसोई॥ चौथेपनजहिअयशनहोई॥ तु
मसमसुवनसुकृतजेहिदीन्हे॥ उचितनतासुनिरादरकी
न्हे॥ लागहिंकुमुखिवचनशुभकैसे॥ मगहगयादिकती
रथजैसे॥ राममहिमातुवचनसवभाए॥ जिमिसुरसरिगत
सलिलसुहाए॥ दोहा॥ गइमूर्छारामहिसुमिरिनृपफि‸
रिकरवटलीन्ह॥ सचिवरामआगमनकहिविनयसमयस
मकीन्ह॥ ४२॥ चौपाई॥ अवनिपअकनिरामपगुधारे॥ धरि
धीरजतवनयनउघारे॥ सचिवसंभारिराउवैठारे॥ चरणप

रतन्न परम निहारे॥ लियेउ सनेह विकल उर लाई॥ गइम
णि मनहु फणिक फिरि पाई॥ रामहि चितै रहेउ नरनाहू॥
चला विलोचन वारि प्रवाहू॥ शोक विवश कछु कहै न पा
रा॥ हृदय लगावत वारहि वारा॥ विधिहि मनाव राउ मन मा
ही॥ जेहि रघुनाथ न कानन जाही॥ सुमिरि महेशहि का
हहिं निहोरी॥ विनती सुनहु सदाशिव मोरी॥ आशुतोष
तुम औढरदानी॥ आरति हरहु दीन जन जानी॥ दोहा॥ तु
म प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहि देहु॥ वचन मोर त
जि रहहिं घर परिहरि शील सनेहु॥ ४५॥ चौपाई॥ अयश हो
उ वरु सुयश नशाऊ॥ नरक परौं वरु सुरपुर जाऊ॥ सब दु
ख दुसह सहावहु मोही॥ लोचन ओट राम जनि होही॥ अ
स मन गुणहि राउ नहि बोला॥ पीपर पात सरिस मन डोला
रघुपति पितहि प्रेमवश जानी॥ पुनि कछु कहेउ मातु अनु
मानी॥ देश काल अवसर अनुसारी॥ बोले वचन विनीत वि
त विचारी॥ तात कहौ कछु करौ ढिठाई॥ अनुचित छमव
जानि लरिकाई॥ अति लघु बात लागि दुख पावा॥ काहु न मो
हि कहि प्रथम सुनावा॥ देखि गोसांइहि पूछेउ माता॥ सुनि
प्रसंग भए शीतल गाता॥ दोहा॥ मंगल समय सनेह वश शो

चपरिहरियैतात॥ आयसुदेउयहहरषिहियकहिपुलके
प्रभुगात॥४६॥ चौपाई॥ धन्यजन्मजगतीतलतासू॥ पित
तहिप्रबोधचरितसुनिजासू॥ चारिपदारथकरतलता
के॥ प्रियपितमातप्राणसमजाके॥ आयसुपालिजन्म
भलपाई॥ ऐहौंवेगिहिहोइरजाई॥ विदामातसनआवौं
मांगी॥ चलिहौंवनहिबहुरिपदलागी॥ असकहिराम
गवनतबकीन्हा॥ भूपशोचवशउतरनदीन्हा॥ नगरव्या
पिगईवातसुतीछी॥ छुअतचढीजनुसबतनुबीछी॥
सुनिभएविकलसकलनरनारी॥ वेलिविटपजनुला
गिदवारी॥ जोजहंसुनैंधुनैसिरसोई॥ वडविषादनहि
धीरजहोई॥ दोहा॥ मुखसुखहिंलोचनस्रवहिंशोकन
हृदयसमाइ॥ मानहुकरुणारसकटकउतराअवधब
जाइ॥४७॥ चौपाई॥ भलिवनाइविधिवातविगारी॥ जहंतहं
देहिकेकयिहिगारी॥ इहिपापिनिहिबुझिकापरेऊ॥ छा
इभवनपरपावकधरेऊ॥ निजकरनयनकाढिचहदी
खा॥ डारिसुधाविषचाहतचीखा॥ कुटिलकठोरकुबुद्धि
अभागी॥ भइरघुवंशवेणुवनआगी॥ पलवबैठिपेडइह
काटा॥ सुखमहुशोकठाटधरिठाटा॥ सदारामइहिप्राण

समाना॥कारणकवनकुटिलपणठाना॥सत्यकह
हिंकविनारिसुभाऊ॥सबविधिअगमअगाधदुराऊ॥।
निजप्रतिविम्बवरूकगहिजाई॥जानिनजाइनारिगति
भाई॥दोहा॥कानहिंपावकजारिशककानसमुद्रसमाइ॥
कानकरैअबलाप्रबलकेहिजगकालनखाइ॥४८॥चौपा
ई॥कासुनाइविधिकाहसुनावा॥कादेखाइचहकाहदेखा
वा॥एककहैंभलभूपनकीन्हा॥वरविचारिनहिंकुमति
हिंदीन्हा॥जोहठभयउसकलदुखभाजन॥अबलाविव
शज्ञानगुणगाजन॥एकधर्मपरमितिपहिचाने॥नृपहि
दोषनहिंदेहिंसयाने॥शिविदधीचिहरिचन्द्रकहानी
एकएकसनकहहिंवखानी॥एकभरतकरसम्मतकह
हीं॥एकउदासभावसुनिरहहीं॥कानमूंदिकररदगहि
जीहा॥एककहहिंइहवातअलीहा॥सुकृतजाइअसक
हततुम्हारे॥भरतरामकहंप्राणपिआरे॥दोहा॥चन्द्रचु
वैवरुअनलकणसुधाहोइविषतूल॥सपनेहुंकवहुंन
करहिंककुभरतरामप्रतिकूल॥४९॥चौपाई॥एकविधा
तहिदूषणदेहीं॥सुधादेखाइदीन्हविषजेहीं॥खरभर
नगरशोचसबकाहू॥दुसहदाहउरमिटाउछाहू॥विप्रव

रामा.
अ.
१५

15

प्रकुलमान्यजिठेरी॥जेप्रियपरमकैकेयीकेरी॥लगीदे
नशिखशीलसराही॥बचनबाणसमलगहिंताही॥भर
तनप्रियमोहिरामसमाना॥सदाकहहुइहसबजगजाना॥
करहुरामपरसहजसनेहू॥केहिअपराधआजुबनदेहू॥
कबहुनकीन्हसवतिअवरेषु॥प्रीतिप्रतीतिजानसबदेशू॥
कौशल्याअबकाहबिगारी॥तमजेहिलागिवज्रपुरपारा॥

दोहा॥सीयकिपियसङ्गपरिहरिहिंलषणकिरहिहहिंधा
म॥राजकिभुञ्जवभरतपुरनृपकिजियहिविनुराम॥५०॥

चौपाई॥अमविचारिजियकाउकोहू॥शोककलङ्ककोटि
जनिहोहू॥भरतहिंअवशिदेहुयुवराजू॥काननकवनरा
मकरकाजू॥नाहिनरामराजकरभूखे॥धर्मधुरीणविषय
रसरूखे॥गुरुगृहवसहिंरामतजिगेहू॥नृपसनअवसर
दुसरलेहू॥राममसरिससुतकाननयोगू॥कहाकहहिंसु
नितमकहंलोगू॥जौंनमानिहौकहेहमारे॥नहिलागिहिं
ककुहाथतम्हारे॥जौपरिहासकीन्हककुहोई॥तौकहिप्र
गटजनावहुसोई॥उठहुवेगिसोइकरहुउपाई॥जेहिंविधि
शोककलङ्कनशाई॥छन्दः॥जेहिंभांतिशोककलङ्कजाइ
उपायकरिकुलपालहू॥हठिफेरिरामहिंजातबनजनिबा॥

तदुसरचालहू ॥ ३ ॥ जिमिभानुबिनुदिनप्राणबिनुतनुच
न्दबिनुजिमियामिनी ॥ तिमिअवधितुलसीदासप्रभुबि
नुसमुझियौंजियभामिनी ॥ ४ ॥ सोरठा ॥ सखिन्हशिखाव
नदीन्हसुनतमधुरपरिणामहित ॥ तेइंकछुकाननकी
न्हकुटिलप्रबोधीकूबरी ॥ ५१ ॥ चौपाई ॥ उतरुनदेइदुसह
रिषरूषी ॥ मृगन्हिंचितवजनुबाघिनिभूखी ॥ ब्याधिअसा
ध्यजानितिनत्यागी ॥ चलीकहतमतिमन्दअभागी ॥
राजकरतयहिंकुमतिबिगोई ॥ कीन्हेसिअसजसकरैन
कोई ॥ इहिंविधिविलपहिंपुरनरनारी ॥ देहिंकुचालिहिं
कोटिकगारी ॥ जरहिंविषमज्वरलेहिंउसासा ॥ कवनरा
मबिनुजीवनआशा ॥ बिपुलवियोगप्रजाअकुलानी ॥ जि
मिजलचरगणसूखतपानी ॥ अतिविषादवशलोगलुगा
ई ॥ गएमातुपहंरामगोसाईं ॥ मुखप्रसन्नचितचौगुणचा
ऊ ॥ मिटाशोचजनिराखहिंराऊ ॥ दोहा ॥ नवगयन्दरघु
वंशमणिराजअलानसमान ॥ छुटेजनुबनगवनसुनि
उरआनन्दअधिकान ॥ ५२ ॥ चौपाई ॥ रघुकुलतिलकजो
रिदोउहाथा ॥ मुदितमातुपदनायउमाथा ॥ दीन्हअशीष
लाइउरलीन्हे ॥ भूषणवसननिछावरिकीन्हे ॥ बारबारमु

रामा. अ. १६

16

खचुम्बतिमाता॥नयननेहजलपुलकितगाता॥गोदरा
खिपुनिहृदयलगाई॥स्रवतप्रेमरसपयदसुहाई॥प्रेमप्र
मोदनकछुकहिजाई॥रङ्कधनदपदबीजनुपाई॥सादर
सुन्दरवदननिहारी॥बोलीमधुरवचनमहतारी॥कहहु
तातजननीबलिहारी॥कबहिंलगनमुदमंगलकारी॥
सुकृतशीलसुखसीमसोहाई॥जन्मलाभकीअवधिअघा
ई॥दोहा॥जेहिंचाहतनररनारिसबअतिआरतइहिभांति॥
जिमिचातकिचातकतृषितवृष्टिशारदऋतुस्वांति॥५२
चौपाई॥तातजाउंबलिबेगिअन्हाहू॥जोमनभावमधुर
कछुखाहू॥पितुसमीपतबजायेहुमैआ॥भइबडिबारजा
इबलिमैंआ॥मातुवचनसुनिअतिअनुकूला॥जनुसने
हसुरतरुकेफूला॥सुखमकरन्दभरेश्रीयमुला॥निरखि
राममनभवरभुला॥धर्म्मधुरीणधर्म्मगतिजानी॥कहेउ
मातुसनअतिमृदुबाणी॥पितादीन्हमोहिकाननराजू॥
जहंसबभांतिमोरबडकाजू॥आयसुदेहुमुदितमनमा
ता॥जहिंमुदमंगलकाननजाता॥जनिसनेहवशडरप
सिभोरे॥आनन्दमातुअनुग्रहतोरे॥दोहा॥वर्षचारिदश
विपिनबसिकरिपितुवचनप्रमाण॥आइपायपुनिदेखि

ह्वैंमनजनिकरसिमलीन॥५४॥चौपाई॥बचनविनीतमधु
ररघुवरके॥सारसमलगेमातउरकरके॥सहमिसुखिसु
निशीतलबाणी॥जिमिजवासपरपावसपानी॥कहिनजा
इकछुहृदयविषादू॥जनुसहनैकरिकेहरिनादू॥नयनस
लिलतनथरहरकापी॥माजेहिखाइमीनजनुमापी॥धरि
धीरजसुतवदननिहारी॥गद्गदवचनकहतिमहतारी॥ता
तपितहिंतुमप्राणपिआरे॥देखिमुदितचितचरिततुम्हारे
राजदेनकहंसुभदिनसाधा॥कहेउजानवनकेहिअपराधा
तातसुनावहुमोहिनिदानू॥कोदिनकरकुलभयउकृशानू
दोहा॥निरखिरामरुखसचिवसुतकारणकहेउबुझाइ॥सु
निप्रसंगरहिमूकजिमिदशावरणिनहिजाइ॥५५॥चौपाई॥
राखिनशकहिंनकहिशकजाहू॥दुहूंभांतिउरदारुणदा
हू॥लिखतसुधाकरगालिखिराहू॥विधिगतिवामसदास
बकाहू॥धर्मसनेहउभयमतिघेरी॥भइगतिसांपछछुन्द
रिकेरी॥राखौंसुतहिकरौंअनुरोधु॥धर्मजाइअरुबंधुविरोधु
कहौंजानवनतौबडिहानी॥संकटशोचविकलभईरानी॥ब
हुरिसमुझितियधर्मसयानी॥रामभरतदोउसुतसमजानी
सरलसुभावराममहतारी॥बोलीबचनधीरधरिभारी॥तात

रामा॰ अ॰ ९

जाउबलिकीन्हेउनीका॥पितुआयसुसबधर्मकटीका॥दो॰

राजदेनकहदीन्हबनमोहिंसोदुखलेश॥तुमबिनुभरतहि
भूपतिहिंप्रजहिंप्रचण्डकलेश॥५६॥चौ॰॥जौकेवलपितु
आयसुताता॥तौजनिजाहुजांनिबडिमाता॥जौपितुमातु
कहेउबनजाना॥ताकाननशतअवधसमाना॥पितुबनदे
वमातुबनदेवी॥खगमृगचरणसरोरुहसेवी॥अन्तहुउचि
तन्रपहिंबनवासू॥वयविलोकिहियहोतहुलासू॥बडभा
गीबनअवधअभागी॥जोरघुबंशतिलकतुमत्यागी॥जौ
सुतकहौंसङ्गमोहिलेहू॥तुम्हरेहृदयहोइशन्देहू॥पूत
परमप्रियतुमसबहीके॥प्राणप्राणकेजीवनजीके॥तेतु
मकहहुमातुबनजाऊं॥मैंसुनिवचनबैठिपछिताऊं॥दो॰

इहिविचारिनहिकरउंहठझूटसनेहबढाइ॥मानिमातु
कोनातबलिसुरतिविसरिजानिजाइ॥५७॥चौ॰॥देवपितु
रसबतुमहिगोसाईं॥राखेहुपलकनयनकीनाईं॥अवधि
अम्बुप्रियपरिजनमीना॥तुमकरुणाकरधर्मधुरीना॥
असविचारिसोइकरहुउपाई॥सबहिंजिअतजेहिंभेंटहुआ
ई॥जाहुसुखेनबनहिंबलिजाऊं॥करिअनाथजनपरिजन
गाऊं॥सबकरआजुसुकृतफलबीता॥भयउकरालकाल

विपरीता॥ बहुविधि विलपि चरण लपटानी॥ परम
अभागिनि आपुहिं जानी॥ दारुण दुसह दाह उर ब्यापा॥
वरणि न जाइ विलाप कलापा॥ राम उठाइ मातु उर लाई॥
कहि मृदु वचन बहुत समुझाई॥ दो॰॥ समाचार तेहिं सम
य सुनि सीय उठी अकुलाइ॥ वन्दि सासु पद कमल युग जा
इ बैठि शिर नाइ॥५८॥ चौ॰॥ दीन्ह असीष सासु मृदु बाणी॥
अति सुकुमारि देखि अकुलानी॥ बैठी नमित मुख शोचइ
सीता॥ रूप राशि पति प्रेम पुनीता॥ चलन चहत वन जी
वन नाथू॥ केहि सुकृती सन होइहि साथू॥ की तनु प्राण
कि केवल प्राणा॥ विधि करतब कछु जाइ न जाना॥ चारु
चरण नख लेखति धरणी॥ नूपुर मुखर मधुर कवि वरणी
मनहुँ प्रेम वश विनती करहीं॥ हमहिं सीय पद जनि परिह
रहीं॥ मञ्जु विलोचन मोचति वारी॥ बोली देखि राम महतारी
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी॥ सासु ससुर परिजनहिं
पिआरी॥ दो॰॥ पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भा
नु॥ पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधानु॥५९॥
चौ॰॥ मैं पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई॥ रूप राशि गुण शील सुहाई॥
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई॥ राखेउँ प्राण जानकिहिं लाई॥

कल्पवेलि जिमि बहु विधि लाली॥ सींचि सनेह सलिल प्र
तिपाली॥ फूलत फलत भयउ विधि वामा॥ जानि न जाइ का
ह परिणामा॥ पलङ्ग पीठ तजि गोद हिंडोरा॥ सियन दीन प
गु अवनि कठोरा॥ जीवन मुरि जिमि जोगवत रहेऊं॥ दीप वा
ति नहिं टारन कहेऊं॥ सोइ सिय चलन चहति वन साथा॥ आय
सु काह होइ रघुनाथा॥ चन्द्रकिरण रस रसिक चकोरी॥ रवि
रुष नयन शकै किमि जोरी॥ दो०॥ करि केहरि निशिचर च
रहिं दुष्ट जन्तु वन भुरि॥ विषवाटिका कि सोह सुत सुभग स
जीवन मुरि॥ ६०॥ चौ०॥ वन हित कोल किरात किशोरी॥ रची
विरञ्चि विषय सुख भोरी॥ पाहन कृमि जिमि कठिन सुभा
ऊ॥ तिनहिं कलेश न कानन काऊ॥ कै तापस तिय कानन यो
गू॥ जिन तप हेतु तजे सब भोगू॥ सिय वन वसिहि तात केहि
भांती॥ चित्रलिखित कपि देखि डेराती॥ सुरसर सुभग वन
ज वन चारी॥ डावर योग कि हंसकुमारी॥ अस विचारि जस
आयसु होई॥ मैं शिष देउ जानकिहिं सोई॥ जो सिय भवन
रहै कह अम्बा॥ मो कहं होइ प्राण अवलम्बा॥ सुनि रघुवीर
मातु प्रिय वाणी॥ शील सनेह सुधा जनु सानी॥ दो०॥ कहि
प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष॥ लगे प्रबोधन

ज्ञानकिहिंप्रगटिविपिनगुणदोष ॥ ६० ॥ चौ० ॥ मातुसमीप
कहतसकुचाहीं ॥ बोलेसमयसमुझिमनमाहीं ॥ राजकुमारि
शिखावनसुनहू ॥ आनभांतिजियजनिकछुगुणहू ॥ आपन
मोरनीकजौंचहहू ॥ वचनहमारमानिगृहरहहू ॥ आयसुमो
रसासुसेवकाई ॥ सबविधिभामिनिभवनभलाई ॥ इहितेंअधि
कधर्म्मनहिदूजा ॥ सादरसासुससुरपदपूजा ॥ जबजबमातु
करिहिंसुधिमोरी ॥ होइहिंप्रेमविकलमतिभोरी ॥ तबतबतु
मकहिकथापुराणी ॥ सुन्दरीसमुझायेहुमृदुबाणी ॥ कहौंसु
भायशपथशतमोही ॥ सुमुखिमातुहितराखौंतोही ॥ दोहा ॥
गुरुश्रुतिसम्मतधर्मफलपाइअविनहिंकलेश ॥ हठवशसब
संकटसहेगालवनहुषनरेश ॥ ६१ ॥ चौ० ॥ मैंपुनिकरिप्रमानपि
तुबाणी ॥ वेगिफिरवसुनुसुमुखिसयानी ॥ दिवसजातनहि
लागिहिंवारा ॥ सुन्दरिशीखवनुसुनहुहमारा ॥ जोहठकरहु
प्रेमवशवामा ॥ तौतुमदुखपाउबपरिणामा ॥ काननकठिनभ
यकूंरभारी ॥ घोरघामहिमवारिबयारी ॥ कुशकंटकमगक
कूंरनाना ॥ चलवपयादेहिविनुपदत्राणा ॥ चरणकमलमृ
दुमंजुतुम्हारे ॥ मारगअगमभूमिधरभारे ॥ कन्दरखोहनदी
नदनारे ॥ अगमअगाधनजाहिंनिहारे ॥ भालुबाघवृककेहरि

नागा॥ करहिंनादसुनिधीरजभागा॥ दोहा॥ भूमिशयनबलक
लबसनअसनकन्दफलमूल॥ तेकिसदासबदिनमिलहिंसब
इसमयअनुकूल॥ ६२॥ चौ॥ नरअहाररजनीचरचरहीं॥ कपटवेष
विधिकोटिककरहीं॥ लागैअतिपहारकरपानी॥ विपिनविपि
तिनहिजाइबखानी॥ ब्यालकरालविहंगबनघोरा॥ निशिचर
निकरनारिनरचोरा॥ डरपहिंधीरगहनसुधिआए॥ मृगलोचनि
तुमभीरुसुभाए॥ हंसगवनितुमनहिंबनयोगू॥ सुनिअपयश
देइहिमोहिलोगू॥ मानससलिलसुधाप्रतिपाली॥ जिअइकिल
वणपयोधिमराली॥ नवरसालवनविहरणशीला॥ सोहकि
कोकिलविपिनकरीला॥ रहहुभवनअसहृदयविचारी॥ चन्द्रव
दनिदुखकाननभारी॥ दोहा॥ सहजसुहृदगुरुस्वामिशिख
जोनकरैहितमानि॥ सोपछिताइअघाइउरअवशिहोइहितहानि ६४॥
चौपाई॥ सुनिमृदुवचनमनोहरपीयके॥ लोचनललितभरेजल
सीयके॥ शीतलशिखदाहकभईकैसें॥ चकइहिशरदचांदनीजै
सें॥ उतरनआवविकलवैदेही॥ तजनचहतमोहिपरमसनेही
बरबशरोकिविलोचनवारी॥ धरिधीरजउरअवनिकुमारी॥ ला
गिसासुपदकहकरजोरी॥ छमबदेविबडिअविनयमोरी॥ दीन्ह
प्राणपतिमोहिशिखसोई॥ जेहिविधिमोरपरमहितहोई॥ मैंपु

तिसमुखि दीख मन माहीं॥ पिय वियोग सम दुख जग नाहीं॥ दो०
प्राणनाथ करुणायतन सुन्दर सुखद सुजान॥ तुम बिनु रघुकु
लकुमुद विधु सुरपुर नरक समान॥ ६५॥ चौ०॥ मातु पिता भगि
नी प्रिय भाई॥ प्रिय परिवार सुहृद समुदाई॥ सासु ससुर गुरु सुज
न सहाई॥ सुत सुन्दर सुशील सुखदाई॥ जहं लगि नाथ नेह
अरु नाते॥ पिय बिनु तियहिं तरणि तैं ताते॥ तनु धनु धाम धरणि
पुर राजू॥ पति विहीन सब शोक समाजू॥ भोग रोग सम भूषण भा
रू॥ यम जातना सरिस संसारू॥ प्राणनाथ तुम बिनु जग माहीं॥ मो
कहं सुखद कतहु कोउ नाहीं॥ जिय बिनु देह नदी बिनु वारी॥ तैसेहिं
नाथ पुरुष बिनु नारी॥ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे॥ शरद विम
ल विधु वदन निहारे॥ दो० खग मृग परिजन नगर बन बलकल
विमल दुकूल॥ नाथ साथ सुर सदन सम पर्णशाल सुख मूल॥ ६६
चौ०॥ बनदेवी बनदेव उदारा॥ करिहैं सासु ससुर सम प्यारा॥ कुश
किशलय साथरी सुहाई॥ प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥ कन्द मू
ल फल अमिय अहारू॥ अवध सौध शत सरिस पहारू॥ छिनु छिनु
प्रभु पद कमल विलोकी॥ रहिहौं मुदित दिवस जिमि कोकी॥ बन
दुख नाथ कहे बहुतेरे॥ भय विषाद परिताप घनेरे॥ प्रभु वियोग लव
लेश समाना॥ सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥ अस जिय जानि सुजा

न शिरोमणि ॥ लेइअ संग मोहि छांडिय जनि ॥ विनती बहुत करौं
का स्वामी ॥ करुणामय उर अन्तरजामी ॥ दो० ॥ राखिय अवध तौ
अवधि लगि रहत जौं जानिय प्राण ॥ दीनबन्धु सुन्दर सुखद शील
सनेह निधान ॥ ६७ ॥ चौ० ॥ मोहि मग चलत न होइहि हारी ॥ छिन छि
न चरण सरोज निहारी ॥ सबही भांति पिय सेवा करिहौं ॥ मारग
जनित सकल श्रम हरिहौं ॥ पाइ पषारि बैठि तरु छांही ॥ करिहौं
वात मुदित मन मांही ॥ श्रम कण सहित श्याम तनु देखैं ॥ कहं
दुख समउ प्राणपति पेखैं ॥ सम महि तृन तरुपल्लव डासी ॥ पाइ
पलोटिहि सब निशि दासी ॥ बार बार मृदु मूरति जोही ॥ लागहि ता
त बयारि न मोही ॥ को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा ॥ सिंघबधुहि
जिमि शशक सियारा ॥ मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू ॥ तुम्हहिं उचित
तप मो कहुं भोगू ॥ दो० ॥ ऐसेउ वचन कठोर सुनि जौं न हृदय विल
गान ॥ तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिहैं पांमर प्राण ॥ ६८ ॥ चौ० ॥
अस कहि सीय विकल भइ भारी ॥ वचन वियोग न सकी संभारी ॥
देखि दशा रघुपति जिय जाना ॥ हठि राखे राखिहिं नहि प्राणा ॥ क
हेउ कृपालु भानुकुलनाथा ॥ परिहरि शोच चलहु वन साथा ॥ न
हि विषाद कर अवसर आजू ॥ वेगि करहु वन गवन समाजू ॥ कहि
प्रिय वचन प्रिया समुझाई ॥ लगे मातु पद आशिष पाई ॥ वेगि प्रजा

दुखमेटइंआई॥जननीनिठुरबिसरिजनिजाई॥फिरिहिंद
शाविधिबहुरिकिमोरी॥देखिहौंनयनमनोहरजोरी॥सुदि
नसुघरीतातकबहोई॥जननीजियतबदनबिधुजोई॥दो०
बहुरिबत्सकहिलालकहिरघुपतिरघुबरतात॥कबहिं
बुलाइलगाइउरहरषिनिरषिहौंगात॥६९॥चौ०॥लखिसने
हकातरमहतारी॥वचननआवविकलभइभारी॥रामप्र
बोधकीन्हविधिनाना॥समयसनेहनजाइबषाना॥तबजान
कीसासुपदलागी॥सुनियमातमैंपरमअभागी॥सेवास
मयदैवबनदीन्हा॥मोरमनोरथसफलनकीन्हा॥तजबक्षो
भजनिछाड़उबछोहू॥कर्म्मकठिनकछुदोषनमोहू॥सुनिसि
यवचनसासुअकुलानी॥दशाकवनविधिकहौंवखानी॥वा
रहिंबारलाइउरलीन्हा॥धरिधीरजशिषआशिषदीन्हा॥अ
चलहोउअहिवाततुम्हारा॥जबलगिगंगजमुनजलधारा
दो०॥सीतहिंसासुअशीषशिषदीन्हअनेकप्रकार॥चलीनाइ
पदपद्मशिरअतिहितबारहिंबार॥७०॥चौ०॥समाचारजब
लक्ष्मणपाए॥व्याकुलविलखिबदनउठिधाए॥कंपपुलक
तनुनयनसनीरा॥गहेचरणअतिप्रेमअधीरा॥कहिनसक
तकछुचितवतठाढे॥मीनदीनजनुजलतैंकाढे॥शोचहृद

रामा० अ० २१

21

यविधिकहानिहोरा॥ सबसुखसुकृतसिरानहुमोरा॥ मो
कहंकहाकहबरघुनाथा॥ राखिहिंभवनकिलैहहिंसाथा॥
रामबिलोकिबन्धुकरजोरे॥ देहगेहसबसनतृणतोरे॥ बो
लेवचनरामनयनागर॥ शीलसनेहसरलसुखसागर॥
तातप्रेमवशजनिकदराहू॥ समुझिहृदयपरिणामउछाहू॥
दो० मातुपितागुरुस्वामिशिखशिरधरिकरियसुभाय॥
लहेउलाभतिनजन्मकरनतरुजन्मजगजाय॥ ७१॥ चौ०॥
असजियजानिसुनहुशिखभाई॥ करहुमातुपितुपदसेव
काई॥ भवनभरतरिपुसूदननाहीं॥ राउवृद्धममदुखमनमा
हीं॥ मैवनजाउंतमहिंलैसाथा॥ होइहिंसबविधिअवधअना
था॥ गुरुपितुमातुप्रजापरिवारू॥ सबकहंपरैदुसहदुखभा
रू॥ रहहुकरहुसबकरपरितोषू॥ नतरुतातहोइहिंवडदोषू॥
जासुराजप्रियप्रजादुखारी॥ सोनृपअवशिनरकअधिकारी॥
रहहुतातअसनीतिविचारी॥ सुनतलषणभयेव्याकुलभारी॥
सियरेवचनसूखिगेकैसें॥ परसततुहिनतामरसुजैसें॥ दो०
उतरनआवतप्रेमवशगहेउचरणअकुलाइ॥ नाथदासमैं
स्वामितमतजहुतोकहावसाइ॥ ७२॥ चौ०॥ दीन्हमोहिशि
खनीकगोसांई॥ लागीअगमअपनिकदरांई॥ नरवरधीरधर्म

धुरधीरी॥ निगमनीतिकेहुअधिकारी॥ मैशिशुप्रभुसने
हप्रतिपाला॥ मन्दरमेरुकिलेइमराला॥ गुरुपितुमातुन
जानौंकाहू॥ कहौंसुभावनाथपतिआहू॥ जहंलगिजगत
सनेहसगाई॥ प्रीतिप्रतीतिनीतिनिगुनाई॥ मोरेसबैएकतु
मस्वामी॥ दीनबन्धुउरअन्तरजामी॥ धर्मनीतिउपदेशियताही
कीरतिभूतिसुगतिप्रियजाही॥ मनक्रमवचनचरणरहत
होई॥ कृपासिन्धुपरिहरियकिसोई॥ दो०॥ करुणासिन्धुसु
बंधुकेसुनिमृदुवचनविनीत॥ समुझाएउरलाइप्रभुजानि
सनेहसभीत॥ ७२॥ चौ०॥ मांगहुविदामातुसनजाई॥ आवहु
वेगिचलहुवनभाई॥ मुदितभएसुनिरघुवरवाणी॥ भएउ
लाभवडमिटीगलानी॥ हर्षितहृदयमातुपहंआए॥ मनहुं
अन्धफिरिलोचनपाए॥ जाइजननिपदनाएउमाथा॥ वनर
घुनन्दनजानकिसाथा॥ पुछेउमातुमलिनमनदेखी॥ लषण
कहेउसबकथाविशेषी॥ गईसहमिसुनिवचनकठोरा॥ मृगी
देखिजनुदवचहुंओरा॥ लषणलखेउभाअनरथआजू॥ इह
सनेहवशकरबअकाजू॥ मांगतविदासभयसकुचाहीं॥ जा
नसङ्गविधिकहिहिकिनाहीं॥ दो०॥ समुझिसुमित्रारामसि
यरूपसुशीलसुभाव॥ नृपसनेहलखिधुनेउशिरपापिनिदी

रामा॰
अ॰
२२

22

न्हउदाव॥ ७४॥ चौ॰॥ धीरजधरेउकुअवसरजानी॥ सहजसुहृ
दबोलीमृदुबाणी॥ ताततुम्हारमातुवेदेही॥ पितारामसबभां
तिसनेही॥ अवधतहांजहांरामनिवासू॥ तहांदिवसजहांभा
नुप्रकासू॥ जोपैंसीयरामवनजाहीं॥ अवधतुम्हारकाजकछु
नाहीं॥ गुरुपितमातुबन्धुसुरसांई॥ सेइयसकलप्राणकीनाई॥
रामप्राणप्रियजीवनजीके॥ स्वारथरहितसखासबहीके॥ पू
जनीयप्रियपरमजहांते॥ मानियसबहिंरामकेनाते॥ असजि
यजानिसंगवनजाहू॥ लेहुताततजगजीवनलाहू॥ दो॰॥ भूरि
भागभाजनभयउमोहिसमेतवलिजाउं॥ जौंतुम्हरेमनछां
डिकुलकीन्हरामपदठाउं॥ ७५॥ चौ॰॥ पुत्रवतीयुवतीजगसो
ई॥ रघुवरभक्तजासुसुतहोई॥ नतरुवांझभलिवादिवियानी
रामविमुखसुततेहितहानी॥ तुम्हरेहिंभागरामवनजांहीं॥
दूसरहेतुतातकछुनांही॥ सकलसुकृतकरफलसुतएहू॥ रा
मसीयपदसहजसनेहू॥ रागरोषइर्षामदमोहू॥ जनिसपने
हुइनकेवशहोहू॥ सकलप्रकारविकारविहाई॥ मनक्रमवच
नकरेहुसेवकाई॥ तुमकहंवनसबभांतिसुपासू॥ सङ्गपित
मातरामसियजासु॥ जेहिनरामवनलहहिंकलेशू॥ सुत।
सोइकरेहुइहैउपदेशू॥ छन्द॥ उपदेशयहिजेहितातुम्हतेरा

मसियसुखपावहीं॥पितुमातुप्रियपरिवारपुरसुखसुरतिवन
बिसरावहीं॥५॥तुलसीप्रभुहिंशिखदेइआयसुदेउपुनिआशिष
दई॥रतिहोउअविरलअमलसियरघुवीरपदनितनई॥६॥सोरठा
मातुचरणशिरनाइलषणचलेशङ्कितहिये॥वागुरिविषमतु
राइमनहुंभागुमृगभागवश॥७६॥चौ०॥गएलषणजहंजानकि
नाथा॥भएमनमुदितपाइप्रियसाथा॥बन्दिरामसियचरणसु
हाए॥चलेसंगनृपमन्दिरआए॥कहहिंपरस्परपुरनरनारी॥भ
लिबनाइविधिबातविगारी॥तनुकृशमनदुखवदनमलीना॥
विकलमनहुंमाषीमधुछीणा॥करमीजहिंशिरधुनिपछिताहीं
जनुविनुपंखविहङ्गअकुलाहीं॥भइवडिभीरभूपदरबारा॥वर
णिनजाइविषादअपारा॥सचिवउठाइराउवैठारे॥कहिप्रियवच
नरामपगुधारे॥सियसमेतदोउतनयनिहारी॥व्याकुलभएभूमि
पतिभारी॥दो०॥सीयसहितसुतसुभगदोउदेखिदेखिअकुलाइ
बारहिंबारसनेहवशराउलेतउरलाइ॥७७॥चौ०॥शकैनबोलिवि
कलनरनाहू॥शोकजनितउरदारुणदाहू॥नाइशीसपदअतिअ
नुरागा॥उठिरघुनाथविदातबमांगा॥पितुअशीषआयसुमोहि।
दीजे॥हर्षसमयविस्मयकतकीजे॥तातकियेप्रियप्रेमप्रमादू॥
जसजगजाइहोइअपवादू॥सुनिसनेहवशउठिनरनाहू॥वैठारेरघु

हृउदाव॥७४॥चौ०॥धीरजधरेउकुअवसरजानी॥सहजसुहृ
दबोलीमृदुबाणी॥ताततुम्हारमातुबेदेही॥पितारामसबभां
तिसनेही॥अवधतहांजहांरामनिवासू॥तहांदिवसजहांभा
नुप्रकासू॥जोपैंसीयरामबनजांहीं॥अवधतुम्हारकाजकछु
नांहीं॥गुरुपितुमातुबन्धुसुरसांईं॥सेइयसकलप्राणकीनांईं
रामप्राणप्रियजीवनजीके॥स्वारथरहितसखासबहीके॥पू
जनीयप्रियपरमजहांते॥मानियसबहिंरामकेनाते॥असजि
यजानिसंगबनजाहू॥लेहुताततजगजीवनलाहू॥दो०॥भूरि
भागभाजनभयउमोहिसमेतबलिजांउं॥जौंतुम्हरेमनछां
डिछलकीन्हरामपदठांउं॥७५॥चौ०॥पुत्रवतीयुवतीजगसो
ई॥रघुवरभक्तजासुसुतहोई॥नतरुबांझभलिबादिबियानी
रामबिमुखसुततेहितहानी॥तुम्हरेहिंभागरामबनजांहीं॥
दूसरहेतुतातकछुनांहीं॥सकलसुकृतकरफलसुतएहू॥रा
मसीयपदसहजसनेहू॥रागरोषइर्षामदमोहू॥जनिसपने
हुइनकेबशहोहू॥सकलप्रकारविकारविहाई॥मनक्रमबच
नकरेहुसेवकाई॥तुमकहंबनसबभांतिसुपासू॥संगपितु
मातुरामसियजासू॥जेहिनरामबनलहहिंकलेसू॥सुत
सोइकरेहुइहैउपदेसू॥छन्द॥उपदेशयहिजेहितातुतुम्हतेरा

ससियसुखपावहीं॥ पितुमातुप्रियपरिवारपुरसुखसुरतिवन
बिसरावहीं॥५॥ तुलसीप्रभुहिंसिखदेइआयसुदेइपुनिआसिष
दई॥ रतिहोउअविरलअमलसियरघुवीरपदनितनई॥६॥ सोरठा
मातुचरणसिरनाइलषणचलेशङ्कितहिये॥ बागुरिविषमतु
राइमनहुंभागुमृगभागवश॥७६॥ चौ० गएलषणजहंजानकि
नाथा॥ भएमनमुदितपाइप्रियसाथा॥ बन्दिरामसियचरणसु
हाए॥ चलेसंगनृपमन्दिरआए॥ कहहिंपरस्परपुरनरनारी॥ भ
लिबनाइबिधिबातबिगारी॥ तनुकृशमनदुखबदनमलीना॥
बिकलमनहुंमाषीमधुछीना॥ करमीजहिंसिरधुनिपछिताहीं
जनुबिनुपंखबिहगअकुलाहीं॥ भइबडिभीरभूपदरबारा॥ बर
णिनजाइबिषादअपारा॥ सचिवउठाइराउबैठारे॥ कहिप्रियबच
नरामगवनुधारे॥ सियसमेतदोउतनयनिहारी॥ व्याकुलभएभूमि
पतिभारी॥ दो० सीयसहितसुतसुभगदोउदेखिदेखिअकुलाइ
बारहिंबारसनेहबशराउलेतउरलाइ॥७७॥ चौ० शकैनबोलिबि
कलनरनाहू॥ शोकजनितउरदारुणदाहू॥ नाइशीसपदअतिअ
नुरागा॥ उठिरघुनाथबिदातबमांगा॥ पितुअशीषआयसुमोहि
दीजे॥ हर्षसमयबिस्मयकतकीजे॥ तातकियेप्रियप्रेमप्रमादू॥
जसजगजाइहोइअपवादू॥ सुनिसनेहबशउठिनरनाहू॥ बैठारेरघु

रामा० अ० २२

23

पतिगहिबाहू॥ सुनहुरामतुमकहँमुनिकहहीं॥ रामचराच
रनायकअहहीं॥ शुभअरुअशुभकर्म्मअनुहारी॥ ईशदेइफल
हृदयविचारी॥ करैजोकर्म्मपावफलसोई॥ निगमनीतिअसक
हंसबकोई॥ दो०॥ औरकरैअपराधकोउऔरपावफलभोग॥ अ
तिविचित्रभगवन्तगतिकोजगजानेयोग॥ ७८॥ चौ०॥ रायरामरा
खनहितलागी॥ बहुतउपायकीन्हछलत्यागी॥ लखेउरामरु
खरहतनजाने॥ धर्मधुरन्धरधीरसयाने॥ तबनृपसीयलाइउरा
लीनी॥ अतिहितबहुतभांतिशिखदीनी॥ कहिबनकेदुखदुस
हसुनाये॥ सासुससुरपितसुखसमुझाये॥ सियमनरामचर
णअनुरागा॥ घरनसुगमबनविषमनलागा॥ औरौंसबहिंसी
यसमुझाई॥ कहिकहिविपिनविपतिअधिकाई॥ सचिवनारि
गुरुनारिसयानी॥ सहितसनेहकहहिंमृदुबाणी॥ तुमकहतो
नदीन्हबनवासू॥ करहुजोकहहिंससुरगुरुसासू॥ दो०॥ शि
खशीतलहितमधुरमृदुसुनिसीतहिंनसोहानि॥ शरदचन्द्रचां
दनिनिरखिजनुचकईअकुलानि॥ ७९॥ चौ०॥ सीयसकुचवशउ
तरनदेई॥ सोसुनितमकिउठीकैकेई॥ मुनिपटभूषणभाजनआ
नी॥ आगेधरिबोलीमृदुबाणी॥ नृपहिंप्राणप्रियतुमरघुवीरा॥
शीलसनेहनकाउहिंभीरा॥ सुकृतसुयशपरलोकनशाऊ॥ त

करहिं न प्राण पयान अभागे त्रुटी ३

महिं जान बन कहहिं निराऊ॥ अस बिचारि सोइ करहु जो भावा
राम जननि सिख सुनि सुख पावा॥ भूपहि बचन बाण सम ला
गे॥ शोक विकल मूर्छित नरनाहू॥ काह करिय कछु सूझ न का
हू॥ राम तुरित मुनि बेष बनाई॥ चले जनक जननिहि शिर नाई॥
दो०॥ सजि बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत॥ बन्दि विप्र
गुरु चरण प्रभु चले करि सबहि अचेत॥ ८०॥ चौ०॥ निकसि बसि
ष्ठ द्वार भए ठाढे॥ देखे लोग बिरह दव डाढे॥ कहि प्रिय बचन स
बहिं समुझाए॥ विप्र बृन्द रघुबीर बुलाए॥ गुरु सब कहि बरषा
सन दीन्हे॥ आदर दान बिनय बश कीन्हे॥ याचक दान मान सन्तो
षे॥ मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ दासी दास बुलाइ बहोरी॥ गुरुहिं
सौंपि बोले कर जोरी॥ सब कर सार संभार गोसांई॥ करब जनक
जननी की नाई॥ बारहिं बार जोरि युग पाणी॥ कहत राम सब स
न मृदु बाणी॥ सोइ सब भांति मोर हितकारी॥ जेहि तें रहइ नरनाह
सुखारी॥ दो०॥ मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहिं दुख दीन॥ सो
उपाय तुम करब सब पुरजन परम प्रबीन॥ ८१॥ चौ०॥ इहि विधि
राम सबहिं समुझावा॥ गुरु पद पद्म हरषि सिर नावा॥ गणपति
गौरि गिरीश मनाई॥ चले अशीष पाइ रघुराई॥ राम चलत अति
भयउ विषादू॥ सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ कुसगुन लंक अवध

देवगिरी
२

तिषोकू॥ हर्षविषादविवशसुरलोकू॥ गैमूर्छातबभूपतिजा
गे॥ बोलिसुमंत्रकहनअसलागे॥ रामचलेवनप्राणनजाहीं।
केहिसुखलागिरहततनमाहीं॥ यहितेंकवनव्यथाबलवाना
जोदुखपाइतजिंहितनुप्राणा॥ पुनिधरिधीरकहहिंनरनाहू
लैरथसङ्गसखातुमजाहू॥ दो० सुठिसुकुमारकुमारदोउ॥
जनकसुतासुकुमारि॥ रथचढाइदिखराइबनफिरेहुगएदि
नचारि॥ ८५॥ चौ०॥ जौनहिंफिरहिंधीरदोउभाई॥ सत्यसिंधुदृढ
ब्रतरघुराई॥ तौतुमविनयकरेहुकरजोरी॥ फेरियप्रभुमिथि
लेशकिशोरी॥ जबसियकाननदेखिडराई॥ कहेहुमोरशिख
अवसरपाई॥ सासससुरअसकहेउसन्देशू॥ पुत्रिफिरियबन
बहुतकलेशू॥ पितगृहकबहुंकबहुंससुरारी॥ रहेहुजहांरु
चिहोइतुम्हारी॥ इहिविधिकरेहुउपायकदम्बा॥ फिरइतोहोइ
प्राणअवलम्बा॥ नाहितमोरमरणपरिणामा॥ कछुनवशा।
इभयविधिवामा॥ असकहिमूर्छिपरेमहिराऊ॥ रामलषण
सियआनिदेखाऊ॥ दो० पायरजायसुनाइशिररथअतिवेगि
बनाइ॥ गयउजहांबाहिरनगरसीयसहितदोउभाइ॥ ८६॥ चौ०
तबसुमंत्रनृपवचनसुनाये॥ करिविनतीरथरामचढाए॥ च
ढिरथसीयसहितदोउभाई॥ चलेहृदयअवधहिंसिरनाई॥ च

लतनाथलखिअवधअनाथा॥ विकललोगलागेसबसाथा॥
कृपासिंधुबहुविधिसमुझावहिं॥ फिरहिंप्रेमवशपुनिफिरिआ
वहिं॥ लागतअवधभयानकभारी॥ मानहुंकालरातीअंधिआरी
घोरजन्तुसमपुरनरनारी॥ डरपहिंएकहिंएकनिहारी॥ घरम
शानपरिजनजनुभूता॥ सुतहितमीतमनहुजमदूता॥ बागनवि
टपवेलिकुम्हिलाहीं॥ सरितसरोवरदेखिनजाहीं॥ दो॰॥ हयग
जकोटिनकेलिमृगपुरपशुचातमोर॥ पिकरथांगशुकशारिका
सारसहंसचकोर॥ ८४॥ चौ॰॥ रामवियोगविकलसबठाढे॥ ज
हंतहंमनहुंचित्रलिखिकाढे॥ नगरसकलवनगहवरभारी॥ ख
गमृगविपुलसकलनरनारी॥ विधिकेकयीकिरातिनिकीन्ही॥
जेहिंदवदुसहदशहुदिशिदीन्ही॥ सहिनसकेरघुवरविरहागी
चलेलोगसबव्याकुलभागी॥ सबहिंविचारकीन्हमनमाहीं॥ रा
मलषणसियविनुसुखनाहीं॥ जहांरामतहांसकलसमाजू॥
विनुरघुवीरअवधकहकाजू॥ चलेसाथअसमंत्रदृढाई॥ सुरदु
र्लभसुखसदनविहाई॥ रामचरणपङ्कजप्रियजिनहीं॥ विष
यभोगवशकरैकितिनहीं॥ दो॰॥ बालकवृद्धविहायगृहलगेलो
गसबसाथ॥ तमसातीरनिवासकियप्रथमदिवसरघुनाथ॥ ८५॥
चौ॰॥ रघुपतिप्रजाप्रेमवशदेखी॥ सदयहृदयदुखभयउविशेषी॥

रामा॰
अ॰
२५

25

करुणामयरघुनाथगोसांई॥वेगिपाइइहिपीरपराई॥कहि
सप्रेममृदुवचनसुहाए॥बहुविधिरामलोगसमुझाए॥किएध
रमउपदेशघनेरे॥लोगप्रेमवशफिरहिंनफेरे॥शीलसनेहछा
डिनहिंजाई॥असमञ्जसवशभएरघुराई॥लोगशोकश्रमवश
गेसोई॥कछुकदेवमायामतिमोई॥जवहिंयामयुगयामिनिवी
ती॥रामसचिवसनकहेउसप्रीती॥खोजमारिरथहांकहुताता
आनउपायवनहिंनहिंवाता॥दो॰॥रामलषणसिययानचढि
शम्भुचरणशिरनाइ॥सचिवचलायउतुरितरथइतउतखोजदु
राइ॥८६॥चौ॰ जागेसकललोगभएभोरू॥गएरघुवीरभएउअ
तिशोरू॥रथकरखोजकतहुंनहिंपावहिं॥रामरामकहिचहुंदि
शिधावहिं॥मनहुंवारिनिधिवुडजहाजू॥भएउविकलवडव
णिकसमाजू॥एकहिएकदेहिंउपदेशू॥तजेउरामहमजानिक
लेशू॥निन्दहिंआपुसराहहिंमीना॥धिकजीवनरघुवीरविहीना
जोपैंप्रियवियोगविधिकीन्हा॥तौकसमरणमांगेनहिंदीन्हा॥
इहिंविधिकरतप्रलापकलापा॥आएअवधभरेपरितापा॥विष
मवियोगनजाइवखाना॥अवधिआशवशराखहिंप्राणा॥दो॰
रामदरशहितनेमव्रतलगेकरणनरनारि॥मनहुंकोककोकी
कमलदीनविहीनतमारि॥८७॥चौ॰॥सीतासचिवसहितदोभाई

शृङ्गवेरपुरपहुंचेजाई॥ उतरेरामदेवसरिदेखी॥ कीन्हदण्ड
वतहर्षविशेषी॥ लषणसचिवसियकीन्हप्रणामा॥ सबहिंस
हितसुखपाएउरामा॥ गङ्गसलिलमुदमङ्गलमूला॥ सबसु
खकरणिहरणिसबसूला॥ कहिकहिकोटिककथाप्रसङ्गा॥
रामविलोकतगङ्गतरङ्गा॥ सचिवहिंअनुजहिंप्रियहिंसुनाई
विबुधनदीमहिमाअधिकाई॥ मज्जनकीन्हपंथश्रमगएऊ॥ शु
चिजलपिअतमुदितमनभएऊ॥ सुमिरतजाहिमिटहिंभवभा
रू॥ तेहिंश्रमयहलौकिकव्यवहारू॥ दो० शुद्धसच्चिदानन्द
मयरामभानुकुलकेतु॥ चरितकरतनरअनुहरतसंसृतिसा
गरसेतु॥ ८८ चौ० इहसुधिगुहनिषादजबपाई॥ मुदितलि
एप्रियबंधुबुलाई॥ लेफलमूलभेटभरिभारा॥ मिलनचलाहि
यहर्षअपारा॥ करिदण्डवतभेटधरिआगे॥ प्रभुहिंविलोक
तअतिअनुरागे॥ सहजसनेहविवशरघुराई॥ पूछेउकुशल
निकटबैठाई॥ नाथकुशलपदपङ्कजदेखे॥ भएउभागभाज
नजनलेखे॥ देवधरणिधनधामतुम्हारा॥ मैजननीचसहित
परिवारा॥ कृपाकरिअपुरधारिअपांऊ॥ थापिअजनसबलो
गसिहांऊ॥ कहेउसत्यसबसखासुजाना॥ मोहिंदीन्हपितुआ
यसुआना॥ दो० वर्षचारिदशवासवनमुनिव्रतवेषअहार॥

ग्रामवासनहिंउचितसुनिगुहहिंभयउदुखभार॥८९॥चौपाई
रामलषणसियरूपनिहारी॥कहहिंसप्रेमनगरनरनारी॥
तेपितुमातुकहहुसखिकैसे॥जिनपठएबनबालकऐसे॥ए
ककहैंभूपतिभलकीन्हा॥लोचनलाभहमहिंविधिदीन्हा॥१॥
तवनिषादपतिउरअनुमाना॥तरुसिंशिपामनोहरजाना॥२॥
लैरघुनाथहिंठाउँबताबा॥कहेउरामसबभांतिसुहावा॥पुर
जनकरिजुहारगृहआए॥रघुपरसंध्याकरणसिधाए॥गु
हसंवारिसाथरीवनाई॥कुशाकिशलयमृदुपरमसुहाई॥शु
चिफलमूलमधुरमृदुवाणी॥दोनाभरिभरिराखेसिआनी॥
दो०॥सियसुमंत्रभ्रातासहितकन्दमूलफलखाइ॥शयनकी
न्हरघुवंशमणिपायपलोटतभाइ॥९०॥चौ०॥उठेलषणप्रभु
सोवतजानी॥कहिसचिवहिंसोवउमृदुवाणी॥कछुकदूरि।
सजिवाणशरासन॥जागनलगेबैठिवीरासन॥गुहबुलाइपा
हरूप्रतीति॥ठांवठांवराखेअतिप्रीति॥आपुलषणपहिंबैठे
उजाई॥कटिभाथाशरचापचढाई॥सोवतप्रभुहिंनिहारिनि
षादा॥भयउप्रेमवशहृदयविषादा॥तनुपुलकितलोचनज
लवहई॥वचनसप्रेमलषणसनकहई॥भूपतिभवनसुसहज
सुहावा॥सुरपतिसदननपटतरपावा॥मणिमयरचितचारु

चौबारे॥ जनुरतिपतिनिजहाथसंवारे॥ दो०॥ सुचिसुबिचि
त्रसुभोगमयसुमनसुगन्धसुवास॥ पलङ्गमञ्जुमणिदीप
जहंसबबिधिसकलसुपास॥ ९१॥ चौ०॥ बिबिधबसनउपधा
नतुराईं॥ छीरफेनमृदुबिषदसुहाईं॥ तहंसियरामशयननि
शिकरहीं॥ निजछबिरतिमनोजमदहरहीं॥ तेसियरामसाथ
रीसोए॥ श्रमितबसनबिनुजाहिंनजोए॥ मातुपितापरिजन
पुरवासी॥ सखासुशीलदासअरुदासी॥ जोगवहिंजिनहिं
प्राणकीनांईं॥ महिसोवततेरामगोसांईं॥ पिताजनकजग
बिदितप्रभाऊ॥ ससुरसुरेशसखारघुराऊ॥ रामचन्द्रपतिसो
बैदेही॥ महिसोवतिबिधिवामनकेही॥ सियरघुबीरकिकान
नयोगू॥ कर्म्मप्रधानसत्यकहलोगू॥ दो०॥ केकयनन्दिनिमन्द
मतिकठिनकुटिलपणकीन्ह॥ जेहिंरघुनन्दनजानकिहिंसु
खअवसरदुखदीन्ह॥ ९२॥ चौ०॥ भइदिनकरकुलबिटपकुठारी
कुमतिकीन्हसबबिश्वदुखारी॥ रामसीयमहिशयननिहारी
भयउबिषादनिषादहिंभारी॥ बोलेलषणमधुरमृदुवाणी॥
ज्ञानविरागभक्तिरससानी॥ कोउनकाहुदुखसुखकरदाता॥
निजकृतकर्मभोगसबभ्राता॥ योगवियोगभोगभलमन्दा॥
हितअनहितमध्यमभ्रमफन्दा॥ जनममरणजहंलगिजगजा

लू ॥ संपति विपति कर्म अरु कालू ॥ धरणि धाम धन पुर परिवा
रू ॥ स्वर्ग नरक जहं लगि व्यवहारू ॥ देखिय सुनिय गुणिये मन
माहीं ॥ मोह मूल परमारथ नाहीं ॥ दो० सपने होइ भिखारि नृ
प रंक नाकपति होइ ॥ जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपञ्च जिय
जोइ ॥ ९२ चौ० अस विचारि नहि कीजिय रोषू ॥ वादि काहुन
हि दीजिय दोषू ॥ मोह निशा सब सोवनिहारा ॥ देखहिं स्वप्न अ
नेक प्रकारा ॥ इहि जग यामिनि जागहिं योगी ॥ परमारथी प्रप
ञ्च वियोगी ॥ जानिय तबहिं जीव जग जागा ॥ जब सब विषय वि
लास विरागा ॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा ॥ तब रघुवीर चरण
अनुरागा ॥ सखा परम परमारथ एहू ॥ मन क्रम वचन राम पद
नेहू ॥ राम ब्रह्म परमारथ रूपा ॥ अविगत अखिल अनादि अनू
पा ॥ सकल विकार रहित गतभेदा ॥ कहि नित नेति निरूपहिं वेदा
दो० भक्त भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपालु ॥ करत
चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जालु ॥ ९३ ॥ चौपाई ॥
सखा समुझि अस परिहरि मोहू ॥ सिय रघुवीर चरण रत होहू ॥
कहत राम गुण भा भिनुसारा ॥ जागे जग मंगल दातारा ॥ सक
ल शौच करि राम अन्हावा ॥ शुचि सुजान वट क्षीर मंगावा ॥ अनु
ज सहित शिर जटा बनाए ॥ देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ रघु

यदाहअतिबदनमलीना॥ कहइकरजोरिबचनअतिदीना॥
नाथकहेउअसकोशलनाथा॥ लैरथजाहुरामकेसाथा॥ बन
देखाइसुरसरिअन्हवाई॥ आनेहुबेगिफेरिदोउभाई॥ लषणरा
मसियआनेहुफेरी॥ संशयसकलसंकोचनिबेरी॥ दो०॥ नृ
पअसकहेउगोसांईजसकहइकरौंबलिसोइ॥ करिबिनतीपा
यनपरेउदीनबालिजिमिरोइ॥ ९५॥ चौ०॥ तातकृपाकरिकीजि
यसोई॥ जातेंअवधअनाथनहोई॥ मंत्रिहिरामउठाइप्रबोधा॥ ता
तधर्ममततुमसबशोधा॥ शिबिदधीचिहरिचन्द्रनरेशा॥ सहे
धर्महितकोटिकलेशा॥ रन्तिदेवबलिभूपसुजाना॥ धर्मधरे
उसहिसंकटनाना॥ धर्मनदुसरसत्यसमाना॥ आगमनिगम
पुराणबखाना॥ मैंसोइधर्मसुलभकरिपावा॥ तजेतोतिहू
पुरअपयशछावा॥ सम्भावितकहंअपयशलाहू॥ मरणकोटि
समदारुणदाहू॥ तुमसनतातबहुतकाकहऊं॥ दिएउतरफि
रिपातकलहऊं॥ दो०॥ पितुपदगहिकहिकोटिबिधिबिन
यकरबकरजोरि॥ चिन्ताकवनिहुबातकीतातकरियजनिमो
रि॥ ९६॥ चौ०॥ तमपुनिपितुसमानहितमोरे॥ बिनतीकरौंता
तकरजोरे॥ सबबिधिसोइकरतब्यतुम्हारे॥ दुखनपावनृप
शोचहमारे॥ सुनिरघुनाथसचिवसंवादू॥ भयउसपरिजन

विकलविषादू॥ पुनिकछुलषणकहेउकटुबाणी॥ प्रभुबर
जेउबडअनुचितजानी॥ सकुचिरामनिजशपथदिवाई॥ ल
षणसन्देशकहबजनिजाई॥ कहसुमंत्रपुनिभूपसन्देसू॥ स
हिनसकिहिसियविपिनकलेसू॥ जेहिंविधिअवधआवफि
रिसीया॥ सोइरघुवीरहतुमहिंकरणीया॥ नतरुनिपटअवल
म्बविहीना॥ मैंनजियवजिमिजलविनुमीना॥ दो०॥ मयके
ससुरेसकलसुखजवहिंजहांमनमान॥ तवतहंरहवसुखेन
सियजबलगिविपतिविहान॥ ९७॥ चौ०॥ विनतीकीन्हभूपजे
हिंभांती॥ आरतिप्रीतिनसोकहिजाती॥ पितुसन्देशसुनिकृ
पानिधाना॥ सियहिंदीन्हशिखकोटिविधाना॥ सासुससुर
गुरुप्रियपरिवारू॥ फिरहुतोसबकरमिटइखभारू॥ सुनि
पतिवचनकहतिवैदेही॥ सुनहुप्राणपतिपरमसनेही॥ प्रभु
करुणामयपरमविवेकी॥ तनुतजिछांहरहतिकिमिछेकी॥
प्रभाजाइकहंभानुविहाई॥ कहांचन्द्रिकाचन्द्रतजिजाई॥ प
तिहिंप्रेममयविनयसुनाई॥ कहसियसचिवसनगिरासुहाई॥
तुमपितुससुरसरिसहितकारी॥ उतरदेउंफिरिअनुचितभारी
दो०॥ आरतवशसन्मुखभइउंविलगनमानबतात॥ आरजसु
तपदकमलविनुबादिजहांलगिनात॥ ९८॥ चौ०॥ पितुवैभव

विलासमैंदीन्हा॥नृपमणिमुकुटमिलितपदपीठा॥सुखनि
धानअसमाइकमोरे॥पतिविहीनमनभावनभोरे॥ससुरचक्र
वइकोशलराऊ॥भुवनचारिदशप्रगटप्रभाऊ॥आगेहोइजेहिं
सुरपतिलेई॥अर्धसिंहासनआसनदेई॥ससुरएतादशअवध
निवासू॥प्रियपरिवारमातुसमसासू॥विनुरघुपतिपदपद्मप
रागा॥मोहिकोउसपनेउसुखदनलागा॥अगमपंथवनभूमि
पहारा करिकेहरिसरसरितअपारा॥कोलकिरातकुरंग वि
हंगा॥मोहिसबसुखदप्राणपतिसंगा॥दो०॥सासुससुरस
नमोरिहितविनयकरबपरिपाय॥मोरशोचजनिकरियकछुमैं
वनसुखीसुभाय॥९९॥चौ०॥प्राणनाथप्रियदेवरसाथा॥धीर
धुरीणधरेंधनुभाथा॥नहिमगश्रमभ्रमदुखमनमोरे॥मोहिल
गिशोचकरियजनिभोरे॥सुनिसुमंत्रसियशीतलवाणी॥भयवि
कलजनुफणिमणिहानी॥नयननसूझसुनैनहिकाना॥कहि
नसकैकछुअतिअकुलाना॥रामप्रबोधकीन्हबहुभांती॥तदपि
होइनहिशीतलछाती॥यतनअनेकसाथहितकीना॥उचितउत
ररघुनन्दनदीना॥मेटिजाइनहिंरामरजाई॥कठिनकर्मगतिक
छुनवसाई॥रामलषणसियपदशिरनाई॥फिरेवणिकजिमिमु
रगवाई॥दो०॥रथहांकेहयरामतनहेरिहेरिहिहिनाहिं॥देखिनि

षादबिषादबसपासिरधुनिधुनिपछितांहिं॥१००॥चौ०॥जासु
बियोगबिकलपसुऐसे॥प्रजामातुपितुजीवहिंकैसें॥बरबस
रामसुमंत्रुपठाए॥सुरसरितीरआपुचलिआए॥मांगीनावन
केवटआना॥कहैतुम्हारमरममैंजाना॥चरणकमलरजक
हंसबकहई॥मानुषकरणिमूरिककुअहई॥छुअतसिलाभइ
नारिसुहाई॥पाहनतेनकाठकठिनाई॥तरणिउमुनिघरनी
होइजाई॥बाटपरैमोरिनावउडाई॥एहिप्रतिपालौंसबपरिवा
रू॥नहिंजानौंकछुऔरकबारू॥जौंप्रभुअवशिपारगाचहहू
तौपदपद्मपखारणकहहू॥छन्द॥पदपद्मधोइचढाइनावन
नाथउतराईचहैं॥मोहिरामराउरिआनिदशरथशपथसबसां
चीकहैं॥१॥बरुतीरमारहिंलषणपैजबलगिनपांवपखारिहैं
तौलगिनतुलसीदासनाथकृपालुपारउतारिहैं॥२॥सोरठा॥
सुनिकेवटकेबयनप्रेमलपेटेअटपटे॥बिहसेकरुणाअयनचि
तेजानकीलषणतन॥१०१॥चौ०॥कृपासिन्धुबोलेमुसकाई॥सो
ईकरहुजेहिंनावनजाई॥बेगिआनिजलपायपखारू॥होतबि
लम्बउतारहुपारू॥जासुनामसुमिरतएकबारा॥उतरहिंनर
भवसिंधुअपारा॥सोइकृपालुकेवटहिंनिहोरा॥जेहिंकियज
गतिहुंपदतैंथोरा॥पदनखनिरखिदेवसरिहरषी॥सुनिप्रभु

वचनमोहमतिकरषी॥केवटरामरजायसुपावा॥पानिकठ
वताभरिलैआवा॥अतिआनन्दउमगिअनुरागा॥चरणसरो
जपखारणलागा॥वर्षिसुमनसुरसकलसिहाहीं॥इहिसमपु
ण्यपुञ्जकोउनाहीं॥दो०॥पदपखारिजलपानकरिआपुसहित
परिवार॥पितरपारकरिप्रभुपुनिमुदितगएउलैपार॥१०२॥चौ०
उतरिठाढभएसुरसरिरेता॥सीयरामगुहलषणसमेता॥के
वटउतरिदण्डवतकीन्हा॥प्रभुसकुचेएहिकछुनदीन्हा॥पिय
हियकीसियजाननिहारी॥मणिमुंदरीमनमुदितउतारी॥क
हेउकृपालुलेहुउतराई॥केवटचरणगहेअकुलाई॥नाथआजु
हमकाहनपावा॥मिटेदोषदुखदारिददावा॥अमितकालमैंकी
नमंजूरी॥आजुदीनविधिसबभरिपूरी॥अबकछुनाथनआहि
यमोरे॥दीनदयालअनुग्रहतोरे॥फिरतीवारजोकछुमोहिदे
वा॥सोप्रसादमैंधरिशिरलेवा॥दो०॥बहुतकीन्हहठलषणप्रभु
नहिकछुकेवटलेइ॥विदाकीन्हकरुणायतनभक्तिविमलबर
दे॥१०३॥चौ०॥तबमज्जनकरिरघुकुलनाथा॥पूजिपार्थिवनाय
उमाथा॥सियसुरसरिहिंकहाकरजोरी॥मातुमनोरथपुरउबमो
री॥पतिदेवरसंगकुशलबहोरी॥आइकरौंजोहिंपूजातोरी॥सुनि
सियविनयप्रेमरसमानी॥भइतबविमलवारिवरवाणी॥सुनरघु

वीरप्रिया बैदेही ॥ तब प्रभाव जग विदित न केही ॥ लोकप हों-हिं बिलोकत तोरे ॥ तोहि सेवहिं सब सिद्धि कर जोरे ॥ तुम जो हम हिं बडि बिनय सुनाई ॥ कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बडाई ॥ तदपि देवि मैं देव असीशा ॥ सफल होन हित निज बागीशा ॥ दो० ॥ प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशला आइ ॥ पूजहिं सब मन कामना सुयश रहहि जग छाइ ॥ १०४ ॥ चौ० ॥ गङ्ग वचन सुनि मङ्गलमूला ॥ मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ तब प्रभु गुहहिं कहा घर जाहू ॥ सुनत सूख मुख भा उर दाहू ॥ दीन बचन गुह कह कर जोरी ॥ बिनय सुनिय रघुकुलमणि मोरी ॥ नाथ साथ रहि पंथ देखाई ॥ करि दिन चारि चरण सेवकाई ॥ जेहिं बन जाइ रहब रघुराई ॥ पर्णकुटी मैं करब सुहाई ॥ तब मोकहं जस देव रजाई ॥ सो करिहौं रघुवीर दुहाई ॥ सहज सनेह राम लखि तासु ॥ सङ्ग लीन्ह गुह हृदय हुलासु ॥ पुनि गुह ज्ञाति बोलि सब लीन्हा ॥ करि परितोष बिदा सब कीन्हा ॥ दो० ॥ तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहिं माथ ॥ सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ १०५ ॥ चौ० ॥ तेहिं दिन भयउ बिटप तर वासू ॥ लषण सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ प्रात प्रातकृत करि रघुराई ॥ तीरथराज दीख प्रभु जाई ॥ सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी ॥ माधव सरिस मीत हितकारी ॥ चारिपदारथ भरा भंडारू

पुण्यप्रदेशदेशअतिचारू॥ छेत्रअगमगढगाढसुहावा॥ स
पनेहुँजिन्हप्रतिपछिनपावा॥ सेनसकलतीरथवरवीरा॥ क
लुषअनीकदलनरणधीरा॥ संगमसिंहासनसुठिसोहा॥ छ
त्रअखयवटमुनिमनमोहा॥ चंमरजमुनअरुगंगतरंगा॥ दे
खिहोहिंदुखदारिदभंगा॥ दो०॥ सेवहिंसुकृतीसाधुसुचिपाव
हिंसवमनकाम॥ वन्दीवेदपुराणगणकहहिंविमलगुणग्राम
चौ०॥ कोकहिसकैप्रयागप्रभाऊ॥ कलुषपुंजकुंजरमृगराऊ॥
असतीरथपतिदेखिसुहावा॥ सुखसागररघुवरसुखपावा॥
कहिसियलखनहिंसखहिंसुनाई॥ श्रीमुखतीरथराजवडाई॥
करिप्रणामदेखतवनवागा॥ कहतमहातमअतिअनुरागा॥
इहिविधिआइविलोकेउवेणी॥ सुमिरतसकलसुमंगलदेनी॥
मुदितअन्हाइकीन्हशिवसेवा॥ पूजियथाविधितीरथदेवा॥ त
वप्रभुभरद्वाजपहिंआए॥ करतदण्डवतमुनिउरलाए॥ मुनिम
नमोदनकछुकहिजाई॥ ब्रह्मानन्दराशिजनुपाई॥ दो०॥ दीन्ह
असीषमुनीशउरअतिआनन्दअसजानि॥ लोचनगोचरसुकृत
फलमनहुंकिएविधिआनि॥ १०७॥ चौ०॥ कुशलप्रश्नकरिआसन
दीन्हा॥ पूजिप्रेमपरिपूरणकीन्हा॥ कन्दमूलफलअंकुरनीके॥
दियेआनिमुनिमनहुअमीके॥ सीयलखणजनसहितसुहाए॥

रामा॰
अ॰
३२

31

अतिरुचिराममूलफलखाए॥भएबिगतश्रमरामसुखारे॥भ
रद्वाजमृदुबचनउचारे॥आजुसुफलतपतीरथत्यागू॥आजुसु
फलजपयोगबिरागू॥सकलसुफलसुभसाधनसाजू॥राम
तुमहिंअवलोकतआजू॥लाभअवधिसुखअवधिनदूजी॥तु
म्हरेदरशआससबपूजी॥अबकरिकृपादेहुबरएहू॥निजपद
सरसिजसहजसनेहू॥दो०॥करमबचनमनछाडिछलजबल
गिजननतुम्हार॥तबलगिसुखसपनेहुनहींकियेकोटिउपचार
चौ०॥सुनिमुनिबचनरामसकुचाने॥भावभक्तिआनन्दअघाने
तबरघुबरमुनिसुयशसुहावा॥कोटिभांतिकहिसबहिसु
नावा॥सोबडसोसबगुणगणगेहू॥जेहिंमुनिशतुमआदर
देहू॥मुनिरघुबीरपरस्परनमहीं॥बचनअगोचरसुखअनु
भवहीं॥यहसुधिपाइप्रयागनिवासी॥बटुतापसमुनिसि
द्धउदासी॥भरद्वाजआश्रमसबआए॥देखनदशरथसुअन
सुहाए॥रामप्रणामकीन्हसबकाहू॥मुदितभएलहिलो
चनलाहू॥देहिंअशीषपरमसुखपाई॥फिरेसराहतसुन्दर
ताई॥दो०॥रामकीन्हबिश्रामनिशिप्रातप्रयागअन्हाइ॥च
लेलषणसियजनमुदितमुदितमुनिहिंशिरनाइ॥१०९॥चौ०
रामसप्रेमकहेउमुनिपाहीं॥नाथकहियहमकेहिमगजाहीं

देखहिंदरशननारिनरधाई त्रुटी ६

सुनिमुनिबिहँसिरामसनकहहीं॥ सुगमसकलमगतुम
कहँअहहीं॥ साथलागिमुनिशिष्यबुलाए॥ सुनिमनमुदि
तपचाशकआए॥ सबहिंरामपदप्रेमअपारा॥ सकलकह
हिंमगुदीखहमारा॥ मुनिबटुचारिसंगतबदीने॥ जिन्हबहु
जन्मसुकृतसबकीने॥ करिप्रणाममुनिआशिषपाई॥ प्र
मुदितहृदयचलेरघुराई॥ ग्रामनिकटजबनिकसेहिंजाई॥
होहिंसनाथजन्मफलपाई॥ फिरहिंदुखितमनसंगपठाई॥
दो०॥ बिदाकीएबटुबिनयकरिफिरेपाइमनकाम॥ उतरिन्ह
न्हानेजमुनजलजोशरीरसमश्याम॥ ११०॥ चौ०॥ सुनततीरब
वासीनरनारी॥ धाएनिजनिजकाजबिसारी॥ लषणरामसि
यसुन्दरताई॥ देखिकरहिंनिजभाग्यबडाई॥ अतिलालसाब
बहिंमनमाहीं॥ नामगावबूझतसकुचाहीं॥ जेतिनमहँ
वयवृद्धसयाने॥ तिनकरियुक्तिरामपहिचाने॥ सकलकथा
कहितिनहिंसुनाई॥ बनहिंचलेपितुआयसुपाई॥ सुनिसवि
षादसकलपछिताहीं॥ रानिराउकीनाभलनाहीं॥ तेहिंअवस
रएकतापसुआवा॥ तेजपुञ्जलघुवयसुहावा॥ कविअल
खितगतिवेषविरागी॥ मनवचकर्मरामअनुरागी॥ दो०॥ सज
लनयनतनुपुलकनिजइष्टदेवपहिचानि॥ परेउदण्डजिमि

रामा० अ० ३२

32

धरणितलदशानजातिवखानि ॥१११॥ चौ० ॥ रामसप्रेमपल
किउरलावा ॥ परमरंकजनुपारसपावा ॥ मनहुंप्रेमपरमार
थदोऊ ॥ मिलतधरेतनुकहसबकोऊ ॥ बहुरिलषणपायन
सोइलागा ॥ लीन्हउठाइउमगिअनुरागा ॥ पुनिसियचरण
रेणुधरिसीषा ॥ जननिजानिशिशुदीन्हअशीषा ॥ कीन्हनि
षाददंडवततेही ॥ मिलेउमुदितमनरामसनेही ॥ पिवतन
यनपुटरूपपियूषा ॥ मुदितसुअशनपाइजिमिभूषा ॥ कीचौ
पाईतथा ॥ कादोहासोइहांतांईलेषकहै ॥ तेपितमातकहौस
खिकैसे ॥ जिनपठएवनबालकऐसे ॥ रामलषणसियरूप
निहारी ॥ सोचसनेहविकलनरनारी ॥ दो० ॥ तबरघुबीरअ
नेकविधिसखहिंसिखावनदीन ॥ रामरजायसुसीषधरि
भवनगवनतेहिंकीन ॥११२॥ चौ० ॥ पुनिसियरामलषणक
रजोरे ॥ जमुनहिंकीन्हप्रणामबहोरी ॥ चलेससीयमुदित।
दौभाई ॥ रबितनयाकरकरतबडाई ॥ पथिकअनेकमिलहिंम
गुजाता ॥ कहहिंसप्रेमदेषिदौभ्राता ॥ राजलक्षणसबअंग
तुम्हारे ॥ देषिसोचहियहोतहमारे ॥ मारगचलहुपयादेहिं
पाए ॥ ज्योतिषझूंठहमारेभाए ॥ अगमपंथगिरिकाननभारी
तेहिंमहंसाथनारिसुकुमारी ॥ करिकेहरिवनजाइनजाई ॥ द

सिंधुरी
४

मसङ्ग चलहिं जो आयसु होई॥ जाव जहां लगि तहं पहु
चाई॥ फिर बबहो रितमहिं शिरनाई॥ दो०॥ इहि विधि पहुंच
हिं प्रेम वश पुलक गात जल नयन॥ कृपासिंधु फेरहिं तिन
हिं करि विनीत मृदु बयन॥१२१॥ चौ०॥ जे पुर ग्राम बसहिं म
गु माहीं॥ तिनहिं नाग सुर नगर सिहाहीं॥ केहिं सुकृती
केहि घरी बसाए॥ धन्य पुण्यमय परम सुहाए॥ जहं जहं
राम चरण चलि जाहीं॥ तेहिं समान अमरावति नाहीं॥ पु
ण्य पुंज मगु निकट निवासी॥ तिनहिं सराहहिं सुरपुरवा
सी॥ जो भरि नयन विलोकहिं रामहिं॥ सीता लषण सहित
घनश्यामहिं॥ जे सर सरित राम अवगाहहिं॥ तिनहिं देव
सर सरित सराहहिं॥ जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई॥ करहिं
कल्पतरु तासु बडाई॥ परसि राम पद पद्म परागा॥ मानति
भूमि भूरि निज भागा॥ दो०॥ छांह करहिं घन विबुधगण बर
षहिं सुमन सिहाहिं॥ देखत गिरि बन विहङ्ग मृग राम च
ले मगु जाहिं॥१२२॥ चौ०॥ सीता लषण सहित रघुराई॥ गां
व निकट जब निकसहिं जाई॥ सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी
चलहिं तुरित गृह काज विसारी॥ राम लषण सिय रूप नि
हारी॥ पाइ नयन फल होहिं सुखारी॥ सजल नयन अति पुल

कशरीरा॥ सब भए मगन देखि दोउ बीरा॥ बरणि न जाइ दशा
तिन केरी॥ लही रंक जनु पारस ढेरी॥ एक कहहिं एक बोलि शिख
देहीं॥ लोचन लाहु लेहु लखन एहीं॥ रामहिं देखि एक अनु
रागे॥ चितवत चले जात सङ्ग लागे॥ एक नयन मग छबि उर
आनी॥ होहिं शिथिल तनु मन बाणी॥ दो॰॥ एक देखि ब
ट छाह भलि डासि मृदुल तृण पात॥ कहहिं गवाइय छिनु
क श्रम गवनब अबहिं कि प्रात॥११५॥ चौ॰॥ एक कलश भ
रि आनहिं पानी॥ अचइय नाथ कहहिं मृदु बाणी॥ सुनि प्रि
य वचन प्रीति अति देखी॥ राम कृपाल सुशील विशेषी॥ जा
नि सीय श्रमित मन माहीं॥ घरीक बिलम्ब कीन्ह बट छाहीं॥
मुदित नारि नर देखहिं शोभा॥ रूप अनूप नयन मन लोभा॥
एकटक सब जोवहिं चहुँ ओरा॥ रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा॥
तरुण तमाल वरण तनु सोहा॥ देखत काम कोटि मन मोहा॥
दामिनि वरण लखण सुठि नीके॥ नख शिख सुभग भावते जी
के॥ मुनि पट कटिन्ह कसे तूणीरा॥ सोहत कर कमलन्ह धनु ती
रा॥ दो॰॥ जटा मुकुट शीसनि सुभग उर भुज नयन विशाल
शरद पूर्णिमा विधु वदन लसत स्वेद कण जाल॥११६॥ चौ॰
बरणि न जाइ मनोहर जोरी॥ शोभा अमित मोर मति थोरी॥॥

रामलषणसियसुन्दरताई॥ सबचितवहिंमतिमनचितला
ई॥ थकेनारिनरप्रेमपिआसे॥ मनहुंमृगीमृगदेखिदियासे॥
सीयसमीपग्रामतीयजाहीं॥ पूछतअतिसनेहसकुचाहीं॥
वारवारसबलागहिंपाए॥ कहहिंवचनमृदुसरलसुभाए॥
राजकुमारिविनयहमकरहीं॥ तियसुभावकछुपूछतडरहीं॥
स्वामिनिअविनयछमवहमारी॥ विलगुनमानवजानिगं
वारी॥ राजकुंअरदोउसहजसलोने॥ इनतेलहिदुतिमरकत
सोने॥ दो०॥ श्यामलगौरकिशोरवरसुन्दरसुखमाअयन॥
शारदशार्वरीनाथमुखशारदसरोरुहनयन॥ ११७॥ चौ०॥
कोटिमनोजलजावनिहारे॥ सुमुखिकहहुकोआहिंतुम्हा
रे॥ सुनिसनेहमयमंजुलबाणी॥ सकुचिसीयमनमहंमुसु
कानी॥ तिनहिंविलोकिविलोकेउधरणी॥ दुहूंसंकोचसकु
चतिवरवरणी॥ सकुचिसप्रेमबालमृगनयनी॥ बोलीमधु
रवचनपिकवयनी॥ सहजसुभावसुभगतनगोरे॥ नामलष
णलघुदेवरमोरे॥ बहुरिवदनविधुअंचलढांकी॥ पियत
नचितैभौंहकरिबांकी॥ खंजनमंजुतिरीछेनयनी॥ निज
पतिकहेउतिनहिंसियसयनी॥ भईमुदितसवग्रामवधूटी
रंकन्हरायरासिजनुलूटी॥ दो०॥ अतिसप्रेमसियपायपरि
बहुविधिदेहिंअशीष॥ सदासोहागिनिहोहुतुमजबलगिम

रा.मा.
अ.
२४

34

हिअहिशीष॥११८॥चौ०॥पारवतीसमपतिप्रियहोऊ॥देवि
नहमपरछाउबछोऊ॥पुनिपुनिविनयकरहिंकरजोरी॥जौ
इहिमारगफिरियबहोरी॥दरशानदेवजानिनिजदासी॥ल
खौसीयसबप्रेमपिआसी॥मधुरवचनकहिकहिपरितोषी॥
जनुकुमुदिनीकौमुदीपोषी॥तबहिंलषणरघुवररुषजानी
पूछेउमगुलोगनिमृदुवाणी॥सुनततनारिनरभएदुखारी॥
पुलकितअङ्गविलोचनबारी॥मिटामोदमनभएमलीने॥।
विधिनिधिदिन्हलेतजनुछीने॥समुझिकर्मगतिधीरजकी
न्हा॥शोधिसुगममगुतिन्हकहिदीन्हा॥दो०॥लषणजान
कीसहिततबगवनकीन्हरघुनाथ॥फेरेसबप्रियवचनक
हिलिएलायमनसाथ॥११९॥चौ०॥फिरतनारिनरअतिप
छितांही॥दैवहिंदोषदेहिंमनमांही॥सहितविषादपरस्पर
करहीं॥विधिकरतबसबउलटैअहीं॥निपटनिरंकुशनिठु
रनिशंकू॥जेहिंशशिकीन्हसरुजसकलंकू॥रुषकल्पतरु
सागरखारा॥तेहुपठएवनराजकुमारा॥जौपैंइनहिंदीनबन
वासू॥कीनवादिविधिभोग[illegible]॥येविचरहिंमगुविनु
पदत्राणा॥रचेवादिविधिवाहननाना॥[illegible]
सपाना॥सुभगसेजकतसृजतविधाता॥[illegible]॥चौ०
विधिदीना॥धवलधामरचिश्रमसकलकीना॥दो०॥जौए[illegible]

पटपरजटिलसुन्दरसुठिसुकुमार॥ विविधभांतिभूषणवस
नवादिकिएकरतार॥ दो०॥ जोयेकन्दमूलफलखाहीं॥ वादिसु
धादिअसनजगमाहीं॥ एककहहिंयेसहजसुहाए॥ आपुप्रग
टभएविधिनवनाए॥ जहंलगिवेदकहेउविधिकरणी॥ श्रवण
नयनमनगोचरवरणी॥ देखहुखोजिभुवनदशचारी॥ कहंअ
सपुरुषकहांअसनारी॥ इनहिंदेखिविधिमनअनुरागा॥ पटत
रजोगवनावनलागा॥ कीनबहुतश्रमएकनआए॥ तेहिंइर्षाव
नआनिदुराए॥ एककहहिंहमबहुतनजानहिं॥ आपुहिंपरम
धन्यकरिमानहिं॥ तेपुनिपुण्यपुंजहमलेखे॥ जेदेखहिंदेखहिं
जिनदेखे॥ दो०॥ इहिविधिकहकहिवचनप्रियलेहिनयनभरिनी
र॥ किमिचलिहैंमारगअगमसुठिसुकुमारशरीर॥१२१॥ चौ०
नारिसनेहविकलसबहोहीं॥ चकईसांझसमयजिमिसोहीं॥
मृदुपदकमलकठिनमगुजानी॥ गहवरिहृदयकहहिंमृदुवा
णी॥ परसतमृदुलचरणअरुणारे॥ सकुचतिमहिजिमिहृदय
हमारे॥ जोजगदीशइनहिंवनदीना॥ कसनसुमनमयमारग
कीना॥ जोमांगेपाइयविधिपांहीं॥ एरखिअसखिआंखिनमां
हीं॥ जेनरनारिनअवसरआए॥ तिनसियरामनदेखनपाए॥ सुनि
स्वरूपबुझहिंअकुलाई॥ अवलगिगएकहांलगिभाई॥ समरथधा
इविलोकहिंजाई॥ प्रमुदितफिरहिंनयनफलपाई॥ दो०॥ अवला

रामा०
अ०
३५

35

बालक वृद्ध जन कर मींजहिं पछिताहिं ॥ होहिं प्रेम वश लोग इ
मि राम जहां जहं जाहिं ॥१२२॥ चौ० ॥ गांउं गांउं अस होउ अनन्दू ॥
देखि भानुकुल कैरव चन्दू ॥ जे कछु समाचार सुनि पावहिं ॥ ते
नृप रानिहिं दोष लगावहिं ॥ कहहिं एक अति भल नरनाहू ॥
दीन्ह हमहिं जिन लोचन लाहू ॥ कहहिं परस्पर लोग लुगाई ॥
बातें सरल सनेह सुहाई ॥ ते पितु मातु धन्य जे हिं जाए ॥ धन्य
सो नगर जहां तें आए ॥ धन्य सो शैल देश वन गाऊं ॥ जहं जहं जा
हिं धन्य सो ठाऊं ॥ सुख पायउ विरञ्चि रचि तेही ॥ ये जिन के सब
भांति सनेही ॥ राम लखण पथ कथा सुहाई ॥ रही सकल मग का
नन छाई ॥ दो० ॥ इहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगनि सु
ख देत ॥ जाहिं चले देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१२३॥ चौ०
आगें राम लखण पुनि पाछें ॥ तापस वेष विराजत काछें ॥ उभय
मध्य सिय सोभति कैसी ॥ ब्रह्म जीव विच माया जैसी ॥ बहुरि क
हउं छवि जस मन बसई ॥ जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ उपमा
बहुरि कहौं जिय जोही ॥ बुध विधु मध्य रोहिणी सोही ॥ प्रभु प
द रेख बीच विच सीता ॥ धरति चरण मग चलति सभीता ॥ सीय
राम पद अंक बराए ॥ लखण चलहिं मग दाहिन लाए ॥ राम लख
ण सिय प्रीति सुहाई ॥ बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ खग मृ
ग मगन देखि छवि होहीं ॥ लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ दो० ॥

जिनजिनदेखेपथिकप्रियसीयसहितदोभाइ॥ सबमगुअग
मअनन्दतेबिनुश्रमरहेसिराइ॥१२४॥ चौ०॥ अजहुंजासुउरस
पनेहुकाऊ॥ बसहिंरामसियलषणनटाऊ॥ रामधामपथपा
इहिसोई॥ जोपथपावकबहुमुनिकोई॥ तबरघुबीरश्रमितसि
यजानी॥ देखिनिकटबटशीतलपानी॥ तहबसिकन्दमूलफ
लखाई॥ प्रातअन्हाइचलेरघुराई॥ देखतबनसरशैलसुहाए॥
बालमीकआश्रमप्रभुआए॥ रामदेखिमुनिवाससुहावन॥ सु
न्दरगिरिकाननजलपावन॥ सरनिसरोजविपबनफूले॥ गुञ्ज
तमंजुमधुपरसभूले॥ खगमृगविपुलकोलाहलकरहीं॥ वि
रहितवैरमुदितवनचरहीं॥ दो०॥ सुचिसुन्दरआश्रमनिरखि
हर्षेराजिवनयन॥ सुनिरघुवरआगमनमुनिआगेआएलयन॥ १२५॥
चौ०॥ मुनिकहंरामदण्डवतकीन्हा॥ आशीर्वादविप्रवरदीन्हा॥
देखिरामछविनयनजुडाने॥ करिसनमानआश्रमहिंआने॥
मुनिवरअतिथिप्राणप्रियपाए॥ कन्दमूलफलमधुरमंगाए॥
सियसोमित्रिरामफलखाए॥ तबमुनिआश्रमदिएसुहाए॥ बा
लमीकमनआनन्दभारी॥ मंगलमूरतिनयननिहारी॥ तबक
रकमलजोरिरघुराई॥ बोलेबचनश्रवणसुखदाई॥ तमत्रिकाल
दरशीमुनिनाथा॥ विश्वबदरजिमितुम्हरेहाथा॥ असकहिप्रभुस

रामा.
अ.
२६
36

बकपावखानी॥ जेहिंजहिंभांतिदीन्हवनरानी॥ दो०॥ ता
तवचनपुनिमातुहितभाइभरतअसराउ॥ मोकहंदरशतुम्हा
रप्रभुसवममपुण्यप्रभाउ॥१२६॥ चौ०॥ देखिपायमुनिरायतु
म्हारे॥ भएसुकृतसवसुफलहमारे॥ अवजहंराउरआयसुहो
ई॥ मुनिउदेगनपावहिंकोई॥ मुनितापसजिन्हतेंदुखलहहीं॥
तेनरेसविनुपावकदहहीं॥ मङ्गलमूलविप्रपरितोषू॥ दह
इकोटिकुलभूसुररोषू॥ असजियजानिकहियसोइठांऊ॥ सि
यसोमित्रिसहितजहंजांऊ॥ तहंरचिरुचिरपर्णतृणशाला॥
वासकरौंकछुकालकृपाला॥ सहजसरलसुनिरघुवरवाणी॥
साधुसाधुवोलेमुनिज्ञानी॥ कसनकहहुअसरघुकुलकेतू॥
तुमपालकसन्ततश्रुतिसेतू॥ छन्दः॥ श्रुतिसेतुपालकराम
तुमजगदीशमायाजानकी॥ जोसृजतिजगपालतिहरतिरु
खपाइकृपानिधानकी॥१॥ जोसहससीसअहीशमहिधरल
षणसचराचरधनी॥ सुरकाजधरिनरराजतनुचलेदलनख
लनिशिचरअनी॥२॥ सोरठा॥ रामस्वरूपतुम्हारवचनअगो
चरबुद्धिवर॥ अविगतअकथअपारनेतिनेतिनितनिगमक
ह॥१२७॥ चौ०॥ जगपेखनतुमदेखनिहारे॥ विधिहरिशम्भुन
चावनहारे॥ तेउनजानहिंमर्मतुम्हारा॥ औरतुमहिंकोजाननहा

रा॥ सोजानैजेहिंदेहुजनाई॥ जाननतुम्हैतुमहिंहोइजाई॥ तु
म्हरीकृपातुमहिंरघुनन्दन॥ जानतभक्तभक्तउरचन्दन॥ चिदा
नन्दमयदेहतुम्हारी॥ विगतविकारजानअधिकारी॥ नरतनु
धरेहुसन्तसुरकाजा॥ कहहुकरहुजसप्राकृतराजा॥ रामदे।
खिसुनिचरिततुह्मारे॥ जउमोहहिंबुधहोहिंसुखारे॥ तुमजोक
हहुकरहुसबसांचा॥ जषाकाछियतसनचाहियनाचा॥ दो०॥
पूछेहुमोहिकिरहौंकहांमैंपूछतसकुचाउं॥ जहंनहोहुतहंदे
हुकहितुमहिदेखावौंठाउं॥१२८॥ चौ०॥ सुनिमुनिवचनप्रेमर
ससाने॥ सकुचिराममनमहंमुसुकाने॥ वालमीकहंसिकह
हिवहोरी॥ वाणीमधुरअमियरसबोरी॥ सुनहुरामअबकहौं।
निकेता॥ बसहुंजहांसियलषणसमेता॥ जिनकेश्रवणसमुद्र
समाना॥ कथातुह्मारसुभगसरिनाना॥ भरहिंनिरन्तरहोहिंन
पूरे॥ तिनकेहृदयसदनतवरूरे॥ लोचनचातकजिनकरिराषे
रहहिंदरशजलधरअभिलाषे॥ निदरहिंसिन्धुसरितअतिभारी।
रूपविन्दुजलहोहिंसुखारी॥ तिनकेहृदयसदनसुखदायक॥।
वसहुलषणसियसहरघुनायक॥ दो०॥ यशतुम्हारमानसवि
मलहंसिनिजीहाजासु॥ मुकाहलगुणगणचुनैवसहुरामहि
यतासु॥१२९॥ चौ०॥ प्रभुप्रसादशुचिसुभगसुवासा॥ सादरजासु

लहैंनितनासा॥ तुमहिनिवेदितभोजनकरहीं॥ प्रभुप्रसादपट
भूषणधरहीं॥ शीसनवहिंसुरगुरुद्विजदेषी॥ प्रीतिसहितकरि
विनयविशेषी॥ करनितकरहिंरामसियपूजा॥ रामभरोसहृद
यनहिदूजा॥ चरणरामतीरथचलिजाहीं॥ रामवसहुतिनकेमन
माहीं॥ मंत्रराजनितजपहितुम्हारा॥ पूजहिंतुमहिंसहितपरि
वारा॥ तर्पणहोमकरहिंविधिनाना॥ विप्रजेंवाइदेहिंबहुदाना॥
तुमतैंअधिकगुरुहिंजियजानी॥ सकलभावसेवहिंसनमानी
दो॰॥ सबकरिमांगहिंएकफलरामचरणरतिहोउ॥ तिनकेम
नमन्दिरबसहुसियरघुनन्दनदोउ॥१३०॥ चौ॰॥ कामक्रोधमद
माननमोहा॥ लोभनक्षोभनरागनद्रोहा॥ जिनकेकपटदम्भन
हिमाया॥ तिनकेहृदयबसहुरघुराया॥ सबकेप्रियसबकेहित
कारी॥ दुखसुखसरिसप्रशंसागारी॥ कहहिंसत्यप्रियवचनवि
चारी॥ जागतसोवतशरणतुम्हारी॥ तुमहिंछाडिगतिदूसरना
हीं॥ रामबसहुतिनकेउरमाहीं॥ जननीसमजानहिंपरनारी॥ ध
नपरायविषतैंविषभारी॥ जेहरषहिंपरसम्पतिदेखी॥ दुखितहो
हिंपरविपतिविशेषी॥ जिनहिंरामतुमप्राणपियारे॥ तिनकेउ
रशुभसदनतुम्हारे॥ दो॰॥ स्वामिसखापितुमातुगुरुजिनकेस
वतुमतात॥ तिनकेमनमन्दिरबसहुसीयसहितदोभ्रात॥१३१॥

चौ०॥अवगुणतजिसबकेगुणगहहीं॥विप्रधेनुहितसंक
टसहहीं॥नीतिनिपुणजिनकीजगलीका॥घरतुम्हारति
नकेमननीका॥गुणतुम्हारसमुझहिंनिजदोषू॥जेहिंसब
भांतितुम्हारभरोसू॥रामभक्तप्रियलागहिंजेही॥तेहिंउर
बसहुसहितवैदेही॥जातिपांतिधनधर्मबड़ाई॥प्रियपरिवा
रसदनसुखदाई॥सबतजितुमहिंरहैलवलाई॥ताकेहृदय
रहहुरघुराई॥स्वर्गनरकअपवर्गसमाना॥जहंतहंदीखध
रेंधनुबाण॥मनक्रमवचनजोराउरचेरा॥रामकरहुताकेउ
रडेरा॥दो०॥जाहिनचाहियकबहुंकछुतुमसनसहजसनेह
बसहुनिरन्तरतासुउरसोराउरनिजगेह॥१३२॥चौ०॥इहिवि
धिमुनिवरसदनदेखाए॥वचनसप्रेमराममनभाए॥कहमु
निसुनहुभानुकुलनायक॥आश्रमकहौंसमयसुखदायक॥
चित्रकूटगिरिकरहुनिवासू॥तहंतुम्हारसबभांतिसुपासू॥
शैलसुहावनकाननचारू॥करिकेहरिमृगविहंगविहारू॥
नदीपुनीतपुराणवखानी॥अत्रिप्रियानिजतपबलआनी॥
सुरसरिधारनाममन्दाकिनी॥जोसबपातकपोतकडाकिनी
अत्रिआदिमुनिवरबहुबसहीं॥करहिंयोगजपतपतनुकस
हीं॥चलहुसफलश्रमप्रभुकरहू॥रामदेहुगौरवगिरिवरहू

दो०॥ चित्रकूटमहिमाअमितकहीमहामुनिगाइ॥ आइअ
न्हानेसरितवरसीयसहितदोभाइ॥ १३२॥ चौ०॥ रघुवरकहे
उलषणभलघाटू॥ करहुकतहूँअवठाहरठाटू॥ लषणदी
खपयउतरकरारा॥ चहुँदिशिफिरेउधनुषजिमिनारा॥ न
दीपनचशरशमदमदाना॥ सकलकलुषकलिसाउजना
ना॥ चित्रकूटजनुअचलअहेरी॥ चुकनघातमारमुठभेरी॥
असकहिलषणठाउँदेखावा॥ थलविलोकिरघुपतिसुख
पावा॥ रमेउराममनदेवन्हजाना॥ चलेसहितसुरपतिपर
धाना॥ कोलकिरातवेषसवआए॥ रचेउपर्णतृणसदनसु
हाए॥ वरणिनजाइमंजुदुइशाला॥ एकललितलघुएकवि
शाला॥ दो०॥ लषणजानकीसहितप्रभुराजतपर्णनिकेत॥
सोहमदनमुनिवेषजनुरतिऋतुराजसमेत॥ १३३॥ चौ०॥
अमरनागकिन्नरदिकपाला॥ चित्रकूटआएतेहिंकाला॥ रा
मप्रणामकीन्हसवकाहू॥ मुदितदेवलहिलोचनलाहू॥ व
र्षिसुमनकहदेवसमाजू॥ नाथसनाथभएहमआजू॥ करि
विनतीदुखदुसहसुनाए॥ हर्षितनिजनिजसदनसिधाए॥
चित्रकूटरघुनन्दनछाए॥ समाचारसुनिसुनिमुनिआए॥ आ
वतदेखिमुदितमुनिवृन्दा॥ कीन्हदण्डवतरघुकुलचन्दा॥

मुनिरघुवरहिंलाइउरलेहीं॥सुफलहोनहितआशिषदेहीं
सियसौमित्रिरामछविदेखी॥साधनसकलसुफलकरिले
खी॥दो०॥यथायोगसनमानिप्रभुविदाकिएमुनिवृन्द॥
करहिंयोगजपयज्ञतपनिजआश्रमस्वछन्द॥१३५॥चौ०॥
यहसुधिकोलकिरातनपाई॥हर्षेजनुनवनिधिघरआई॥
कन्दमूलफलभरिभरिदोना॥चलेरङ्कजनुलूटनसोना॥
तिनमहंजिनदेखेदोऊभ्राता॥औरतिनहिंपूछहिंमगुजाता
कहतसुनतरघुवीरनिकाई॥आयसबदेखेदोऊभाई॥करहिं
जुहारिभेंटधरिआगे॥प्रभुहिंविलोकतअतिअनुरागे॥चि
त्रलिखेजनुजहंतहंठाढे॥पुलकशरीरनयनजलवाढे॥
रामसनेहमगनसबजाने॥कहिप्रियवचनसकलसनमाने
प्रभुहिंजोहारिबहोरिबहोरी॥वचनविनीतकहहिंकरजोरी
दो०॥अबहमनाथसनाथसबभएदेखिप्रभुपाय॥भागहम
ारेआगमनराउरकोशलराय॥१३६॥चौ०॥धन्यभूमिवन
पंथपहारा॥जहंजहंनाथपांवतुमधारा॥धन्यविहंगमृग
काननचारी॥सुफलजन्मभएतुमहिंनिहारी॥हमसबधन्य
सहितपरिवारा॥देखिनयनभरिदरशतुम्हारा॥कीन्हवास
भलठामविचारी॥इहांसकलऋतुरहवसुखारी॥हमसब-

भांतिकरबसेवकाई॥करिकेहरिअहिवाघबराई॥वनवि
हड़गिरिकन्दरखोहा॥सबहमारप्रभुपगपगजोहा॥त
हंतहंतमहिंअहेरखेलाउब॥सरनिर्झरसबठाउंदेखाउब॥
हमसेवकपरिवारसमेता॥नाथनसकुचबआयसुदेता॥
दो०॥वेदवचनमुनिमनअगमतेप्रभुकरुणाअयन॥वच
नकिरातनकेसुनतजिमिपितुबालकबयन॥१३७॥चौ०॥
रामहिंकेवलप्रेमपिआरा॥जानिलेहुजेजाननिहारा॥रा
मसकलवनचरपरितोषे॥कहिमृदुवचनप्रेमपरिपोषे॥
विदाकिएशिरनाइसिधाए॥प्रभुगुणकहतसुनतघरआए
इहिविधिसीयसहितदोभाई॥वसहिंविपिनसुरमुनिसुख
दाई॥जबतेंआइरहेरघुनायक॥तबतेंभएवनमंगलदाय
क॥फूलहिंफलहिंविटपविधिनाना॥मंजुललितवरवे
लिविताना॥सुरतरुसरिससुभावसुहाए॥मनहुंविबुध
वनपरहरिआए॥गुंजतमंजुलमधुकरश्रेणी॥त्रिविधव
यारवहैसुखदेनी॥दो०॥नीलकंठकलकंठशुकचातकच
क्रचकोर॥भांतिभांतिबोलहिंविहगश्रवणसुखदचितचो
र॥१३८॥चौ०॥करिकेहरिकपिकोलकुरंगा॥विगतवयर
विचरहिंएकसंगा॥फिरतअहेररामछविदेखी॥होहिंमु

दितमृगाबृन्दविशेषी॥ विबुधविपिनजहंलगिजगमाहीं
देखिरामबनसकलसिहाहीं॥ सुरसरिसरस्वतिदिनकरक
न्या॥ मेकलसुतागोदावरिधन्या॥ सबसरिसिन्धुनदीनदना
ना॥ मन्दाकिनिकरकरहिंबखाना॥ उदयअस्तगिरिवरकैला
सू॥ मन्दरमेरुसकलसुरवासू॥ शैलहिमाचलआदिकजेते
चित्रकूटयशगावहिंतेते॥ देवमुदितमनसुखनसमाई॥ वि
नुश्रमविपुलबडाईपाई॥ दो०॥ चित्रकूटकेविहंगमृगबेलि
विटपतृणजाति॥ पुण्यपुंजसबधन्यअसकहहिंदेवदिन
राति॥ १३८॥ चौ०॥ नयनवन्तरघुपतिहिंविलोकी॥ पाइज
न्मफलहोहिंविशोकी॥ परशिचरणरजअचरसुखारी॥ भ
एपरमपदकेअधिकारी॥ सोवनशैलसुभायसुहावन॥ मङ्ग
लमयअतिपावनपावन॥ महिमाकहौंकवनविधितासू॥
सुखसागरजहंकीन्हनिवासू॥ पयपयोधितजिअवधवि
हाई॥ जहंसियरामलषणरहआई॥ कहिनशकहिंसुख
माजसकानन॥ जौशतसहसहोहिंसहसानन॥ सोमेवर
णिकहौंविधिकेहीं॥ डाबरकमठकिमन्दरलेहीं॥ सेवहिं
लषणकर्ममनवाणी॥ जाइनशीलसनेहबखानी॥ दो०॥
छणछणलखिसियरामपदजानिआपुपरनेह॥ करतल
षणसपनेनचितबन्धुमातपितगेह॥ १३९॥

रामा॰
अ॰
४०

40

चौ० ॥ रामसङ्गसियरहहिंसुखारी ॥ पुरपरिजनगृहसुरति
विसारी ॥ छणछणपियविधुवदननिहारी ॥ प्रमुदितमनहुं
चकोरकुमारी ॥ नाहनेहनितबढतविलोकी ॥ हर्षितरहति
दिवसजिमिकोकी ॥ सियमनरामचरणअनुरागा ॥ अव
धसहससमवनप्रियलागा ॥ पर्णकुटीप्रियप्रियतमसङ्गा
प्रियपरिवारकुरङ्गविहङ्गा ॥ सासससुरसममुनितियमुनि
वर ॥ अशनअमियसमकन्दमूलफर ॥ नाथसाथसाथरीसु
हाई ॥ मयनशयनशतसमसुखदाई ॥ लोकपहोहिंविलोक
तजासू ॥ तेहिकिमोहसकविषयविलासू ॥ दो० ॥ सुमिर
तरामहिंतजहिंजनतृणसमविषयविलास ॥ रामप्रिया
जगजननिसियकछुनआचरजतासु ॥ १४० ॥ चौ० ॥ सीयल
षणजेहिंविधिसुखलहहीं ॥ सोइरघुनाथकरहिंसोइक
हहीं ॥ कहहिंपुरातनकथाकहानी ॥ सुनहिंलषणसिय
अतिसुखमानी ॥ जबजबरामअवधसुधिकरहीं ॥ तबत
बवारिविलोचनभरहीं ॥ सुमिरिमातपितुपरिजनभाई ॥
भरतसनेहशीलसेवकाई ॥ कृपासिन्धुप्रभुहोहिंदुखारी ॥
धीरजधरहिंकुसमयविचारी ॥ लखिसियलषणविकल
होइजाहीं ॥ जिमिपुरुषहिंअनुसरपरिछाहीं ॥ प्रियाबन्धु

गतिलखिरघुनन्दन॥धीरकृपालभक्तउरचन्दन॥लगेकह
नकछुकथापुनीता॥सुनिसुखलहहिंलषणअरुसीता॥दो०
रामलषणसीतासहितसोहतपर्णनिकेत॥जिमिवासवव
सअमरपुरशचीजयन्तसमेत॥१४१॥चौ०॥जुगवहिंप्रभुसिय
लषणहिंकैसे॥पलकविलोचनगोलकजैसे॥सेवहिंलषण
सीयरघुवीरहिं॥जिमिअविवेकीपुरुषशरीरहिं॥इहिविधि
प्रभुवनवसहिंसुखारी॥खगमृगसुरतापसहितकारी॥कहे
उरामवनगवनसुहावा॥सुनहुसुमंत्रअवधजिमिआवा॥
फिरेउनिषादप्रभुहिंपहुंचाई॥सचिवसहितरथदेखेउआई॥मं
त्रिहिंविकलविलोकिनिषादू॥कहिनसकहिंजसभयउविषादू॥
रामरामसियलषणपुकारी॥परेउधरणीतलव्याकुलभारी
देखिदक्षिणदिशिहयहिहिनाहीं॥जिमिविनुपंखविहंगअ
कुलाहीं॥दो०॥नहितृणचरहिंनपियहिंजलमोचतलोचा
नवारि॥व्याकुलभयउनिषादपतिरघुवरवाजिनिहारि॥१४२
चौ०॥धीरजधरितवकहहिंनिषादू॥अवसुमंत्रपरिहरहुवि
षादू॥तुमपंडितपरमारथज्ञाता॥धरहुधीरलखिविमुखविधा
ता॥विविधकथाकहिकहिमृदुवाणी॥रथवैठारेसिवरवश
आनी॥शोकसिथिलरथसकहिंनहांकी॥रघुपतिविरहपीरउ
रवांकी॥तरफराहिंमगचलहिंनघोरे॥वनमृगमनहुंआनिर

रामा. अ. ४१

पजोरे॥ उठकिपरहिंफिरिचितवहिंपीछे॥ रामवियोगवि
कलदुखतीछे॥ जोकहरामलषणवैदेही॥ नहिकरहिकरि
हयहेरहिंतेही॥ वाजिविरहगतिकिमिकहिजाती॥ मणिवि
नुफणिकविकलजेहिभांती॥ दो॰॥ भयनिषादविषादवश
देखतसचिवतुरङ्ग॥ बोलिसुसेवकचारितबदिएसारथीस
ङ्ग॥ १४४॥ चौ॰॥ गुहसारथिहिफिरेउपहुंचाई॥ विरहविषादवर
णिनहिंजाई॥ चलेअवधलेरथहिंनिषादा॥ होतछणहिंछ
णमगनविषादा॥ शोचसुमन्त्रविकलदुखदीना॥ धिकजी
वनरघुवीरविहीना॥ रहहिंनअन्तहुअधमशरीरा॥ यशान
लहेउविछुरतरघुवीरा॥ भएउअयशअघभाजनप्राणा॥ कौन
हेतनहिकरतपयाना॥ अहहमन्दमतिअवसरचूका॥ अ
जहुनहृदयहोतदुइटूका॥ मीजिहाथशिरधुनिपछिताई॥
मनहुंकृपणधनराशिगवांई॥ विरदबांधिवरवीरकहाई॥ च
लेसमरजनुसुभटपराई॥ दो॰॥ विप्रविवेकीवेदविदसम्म
तसाधुसुजाति॥ जिमिधोखेमदपानकरसचिवशोचतेहिं
भांति॥ १४५॥ चौ॰॥ जिमिकुलीनतियसाधुसयानी॥ पतिदे
वताकर्ममनबाणी॥ रहैकर्मवशपरिहरिनाहू॥ सचिवहृ
दयतिमिदारुणदाहू॥ लोचनसजलडीठिभइथोरी॥ सुनै
नश्रवणविकलमतिभोरी॥ सूखहिंअधरलागिमुहलाटी

जीवनजाइउरअवधकपाटी॥ विबरणभएउनजाइनिहारी॥॥
मारेसिमनहुंपितामहतारी॥ हानिगलानिविपुलमनव्यापी॥॥
यमपुरपंथशोचजिमिपापी॥ वचननआवहृदयपछिताई॥ अ
वधकहामैदेखबजाई॥ रामरहितरथदेखिहिंजोई॥ सकुचिहि
मोहिविलोकतसोई॥ दो०॥ धाइपुछिहहिंमोहिजबविकलनग
रनरनारि॥ उत्तरदेवमैसबहिंतबहृदयवज्रबैठारि॥१४८॥ चौ०
पुछिहहिंदीनदुखितसबमाता॥ कहबकहामैतिनहिंविधाता
पुछिहहिंजबहिंलषणमहतारी॥ कहिहौंकवनसन्देशसुखा
री॥ रामजननिजबआइहिंधाई॥ सुमिरिवरसजिमियेनुलवाई
पूछतउत्तरदेवमैतेही॥ गेवनरामलषणवैदेही॥ जोइपूछिहिंते
हिउत्तरदेवा॥ जाइअवधअवयहसुखलेवा॥ पूछिहिंजबहिंरा
उदुखदीना॥ जीवनजासुरघुनाथअधीना॥ देहौंउत्तरकवनमुह
लाई॥ आएउंकुशलकुंअरपहुंचाई॥ सुनतलषणसियरामसन्दे
सू॥ तृणइवतनुपरिहरहिंनरेसू॥ दो०॥ हृदयनविदरतपंकजि
मिविछुरतप्रियतमनीर॥ जानतहौंमोहिदीन्हविधियहुजातना
शरीर॥१४९॥ चौ०॥ इहिविधिकरतपंथपछितावा॥ तमसातीरा
तुरतरथआवा॥ विदाकिएकरिविनयनिषादू॥ फिरेपायपरि
विकलविषादू॥ पैठतनगरसचिवसकुचाई॥ जनुमारेसिगुरुब्रा
ह्मणगाई॥ बैठिविटपतरदिवसगवावा॥ सांझसमेयतनअवसर

पावा॥ अवध प्रबेस कीन्ह अँधियारे॥ पैठ भवन रथ राखि दुआरे॥
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए॥ भूप द्वार रथ देखन आए॥ रथ
पहिचानि बिकल लखि घोरे॥ गरहिं गात जिमि आतप ओरे॥
नगर नारि नर ब्याकुल कैसे॥ निघटत नीर मीन गन जैसे॥ दो॰
सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयउ रनिवास॥ भवन भय
ंकर लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवास॥ १४८॥ चौ॰॥ अति आरत सब
पूछहिं रानी॥ उतर न आव बिकल भइ बानी॥ सुनै न श्रवन न
यन नहि सूझा॥ कहहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूझा॥ दासिन्ह दीख
सचिव बिकलाई॥ कौशल्या गृह गई लवाई॥ जाइ सुमंत्र दीख क
स राजा॥ अमिय रहित जनु चन्द बिराजा॥ आसन सयन बिभू
षण हीना॥ परेउ भूमितल निपट मलीना॥ लेत उसास सोच एहि
भांती॥ सुरपुर तें जनु खसेउ जजाती॥ लेत सोच भरि छिन छिन
छाती॥ जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ राम राम कह राम सनेही॥
पुनि कह राम लखन बैदेही॥ दो॰॥ देखि सचिव जय जीव कहि
कीन्हेसि दंड प्रणाम॥ सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ
राम॥ १४९॥ चौ॰॥ भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई॥ बूडत कछु अधार ज
नु पाई॥ सहित सनेह निकट बैठारी॥ पूछत राउ नयन भरि बारी॥
राम कुशल कहु सखा सनेही॥ कहँ रघुनाथ लखन बैदेही॥ आने
फेरि कि बनहि सिधाए॥ सुनत सचिव लोचन जल छाए

शोक विकल पुनि पूछ नरेसू॥ कहु सिय राम लषण सन्देसू॥
राम रूप गुण शील स्वभाऊ॥ सुमिरि सुमिरि उर शोचत राउ॥
राज सुनाइ दीन्ह वनवासू॥ सुनि मन भयउ न हरष हरासू॥
सो सुत विछुरत गये न प्राणा॥ को पापी बड मोहि समाना॥ दो०
सखा राम सिय लषण जहं तहां मोहि पहुंचाउ॥ नाहि त चाह
त चलन अब प्राण कहौं सतिभाउ॥ १५०॥ चौ०॥ पुनि पुनि पूछ
त मंत्रिहि राऊ॥ प्रियतम सुअन संदेश सुनाऊ॥ करहु सखा
सोइ वेगि उपाई॥ राम लषण सिय वेगि दिखाई॥ सचिव धीर
धरि कह मृदु बानी॥ महाराज तुम पंडित ज्ञानी॥ वीर सुधी
र धुरंधर देवा॥ साधु समाज सदा तुम सेवा॥ जन्म मरण सब दु
ख सुख भोगा॥ हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा॥ काल कर्म
वश होहिं गोसाईं॥ दरवश राति दिवस की नाईं॥ सुख हरषहिं
जड दुख विलखाहीं॥ दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं॥ धीरज ध
रहु विवेक विचारी॥ छाडिय शोच सकल हितकारी॥ दो०॥ प्र
थम वास तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर॥ न्हाइ रहे जलपान क
रि सिय समेत दोउ वीर॥ १५१॥ चौ०॥ केवट कीन्ह बहुत सेवकाई॥
[illegible] विदा [illegible] वाई॥ होत प्रात वट छीर मगावा॥ जटा
विकल विचार॥ [illegible] सखा तब नाव मगाई॥ प्रिया चढा
इ [illegible] रघुराई॥ लषण [illegible] धनु बाण बनाई॥ आपु चढे प्रभु आय

चौपाई॥ विकल विलोकि मोहि रघुवीरा॥ बोले मधुर वचन धरि
धीरा॥ तात प्रणाम तात सन कहेहू॥ वार वार पद पङ्कज गहेहू
करवि पाय परि विनय बहोरी॥ तात करिय जनि चिन्ता मोरी
वन मग मङ्गल कुशल हमारे॥ कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे॥
छन्दः॥ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब [illegible] हौं प्रति
पालि आयसु कुशल देखन पाय पुनि फिरि आइहौं॥१॥ जन
नी सकल परितोषि परि परि पाय करि विनती घनी॥ तुलसी
करेहु सोइ यत्न जेहिं कुशल रहहिं कोशल धनी॥ सोरठा
गुरु सन कहब सन्देश वार वार पद पद्म गहि॥ करब सोइ उप
देश जेहिं न शोच मोहि अवधपति॥१५२॥ चौ०॥ पुरजन परि
जन सकल निहोरी॥ तात सुनायहु विनती मोरी॥ सोइ सब भां
ति मोर हितकारी॥ जातें रह नरनाह सुखारी॥ कहब सन्देश भ
रत के आए॥ नीति न तजब राजपद पाए॥ पालहु प्रजहिं कर्म
मन वाणी॥ सेयहु मात सकल सम जानी॥ ओर निवाहब भा
यप भाई॥ करि पितु मात सुजन सेवकाई॥ तात भांति तेहिं रा
खब राऊ॥ शोच मोर जेहिं करहिं न काऊ॥ लषण कहे कछु व
चन कठोरा॥ वरजि राम पुनि मोहि निहोरा॥ वार वार निज श
पथ दिवाई॥ कहब न तात लषण लरिकाई॥ दो०॥ कहि प्रणा
म कछु कहन लिय सिय भइ शिथिल सनेह॥ थकित वचन लो

बचन सजल पुलक पलवित देह ॥१४५॥ चौ० ॥ तेहिं अवसर र
घुबर रुष पाई ॥ केवट पारहिं नाव चलाई ॥ रघुकुल तिलक च
ले इहि भांती ॥ देखेउं ठाढ़ कुलिस करि छाती ॥ मैं आपन कि
मि कहउं कलेसू ॥ जिअत फिरेउं लै राम सन्देसू ॥ अस कहि
सचिव बचन रहि गयऊ ॥ हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ सू
त बचन सुनतहिं नरनाहू ॥ परेउ धरनि उर दारुण दाहू ॥ त
लफत बिकल मोह मन मापा ॥ मांजा मनहुं मीन कहुं ब्यापा
करि बिलाप सब रोवहिं रानी ॥ महा बिपति किमि जाइ बखा
नी ॥ सुनि बिलाप दुखहूं दुख लागा ॥ धीरजहू कर धीरज भा
गा ॥ दो० ॥ भए कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोर ॥ बिपु
ल बिहग बन परेउ निसि मानहुं कुलिस कठोर ॥१४६॥ चौ० ॥
प्राण कंठगत भएउ भुआलू ॥ मणि बिहीन जिमि ब्याकुल ब्या
लू ॥ इन्द्रिय सकल बिकल भइ भारी ॥ जनु सर सरसिज बन
बिनु बारी ॥ कौशल्या नृप दीख मलीना ॥ रबिकुल रबि अथए
उ जियं दीना ॥ उर धरि धीर राम महतारी ॥ बोली बचन समय
अनुसारी ॥ नाथ समुझि मन करिय बिचारू ॥ राम बियोग प
योधि अपारू ॥ करणधार तुम्ह अवध जहाजू ॥ चढ़ेउ सकल प्रि
य पथिक समाजू ॥ धीरज धरिय तो पाइय पारू ॥ नाहिं त बूड़ि
सब परिवारू ॥ जो जिय धरिय बिनय पिय मोरी ॥ राम लषण
सिय मिलब बहोरी ॥ दो० ॥ प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितएउ आं

आंखिउघारि॥ तलफतमीनमलीनजनुसींचतसीतलवारि
१५५॥ चौ०॥ धरिधीरजुउठिबैठभुआलू॥ कहुसुमंत्रकहंराम॥
कृपालू॥ कहांलषणकहंरामसनेही॥ कहंप्रियपुत्रबधूबैदे
ही॥ विलपतराउविकलबहुभांती॥ भइजुगसरिससिरातिन
राती॥ तापसअंधशापसुधिआई॥ कौशल्यहिंसबकथासुना॥
ई॥ भएविकलबरणतइतिहासा॥ रामरहितधिकजीवना॥
आशा॥ सोतनुराखिकरबमैंकाहा॥ जेहिंनप्रेमपणमोरनिवा॥
हा॥ हारघुनन्दनप्राणपिरीते॥ तुमबिनुजिअतबहुतदिनबी
ते॥ हाजानकीलषणहारघुवर॥ हापितुहितचितचातकजल
धर॥ दो०॥ रामरामकहिरामकहिरामरामकहिराम॥ तनु
परिहरिरघुबरविरहराउगएसुरधाम॥१५६॥ चौ०॥ जियन
मरणफलदशरथपावा॥ अण्डअनेकअमलयशछावा॥
जिअतरामविधुबदननिहारा॥ रामविरहकरिमरणसंवारा॥
शोकविकलसबरोवहिंरानी॥ रूपशीलबलतेजबखानी॥
करहिंविलापअनेकप्रकारा॥ परहिंभूमितलबारहिंबारा॥
विलपहिंविकलदासअरुदासी॥ घरघररुदनकरहिंपुरबा
सी॥ अथएउआजुभानुकुलभानू॥ धर्मअवधिगुणरूपनि
धानू॥ गारीसकलकैकेयिहिदेहीं॥ नयनविहीनकीन्हजग
जेहीं॥ इहिविधिविलपतरैनिविहानी॥ आएसकलमहामु
निज्ञानी॥ दो०॥ तबवशिष्ठमुनिसमयसमकहिअनेकइति

हास॥ शोक निवारेउ सब हिं कर निज विज्ञान प्रकाश॥१५७
चौ०॥ तेल नाव भरि नृप तनु राखा॥ दूत बुलाइ बहुरि अस
भाषा॥ धावहु वेगि भरत पहं जाहु॥ नृप सुधि कतहुं क
हहु जनि काहु॥ एतनेक हेहु भरत सन जाई॥ गुरु बुलाइ
पठए दोउ भाई॥ सुनि मुनि आयसु धावन धाए॥ चले वे
ग बर बाजि लजाए॥ अनरथ अवध अरम्भेउ जब तें॥ कुश
गुण होहिं भरत कहं तब ते॥ देखहिं राति भयानक सपना
॥ जागि करहिं कटु कोटि कलपना॥ विप्र जेंवाइ देहिं दि
न दाना॥ शिव अभिषेक करहिं विधि नाना॥ मांगहिं हृ
दय महेश मनाई॥ कुशल मात पितु परिजन भाई॥ दो०॥
इहिं विधि शोचत भरत मन धावन पहुंचे आइ॥ गुरु अनु
शासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाइ॥१५८॥ चौ०॥ च
ले समीर वेग हय हांके॥ नाघत सरित शैल वन बांके॥ हृ
दय शोच बड कछु न सोहाई॥ अस जानहिं जिय जाउं उडाई॥
एक निमेष वरष सम जाई॥ इहि विधि भरत अवध नियराई॥
असगुण होहिं नगर पैठारा॥ रटहिं कुभांति कुखेत करारा॥
खर शृगाल बोलहिं प्रतिकूला॥ सुनि सुनि होहिं भरत म
न शूला॥ श्रीहत सर सरिता वन बागा॥ नगर विशेष भयाव
न लागा॥ खग मृग हय गज जाहिं न जोए॥ राम वियोग कुरो

गाविगोए॥नगरनारिनरनिपटदुखारी॥मनहुंसभनिसब
संपतिहारी॥दो०॥पुरजनमिलहिंनकहहिंकछुगवहिंजो
हारहिंजाहिं॥भरतकुशलनहिपुछिशकभ[illegible]बद
माहिं॥१५९॥चौ०॥हाटबाटनहिंजाइ[illegible]गसबिससिरातिन
पादिशिलागुदवारी॥आवतसुतसुनिकेक[illegible]बकथासु
रषीरविकुलजलरुहचांदिनि॥सजिआर[illegible]कजीवन
ई॥हारहिंभेटीभवनलैआई॥भरतदुखितपरिवारनिहारा
मानहुंतहिनबनजबनमारा॥कैकेयीहर्षितभइहिंभांती
मनहुंमुदितदवलाइकिराती॥सुतहिंसशोचदेखिमनमा
रे॥पूछतिनेहरकुशलहमारे॥सकलकुशलकहिभरतसु
नाई॥पूछीनिजकुलकुशलभलाई॥कहहकहंतातनकहांस
बमाता॥कहंसियरामलषणप्रियभ्राता॥दो॥सुनिसुतव
चनसनेहमयकपटनीरभरिनयन॥भरतश्रवणमनशूल
समपापिनिबोलीबयन॥१६०॥चौ०॥तातबातमैंसकलसं
वारी॥भईमंथरासहाइविचारी॥कछुककाजविधिबीचबि
गारे॥भूपतिसुरपतिपुरपगुधारे॥सुनतभरतभएविवश
विषादा॥जनुसहमेउकरिकेहरिनादा॥तातताततहातात
पुकारी॥परेभूमितलव्याकुलभारी॥चलततनदेखनपाय
उतोही॥ताततरामहिंसौंपेउमोही॥बहुरिधीरधरिउठेस०

म्हारी॥ कहु पितु मरण हेतु महतारी॥ सुनि सुत वचन क
हति कैकेई॥ मर्म पांछि जनु माहुर देई॥ आदिहितें सब आ
भाषा॥ याखी॥ कुटिल कठोर मुदित मन बरणी॥ दो०॥ भर
हरु जनि काहु॥ [illegible]ण सुनत राम वन गोन॥ हेतु आपुन
पउ दोर भो [illegible] थकित रहे धरि मोन॥ १६१॥ चौ०॥ बिकल वि
[illegible]लोकि सुतहि समुझावति॥ मनहुं जरे पर लोन लगावति
तात राउ नहि शोचइ योगू॥ विविध सुकृत जश कीन्हेउ भोगू
जीवत सकल जन्म फल पाए॥ अन्त अमरपति सदन सिधा
ए॥ अस अनुमानि शोच परिहरहू॥ सहित समाज राज पुर
करहू॥ सुनि सहमेउ सुठि राजकुमारू॥ पाके छत जनु ला
गु अंगारू॥ धीरज धरि भरि लेहिं उसासा॥ पापिनि सबहि
भांति कुल नाशा॥ जो पैं कुमति रही अस तोही॥ जनमत का
हे न मारेसि मोही॥ पेड़ काटि तैं पलव सींचा॥ मीन जिअन
हित वारि उलीचा॥ दो०॥ हंस वंश दशरथ जनक राम ल
खण से भाइ॥ जननी तूं जननी भई विधि सों कहा वसाइ॥ १
चौ०॥ जब तें कुमति कुमत जिय ठयऊ॥ खण्ड खण्ड होइ हृ
दय न गयऊ॥ वर मांगत मन भइ न पीरा॥ जरि न जीह मु
ख [illegible] न कीरा॥ भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही॥ मरण का
ल विधि मति हरि लीन्ही॥ विधिहु न नारि हृदय गति जानी

६२

रामा॰
अ॰
५६

40

सकलकपटअघअवगुणखानी॥ सरलसुशीलधर्मरत।
राऊ॥ सोकिमिजानहिंतीयसुभाऊ॥ असकोजीवजन्तुजग
माहीं॥ जेहिंरघुनाथप्राणप्रियनाहीं॥ भेअतिअहितरामतै
तोहीं॥ कोतूंअहसिसत्यकहुमोहीं॥ जोहसिसोहसिमुहम
सिलाई॥ आंखिओटउठिबैठहिंजाई॥ दो॰॥ रामविरोधीहृद
यतैंप्रगटकीन्हविधिमोहि॥ मोसमानकोपातकीबादिक
हौंकछुतोहि॥१६३॥ चौ॰॥ सुनिशत्रुघ्नमातकुटिलाई॥।
जरहिंगातरिसकछुनवशाई॥ तेहिंअवसरकूबरीतहंआई
बसनविभूषणविविधबनाई॥ लखिरिसभरेउलषणलघुभा
ई॥ बरतअनलघृतआहुतिपाई॥ हुमकिलाततकिकूबरमारा
परिमुहभरिमहिकरतिपुकारा॥ कूबरटूटेउफूटिकपारू॥ द
लितदशनमुखरुधिरप्रचारू॥ आहिदइअमैंकाहनशावा॥
करतनीकफलअनइसपावा॥ सुनिरिपुहनलखिनखसि
खखोटी॥ लगेघसीटनधरिधरिचोटी॥ भरतदयानिधिदीन्ह
छुडाई॥ कौशल्यापहिंगेदोउभाई॥ दो॰॥ मलिनवसनविव
रणविकलकृशशरीरदुखभार॥ कनककल्पवरवेलिवन
मानहुंहनीतुषार॥१६४॥ चौ॰॥ भरतहिंदेखिमातउठिधाई
मूर्छितअवनिपरीझपआई॥ देखतभरतविकलभ[illegible]री [illegible]॥
परेचरणतनदशाविसारी॥ मातुतातकहंदेहिदेखाई॥ कहं

सियराम लषण दोउ भाई॥ कैकेयि कत जनमी जग मांझा॥ जौं
जनमी भइ काहे न बांझा॥ कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही॥ अप
यश भाजन प्रियजन द्रोही॥ को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी॥।
गति असि तोरि मातु जेहिं लागी॥ पितु सुरपुर बन रघुकुल केतु
मैं केवल सब अनरथ हेतु॥ धिग मोहि भएउ वेणु बन आगी॥ दु
सह दाह दुख दुषन भागी॥ दो०॥ मातु भरत के बचन मृदु सुनि पु
नि उठी सम्भारि॥ लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि॥ १६५
चौ०॥ सरल सुभाय माइ हियं लाए॥ अति हित मनहुं राम फिरि आ
ए॥ भेटेउ बहुरि लषण लघु भाई॥ शोक सनेह न हृदय समाई॥।
देखि सुभाव कहत सब कोई॥ राम मातु अस काहे न होई॥ मातु
भरत गोद बैठारे॥ आंसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥ अजहुं बत्स ब
लि धीरज धरिहु॥ कुसमय समुझि शोक परिहरहु॥ जनि मान
हु हिय हानि गलानी॥ काल कर्म गति अघटित जानी॥ काहुहिं
दोष देहु जनि ताता॥ भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता॥ जो एतेहुं
दुख मोहि जिआवा॥ अजहुं को जाने का तेहि भावा॥ दो०॥ पितु
आयसु भूषण बसन तात तजे रघुबीर॥ बिस्मय हर्ष न हृदय कछु
पहिरे बल्कल चीर॥ १६६॥ चौ०॥ मुख प्रसन्न मन राग न रोषू॥ स
ब कर सब बिधि करि परितोषू॥ चले बिपिन सुनि सिय संग ला
गी॥ रहै न राम चरण अनुरागी॥ सुनतहिं लषण चले उठि साथा

रहहिं न यतन कि एरघुनाथा॥ तव रघुपति सबही सिर नाई॥
चले संग सिय अरु लघु भाई॥ राम लखन सिय वन हिं सिधाए
गई न संग न प्राण पठाए॥ इह सब भा इन्ह आंखिन आगे॥
तउ न तजत तनु जीव अभागे॥ मो हि न लाज निज नेह निहारी॥
राम सरिस सुत मैं महतारी॥ जिए मरै भल भूपति जाना॥
मोर हृदय शत कुलिस समाना॥ दो०॥ कौशल्या के वचन सुनि
भरत सहित रनिवास॥ व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक
निवास॥ १६७॥ चौ०॥ विलपहिं विकल भरत दोउ भाई॥ कौशल्या
लिए हृदय लगाई॥ भांति अनेक भरत समुझाए॥ कहि विवेक
मय वचन सुनाए॥ भरतहु मात सकल समुझाई॥ कहि पुराण
श्रुति कथा सुहाई॥ छल विहीन शुचि सरल सुवाणी॥ बोले
भरत जोरि युग पाणी॥ जे अघ मात पिता सुत मारे॥ गाइ गोठ
महिसुर पुर जारे॥ जे अघ तिय बालक वध कीन्हे॥ मीत मही
पति माहुर दीन्हे॥ जे पातक उपपातक अहहीं॥ कर्म वचन मन
भव कवि कहहीं॥ ते पातक मोहि होउ विधाता॥ जौं यह होइ मो
र मत माता॥ दो०॥ जे परिहरि हरि हर चरण भजहिं भूतगण घोर
तिन की गति मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर॥ १६८॥ चौ०॥
वेचहिं वेद धर्म दुहि लेहीं॥ पिशुन पराय पाप कहि देहीं॥ क
पटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी॥ वेद विदूषक विश्व विरोधी

लोभीलंपटलोललबारा॥जेताकहिपरधनपरदारा॥पाव
उंमैतिन्हकीगतिघोरा॥जोजननीयहुसंमतमोरा॥जेनहि
साधुसंगअनुरागे॥परमारथपथविमुखअभागे॥जेनभज
हिंहरिनरतनुपाई॥जिन्हहिनहरिहरसुयशसुहाई॥तजि
श्रुतिपंथवामपथचलहीं॥वंचकविरचिवेषजगछलहीं
तिन्हकीगतिमोहिशंकरदेऊ॥जननीजोयहुजानौंभेऊ॥दो०
मातुभरतकेवचनसुनिसांचेसरलसुभाय॥कहतिरामप्रि
यताततुमसदावचनमनकाय॥१६७॥चौ०॥रामप्राणतेंप्रा
णतुम्हारे॥तुमरघुपतिहिंप्राणतेंप्यारे॥विधुविषचुवैस्रवै
हिमआगी॥होइवारिचरवारिविरागी॥भयेज्ञानवरुमिटैनमो
हू॥तुमरामहिंप्रतिकूलनहोऊ॥मततुम्हारयहुजोजगकह
हीं॥सोसपनेहुंसुखसुगतिनलहहीं॥असकहिमातुभरतहि
यलाए॥थनपयस्रवहिंनयनजलछाए॥करतविलापविपु
लइहिभांती॥बैठहिंबीतिगईसबराती॥वामदेववशिष्ठतव
आए॥सचिवमहाजनसकलबुलाए॥मुनिबहुभांतिभरतउ
पदेषे॥कहिपरमारथवचनसुदेषे॥दो०॥तातहृदयधीरज
धरहु॥करहुजोअवसरआजु॥उठेभरतगुरुवचनसुनिकरण
कहेसबसाजु॥चौ०॥नृपतनुवेदविदितअन्हवावा॥परमवि
चित्रविमानबनावा॥गहिपदभरतमातसबराषी॥रहीरामदर

रामा॰
अ॰
५८

48

सनअभिलाषी॥ चन्दनअगरभारबहुआए॥ अमितअनेका
सुगन्धसुहाए॥ सरजूतीररचिचितावनाई॥ जनुसुरपुरसो
पानसुहाई॥ इहिविधिदाहक्रियासबकीन्हा॥ विधिवत॥
इतिलाञ्जलिदीन्हा॥ शोधिसुमृतिसबवेदपुराणा॥ कीनभ
रतदशगात्रविधाना॥ जहंजसमुनिवरआयसुदीन्हा॥ तहं
तससहसभांतिसबकीन्हा॥ भएविशुद्धदियसबदाना॥ धेनु
वाजिगजवाहननाना॥ दो॰॥ सिंहासनभूषणवसनअन्नध
रणिधनधाम॥ दिएभरतलहिभूमिसुरभेपरिपूरणकाम॥ १७१
चौ॰॥ पितुहितभरतकीन्हिजशकरणी॥ सोमुखलाखजाइ
नहिवरणी॥ सुदिनशोधिमुनिवरतबआए॥ सकलमहाज
नसचिवबुलाए॥ बैठेराजसभासबजाई॥ पठएबोलिभरत
दोउभाई॥ भरतवशिष्ठनिकटबैठारे॥ नीतिधर्ममयवचनउचा
रे॥ प्रथमकथासबमुनिवरबरणी॥ कैकेयीकुटिलकीन्हजश
करणी॥ भूपधर्मव्रतसत्यसराहा॥ जेहिंतनुपरिहरिप्रेमनि
वाहा॥ कहतरामगुणशीलसुभाऊ॥ सजलनयनपुलकेमु
निराऊ॥ बहुरिलषणसियप्रीतिवखानी॥ शोकसनेहमग
नमुनिज्ञानी॥ दो॰॥ सुनहुभरतभावीप्रबलबिलखिकहेउमु
निनाथ॥ हानिलाभजीवनमरणयशअपयशविधिहाथ॥ १७२
चौ॰॥ असविचारिकेहिदीजियदोषू॥ व्यर्थकाहिपरकीजियरोषू॥

तातविचारकरहुमनमांही॥ शोचयोगदशरथनृपनाही॥
शोचियविप्रजोवेदविहीना॥ तजिनिजधर्मविषयलयलीना
सोचियनृपतिजोनीतिनजाना॥ जेहिनप्रजाप्रियप्राणसमाना
शोचियवैश्यकृपणधनवानू॥ जोनअतिथिशिवभक्तिसुजानू
शोचियशूद्रविप्रअवमानी॥ मुखरमानप्रियज्ञानगुमानी॥
शोचियपुनिपतिवंचिनिनारी॥ कुटिलकलहप्रियइच्छाचारी
शोचियवटुनिजव्रतपरिहरई॥ जोनहिगुरुआयसुअनुसरई
दो०॥ शोचियगृहीजोमोहवशकरैकर्मपथत्याग॥ शोचिय
यतीप्रपञ्चरतविगतविवेकविराग॥ २३९॥ चौ०॥ वैखानस
सोइशोचनयोगू॥ तपविहायजेहिभावैभोगू॥ शोचियपिशु
नअकारणक्रोधी॥ जननिजनकगुरुबन्धुविरोधी॥ सबवि
धिशोचियपरअपकारी॥ निजतनुपोषकनिर्दयभारी॥ शो
चनीयसबहीविधिसोई॥ जोनछाडिछलहरिजनहोई॥
शोचनीयनहिकोशलराऊ॥ भुवनचारिदशप्रगटप्रभाऊ॥
भयउनअहइनहोनिहारा॥ भूपभरतजसपितातुम्हारा॥ वि
धिहरिहरसुरपतिदिशिनाथा॥ वरणहिंसबदशरथगुण
गाथा॥ दो०॥ कहहुतातकेहिभांतिकोउकरिहिंबडाईतासु॥
रामलषणतुमशत्रुहनसरिससुअनशुचिजासु॥ २४॥ चौ०
सबप्रकारभूपतिबडभागी॥ वादिविषादकरियतेहिलागी॥
इहुसुनिसमुझिशोचपरिहरहू॥ शिरधरिराजरजायसुकरहू

रामराजपदतुमकहँदीन्हा॥ पितावचनफुरचाहियकीन्हा॥
तजेरामजेहिंवचनहिंलागी॥ तनपरिहरेउरामविरहागी॥ नृ
पहिंवचनप्रियनहिंप्रियप्राणा॥ करहुतातपितुवचनप्रमाणा
करहुशीशधरिभूपरजाई॥ हैतुमकहँसबभांतिभलाई॥ पर
शुरामपितुआज्ञाराखी॥ मारीमातुलोकसबसाखी॥ तन
ययजातिहिंयौवनदयऊ॥ पितुआज्ञाअघअयशनभयऊ॥
दो०॥ अनुचितउचितविचारतजिजेपालहिंपितुबयन॥ तेभा
जनसुखसुयशकेवसहिंअमरपतिअयन॥ ५७२॥ चौ०॥ अव
शिनरेशवचनफुरकरहू॥ पालहुप्रजाशोकपरिहरहू॥ सु
रपुरनृपपाइहिंपरितोषू॥ तुमकहँसुकृतसुयशनहिंदोषू॥
वेदविदितसम्मतसबहीका॥ जेहिंपितुदेइसोपावैटीका॥ क
रहुराजपरिहरहुगलानी॥ मानहुमोरवचनहितजानी॥ सुनि
सुखलहबरामवैदेही॥ अनुचितकहहिंनपंडितकेही॥
कौशल्यादिसकलमहतारी॥ तेउप्रजासुखहोहिंसुखारी॥
परमतुम्हाररामसबजानहिं॥ सोसबविधितुमसनभलमान
हिं॥ सौंपेहुराजरामकेआए॥ सेवाकरेहुसनेहसुहाए॥ दो०॥
कीजियगुरुआयसुअवशिकहहिंसचिवकरजोरि॥ रघुप
तिआएउचितजशतबतसकरबबहोरि॥ ५७३॥ चौ०॥ कौशल्या
धरिधीरजकहई॥ पूतपथ्यगुरुआयसुअहई॥ सोआदरियक
रियहितमानी॥ तजियविषादकालगतिजानी॥ बनरघुपतिसु

रघुरनरनाहू ॥ तुमकहुंहिभांतितातकदराहू ॥ परिजनप्रजासचि
वकहअम्बा ॥ तुमहीसुतसनकहंअवलम्बा ॥ लखिविधिवाम
कालकठिनाई ॥ धीरजधरहुमातुबलिजाई ॥ शिरधरिगुरुआय
सुअनुसरहू ॥ प्रजापालिपरिजनदुखहरहू ॥ गुरुकेबचनसचि
वअभिनन्दन ॥ सुनतभरतहियहितजनुचन्दन ॥ सुनिबहोरि
मातुमृदुबाणी ॥ शीलसनेहसरलरससानी ॥ छन्दः ॥ सानीस
रलरसमातुबाणीसुनिभरतव्याकुलभए ॥ लोचनसरोरुहस्र
वतसींचतविरहउरअंकुरनए ॥ सोदशादेखतसमयतेहिंवि
सरीसबहिंसुधिदेहकी ॥ तुलसीसराहतसकलसादरसीमसह
जसनेहकी ॥ ९ ॥ सोरठा ॥ भरतकमलकरजोरिधर्मधुरन्धरधीर
धरि ॥ वचनअमियजनुबोरिदेतउचितउत्तरसबहिं ॥ १७७ ॥ चौ०
मोहिउपदेशदीन्हगुरुनीका ॥ प्रजासचिवसम्मतसबहीका ॥
मातुउचितपुनिआयसुदीन्हा ॥ अवशिशीशधरिचाहीयकीन्हा
गुरुपितुमातुस्वामिहितबाणी ॥ सुनिमनमुदितकरियभलजा
नी ॥ उचितकिअनुचितकिए विचारू ॥ धर्मजाइशिरपातकभारू
तुमतौदेहुसरलशिखसोई ॥ जोआचरतमोरहितहोई ॥ यद्यपिय
हसमुझतहौंनीके ॥ तदपिहोतपरितोषनजीके ॥ अबतुमविन
यमोरिसुनिलेहू ॥ मोहिअनुहरतशिखावनदेहू ॥ उत्तरदेउंक्ष
मबअपराधू ॥ दुखितदोषगुणगणहिंनसाधू ॥ दो० ॥ पितुसुरपुर

सियरामबनकरणाकहहुमोहिराज॥इहितेंजानहुमोरहित
कैआपनबडकाज॥१७८॥चौ०॥हितहमारसियपतिसेवकाई॥
सोहरिलीन्हमातुकुटिलाई॥मैंअनुमानिदीखमनमांही॥आ
नउपायमोरहितनाही॥शोकसमाजराजकेहिलेखे॥लषण
रामसियपदबिनुदेखे॥बादिबसनबिनुभूषणभारू॥बादिबि
रतिबिनुब्रह्मबिचारू॥सरुजशरीरबादिबहुभोगा॥बिनुह
रिभक्तिजायजपयोगा॥जायजीवबिनुदेहसुहाई॥बादिमो
रसबबिनुरघुराई॥जाउरामपहंआयसुदेहू॥एकहिंअंकमोर
हितएहू॥मोहिनृपकरिआपनभलचहहू॥सोसनेहजडताब
शकहहू॥दो०॥कैकेयीसुतकुटिलमतिरामबिमुखगतलाज
तमचाहतसुखमोहवशमोहिसेअधमकैराज॥१७९॥चौ०॥क
हौंसांचसबसुनिपतिआहू॥चाहियधर्मशीलनरनाहू॥मोहि
राजहठिदैहहुजबही॥रसारसातलजाइहितबही॥मोहिस
मानकोपापनिवासी॥जेहिलगिसीयरामबनवासी॥राउराम
कहंकाननदीना॥बिछुरतगमनअमरपुरकीना॥मैंशठस
बअनरथकरहेतू॥बैठबातसबसुनउसचेतू॥बिनुरघुबीरबि
लोकिअवासू॥रहेप्राणसहिजगउपहासू॥रामपुनीतविषयस
रूषे॥लोलुपभूपभोगकेभूखे॥कहंलगिकहउंहृदयकठिनाई
निदरिकुलिशजेहिलहिबडाई॥दो०॥कारणतेंकारजकठिनहो

ईदोषमहिमोर॥ कुलिशअस्थितेउपलतेलोहकरालकठोर
चौ०॥ कैकेयीभवतनुअनुरागे॥ पामरप्राणअघाइअभागे॥
जौंप्रियविरहप्राणप्रियलागे॥ देखवसुनवबहुतअवआगे॥
लषणरामसियकहंवनदीना॥ पठयअमरपुरपतिहितकीना॥
लीन्हविधवपनअपयशआपू॥ दीन्हेउप्रजहिंशोकसन्तापू॥
मोहिदीनसुखसुयशसुराजू॥ कीनकैकेयीसबकरकाजू॥
एहितेमोरकाहअवनीका॥ तेहिंपरदेनकहहुतुमटीका॥
कैकेयीजठरजन्मिजगमाही॥ यहमोकहंकछुअनुचित
नाही॥ मोरबातसबविधिहिंबनाई॥ प्रजापंचकतकरहुसहा
ई॥ दो०॥ ग्रहगृहीतपुनिवातवसतेहिपुनिबीछीमार॥ ताहि
पिआइयवारुणीकहहुकवनउपचार॥१८१॥ चौ०॥ कैकेयीसु
अनयोगजगजोई॥ चतुरविरञ्चिदेउमोहिसोई॥ दशरथतन
यरामलघुभाई॥ दीनमोहिविधिवादिबडाई॥ तुमसबकहहु
कढावनटीका॥ रायरजसवहीकहंनीका॥ उत्तरदेउंकेहि
विधिकेहिकेही॥ कहहुसुखेनयथारुचिजेही॥ मोहिकुमा
तुसमेतविहाई॥ कहहुकहहिंकोकीनभलाई॥ मोहिविनु
कोसचराचरमाही॥ जेहिंसियरामप्राणप्रियनाही॥ परम
हानिसबकहंवडलाहू॥ अदिनमोरनहिंदूषणकाहू॥ संशय
शीलप्रेमवशअहहू॥ सबउचितसबजोकछुकहहू॥ दो०॥ रा

समातसुठिसरलचितमोपरप्रेमविशेषि॥कहहिंसुभावस
नेहवशमोरिदीनतादेखि॥१८२॥चौ०॥गुरुविवेकसागरजग
जाना॥जिनहिंविश्वाकरवदरसमाना॥मोकहंतिलकसाजस
जिसोऊ॥भाविधिविमुखविमुखसबकोऊ॥परिहरिरामसि
यजगमाही॥कोउनकहहिंमोरमतनाही॥सोमैंसुनवसहव
सुखमानी॥अन्तहुंकीचतहांजहंपानी॥डरनमोहिजगकहहिं
किपोचू॥परलोकहुकरनाहिनशोचू॥एकैबडउरदुसहदवारी
मोहिलगिभेसियरामदुखारी॥जीवनलाहुलषणभलपावा॥
सबतजिरामचरणमनलावा॥मोरजन्मरघुबरबनलागी॥झू
ठकहांपछिताउंअभागी॥दो०॥आपनिदारुणदीनतासबहिं
कहेउंसमुझाय॥देखिबिनुरघुबीरपदजियकीजरनिनजाय॥ १८३
चौ०॥आनउपायमोहिनहिंसूझा॥कोजियकीरघुबरबिनुबूझा
एकहिंआंकइहैमनमाहीं॥प्रातकालचलिहौंप्रभुपाहीं॥यद्य
पिमैंअनभलअपराधी॥भइमोहिकारणसकलउपाधी॥तदपि
शरणसनमुखमोहिदेषी॥क्षमिसबकरिहहिंकृपाविशेषी॥
शीलसकुचसुठिसरलसुभाऊ॥कृपासनेहसदनरघुराऊ॥
अरिहुकअनभलकीन्हनरामा॥मैंशिशुसेवकयद्यपिवामा॥त
मसबपांचमोरभलमानी॥आयसुआशिषदेहुसुबानी॥जे
हिंसुनिविनयमोहिजनजानी॥आवहिंबहुरिरामरजधानी॥

दो०॥ यद्यपिजन्मकुमातुतेंमैंशठसदासदोष॥ आपनजानि
नत्यागिहैंमोहिरघुवीरभरोष॥१८४॥ चौ०॥ भरतवचनसबक
हंप्रियलागे॥ रामसनेहसुधाजनुपागे॥ लोगवियोगविष
मदुखदागे॥ मंत्रसबीजसुनतजनुजागे॥ मातुसचिवगुरुपु
रनरनारी॥ सकलसनेहविकलभेभारी॥ भरतहिंकहहिंसरा
हिसराही॥ रामप्रेममूरतिजनुआही॥ तातभरतअसकाहेन
कहहू॥ प्राणसमानरामप्रियअहहू॥ जोपामरआपनिजडता
ई॥ तुमहिंसुगाईमातुकुटिलाई॥ सोशठकोटिकपुरुषसमेता
बसहिंकल्पशतनरकनिकेता॥ अहिअघअवगुणमणिन
हिगहई॥ हरैगरलदुखदारिददहई॥ दो०॥ अवशचलियबन
रामजहंभरतमंत्रभलकीन्ह॥ शोकसिन्धुबूडतसबहिंतुम
अवलम्बनदीन्ह॥१८५॥ चौ०॥ भासबकेमनमोदनथोरा॥ जनु
घनधुनिसुनिचातकमोरा॥ चलतप्रातलखिनिर्णयनीके॥ भ
रतचलेमिटेदुखजीके॥ धन्यभरतजीवनजगमाहीं॥ शील
सनेहसराहतजाहीं॥ कहहिंपरस्परभाबडकाजू॥ सकलकर
हिंचलहिंकरसाजू॥ जेहिंराखहिंघररहुरखवारी॥ सोजानैज
नुगरदनिमारी॥ कोउकहरहनकहियनहिंकाहू॥ कोनचहै
जगजीवनलाहू॥ दो०॥ जरौसुसम्पतिसदनसुखसुहृदमातु
पितुभाइ॥ सन्मुखहोतजोरामपदकरैनसहजसहाइ॥१८६॥ चौ

बरबरबाहनसाजहिंनाना॥ हरषिहृदयपरभातपयाना॥ भरत
जाइघरकीन्हविचारू॥ नगरवाजिगजभवनभंडारू॥ संप
तिसबरघुपतिकीआही॥ जोविनुयतनचलौंतजिताही॥ तौ
परिणामनमोरभलाई॥ पापसिरोमणिसांइदुहाई॥ करहिं
स्वामिहितसेवकसोई॥ दूषणकोटिदेइकिनकोई॥ असविचा
रिसुचिसेवकबोले॥ जेसपनेहुंनिजधर्मनडोले॥ कहिसबम
र्मधर्मसबभाषा॥ जोजेहिंलाइकसोतहंराषा॥ करिसबयतन
राखिरखवारे॥ राममातुपहिंभरतसिधारे॥ दो० आरतजन
नीजानिसबभरतसनेहसुजान॥ कहेउसजावनपालकीस
जनसुखासनजान॥१८६॥ चौ० चककचकईज्यवपुरनरनारी॥
चलवप्रातउरआरतभारी॥ जागतसबनिशिभयउविहाना॥
भरतवुलाइसचिवसुजाना॥ कहेउलेहुसबतिलकसमाजू॥
वनहिंदेवमुनिरामहिंराजू॥ वेगचलहुसुनिसचिवजोहारे॥
तुरततुरगरथनागसंवारे॥ अरुन्धतीअरुअग्निसमाजू॥ र
थचढिचलेप्रथममुनिराजू॥ विप्रवृन्दचढिवाहननाना॥
चलेसकलतपतेजनिधाना॥ नगरलोगसबसजिसजियाना
चित्रकूटकहंकीन्हपयाना॥ शिविकासुभगनजाइवखानी
चढिचढिचलतभईसबरानी॥ दो० सौंपिनगरसुचिसेवकनि
सादरसबहिंचलाइ॥ सुमिरिरामसियचरणतबचलेभरतदोउ

भाइ॥१८८॥चौ०॥रामदरशहितसबनरनारी॥जनुकरिकरि
निचलेतकिवारी॥वनसियरामसमुझिमनमांही॥सानुज
भरतपयादेजाहीं॥देखिसनेहलोगअनुरागे॥उतरिचलेह
यगजरथत्यागे॥जाइसमीपराखिनिजडोली॥राममातुमृदु
बाणीबोली॥तातचढ़हुरथबलिमहतारी॥होइहिप्रियप
रिवारदुखारी॥तुम्हरेचलतचलहिंसबलोगू॥सकलशोक
कृशनहिंमगयोगू॥शिरधरिवचनचरणसिरनाई॥रथचढ़ि
चलतभएदोउभाई॥तमसाप्रथमदिवसकरिवासू॥दूसरगो
मतितीरनिवासू॥दो०॥पयअहारफलअशनएकनिशिभोज
नएकलोग॥करतरामहितनेमव्रतपरिहरिभूषणभोग॥१८९
चौ०॥सईतीरवसिचलेविहाने॥शृङ्गवेरपुरसबनियराने॥समा
चारसबसुनेनिषादा॥हृदयविचारकरैसविषादा॥कारणकवन
भरतवनजांहीं॥हैकछुकपटभावमनमांहीं॥जौपैंजियनहोति
कुटिलाई॥तौकतलीन्हिसङ्गकटकाई॥जानहिंसानुजरामहिं
मारी॥करौंअकंटकराजसुखारी॥भरतनराजनीतिउरआनी॥
तबकलङ्कअबजीवनहानी॥सकलसुरासुरजुरहिंजुझारा॥
रामहिंसमरकोजीतनहारा॥काआश्चर्यभरतअसकरहीं॥न
हिंविषवेलिअमियफलफलहीं॥दो०॥असविचारिगुहज्ञाति
सनकहेउसजगसबहोहु॥निजहाथनिबोरहुतरणीकीजियघा
टारोहु॥१९०॥

चौ०॥होहुसजोइलरोकहुंघाटा॥ठाटहुसकलमरणकेठाटा
सन्मुखलोहभरतसनलेऊं॥जियतनसुरसरिउतरणदेऊं॥
समरमरणपुनिसुरसरितीरा॥रामकाजक्षणभंगुशरीरा॥
भरतभाइनृपमैंजननीचू॥बडेभागअसिपाइयमीचू॥स्वामि
काजकरिहौंरणरारी॥यशधवलिलहउंभुवनदशचारी॥
तजौंप्राणरघुनाथनिहोरे॥दुहुंहाथमुदमोदकमोरे॥साधु
समाजनजाकरलेखा॥रामभक्तमहजासुनरेखा॥जायजि
यतजगसोमहिभारू॥जननीयौवनविटपकुठारू॥दो०॥
विगतविषादनिषादपतिसबहिंबढायउछाह॥सुमिरिराम
मांगेउतुरततरकसधनुषसनाह॥१९०॥चौ०॥वेगहिंभाइसज
हुसंजोऊ॥सुनिरजायकदरायनकोऊ॥भलेहिंनाथसबकहहिं
सहर्षा॥एकहिंएकबढावहिंकर्षा॥चलेनिषादजुहारिजुहा
री॥शूरसकलरणरूचैरारी॥सुमिरिरामपदपङ्कजपनही
भाथाबांधिचढावहिंधनुही॥अङ्गुरीपहिरिकूंडिशिरधरहीं
फरसाबांससेलसमकरहीं॥एककुशलअतिओडनखाडे॥कू
दहिंगगनमनहुंछितिछाडे॥निजनिजसाजसमाजबनाई॥
गुहरावतहिंजुहारहिंजाई॥देखिसुभटसबलायकजाने॥
लैलैनामसकलसनमाने॥दो०॥भाइहुलावहुधोखजनिआज
काजबडमोह॥सुनिसरोषबोलेसुभटवीरअधीरनहोहु॥१९१

विभास
७

चौ०॥ रामप्रतापनाथबलतोरे॥ करहिंकटकबिनुभटबिनुघो
रे॥ जीवतपांवनपाछेंधरहीं॥ रुंडमुंडमयमेदिनिकरहीं॥ दी
खनिषादनाथभलढोलू॥ कहेउबजाउजुझाऊढोलू॥ इतनाक
हतछींकभईबाएं॥ कहेउसगुनिअन्हखेतसुहाएं॥ बूढुएककह
हसगुणविचारी॥ भरतहिंमिलियनहोइहिरारी॥ रामहिंभर
तमनावनजाहीं॥ सगुणकहेउअसविग्रहनाहीं॥ सुनिगुहक
हैनीककहबूढा॥ सहसाकरिपछिताहिंविमूढा॥ भरतसुभाव
सीलबिनुबूझे॥ बडिहितहानिजानिबिनुजूझे॥ दो०॥ गहहु
घाटभटसिमिटिसबलेउंमर्ममिलिजाइ॥ बूझिमित्रअरिमध्यग
तितबतसकरबउपाइ॥१९३॥ चौ०॥ लखबसनेहसुभावसुहाए
वैरप्रीतिनहिंदुरतदुराए॥ असकहिभेटसजोवनलागे॥ कन्दमू
लफलखगमृगमांगे॥ मीनपीनपाठीनपुराने॥ भरिभरिभारक
हारन्हआने॥ सकलसाजसजिमिलनसिधाए॥ मंगलमूलश
गुणशुभपाए॥ देखिदूरितेंकहिनिजनामू॥ कीनमुनीशहिंद
ण्डप्रणामू॥ जानिरामप्रियदीनअशीषा॥ भरतहिंकहेउबुझाय
मुनीशा॥ रामसखासुनिस्यन्दनत्यागा॥ चलेउतरिउमगतअ
नुरागा॥ गाउंजातिगुहनामसुनाई॥ कीनजुहारमाथमहिंला
ई॥ दो०॥ करतदण्डवतदेखितेहिंभरतलीन्हउरलाइ॥ मनहुंलख
णसनभेंटभइप्रेमनहृदयसमाइ॥१९४॥ चौ०॥ भेटेउभरतताहिअ

तिप्रीती॥ लोगसिहाहिंप्रेमकीरीती॥ धन्यधन्यधुनिमङ्गल
मूला॥ सुरसराहितेहिंवरषहिंफूला॥ लोकवेदसबभांतिहिं
नीचा॥ जासुछांहछुइलेइयसींचा॥ तेहिंभरिअङ्करामलघु
भ्राता॥ मिलतपुलकपरिपूरितगाता॥ रामरामकहिजेजमु
हाहीं॥ तिनहिंनपापपुञ्जसमुहाहीं॥ यहतोरामलायउरली
न्हा॥ कुलसमेतजगपावनकीन्हा॥ कर्मनासजलसुरसरिप
रई॥ तेहिकोकहहुशीसनहिंधरई॥ उलटानामजपतजगजा
ना॥ वालमीकभएब्रह्मसमाना॥ दो॰॥ स्वपचशवरखसज
नमजडपामरकोलकिरात॥ रामकहतपावनपरमहोतभुव
नविख्यात॥ १९५॥ चौ॰॥ नहिंअचरजयुगयुगचलिआई॥ के
हिनदीन्हरघुवीरबडाई॥ रामनाममहिमासुरकहहीं॥ सुनि
सुनिअवधलोगसुखलहहीं॥ रामसखहिंमिलिभरतसप्रेमा॥
पूछकिंकुशलसुमङ्गलखेमा॥ देखिभरतकरशीलसनेहू॥ भा
निषादतेहिसमयविदेहू॥ सकुचसनेहमोदमनवाढा॥ भर
तहिंचितवतएकटकठाढा॥ धरिधीरजपदवन्दिवहोरी॥ वि
नयसप्रेमकरतकरजोरी॥ कुशलमूलपदपङ्कजपेखी॥ मे
तिहुंकालकुशलनिजलेखी॥ अवप्रभुपरमअनुग्रहतोरे॥ स
हितकोटिकुलमङ्गलमोरे॥ दो॰॥ समुझिमोरिकरतूतिकुल
प्रभुमहिमाजियजोइ॥ जोनभजैरघुवीरपदजगविधिवञ्चित
सोइ॥ १९६॥

चौ०॥ कपटीकायरकुमतिकुजाती॥ लोकबेदबाहिरसब
भांती॥ रामकीन्हआपनजबहीतें॥ भयउंभुवनभूषणतब
हीतें॥ देखिप्रीतिसुनिबिनयसुहाई॥ मिलेबहोरिलषण
लघुभाई॥ कहिनिषादनिजनामसुबाणी॥ सादरसकल
जुहारीराणी॥ जानिलषणसमदेहिंअशीषा॥ जियहुसु
खीशतलाखबरीषा॥ निरखिनिषादनगरनरनारी॥ भए
सुखीजनुलषणनिहारी॥ कहहिंलहेउयहजीवनलाहू॥
भटेउराममभाइभरिबाहू॥ सुनिनिषादनिजभाग्यबडाई॥
प्रमुदितमनमहंचलेउलिवाई॥ दो०॥ सनकारेसेवकसक
लचलेस्वामिरुषपाइ॥ घरतरुतरसरबागबनवासबनाए
न्हिजाइ॥ १९०॥ चौ०॥ शृंगबेरपुरभरतदीखजब॥ भएसने
हवशअंगशिथिलतब॥ सोहतदियेनिषादहिलागू॥ ज
नुतनुधरेबिनयअनुरागू॥ इहिबिधिभरतसेनसबसंगा॥
दीखजाइजगपावनिगंगा॥ रामघाटकहंकीन्हप्रणामा॥
भामनमगनमिलेजनुरामा॥ करहिंप्रणामनगरनरनारी
मुदितब्रह्ममयवारिनिहारी॥ करिमज्जनमांगहिंकरजोरी
रामचन्द्रपदप्रीतिनथोरी॥ भरतकहेउसुरसरितबरेणु
सकलसुखदसेवकसुरधेनू॥ जोरिपाणिबरमांगौंएहू॥॥
सीयरामपदसहजसनेहू॥ दो०॥ इहिबिधिमज्जनभरतकरि

रा.मा.
अ.
५५

SS

गुरुअनुशासनपाइ॥मातुनहानीजानिसबडेराचलेल
वाइ॥१९८॥चौ०॥जहंतहंलोगन्हडेराकीन्हा॥भरतशोधस
बहीकरलीन्हा॥गुरुसेवाकरिआयसुपाई॥राममातुप
हिंगेदोउभाई॥चरणचांपिकहिमृदुबाणी॥जननीसक
लभरतसनमानी॥भाइहिंसौंपिमातुसेवकाई॥आपुनिषा
दहिंलीन्हबुलाई॥चलेसखाकरसोंकरजोरे॥शिथिलश
रीरसनेहनथोरे॥पूछतसखहिंसोठांवदेखाऊ॥नेकुनय
नमनजरनिजुड़ाऊ॥जहंसियरामलषणनिशिसोए॥क
हतभरेजललोचनकोए॥भरतबचनसुनिभएउविषादू॥
तुरततहांलेगएउनिषादू॥दो०॥जहंसिंशपापुनीततरुर
घुवरकियविश्राम॥अतिसनेहसादरभरतकीन्हेउदंडप्र
णाम॥१९९॥चौ०॥कुशसाथरीनिहारिसुहाई॥कीन्हप्र
णामप्रदक्षिणजाई॥चरणरेखरजआंखिन्हलाई॥वन
नकहतप्रीतिअधिकाई॥कनकविन्दुदुइचारिकदेखे॥रा
खेशीससीयसमलेखे॥सजलविलोचनहृदयगलानी॥
कहतसखासनवचनसुबाणी॥श्रीहतसीयविरहदुतिही
ना॥यथाअवधनरनारिमलीना॥पिताजनकदेउंपटतर।
केही॥करतलभोगयोगजगजेही॥ससुरभानुकुलभा
नुभुआलू॥जेहिसिहातअमरावतिपालू॥प्राणनाथरघु

वसंत
७

नाथगोसाई॥जोबडहोतसोरामबडाई॥दो०॥पतिदेवतासु
तीयमणिसीयसाथरीदेखि॥विहरतहृदयउनहहरिहरपि
तैंकठिनविशेषि॥२००॥चौ०॥लालनयोगलषणलघुलो
णे॥भेनभाइअसअहहिंनहोने॥पुरजनप्रियपितुमातुदुला
रे॥सियरघुवीरहिप्राणपियारे॥मृदुमूरतिसुकुमारसुभाऊ
तातबातनलागीनकाऊ॥तेबनसहहिंविपतिसबभांती॥
निदरेकोटिकुलिशयहछाती॥रामजनमजगकीन्हउजागर
रूपशीलसुखसबगुणसागर॥पुरजनपरिजनगुरुपितुमा
ता॥रामसुभावसबहिंसुखदाता॥वैरिउरामबडाईकरहीं
बोलनिमिलनिविनयमनहरहीं॥शारदकोटिकोटिशतशे
षा॥करनशकहिंप्रभुगुणगणलेखा॥दो०॥सुखस्वरूपरघु
वंशमणिमङ्गलमोदनिधान॥तेसोवतकुशडासिमहिवि
धिगतिअतिबलवान॥२०१॥चौ०॥रामसुनादुखकाननका
ऊ॥जीवनतरुजिमिजुगवतराऊ॥पलकनयनफणिम
णिजेहिंभांती॥जुगवहिंजननिसकलदिनराती॥तेअब
फिरतविपिनपदचारी॥कन्दमूलफलफूलआहारी॥धिक
कैकेयिअमंगलमूला॥भईसिप्राणप्रियतमप्रतिकूला॥
मैंधिकधिकअघउदधिअभागी॥सबउतपातभयउजेहिंला
गी॥कुलकलङ्ककरिसृजेउविधाता॥सांइंद्रोहीमोहिकीन्ह

ऊमाता॥ सुनि सप्रेम समुझावत निषादू॥ नाथ करिय कत बा
दि बिषादू॥ राम तुमहिं प्रिय तुम प्रिय रामहिं॥ यह निरदोष
दोष बिधि बामही॥ छन्दः॥ बिधि बाम की करणी कठिन जे
इ मातु कीन्हि बावरी॥ तेहिं राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर
सराहन रावरी॥१॥ तुलसी न तुम सों राम प्रीयतम कहत
हों सौंहें किए॥ परिणाम मङ्गल जानि अपने आनिए धीरज
हिए॥२॥ सोरठा॥ अन्तरजामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन
चलिय करिय बिश्राम यह बिचार दृढ आनि मन॥२०२॥
चौ०॥ सखा बचन सुनि उर धरि धीरा॥ बास चले सुमिरत रघु
बीरा॥ यह सुधि पाइ नगर नर नारी॥ चले बिलोकन आरत
भारी॥ प्रदछिणा करि करहिं प्रणामा॥ देहिं कैकेयिहिं
खोरि निकामा॥ भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं॥ बाम बिधा
तहिं दूषण देहीं॥ एक सराहहिं भरत सनेहू॥ कोउ कह नृप
ति निबाहेउ नेहू॥ निंदहिं आपु सराहि निषादहिं॥ को कहि
सकै बिमोह बिषादहिं॥ इहिं बिधि राति लोग सब जागे॥ भा
भिनुसार उतारे लागे॥ गुरुहिं सुनाव चढाय सुहाई॥ नई
नाव सब मातु चढाई॥ दण्ड चारि महं भे सब पारा॥ उतरि भ
रत तब सबहिं सम्भारा॥ दो०॥ प्रात क्रिया करि मातु पद बन्दि
गुरुहिं सिर नाइ॥ आगे किए निषादगण दीन्ह कटक चलाइ॥

चौ०॥ कियनिषादनाथअगुआई॥ मातुपालकीसकलच
लाई॥ साथबुलाइभाइलघुलीन्हा॥ विप्रन्हसहितगमनगु
रुकीन्हा॥ आपुसुरसरिहिंकीन्हप्रणामू॥ सुमिरेलषणस
हितसियरामू॥ गवनेभरतपयादेहिपाए॥ कोतलसंगजा
हिंडुरिआए॥ कहहिंसुसेवकबारहिंवारा॥ होइयनाथ
अस्वअसवारा॥ रामपयादेहिपांवसिधाए॥ हमकहंर
थगजवाजिबनाए॥ शिरभएजाउंउचितअसमोरा॥ सबते
सेवकधर्मकठोरा॥ देखिभरतगतिसुनिमृदुबाणी॥ सब
सेवकगनगरहिंगलानी॥ दो०॥ भरततीसरेपहरकहंकी
न्हप्रवेशप्रयाग॥ कहतरामसियरामसियउमगिउमगि
अनुराग॥ २०४॥ चौ०॥ फलकाफलकतपायन्हकैसे॥ पंक
जकोषओसकणजैसे॥ भरतपयादेहिंआएआजू॥ भएदु
खितसुनिसकलसमाजू॥ खबरिलीन्हसबलोगनहाए॥
कीन्हप्रणामत्रिवेणिहिंआए॥ सबिधिसितासितनीरनहा
ने॥ दिएदानमहिसुरसनमाने॥ देखतस्यामलधवलहिं
लोरे॥ पुलकशरीरभरतकरजोरे॥ सकलकामप्रदतीर
थराऊ॥ वेदविदितजगप्रगटप्रभाऊ॥ मांगोंभीखत्यागि
निजधर्मू॥ आरतकाहनकरहिंकुकर्मू॥ असजियजानिसु
जानिसुदानी॥ सफलकरहिंजगयाचकवाणी॥ दोहा॥ अ

र्थनधर्मनकामरुचिगतिनचहउनिर्बाण॥जन्मजन्मरति
रामपदयहवरदाननआन॥२०५॥चौ०॥जानहुरामकुटिल
करिमोही॥लोगकहौगुरुसाहिबद्रोही॥सीतारामचरण
रतिमोरे॥अनुदिनबढौअनुग्रहतोरे॥जलदजन्मभरिसुर
तिविसारे॥याचतजलपविपाहनडारे॥चातकरटनिघटे
घटिजाई॥बढेप्रेमसबभातिभलाई॥कनककहिबानचढै
जिमिदाहे॥तिमिप्रियतमपदप्रेमनिवाहे॥भरतबचनसु
निमांझत्रिवेनी॥भइमृदुवाणिसुमंगलदेनी॥तातभरत
तुमसबविधिसाधू॥रामचरणअनुरागअगाधू॥बादिग
लानिकरहुमनमाही॥तुमसमरामहिंकोउप्रियनाही॥
दो०॥तनुपुलकेहियहर्षसुनिवेणिवचनअनुकूल॥भर
तधन्यकहिधन्यकहिनभसुरवरषहिंफूल॥२०६॥चौ०॥
प्रमुदिततीरथराजनिवासी॥वैखानसबटुगृहीउदासी
कहहिंपरस्परमिलिदशपांचा॥भरतसनेहशीलशुचि
सांचा॥सुनतरामगुणग्रामसुहाए॥भरद्वाजमुनिवरप
हिंआए॥दंडप्रणामकरतमुनिदेखे॥मूरतिवन्तभाग्य
निजलेखे॥धाइउठाइलाइउरलीन्हे॥दीन्हअशीषकृतार
थकीन्हे॥आसनदीन्हनाइशिरबैठे॥चहतसकुचगृहजनु
भजिपैठे॥मुनिपूछहिकछुयहबडशोचू॥बोलेऋषिलखि

शीलसंकोचू॥ सुनहुभरतहमसबसुधिपाई॥ विधिकर
तबपरकछुनबसाई॥ दो०॥ तुमगलानिजियजनिकरहु
समुझिमातुकरतुति॥ तातकैकेयिहिदोषनहिंगईगिरा
मतिधुति॥ २०७॥ चौ०॥ यहउकहतभलकहहिनकोउ॥
लोकवेदबुधसम्मतदोऊ॥ ताततुम्हारविमलयशगाई॥ पा
इहिलोकहुंवेदवडाई॥ लोकवेदसम्मतसबकहई॥ जेहिपि
तुराजदेइसोलहई॥ राउसत्यब्रततुमहिंबुलाई॥ देतराज
सुखधर्मवडाई॥ रामगवनवनअनरथमूला॥ जोसुनिस
कलविश्वभइशूला॥ सोभावीवशरानिअयानी॥ करिकुचा
लिअन्तहुंपछितानी॥ तहंउतुम्हारअल्पअपराधू॥ कहै
सोअधमअयानअसाधू॥ करतेहुराजतुम्हारनहिंदोषू॥ रा
महिहोतसुनतसन्तोषू॥ दो०॥ अबअतिकीन्हेहुभरतभल
तुम्हहिंउचितमतएहु॥ सकलसुमंगलमूलजगरघुवर
चरणसनेहु॥ २०८॥ चौ०॥ सोतुम्हारधनजीवनप्राणा॥ भू
रिभागयकोतुमहिंसमाना॥ यहतुम्हारअचरजनहिंताता॥
दशरथसुअनरामप्रियभ्राता॥ सुनहुभरतरघुपतिमनमा
हीं॥ प्रेमपात्रतुमसमकोउनाहीं॥ लषणरामसीतहिंअ
तिप्रीती॥ तेहिनिशितुम्हहिंसराहतबीती॥ जानामर्मन्ह
हातप्रयागा॥ मगनहोहिंतुम्हरेअनुरागा॥ तुमपरअस

यर्थन
९

सनेहरघुबरके॥सुखजीवनजगजसजडनरके॥यह
नअधिकरघुबीरबडाई॥प्रणतकुटुम्बपालरघुराई॥तुम
तौभरतमोरमतएहू॥धरेदेहजनुरामसनेहू॥दोहा॥तुम
कहंभरतकलङ्कयहहमसबकहउपदेश॥रामभक्तिरस
सिद्धिहितभायहसिद्धिगणेश॥२०६॥चौपाई॥नवविधुवि
मलतातयशतोरा॥रघुबरकिङ्करकुमुदचकोरा॥उदित
सदाअथइहिकबहूना॥घटिहिनजगनभदिनदिनदूना
कोकविलोकिप्रीतिअतिकरहीं॥प्रभुप्रतापरविछविहिन
हरहीं॥निशिदिनसुखदसदासबकाहू॥ग्रसहिनकैकै
यिकरतबराहू॥पूरणरामसुप्रेमपियूषा॥गुरुअपमान
दोषनहिदूषा॥रामभक्तिरसअमियअवाहूं॥कीन्हेउसुल
भसुधावसुधाहूं॥भूपभगीरथसुरसरिआनी॥सुमिरत
सकलसुमङ्गलखानी॥दशरथगुणगणबरणिनजाही
अधिककहाजेहिसमकोउनाही॥दोहा॥जासुसनेहस
कोचवशरामप्रगटभेआइ॥जेहरहियनयनन्हकबहुंनि
रखेनाहिअघाइ॥२१०॥चौपाई॥कीरतिविधुतुमकीन्हअ
नूपा॥जहंबसरामप्रेममृगरूपा॥तातगलानिकरहुजि
यजाय॥डरहुदरिद्रहिपारसपाय॥सुनहुभरतहमझूठ
नकहहीं॥उदासीनतापसवनरहहीं॥सबसाधनकरसु

फलसुहावा॥ लषणरामसियदरशनपावा॥ तेहिफल
करफलदरशनतुम्हारा॥ सहितप्रयागसुभागहमारा॥ भ
रतधन्यतुमजगयशलयऊ॥ कहिअसप्रेममगनमुनिभ
यऊ॥ सुनिमुनिवचनसभासदहर्षे॥ साधुसराहिसुमन।
सुरवर्षे॥ धन्यधन्यध्वनिगगनप्रयागा॥ सुनिसुनिभरतम
गनअनुरागा॥ दो०॥ पुलकगातहियरामसियसजलस
रोरुहनयन॥ करिप्रणाममुनिमण्डलिहिंबोलेगदगदवय
न॥२११॥ चौ०॥ मुनिसमाजअरुतीरथराजू॥ सांचेहुशपथअ
घायअकाजू॥ इहिथलजोंकछुकहियबनाई॥ इहिसमनहि
कछुअघअधमाई॥ तुमसरवज्ञकहौंसतिभाऊ॥ उरअन्तर
जामीरघुराऊ॥ मोहिनमातुकरतबकरशोचू॥ नहिदुखजि
यजगजानहिपोचू॥ नाहिनडरबिगरहिंपरलोकू॥ पित
हुमरणकरमोहिनशोकू॥ सुकृतसुयशभरिभुवनसुहाए
लक्ष्मणरामसरिससुतपाए॥ रामविरहतजितनक्षणभंगू
भूपशोचकरकवनप्रसंगू॥ रामलषणसियविनुपगपन
ही॥ करिमुनिवेषफिरहिंबनवनही॥ दो०॥ अजिनबसनफ
लअशनमहिशायनडासिकुशपात॥ बसितरुतरनितसहत
हिमआतपवरषावात॥२१२॥ चौ०॥ इहदुखदाहदहैनितछा
ती॥ भूखनवासरनींदनराती॥ इहकुरोगकरऔषधनाहीं॥

रामा.
अ.
५५

शोधेउ सकल विस्व मन माहीं॥ मातकुमत बउही अघमूला
तेइ हमार हित कीन्ह बसूला॥ कलि कुकाठ करि कीन्ह कुयं
त्रू॥ गाडि अवध पढि कठिन कुमंत्रू॥ मोहि लगि इह कुठाट
तेहिं ठाटा॥ घालिसि सब जग बारह बाटा॥ मिटे कुरोग रा
म फिरि आए॥ बसै अवध नहिं आन उपाए॥ भरत वचन सु
नि मुनि सुख पाई॥ सबहिं कीन्ह बहु भांति बडाई॥ तात क
रहु जनि शोच विशेषी॥ सब दुख मिटिहि राम पद देषी॥

दो०॥ करि प्रबोध मुनिवर कहेउ अतिथि प्रेम प्रिय होउ॥ क
न्द मूल फल देहि हम लेहु मुदित करि छोहु॥२१३॥ चौ०॥
सुनि मुनि वचन भरत हिय शोचू॥ भयउ अवसर कठिन संको
चू॥ जानि गरुइ गुरु गिरा बहोरी॥ चरण बन्दि बोले कर जो
री॥ सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा॥ परम धर्म यह नाथ ह
मारा॥ भरत वचन मुनिवर मन भाए॥ सुचि सेवक सब निक
ट बुलाए॥ चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई॥ कन्द मूल फल आ
नहु जाई॥ भलहि नाथ कहि तिन्ह शिर नाए॥ प्रमुदित नि
ज निज काज सिधाए॥ मुनिहिं शोच पाहुन बड नेवता॥
॥ तसि पूजा चाहिय जस देवता॥ सुनि रिधि सिधि अणि
मादिक आईं॥ आयसु होइ सो करहिं गोसाईं॥ दो०॥ राम
विरह व्याकुल भरत सानुज सकल समाज॥ पहुनाइ कर

विहरहुआश्रमकहहुमुदितमुनिराज॥२१४॥चौ०॥ऋधिसि
धिशिरधरिमुनिबरबाणी॥बडुभागिनिआपुहिंअनुमानी
कहहिंपरस्परसिधिसमुदाई॥अतुलितअतिथिरामलघु
भाई॥मुनिपदबन्दिकरियसोइआजू॥होइसुखीसबराज
समाजू॥असकहिरुचिररचेगृहनाना॥जेहिंविलोकिवि
लखाहिंविमाना॥भोगविभूतिभूरिभरिराखे॥देखतजिन
हिंअमरअभिलाषे॥दासीदाससाजसबलीन्हे॥जोगवतर
हहिंमनहिंमनदीन्हे॥सबसमाजसजिसिधिपलमांही
जेसुखसपनेहुंसुरपुरनाही॥प्रथमहिंवासदिएसबकेही
सुन्दरसुखदयथारुचिजेही॥दो०॥बहुरिसपरिजनभरत
कहंऋषिआयसुअसदीन्ह॥विधिविस्मयदायकविभवमु
निवरतपबलकीन्ह॥२१५॥चौ०॥मुनिप्रभावजबभरतविलो
का॥सबलघुलगेलोकपतिलोका॥सुखसमाजनहिंजाइ
वखानी॥देखतविरतिविसारहिंज्ञानी॥आसनशयनसुब
सनविताना॥बनवाटिकाविहगमृगनाना॥सुरभिफूलफ
लअमियसमाना॥विमलजलाशयविविधविधाना॥अश
नपानशुचिअमितअमीसे॥देखिलोकसकुचातजमीसे॥
सुरसुरभीसुरतरुसबहीके॥लखिअभिलाषसुरेशशचीके
ऋतुबसन्तबहत्रिविधबयारी॥सबकहंसुलभपदारथचारी

रामा० अ० ६०

स्रकचन्दनवनितादिकभोगा॥ देखिहर्षविस्मयवशलोगा॥ दोहा॥ सम्पतिचकईभरतचकमुनिआयसुखेलवार॥ तेहिंनिशिआश्रमपींजुरारखेभाभिनुसार॥२१६॥ चौ०॥ किन्हनिमज्जनतीरथराजा॥ नाइमुनिहिंशिरसहितसमाजा॥ ऋषिआयसुअसीषशिरराखी॥ करिदण्डवतविनयबहुभाषी॥ पथगतिकुशलसाथसबलीन्हे॥ चलेचित्रकूटहिंचितदीन्हे॥ रामसखाकरिदीन्हेलागू॥ चलतदेहधरिजनुअनुरागू॥ नहिंपदत्राणशीर्षनहिंछाया॥ प्रेमनेमव्रतधर्मअमाया॥ लषणरामसियपंथकहानी॥ पूछतसखहिंकहतमृदुबाणी॥ रामवासथलविटपविलोकी॥ उरअनुरागरहतनहिंरोकी॥ देखिदशासुरवरषहिंफूला॥ भइमृदुमहिमगमंगलमूला॥ दो०॥ कीयेजाहिंछायाजलदसुखदबहैबरवात॥ तसमगभयउनरामकहंजसभाभरतहिंजात॥२१७॥ चौ०॥ जड़चेतनजगजीवघनेरे॥ जेचितयप्रभुजिन्हप्रभुहेरे॥ तेसबभयपरमपदजोगू॥ भरतदरशमेटाभवरोगू॥ यहबडिबातभरतकीनांही॥ सुमिरतजिबहिंराममनमांही॥ बारेकरामकहतजगजेऊ॥ होततरणतारणनरतेऊ॥ भरतरामप्रियपुनिलघुभ्राता॥ कसनहोइमगमंगलदाता॥ सिद्धसाधु

मुनिवरअसकहहीं॥ भरतहिंनिरखिहरषहियलहहीं॥
देखिप्रभावसुरेशहिंसोचू॥ जगभलभलहिंपोचकहंपो
चू॥ गुरुसनकहेउकरजुप्रभुसोई॥ रामहिंभरतनहिंभेटन
होई॥ दो॰॥ रामसकोचीप्रेमवशभरतसप्रेमपयोधि॥ बनी
बातविगरनचहतकरियजतनछलशोधि॥ २१८॥ चौ॰॥
वचनसुनतसुरगुरुमुसुकाने॥ सहसनयनविनुलोचन
जाने॥ कहगुरुवादिछोभछलछाडू॥ इहांकपटकरिहोइ
यभांडू॥ मायापतिसेवकसनमाया॥ करियतोउलटिपरै
सुरराया॥ तवकछुकीन्हरामरुखजानी॥ अवकुचालिक
रिहोइहिंहानी॥ सुनुसुरेशरघुनाथसुभाऊ॥ निजअपरा
धरिसाहिनकाऊ॥ जोअपराधभक्तकरकरई॥ रामरोषपाव
कसोजरई॥ लोकहुंवेदविदितइतिहासा॥ यहमहिमाजा
नहिंदुर्बासा॥ भरतसरिसकोरामसनेही॥ जगजपरामराम
जपुजेही॥ दो॰॥ मनहुंनआनियअमरपतिरघुवरभक्तअका
ज॥ अयशलोकपरलोकदुखदिनदिनशोकसमाज॥ २१९॥
चौ॰॥ सुनुसुरेशउपदेशहमारा॥ रामहिंसेवकपरमपिआरा॥
मानतसुखसेवकसेवकाई॥ सेवकवैरवैरअधिकाई॥ यद्य
पिसमनहिंरागनरोषू॥ गहहिंनपापपुण्यगुणदोषू॥ कर्म
प्रधानविश्वकरिराखा॥ जोजसकरैसोतसफलचाखा॥ तदपि

रामा० अ० ६१

61

करहिंसमविषमविहारा॥रघुवरभक्तिभक्तअनुसारा॥
अगुणअलेपअमानएकरस॥रामसगुणभएभक्तप्रेमव
श॥रामसदासेवकरुचिराखी॥वेदपुराणसाधुसुरभाखी
असजियजानितजहुकुटिलाई॥करहुभरतपदप्रीतिसुहाई
दो०॥रामभक्तपरहितनिरतपरदुखदुखीदयालु॥भक्तशि
रोमणिभरततेजनिडरपहुसुरपालु॥२२०॥चौ०॥सत्यस
न्धप्रभुसुरहितकारी॥भरतरामआयसअनुसारी॥स्वार
थविवशविकलतुमहोहू॥भरतदोषनहिंराउरमोहू॥सु
निसुरवरसुरगुरुवरबाणी॥भाप्रमोदमनमिटीगलानी॥
वरषिप्रसूनहर्षिसुरराऊ॥लगेसराहनभरतसुभाऊ॥एहि
विधिभरतचलेमगजाहीं॥दशादेखिमुनिसिद्धसिहाहीं॥ज
वहिंरामकहिलेहिंउसासा॥उमगतप्रेममनहुंचहुंपासा॥
द्रवहिंवचनसुनिकुलिशपषाणा॥पुरजनप्रेमनजाइवखा
ना॥बीचवासकरियमुनहिंआए॥निरखिनीरलोचनजलछा
ए॥दो०॥रघुवरवर्णविलोकिवरवारिसमेतसमाज॥होतवि
रहवारिधिमगनचढेविवेकजहाज॥२२१॥चौ०॥यमुनती
रतेहिदिनकरिवासू॥भयउसमयसमसबहिंसुपासू॥राति
हिंघाटघाटकीतरणी॥आईंअगणितजाईंनवरणी॥प्रातपा
रभेएकहिंखेवा॥तोषेरामसखाकिसेवा॥चलेअन्हाइनदि

हिंसिरनाई॥साथनिषादनाथलघुभाई॥आगेमुनिवरवाह
नआछे॥राजसमाजजाइसवपाछे॥तेहिंपाछेदोउवन्धुपा
यादे॥भूषणवसनवेषसुठिसादे॥सेवकसुहृदसचिवसुत
साता॥सुमिरतलषणसीयरघुनाथा॥जहंजहंरामवास
विश्रामा॥तहंतहंकरहिंसप्रेमप्रणामा॥दो०॥मगवासीन
ननारिसुनिधामकामतजिधाइ॥देखिस्वरूपसनेहवश
मुदितजन्मफलपाइ॥२२२॥चौ०॥कहहिंसप्रेमएकएकपा
ही॥रामलषणसखिहोहिंकिनाहीं॥वयवपुवरणरूप
सोइआली॥सीलसनेहसरिससमचाली॥वेषनसोसखि
तीयनसङ्गा॥आगेअनीचलीचतुरङ्गा॥नहिंप्रसन्नमुखमा
नसखेदा॥सखिसन्देहहोतइहिंभेदा॥तासुतर्कतियगणि
मनमानी॥कहहिंसकलतेहिसमनसयानी॥तेहिसराहि
वाणीफुरपूजी॥वोलीमधुरवचनतियदूजी॥कहिसप्रेम
सवकथाप्रसंगू॥जेहिंविधिरामराजरसभंगू॥भरतहिंवहु
रिसराहनलागी॥सीलसनेहसुभावसुभागी॥दो०॥चल
तपयादेखातफलपितादीन्हतजिराज॥जातमनावनरघु
वरहिंभरतसरिसकोआज॥२२३॥चौ०॥भायपभक्तिभरत
आचरणू॥कहतसुनतदुखदूषणहरणू॥जोकछुकहि
यथोरसखिसोई॥रामवन्धुअसकाहेनहोई॥हमसवसानु

जभरतहिंदेखे॥सुनिगुणदेशिदशापछिताहीं॥केकेयि
जननियोगसुतनाहीं॥कोउकहदूषणरानिहुनाहिन॥वि
धिसबकीन्हहमहिंजोदाहिन॥कहंहमलोकवेदविधिहीनी
लघुकुलतियकरतुतिमलीनी॥वसहिंकुदेशकुगांवकुवामा
कहंयहदरशपुण्यपरिणामा॥असआनन्दअचरजप्रतिग्रा
मा॥जनुमरुभूमिकल्पतरुजामा॥दो०॥भरतदरशदेखत
खुलेउमगुलोकन्हकरभाग॥जनुसिंघलवासिन्हभए वि
धिवशसुलभप्रयाग॥२२४॥चौ०॥निजगुणसहितरामगु
णगाथा॥सुनतजाहिंसुमिरतरघुनाथा॥तीरथमुनिआश्र
मसुरधामा॥निरखिनिमज्जहिंकरहिंप्रणामा॥मनहींम
नमांगहिंवरएहू॥सीयरामपदपद्मसनेहू॥मिलहिंकिरात
कोलबनवासी॥वैखानसबटुयतीउदासी॥करिप्रणामपू
छहिंजेहितेही॥केहिबनलषणरामवैदेही॥तेप्रभुसमा
चारसबकहहीं॥भरतहिंदेखिजन्मफललहहीं॥जेजनक
हहिंकुशलहमदेखे॥तेप्रियरामलषणसमलेखे॥इहिवि
धिबूझतसबहिंसुबाणी॥सुनतरामबनवासकहानी॥दो०
तेहिवासरबसिप्रातहिंचलेसुमिरिरघुनाथ॥रामदरशकी
लालसाभरतसरिससबसाथ॥२२५॥चौ०॥मङ्गलशगुण
होहिंसबकाहू॥फरकहिंसुखदविलोचनबाहू॥भरतहिं

देशाकार

सहितसमाजउछाहू॥ मिलिहहिंरामुमिटिहिदुखदाहू
शेषकेदुइपदलेपकहैं॥ करतमनोरथजसजियजाके
जाहिंसनेहसुराँसबछाके॥ शिथिलअङ्गपगमगडगि
डोलहिं॥ बिह्वलबचनप्रेमबशबोलहिं॥ रामसखातेहिं
समयदेखावा॥ शैलशिरोमणिसहजसुहावा॥ जासुस
मीपसरितपयतीरा॥ सीयसमेतबसहिंदोउबीरा॥ देखि
करहिंसबदण्डप्रणामा॥ कहिजयजानकीजीवनरामा
प्रेममगनअसराजसमाजू॥ जनुफिरिअवधचलेरघुराजू
दो०॥ भरतप्रेमतेहिंसमयजसतसकहिशकैनशेषु॥ क
बिहिंअगमजिमिब्रह्मसुखअहममलिनजनेषु॥२२६
चौ०॥ सकलसनेहशिथिलरघुबरके॥ गयेकोशदुइदि
नकरढरके॥ जलथलदेखिबसेनिशिबीते॥ कीन्हगव
नरघुनाथपिरीते॥ उहाँरामरजनीअवशेषा॥ जागीसी
यसपनअसदेखा॥ सहितसमाजभरतजनुआये॥ नाथ
वियोगतापतनुताये॥ सकलमलिनमनदीनदुखारी॥
देखीसासुआनअनुहारी॥ सुनिसियसपनभरेजललोच
न॥ लखणसपनयहनीकनहोई॥ कठिनकुचाहसुना
इहिंकोई॥ असकहिबन्धुसमेतअन्हाने॥ पूजिपुरारिसा
धुसनमाने॥ छन्दः॥ सनमानिसुरमुनिबन्दिबैठेउत्तरदिशि

देखतमग॥ नभपुरिखगमृगभूरिभागेविकलप्रभुआश्र
मगए॥ ७ ॥ तुलसीउठेअवलोकिकारणकाहचितसच
कितरहे॥ सबसमाचारकिरातकोलन्हिआइतेहिंअवस
रकहे॥ ८ ॥ सोरठा॥ सुनतसुमंगलवयनमनप्रमोदतनु
पुलकभर॥ सरदसरोरुहनयनतुलसीभरेसनेहजल॥
चौपाई॥ बहुरिशोचवशभेसियरमण॥ कारणकवन
भरतआगमनू॥ एकआइअसकहाबहोरी॥ सेनसंगच
तुरंगनथोरी॥ सोसुनिरामहिंभाअतिशोचू॥ इतपितुव
चउतबन्धुसंकोचू॥ भरतसुभावसमुझिमनमांहीं॥ प्रभु
हितचितथितिपावतनाहीं॥ समाधानतबभायहजाने॥
भरतकहेमहंसाधुसयाने॥ लषणलखेउप्रभुहृदयखम्भा
रू॥ कहतसमयसमनीतिविचारू॥ बिनुपूछेकछुकह
उंगोसाँई॥ सेवकसमयनढीठढिठाई॥ तुमसर्वज्ञशि
रोमणिस्वामी॥ आपनिसमुझकहौंअनुगामी॥ दो॰॥
नाथसुहृदसुठिसरलचितशीलसनेहनिधान॥ सब
परप्रीतिप्रतीतिजियजानियआपुसमान॥ २२८॥ चौ॰॥
विषयीजीवपाइप्रभुताई॥ मूढमोहवशहोहिंजनाई॥ भ
रतनीतिरतसाधुसुजाना॥ प्रभुपदप्रेमसकलजगजाना
तेऊआजुराजपदपाई॥ चलेधर्ममरजादमिटाई॥ कुटि

लकुबधुकुअवसरताकी॥ जानिरामबनबासएकाकी॥
करिकुमंत्रमनसाजिसमाजू॥ आएकरणअकंटकराजू॥
कोटिप्रकारकलपटकुटिलाई॥ आएदलबटोरिदोउभाई॥॥
जौजियहोतिनकपटकुचाली॥ केहिसोहातरथबाजिग
जाली॥ भरतहिंदोषदेइकोजाए॥ जगबौराइराजपदपाए
दो०॥ शशिगुरुतियगामीनहुषचढेउभूमिसुरयान॥॥
लोकवेदतेंविमुखभाअधमकोवेणसमान॥२२९॥चौ०॥
सहसबाहुसुरनाथत्रिसंकू॥ केहिनराजमददीन्हकलंकू
भरतकीन्हयहउचितउपाऊ॥ रिपुऋणरंचनराखबका
ऊ॥ एककीन्हनहिंभरतभलाई॥ निदरेरामजानिअसहाई
समुझिपरिहिंसोआजविशेषी॥ समरसरोषराममुखदेषी
इतनीकहतनीतिरसभूला॥ रणरसविटपपुलकजिमिफू
ला॥ प्रभुपदवन्दिसीसरजराषी॥ बोलेसत्यसहजबलभा
षी॥ अनुचितनाथनमानबमोरा॥ भरतहमहिंउपचारन
थोरा॥ कहलगिसहियरहियमनमारे॥ नाथसाथधनुहा
थहमारे॥ दो०॥ क्षत्रीजातिरघुकुलजनमराम अनुजजग
जान॥ लातहुंमारेचढतशिरनीचकोधूरिसमान॥२३०॥
चौ०॥ उठिकरजोरिरजायसुमागा॥ मनहुंवीररससोवतजा
गा॥ बांधिजटाशिरकटिकसिभाथा॥ साजिशरासनपाय

कहाणा॥ आजुरामसेवकयशलेऊं॥ भरतहिंसमरशि-
खावनदेऊं॥ रामनिरादरकरफलपाई॥ सोवहुसमरसे-
जदोउभाई॥ आइवनाभलसकलसमाजू॥ प्रगटकरौंरि-
सिपाछिलआजू॥ जिमिकरिनिकरदलैमृगराजू॥ लेइ-
लपेटिलवाजिमिबाजू॥ तैसेहिंभरतहिसेनसमेता॥ सा-
नुजनिदरिनिपातौंखेता॥ जौसहायकरशंकरआई॥॥
तौमारौंरणरामदोहाई॥ दो॰॥ अतिसरोषमाषेलषणल-
खिसुनिशपथप्रमाण॥ सभयविलोकतलोकपतिचाह-
तभभरिभगान॥२२९॥ चौ॰॥ जगभामगनगगनभवानी
लषणबाहुबलविपुलवखानी॥ तातप्रतापप्रभावतुम्हा-
रा॥ कोकहिसकैकोजाननिहारा॥ अनुचितउचितकाजक-
छुहोई॥ समुझिकरियभलकहसबकोई॥ सहसाकरिपा-
छेपछिताहीं॥ कहहिवेदबुधतेबुधनाहीं॥ सुनिसुरवच-
नलषणसकुचाने॥ रामसीयसादरसनमाने॥ कहीतात-
तुमनीतिसुहाई॥ सबतेकठिनराजमदभाई॥ जोअचवत-
नृपमातहिंतेई॥ नाहिनसाधुसभाजिनसेई॥ सुनहुलष-
णभलभरतसरीषा॥ विधिप्रपंचमहंसुनानदीषा॥ दो॰॥
भरतहिंहोइनराजमदविधिहरिहरपदपाइ॥ कबहुकि
काजीषीकरनिछीरसिंधुविनसाइ॥२३०॥ चौ॰॥ तिमिरत-

रुणातरणिहिमकुगिलई॥गगनमगनमकुमेघहिंमिल
ई॥गोपदजलबूडहिंघटयोनी॥सहजछमाबरुछाडउहिंछो
णी॥मसकफूंककवरुमेरुउडाई॥होइननृपमदभरतहिंभाई
लषणतुम्हारशपथपितुआना॥सुचिसुबंधुनहिंभरतसमा
ना॥सगुणखीरअवगुणजलताता॥मिलेरचेउपरपञ्चबि
धाता॥भरतहंसरविबंशतडागा॥जनमीकीन्हगुणदोषवि
भागा॥गहिगुणपयतजिअवगुणवारी॥निजयशजगत
कीन्हउजिआरी॥कहतभरतगुणशीलसुभाऊ॥प्रेमपयो
धिमगनरघुराऊ॥दो०॥सुनिरघुवरवाणीविबुधदेखिभ
रतपरहेतु॥सकलसराहतरामसेप्रभुकोकृपानिकेतु॥
चौ०॥जौनहोतजगजन्मभरतको॥सकलधरमधुरधरणिध
रतको॥कविकुलअगमभरतगुणगाथा॥कोजानैतुमवि
नुरघुनाथा॥लषणरामसियसुनिसुरबाणी॥अतिसुख
लहेउनजाइवखानी॥इहांभरतसबसहितसहाए॥मन्दा
किनीपुनीतअन्हाए॥सरितसमीपराखिसबलोगा॥मांगि
मातुगुरुसचिवनियोगा॥चलेभरतजहंसियरघुराई॥सा
थनिषादनाथलघुभाई॥समुझिमातुकरतबसकुचाहीं
करतकुतर्ककोटिमनमाहीं॥रामलषणसियसुनिममना
ऊं॥उठिजनिअनतजाहिंतजिठाऊं॥दो०॥मातुमतेमहंजानि

मोहिजोकछुकहहिंसोथोर॥अघअवगुणतमआदरहिंस
मुझिआपनीओर॥२२४॥चौ०॥जोपरिहरहिंमलिनमनजा
नी॥जोसनमानहिंसेवकमानी॥मोरेशरणरामकीपनहीं॥।
रामसुस्वामिदोषसबजनहीं॥जगयशभाजनचातकमीना॥
नेमप्रेमनिजनिपुणनवीना॥असमनगुणतचलेमगजाता
सकुचसनेहशिथिलसबगाता॥फेरतिमनहिमातुकृतखो
री॥चलतभक्तिबलधीरजधोरी॥जबसमुझहिंरघुनाथसु
भाऊ॥तबपथपरतउताइलपाऊ॥भरतदशातेहिंअवसरकै
सी॥जलप्रवाहजलअलिगतिजैसी॥देखिभरतकरशोच
सनेहू॥भानिषादतेहिंसमयविदेहू॥दो०॥लगेहोनमङ्गल
शगुणसुनिगुणिकहतनिषाद॥मिटिहिंशोचहोइहिंहर
षपुनिपरिणामविषाद॥२२५॥चौ०॥सेवकवचनसत्यसब
जाने॥आश्रमनिकटजाइनिअराने॥भरतदीखवनशैल
समाजू॥मुदितछुधितजनुपाइसुनाजू॥ईतिभीतिजनु
प्रजादुखारी॥त्रिविधतापपीडितग्रहमारी॥जाइसुराजसुदे
शसुखारी॥होहिंभरतगतितेहिअनुहारी॥रामवासवनस
म्पतिभ्राजा॥सुखीप्रजाजनुपाइसुराजा॥सचिवविरागवि
वेकनरेशू॥विपिनसुहावनपावनदेशू॥भटयमनियमशै
लरजधानी॥शान्तिसुमतिशुचिसुन्दररानी॥सकलअं

गसम्पन्नसुराऊ॥रामचरणआश्रितचितचाऊ॥दो०॥जीति
मोहमहिपालदलसहितविवेकभुआल॥करतअकंटकरा
जपुरसुखसंपदासुकाल॥२३६॥चौ०॥बनप्रदेशमुनिवासघ
नेरे॥जनुपुरनगरगांवगणखेरे॥बिपुलविचित्रबिहगमृगना
ना॥प्रजासमाजनजाइबखाना॥खगहाकरिहरिबाघबराहा
देखिमहिषवृषसाजसराहा॥बैरबिहाइचरहिंएकसंगा॥ज
हँतहँमनहुसेनचतुरंगा॥झरनाझरहिंमत्तगजगाजहिं॥म
नहुनिसानविविधविधिबाजहिं॥चकचकोरचातकसुकपि
कगण॥कूजतमंजुमरालमुदितमन॥अलिगणगावतनाच
तमोरा॥जनुसुराजमंगलचहुंओरा॥बेलिबिटपतृणसफल
सफूला॥सबसमाजमुदमंगलमूला॥दो०॥रामशैलशोभानि
रखिभरतहृदयअतिप्रेम॥तापसतपफलपाइजिमिसुखीसि
रानेनेम॥२३७॥चौ०॥तबकेवटऊंचेचढिधाई॥कहाभरतसन
भुजाउठाई॥नाथदेखियहबिटपविशाला॥पाकरिजम्बुरसा
लतमाला॥तिन्हतरुवरन्हमध्यबटसोहा॥मंजुविशालदेखि
मनमोहा॥नीलसघनपल्लवफललाला॥अविचलछांहिसुख
दसबकाला॥मानहुतिमिरअरुणमयराशी॥बिरचीविधिस
केलिसुखमासी॥एतरुसरितसमीपगोसांई॥रघुवरपर्ण
कुटीजहंछाई॥तुलसीतरुबरविविधसुहाए॥कहुसियपिय
कहुलषणलगाए॥बटछायाबेदिकाबनाई॥सियनिजपाणिस

सरोजसुहाई॥ दो॰॥ जहंबैठेमुनिगणसहितनितसियरामसुजान॥ सुनहिंकथाइतिहाससबआगमनिगमपुराण॥ २३८॥ चौ॰॥ सखावचनसुनिविटपनिहारी॥ उमगेभरतविलोचनबारी॥ करतप्रणामचलेदोउभाई॥ कहतप्रीतिशारदसकुचाई॥ हरषहिंनिरखिरामपदअङ्का॥ मानहुपारसपायउरङ्का॥ रजशिरधरिहियनयनन्हिलावहिं॥ रघुवरमिलनसरिससुखपावहिं॥ देखिभरतगतिअकथअतीवा॥ प्रेममगनखगमृगजडजीवा॥ सखहिंसनेहविवशमगभूला॥ कहिसुपंथसुरवरषहिंफूला॥ निरखिसिद्धसाधकअनुरागे॥ सहजसनेहसराहनलागे॥ होतनभूतलभावभरतको॥ अचरसचरचरअचरकरतको॥ दो॰॥ प्रेमअमियमन्दरविरहभरतपयोधिगम्भीर॥ मथिप्रगटेसुरसाधुहितकृपासिन्धुरघुवीर॥ २३९॥ चौ॰॥ सखासमेतमनोहरजोटा॥ लखेउनलषणसघनवनओटा॥ भरतदीखप्रभुआश्रमपावन॥ सकलसुमङ्गलसदनसुहावन॥ करतप्रवेशमिटादुखदावा॥ जनुयोगीपरमारथपावा॥ देखेभरतलषणप्रभुआगे॥ पूछेवचनकहतअनुरागे॥ सीसजटाकटिमुनिपटबांधे॥ तूणकसेकरशरधनुकांधे॥ वेदीपरमुनिसाधुसमाजू॥ सीयसहितराजतरघुराजू॥ वल्कलवसनजटिलतनुश्यामा॥ जनुमुनिवेषकीन्हरतिकामा॥ करकमलनधनुसायकफेरत॥ जियकीजरनिहर

विनोद
८

तहं सिहरे रत ॥दो०॥ लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुच
न्द ॥ ज्ञान समाज नु तनु धरे भक्ति सच्चिदानन्द ॥२४०॥ चौ०॥ सा
नुज सखा समेत मगन मन ॥ बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण
॥ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं ॥ भूतल परे लकुट की नाईं ॥ बच
न सप्रेम लषण पहिचाने ॥ करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥ बंधु
सनेह सरस इहि ओरा ॥ उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ मिलि न
जाइ नहि गुदरत बनई ॥ सुकवि लषण मन की गति भनई ॥
रहे राखि सेवा पर भारू ॥ चढी चङ्ग जनु खैंच खेलारू ॥ कह
त सप्रेम नाइ महि माथा ॥ भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥ उठे
राम सुनि प्रेम अधीरा ॥ कहु पट कहुं निषङ्ग धनु तीरा ॥दो०॥
बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान ॥ भरत राम की मिल
नि लखि बिसरे सबहिं अपान ॥२४१॥ चौ०॥ मिलनि प्रीति कि
मि जाइ बखानी ॥ कबिकुल अगम कर्म मन बाणी ॥ परम प्रे
म पूरण दोउ भाई ॥ मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ कहहु
सुप्रेम प्रगट को करई ॥ केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ कबि
हिं अर्थ आखर बल सांचा ॥ अनुहर ताल गतिहिं नट नांचा ॥
अगम सनेह भरत रघुबर को ॥ जहं न जाइ मन बिधि हरि हर
को ॥ सो मै कुमति कहौं केहि भांती ॥ बाज सुराग कि गाडर
तांती ॥ मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की ॥ सुरगण सभय धु

रामा० अ० ८७

67

कपुकीपरखी॥समुझाएसुरगुरुजडजागे॥बरषिप्रसूनप्र
शंसनलागे॥दो०॥मिलिसप्रेमरिपुसुदनहिंकेवटभेटेउराम
भूरिभायभेटभरतलछमणकरतप्रणाम॥२४२॥चौ०॥भेटे
लषणललकिलघुभाई॥बहुरिनिषादलीन्हउरलाई॥पुनि
मुनिगणदहुभाइन्हबन्दे॥अभिमतआशिषपाइआनन्दे॥
सानुजभरतउमगिअनुरागा॥धरिशिरसियपदपद्मपरागा
पुनिपुनिकरतप्रणामउठाए॥सिरकरकमलपरशिबैठाए॥
सीयअशीयदीन्हमनमाही॥मगनसनेहदेहसुधिनाहीं॥स
बविधिसानुकूललखिसीता॥भेनिशोचउरअपडरबीता॥
कोउकछुकहैनकोउकछुपूछा॥प्रेमभरामननिजगतिछूछा
तेहिअवसरकेवटधीरजधरि॥जोरिपाणिविनवतप्रणाम।
करि॥दो०॥नाथसाथमुनिनाथकेमातुसकलपुरलोग॥से
वकसेनपसचिवसबआएविकलवियोग॥२४३॥चौ०॥शी
लसिंधुसुनिगुरुआगमनु॥सीयसमीपराखिरिपुदमनु॥
चलेसवेगरामतेहिकाला॥धीरधरमधुरदीनदयाला॥गुरु
हिदेखिसानुजअनुरागे॥दण्डप्रणामकरनप्रभुलागे॥मु
निवरधाइलिएउरलाई॥प्रेमउमंगिभेटेदोउभाई॥प्रेमपुल
किकेवटकहिनामू॥कीन्हदूरितेहिंदण्डप्रणामू॥रामस
खाऋषिवरवसभेटा॥जनुमहिलुटतसनेहसमेटा॥रघुप

तिभक्ति सुमङ्गलमूला ॥ नभसराहि सुरवरष हिं फूला ॥ हृ
हिसमनिषटनीचकोउनाही ॥ बडवशिष्ठसमकोजगमाहीं
दो० ॥ जेहिलखिलषणाहुंतेअधिकमिलेमुदितमुनिराउ ॥ सो
सीतापतिभजनकोप्रगटप्रतापप्रभाउ ॥ २४४ ॥ चौ० ॥ आरतलो
गरामसबजाना ॥ करुणाकरसुजानभगवाना ॥ जोजहिं भा
तिरहाअभिलाषी ॥ तेहितेहिकीतैसीरुचिराखी ॥ सानुजा
मिलिपलमहसबकाहू ॥ कीन्हदूरिदुखदारुणदाहू ॥ यह
बडिबातरामकीनाही ॥ जिमिघटकोटिएकरविछाही ॥ मि
लिकेवटहिंउमगिअनुरागा ॥ पुरजनसकलसराहहिंभागा
देखीरामदुखितमहतारी ॥ जनुसुवेलिअवलीहिममारी ॥
प्रथमरामभेटीकैकेयी ॥ सरलसुभावभक्तिमतिभेई ॥ पगप
रिकीन्हप्रबोधबहोरी ॥ कालकर्मविधिसिरधरिखोरी ॥ दो० ॥
भेटीरघुवरमातसबकरिप्रबोधपरितोष ॥ अम्बईशआधीन
जगकाहुनदेइयदोष ॥ २४५ ॥ चौ० ॥ गुरुतियपदबन्देदोउभाई
सहितविप्रतियजेसङ्गआई ॥ गङ्गगौरिसमसबसनमानी ॥ दे
हिअशीषमुदितमृदुबाणी ॥ गहिपदलगेसुमित्राअङ्का ॥
जनुभेटीसंपतिअतिरङ्का ॥ पुनिजननीचरणन्हदोउभ्राता ॥
परेप्रेमव्याकुलसबगाता ॥ अतिअनुरागअम्बउरलाए ॥ नय
नसनेहसलिलअन्हवाए ॥ तेहिअवसरकरहर्षविषादू ॥ कि

मिकविकाहेमूकजिमिखाहू॥मिलिजननिहिंसानुजरघु
राऊ॥गुरुसनकहेउकिधारियपाऊ॥पुरजनपाइमुनीशनि
योगू॥जलजलतकितकिउतरेउलोगू॥दो०॥महिसुरमंत्री
मातुगुरुगणेलोगलिएसाथ॥पावनआश्रमगमनकिय॥
भरतलषणरघुनाथ॥२४६॥चौ०॥सीयआइमुनिवरपदला
गी॥उचितअशीषलहीमनमागी॥गुरुपत्निहिंमुनितियन्ह
समेता॥मिलिसुप्रेमकहिजाइनजेता॥बन्दिबन्दिपदसियस
बहीके॥आशीर्बादलहेप्रियजीके॥सासुसकलजबसीय
निहारी॥मूंदेउनयनसहमिसुकुमारी॥परीवधिकवशम
नहुमराली॥काहकीन्हकरतारकुचाली॥तिन्हसियनिर
खिनिपटदुखपावा॥सोसबसहियजोदैवसहावा॥जन
कसुतातबउरधरिधीरा॥नीलनलिनलोयनभरिनीरा॥मि
लीसकलसासुन्हसियजाई॥तेहिंअवसरकरुणामतिछा
ई॥दो०॥लागिलागिपदसबनिसियभेटीअतिअनुराग॥हृ
दयअशीषहिंप्रेमवशरहिहहुभरीसुहाग॥२४७॥चौ०॥
विकलसनेहसीयसबराणी॥बैठनसबहिंकहेउगुरुज्ञानी
अथमकहीजगगतिमुनिनाथा॥कहेउकछुकपरमारथ
गाथा॥नृपकरसुरपुरगमनसुनावा॥सुनिरघुनाथदुसह
दुखपावा॥मरणहेतुनिजनेहविचारी॥भेअतिविकलधी

रघुरधारी॥ कुलिशकठोरसुनतकटुबाणी॥ विलपतल
षणसीयसबरानी॥ शोकविकलअतिसकलसमाजू॥
मानहुंराजअकाजेउआजू॥ मुनिवरबहुरिरामसमुझाए
सहितसमाजसुसरितन्हाए॥ व्रतनिरम्बुतेहिदिनप्रभु
कीन्हा॥ मुनिहुंकहेजलकाहुनलीन्हा॥ दो०॥ भोरभएरघु
नन्दनहिंजोमुनिआयसुदीन्ह॥ श्रद्धाभक्तिसमेतप्रभु
सोसबसादरकीन्ह॥ २४९॥ चौ०॥ करिपितुक्रियावेदजसि
वरणी॥ भेपुनीतपातकतमतरणी॥ जासुनामपावकअ
घतूला॥ सुमिरतसकलसुमङ्गलमूला॥ शुद्धसोभयउ॥
साधुसम्मतअस॥ तीरथआवाहनसुरसरिजस॥ शुद्धभ
एदुइवासरबीते॥ बोलेगुरुसनरामपिरीते॥ नाथलोगस
बनिपटदुखारी॥ कन्दमूलफलअम्बुअहारी॥ सानुजभ
रतसचिवसबमाता॥ देखिमोहिपलजिमियुगजाता॥
सबसमेतपुरधारियपाऊ॥ आपुइहांअमरावतिराऊ॥ बहु
तकहेउसबकियेढिठाई॥ उचितहोइतसकरियगोसांई॥
दो०॥ धर्मसेतुकरुणायतनकसनकहहुअसराम॥ लोग
दुखितदिनदुइदरशदेखिलहेउविश्राम॥ २५०॥ चौ०॥ रा
मवचनसुनिसभयसमाजू॥ जनुजलनिधिमहंविकल
जहाजू॥ सुनिगुरुगिरासुमङ्गलमूला॥ भयउमनहुंमारु

तअनुकूला॥पावनपयतिहुकालअन्हाहीं॥जेहिंविलो॰
किअघओघनसाहीं॥मङ्गलमूरतिलोचनभरिभरि॥निरख
हिंहर्षितदण्डवतकरिकरि॥रामशैलवनदेखनजाहीं॥ज
हंसुखसकलकतउंदुखनाहीं॥झरनझरहिंसुधासमवा
री॥त्रिविधतापहरत्रिविधवयारी॥विटपवेलितृणअगणि
तजाती॥फलप्रसूनपल्लववहुभांती॥सुन्दरशिलासुख
दतरुछाहीं॥जाइवरणिवनछविकेलिपाहीं॥दो०॥सर
निसरोरुहजलविहगकूजतगुञ्जतभृङ्ग॰॥वैरविगतविहर
तविपिनमृगविहङ्ग॰वहुरङ्ग॰॥२५१॥चौ०॥कोलकिरातभि
ल्लवनवासी॥मधुशुचिसुन्दरस्वादुसुधासी॥भरिभरिपर्ण
पुटीरचिरूरी॥कन्दमूलफलअंकुरजूरी॥सबहिंदेहिं
करिविनयप्रणामा॥कहिकहिस्वादुभेदगुणनामा॥देहिं
लोगवहुमोलनलेहीं॥फेरतरामदोहाईदेहीं॥कहहिंस
नेहमगनमृदुबाणी॥मानतसाधुप्रेमपहिचानी॥तुमसु
कृतीहमनीचनिषादा॥पावादरशनरामप्रसादा॥हमहिं
अगमअतिदरशतुम्हारा॥जसमरुधरणिदेवधुनिधारा॥
रामकृपालुनिषादनेवाजा॥परिजनप्रजहिंउचितजस
राजा॥दो०॥यहजियजानिसकोचतजिकरियछोहलखि
नेह॥हमहिंकृतारथकरणलगिफलतृणअंकुरलेङ॥२

चौ०॥ तुम प्रियपाहुन बन पगु धारे॥ सेवा योग न भाग हमारे॥ देब कहा हम तुमहिं गोसांई॥ ईन्धन पात किरात मिताई॥ यह हमारि अति बडी सेवकाई॥ लेहिं न बासन बसन चोराई॥ हम जड जीव जीव गण घाती॥ कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ पाप करत निशि बासर जाहीं॥ नहि कटि पट नहि पेट अघाहीं॥ सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ॥ यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ॥ जबतें प्रभु पदपद्म निहारे॥ मिटे असह दुःसह दोष हमारे॥ बचन सुनत पुरजन अनुरागे॥ तिन्हके भाग्य सराहन लागे॥ छन्दः॥ लागे सराहन भाग्य सब अनुराग बचन सुनावहीं॥ बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेह लखि सुख पावहीं॥ १९॥ नर नारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल भिल्लन्ह की गिरा॥ तुलसी कृपा रघुबंशमणि की लोह लै नौका तिरा॥ २०॥ सोरठा॥ बिहरहिं बन चहुँ ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब॥ जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम॥ २५३॥ चौ०॥ पुर नर नारि मगन अति प्रीती॥ बासर जाहिं पलक सम बीती॥ सीय सासु प्रति बेष बनाई॥ सादर करहिं सरिस सेवकाई॥ लखै न मर्म राम बिनु काहू॥ माया सब सिय माया माहू॥ सीय सासु सेवा बश कीन्ही॥ तिन्ह लहि सुख सिख आशिष दीन्ही॥ लखि सिय सहित सर

लहौभाई॥कुटिलरानिपछिताइअघाई॥अवनिजमहिं
याचतिकैकेई॥मोहिनवीचुविधिमीचुनदेई॥लोकहूंवे
दविदितकविकहहीं॥रामविमुखथलनरकनलहहीं॥
यहसंशयसबकेमनमाहीं॥रामगमनविधिअवधकिना
हीं॥दो०॥निशिनदीन्दनहिंभूषदिनभरतविकलसुठिशो
च॥नीचकीचविचमगनजशमीनहिंसलिलसंकोच॥२

चौ०॥कीन्हमातुमिसकालकुचाली॥ईतिभीतिजसपाक
तशाली॥केहिविधिहोइरामअभिषेकू॥मोहिअवकर
तउपायनएकू॥अवशिफिरहिंगुरुआयसुमानी॥मुनिपु
निकहवरामरुचिजानी॥मातुकहेबहुरहिंरघुराऊ॥राम
जननिहठकरविकिकाऊ॥मोहिअनुचरकरकेतिकवाता
तेहिमहंकुसमयवामविधाता॥जोंहठकरौंतोनिपटकु
करमू॥हरगिरितेगुरुसेवकधरमू॥एकोयुक्तिनमनठहरा
नी॥शोचतभरतहिंरैनिविहानी॥प्रातनन्हाइप्रभुहिंशि
रनाई॥वैठतपठएऋषयवुलाई॥दो०॥गुरुपदकमलप्र
णामकरिवैठेआयसुपाइ॥विप्रमहाजनसचिवसबजुरे
सभासदआइ॥२५५॥चौ०॥बोलेमुनिवरसमयसमाना॥
सुनहुसभासदभरतसुजाना॥धर्मधुरीणभानुकुलभानू
राजारामस्ववशभगवानू॥सत्यसंधपालकश्रुतिसेतू॥

रामजन्मजगमंगलहेतू॥गुरुपितमातवचनअनुसारी
खलदलदलनदेवहितकारी॥नीतिप्रीतिपरमारथस्वारथ
कोउनरामसमजानयथारथ॥विधिहरिहरशशिरविदिशि
पाला॥मायाजीवकर्मकुलिकाला॥अहीपमहीपजहंल
गिप्रभुताई॥योगसिद्धिनिगमागमगाई॥करिविचारजिय
देखहुनीके॥रामरजाइशीससबहीके॥दो०॥राखेरामरजाइ
रुषहमसबकरहितहोइ॥समुझिसयानेकरहुअबसबमि
लिसम्मतसोइ॥१५६॥चौ०॥सबकहंसुखदरामअभिषेकू॥म
ंगलमोदमूलमगएकू॥केहिविधिअवधचलहिंरघुराई॥
कहहुसमुझिसोइकरियउपाई॥सबसादरसुनिमुनिवरबा
णी॥नयपरमारथस्वारथसानी॥उतरनआवलोगभेभोरे॥
तबशिरनाइभरतकरजोरे॥भानुवंशभेभूपघनेरे॥अधिक
एकतेंएकबडेरे॥जन्महेतसबकहंपितमाता॥करमशुभा
शुभदेइविधाता॥दलिदुखसजइसकलकल्याणा॥असअ
शीषराउरजगजाना॥सोगोसाईंविधिगतिजेइछेकी॥शकै
कोटारिटेकजोटेकी॥दो०॥बूझियमोहिउपायअबसोसबमो
रअभाग॥सुनिसनेहमयवचनगुरुउरउमगाअनुराग॥२५७
चौ०॥तातबातफुररामकृपाही॥रामविमुखसिधिसपनेहुना
ही॥सकुचौंतातकहतएकबाता॥अर्धतजहिंबुधसरबसजाता॥

दीपक राग

वन्हकानननगवनहुदोभाई॥फेरियलषणसीयरघुराई॥
सुनिसुभवचनहर्षदोभ्राता॥भेप्रमोदपरिपूरणगाता॥म
नप्रसन्नतनुतेजविराजा॥जनुजीयेराउरामभेराजा॥बहु
तलाभलोगन्हलघुहानी॥समदुखसुखसबरोवहिंरानी
कहहिंभरतमुनिकहासोकीन्हे॥फलजगजीवनअभिमत
दीन्हे॥काननकरौंजन्मभरिवासू॥इहितेअधिकनमोरसु
पासू॥दो०॥अन्तरजामीरामसियतुमसरवज्ञसुजान॥जो
फुरकहोतोनाथनिजकीजियबचनप्रमाण॥२५८॥चौ०॥
भरतवचनसुनिदेखिसनेहू सभासहितमुनिभएविदेहू
भरतमहामहिमाजलराशी॥मुनिमतिठाढितीरअवलासी
गाचहपारयतनहियहेरा॥पावतिनावनवोहितवेरा॥और
करहिकोभरतबडाई॥सरसिसीपकिसिंधुसमाई॥भरत
मुनिहिमनभीतरभाए॥सहितसमाजरामपहंआए॥प्रभु
प्रणामकरिदीन्हसुआसन॥बैठेसबसुनिमुनिअनुशास
न॥बोलेमुनिवरवचनविचारी॥देशकालअवसरअनुहारी
सुनहुरामसरवज्ञसुजाना॥धर्मनीतिगुणज्ञाननिधाना॥
दो०॥सबकेउरअन्तरवसहुजानहुभावकुभाव॥पुरजन
जननीभरतहितहोइसोकहियउपाय॥२५९॥चौ०॥आरतक
हहिंविचारिनकाऊ॥सुजजुआरिहिंआपनदाऊ॥सुनिमु

निवचनकहतरघुराऊ॥ नाथतम्हारेहिहाथउपाऊ॥ सबक
रहितरुषराउरराखे॥ आयसुकरियमुदितफुरभाषे॥ प्रथम।
जोआयसमोकहंहोई॥ माथेमानिकरौंशिखसोई॥ पुनिजेहि
कहंजसकहहिंगोसाई॥ सोसबभांतिकरिहिसेवकाई॥ कहमु
निरामसत्यतुमभाषा॥ भरतसनेहविचारनराषा॥ तेहितेंक
हउंबहोरिबहोरी॥ भरतभक्तिमममतिकृतभोरी॥ मोरेजान
भरतरुचिराखी॥ जोकीजियसोशुभशिवसाखी॥ दो०॥ भरत
विनयसादरसुनियकरियविचारबहोरि॥ करबसाधुमतलो
कमतनृपनयनिगमनिचोरि॥ २६०॥ चौ०॥ गुरुअनुरागभरत
परदेखी॥ रामहृदयआनन्दविशेषी॥ भरतहिंधर्मधुरन्धरजा
नी॥ नित्यसेवकतनुमानसबाणी॥ बोलेगुरुआयसुअनुकूला
वचनमंजुमृदुमङ्गलमूला॥ नाथशपथपितुचरणदोहाई॥।
भएउनभुवनभरतसमभाई॥ जेगुरुपदअम्बुजअनुरागी॥ तेलो
कहुंवेदहुंबडभागी॥ राउरजापरअसअनुरागू॥ कोकहिसकै।
भरतकरभागू॥ लखिलघुबन्धुबुद्धिसकुचाई॥ करतबदनप
रभरतबडाई॥ भरतकहहिंसोकियेभलाई॥ असकहिरामरहे
अरगाई॥ दो०॥ तबमुनिबोलेभरतसनसबसंकोचतजितात॥
कृपासिन्धुप्रियबन्धुसनकहहुहृदयकीबात॥ २६१॥ चौपाई॥
सुनिमुनिवचनरामरुषपाइ॥ गुरुसाहिबअनुकूलअघाई॥ ल

रामा०
अ०
७२

खिअपनेसिरसबछरभारू॥ कहिनसकहिंकछुकरबविचा
रू॥ पुलकशरीरसभाभएठाढे॥ नीरजनयननेहजलबाढे॥
कहबमोरमुनिनाथनिबाहा॥ इहितेंअधिककहौंमैंकाहा॥
मैंजानौनिजनाथसुभाऊ॥ अपराधिहुपरकोहनकाऊ॥ मो
परकृपासनेहविशेषी॥ खेलतखुनसकबहुंनहिदेषी॥ शि
शुपनतेंपरिहरेउंनसंगू॥ कबहुंनकीन्हमोरमनभंगू॥ मैंप्र
भुकृपारीतिजियजोही॥ हारेहुखेलजितावहिंमोही॥ दो०॥
मैंहूंसनेहसकोचवशसनमुखकहेनबयन॥ दरशनतृपि
नआजुलगिप्रेमपिआसेनयन॥ २६०॥ चौ०॥ बिधिनशकेउस
हिमोरदुलारा॥ नीचबीजननीमिसपारा॥ यहउकहतमोहि
आजनशोभा॥ आपनिसमुझिसाधुसुचिकोभा॥ मातमंद
मैंसाधुसुचाली॥ उरअसआनतकोटिकुचाली॥ फरेकिको
दोबालिसुशाली॥ मुक्ताप्रसवकिशंबुकताली॥ सपनेहुं
दोषकलेषनकाहू॥ मोरअभागउदधिअवगाहू॥ बिनुसमु
झेनिजअघपरिपाकू॥ जारेउजायजननिकहिकाकू॥ हृदयहे
रिहारेउंसबओरा॥ एकहिभांतिभलेहिभलमोरा॥ गुरुगोसां
ईसाहिबसियरामू॥ लागतमोहिनीकपरिणामू॥ दो०॥ साधु
सभाप्रभुगुरुनिकटकहौंसुथलसतिभाउ॥ प्रेमप्रपंचकिझुठ
फुरजानहिमुनिरघुराउ॥ २६१॥ चौ०॥ भूपतिमरणप्रेमपणरा

खी॥ जननी कुमति जगत सपु साखी॥ देखि न जाहिं बिकल
महतारी॥ जरहिं दुसह ज्वर पुर नर नारी॥ महीं सकल अनर
थकर मूला॥ सो सुनि समुझि सहेउं सब सूला॥ सुनि बन गम
न कीन्ह रघुनाथा॥ करि मुनि बेष लषण सिय साथा॥ बिनु पन
हीं अरु प्यादेहि पाए॥ शंकर साखि रहेउं इहि घाए॥ बहुरि नि
हारि निषाद सनेहू॥ कुलिश कठिन उर भयउ न बेहू॥ अब स
ब आंखिन्ह देखेउं आई॥ जियत जीव जड सबै सहाई॥ जिन्हहिं
निरषि मग सांपिनि बीछी॥ तजहिं बिषम बिष तामस तीछी॥
दो०॥ तेइ रघुनन्दन लषण सिय अनहित लागे जाहिं॥ तासु तन
य तजि दुसह दुख दैव सहावै काहि॥ २६४॥ चौ०॥ सुनि अति बिक
ल भरत बर बाणी॥ आरति प्रीति बिनय नय सानी॥ शोक मग
न सब सभा खभारू॥ मनहुं कमल बन परेउ तुषारू॥ कहि अने
क बिधि कथा पुराणी॥ भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी॥ बोले
उचित बचन रघुनन्दू॥ दिनकर कुल कैरव बन चंदू॥ तात जाय
जिय करहु गलानी॥ ईश अधीन जीव गति जानी॥ तीनि काल त्रि
भुवन मत मोरे॥ पुण्य श्लोक तात तब तोरे॥ उर आनत तुम पर
कुटिलाई॥ जाइ लोक परलोक नशाई॥ दोष देहिं जननिहिं
जड तेई॥ जिन्ह गुरु साधु सभा नहिं सेई॥ दो०॥ मिटहिं पाप पर
पंच सब अखिल अमंगल भार॥ लोक सुयश परलोक सुख सुमि

रतनामतुम्हार॥२६५॥ चौ०॥ कहौंसुभावसत्यशिवसाखी॥ भर
तभूमिरहराउरिराखी॥ तातकुतर्ककरहुजनिजाए॥ वैरप्रेमन
हिंदुरैदुराए॥ मुनिगणनिकटविहगमृगजाहीं॥ बाधकबधि
कविलोकिपराहीं॥ हितअनहितपशुपंछिउजाना॥ मानुषत
नुगुणज्ञाननिधाना॥ ताततुम्हहिंमैजानउनीके॥ करौंकाहअ
समंजसजीकें॥ राखेउराउसत्यमोहित्यागी॥ तनपरिहरेउप्रे
मपणलागी॥ तासुवचनमेंटतमनशोचू॥ तेहितेंअधिकतुम्हा
रसंकोचू॥ तापरगुरुमोहिआयसुदीन्हा॥ अवशिजोकहहुचहौं
सोकीन्हा॥ दो०॥ मनप्रसन्नकरिसकुचतहिकहहुकरौंसोआज
सत्यसिंधुरघुवरवचनसुनिभासुखीसमाज॥२६६॥ चौ०॥ सुर
गणसहितसभयसुरराजू॥ शोचतचाहतहोनअकाजू॥ करत
विचारवनतकछुनाहीं॥ रामशरणसबगेमनमाहीं॥ बहुरिवि
चारिपरस्परकहहीं॥ रघुपतिभक्तभक्तिवशअहहीं॥ सुधिक
रिअंबरीषदुर्वासा॥ भेसुरसुरपतिनिपटनिराशा॥ सहेसुरन्ह
बहुकालविषादा॥ नरहरिकिएप्रगटप्रहलादा॥ लगिलगि
कानकहहिंधुनिमाथा॥ अवसुरकाजभरतकेहाथा॥ आनउप
यनदेखियदेवा॥ मानतरामसुसेवकसेवा॥ हियसप्रेमसेवहु
सबभरतहि॥ निजगुणशीलरामवशकरतहि॥ दोहा॥ सुनि
सुरमतसुरगुरुकहेउभलतुम्हारबड़भाग॥ सकलसुमंगल

मूलजगभरतचरणअनुरागा॥२९७॥चौ०॥सीतापतिसेवक
सेवकाई॥कामधेनुसमसरिससुहाई॥भरतभक्तितुम्हरेमन
आई॥तजहुशोचविधिबातबनाई॥देखुदेवपतिभरतप्रभाऊ
सहजसुभावविवशरघुराऊ॥मनथिरकरहुदेवडरनाहीं॥भ
रतहिजानिरामपरछांहीं॥सुनिसुरगुरुसुरसंमतशोचू॥अं
तरजामीप्रभुहिसंकोचू॥निजशिरभारभरतजियजाना॥क
रतकोटिविधिउरअनुमाना॥करिविचारमनदीन्हठीका॥
रामरजायसुआपननीका॥निजपणतजिराखेउपनमोरा॥
छोहसनेहकीन्हनहिंथोरा॥दो०॥कीन्हअनुग्रहअमितअति
सबविधिसीतानाथ॥करिप्रणामबोलेभरतजोरिजलजयुगहा
थ॥२९८॥चौ०॥कहउंकहावउंकाअबस्वामी॥कृपाअंबुनिधि
अन्तरयामी॥गुरुप्रसन्नसाहिबअनुकूला॥मिटीमलीनमन
कलपितसूला॥अपडरडरेउंनशोचसमूला॥रविहिनदोषदेव
दिशाभूला॥मोरअभागमातुकुटिलाई॥विधिगतिविषम
कालकठिनाई॥पांवरोपिसबमिलिमोहिघाला॥प्रणतपा
लपणआपनपाला॥यहनईरीतिनराउरिहोई॥लोकहुंवेद
विदितनहिंगोई॥जगअनभलभलएकगोसांई॥कहियहो
इभलकासुभलाई॥देवदेवतरुसरिससुभाऊ॥सनमुखविमु
खनकाहुहिकाऊ॥दो०॥जाइनिकटपहिचानितरुछांहशमन

रामा० अ० ७४

सबशोच॥ मांगतअभिमतपावजगराउरंकभलपोच॥ २६९

चौ०॥ लखिसबविधिगुरुस्वामिसनेहू॥ मिटेउछोभनहिंमनसंदेहू॥ अबकरुणाकरकीजियसोई॥ जनहितप्रभुचितछोभनहोई॥ जोसेवकसाहिबहिंसंकोची॥ निजहितचहैतासुमतिपोची॥ सेवकहितसाहिबसेवकाई॥ करैसकलसुखलोभविहाई॥ स्वारथनाथफिरेंसबहीका॥ किएरजाइकोटिविधीनीका॥ इहस्वारथपरमारथसारू॥ सकलसुकृतफलसुगतिशिंगारू॥ देवएकविनतीसुनिमोरी॥ उचितहोइतसकरबबहोरी॥ तिलकसमाजसाजिसबआना॥ करियसुफलप्रभुजौमनमाना॥ दो०॥ सानुजपठइयमोहिवनकीजियसबहिंसनाथ॥ नतरुफेरियबन्धुदोउनाथचलौंमैंसाथ॥ २७०

चौ०॥ नतरुजाहिंवनतीनिउभाई॥ बहुरियसीयसहितरघुराई॥ जेहिंविधिप्रभुप्रसन्नमनहोई॥ करुणासागरकीजियसोई॥ देवदीन्हसबमोपरभारू॥ मोरेनितिनधर्मविचारू॥ कहौंवचनसबस्वारथहेतू॥ रहतनआरतकेचितचेतू॥ उतरदेइसुनिस्वामिरजाई॥ सोसेवकलखिलाजलजाई॥ असमैंअवगुणउदधिअगाधू॥ स्वामिसनेहसराहतसाधू॥ अबकृपालमोहिसोमतभावा॥ सकुचस्वामिमनजाइनपावा॥ प्रभुपदशपथकहौंसतिभाऊ॥ जगमंगलहितएकउपाऊ॥ दो०॥

74

प्रभुप्रसन्नमनसकुचतजिजोजेहिआयसुदेव॥ सोसि
रधरिधरिकरहिंसबमिटिहिअनटअवरेब॥२७१॥ चौ०॥
भरतबचनसुनिमुनिहियहरषे॥ साधुसराहिसुमनसुर
बरषे॥ असमंजसबसअवधनिवासी॥ प्रमुदितमनतापस
बनवासी॥ चुपरहिगेरघुनाथसंकोची॥ प्रभुगतिदेखिस
भासबसोची॥ जनकदूततेहिअवसरआए॥ मुनिवशिष्ठ
सुनिबेगिबुलाए॥ करिप्रणामतिन्हरामनिहारे॥ बेषदे
खिभेनिपटदुखारे॥ दूतहिंमुनिबरबूझीबाता॥ कहहुबि
देहभूपकुशलाता॥ सुनिसकुचाइनाइमहिमाथा॥ बोले
चरबरजोरेंहाथा॥ बूझबराउरसादरसांई॥ कुशलहेतुसो
भयेगोसांई॥ दो०॥ नाहितकोशलनाथकेसाथकुशलगै॥
नाथ॥ मिथिलाअवधविशेषतेंजगसबभयउअनाथ॥२७२
चौ०॥ कोशलपतिगतिसुनिजनकोरा॥ भेसबलोगशोकव
शबौरा॥ जेहिदेखातेहिसमयविदेहू॥ नामसत्यअसलाग
नकेहू॥ रानिकुचालिसुनतमहिपालहिं॥ सूझनककुज
समणिबिनुब्यालहिं॥ भरतराजरघुबरबनबासू॥ भामि
थिलेशहृदयहरासू॥ नृपबूझेबुधसचिवसमाजू॥ कह
हुविचारिउचितकाआजू॥ समुझिअवधअसमंजसदोऊ॥
चलियकिरहियनकहकछुकोऊ॥ नृपतिधीरधरिहृदयवि

चारी॥ पठयेअवधचतुरचरचारी॥ बूझिभरतसतभाउकुभा
ऊ॥ आयेहुबेगिनहोइलषाऊ॥ दो०॥ गयेअवधचरभरतग
तिबूझिदेखिकरतूति॥ चलेचित्रकूटहिभरतचारचलेति
रहूति॥ २७३॥ चौ०॥ दूतन्हआइभरतकीकरणी॥ जनकस
माजयथामतिवरणी॥ सुनिगुरुपरिजनसचिवमहीपति॥
भेसबशोचसनेहविकलअति॥ धरिधीरजकरिभरतबडाई
लिएसुभटसाहनीबुलाई॥ घरपुरदेशराखिरखवारे॥ हय
गजरथबहुयानसंवारे॥ दुघरीसाधिचलेततकाला॥ कि
यविश्रामनमगमहिपाला॥ भोरहिंआजुनहाइप्रयागा॥
चलेयमुनउतरनसबलागा॥ खबरिलेनहमपठएनाथा॥
तिन्हकहिअसमहिनायेउमाथा॥ साथकिरातछसातकदी
न्हे॥ मुनिवरतुरतविदाचरकीन्हे॥ दो०॥ सुनतजनकआगम
नसबहर्षेउअवधसमाज॥ रघुनन्दनहिंसंकोचबडशोच
विवशसुरराज॥ २७४॥ चौ०॥ गरइगलानिकुटिलकैकेयी
काहिकहैकेहिदूषणदेई॥ असमनआनिमुदितनरनारी॥
भयेउबहोरिरहबदिनचारी॥ एहिप्रकारगतवासरसोऊ॥ प्रा
तनहानलागसबकोऊ॥ करिमज्जनपूजहिंनरनारी॥ गण
पतिगौरित्रिपुरारितमारी॥ रमारमणपदवंदिबहोरी॥ विन
वहिंअंजलिअंचलजोरी॥ राजारामजानकीरानी॥ आनन्दअ

बधिअवधपरजथानी॥ सवबशावसहिंफिरिसहितसमाजा
भरतहिंरामकरहिंयुवराजा॥ इहिसुखसुधासींचिसबका
हू॥ देवदेहुजगजीवनलाहू॥ दो०॥ गुरुसमाजभाइन्हसहि
तरामराजपुरहोउ॥ अछतरामराजाअवधमरियमांगस
बकोउ॥ २७५॥ चौ०॥ सुनिसनेहमयपुरजनबाणी॥ निंदहिं
योगविरतिमुनिज्ञानी॥ इहिविधिनित्यकर्मकरिपुरजनू
रामहिंकरहिंप्रणामपुलकितनू॥ ऊंचनीचमध्यमनरना
री॥ लहहिंदरशनिजनिजअनुहारी॥ सावधानसबही
सनमानहिं॥ सकलसराहतकृपानिधानहिं॥ लरिकाई
तेंरघुबरबाणी॥ पालतनीतिप्रीतिपहिचानी॥ शीलसको
चसिंधुरघुराऊ॥ सुमुखसुलोचनसरलसुभाऊ॥ कहत
रामगुणगणअनुरागे॥ सबनिजभागसराहनलागे॥ ह
मसमपुण्यपुञ्जजगथोरे॥ जिनहिंरामजानतकरिमोरे॥
दो०॥ प्रेममगनतेहिसमयसबसुनिआवतमिथिलेश॥ स
हितसभासंभ्रमउठेरविकुलकमलदिनेश॥ २७६॥ चौ०॥ भा
इसचिवगुरुपुरजनसाथा॥ आगेगवनकीन्हरघुनाथा॥ गि
रिवरदीखजनकनृपजबही॥ करिप्रणामरथत्यागेउतबही॥
रामदरशलालसाउछाहू॥ पथश्रमलेशकलेशनकाहू॥ म
नतहंजहंरघुबरवैदेही॥ विनुमनतनदुखसुखसुधिकेही

रामा॰
अ॰
७५
76

आवतजनकचलेइहिभांति॥ सहितसमाजप्रेममतिमांती
आपनिकटदेखिरघुराये॥ सादरमिलनपरस्परलागे॥ लगे
जनकमुनिगणपदवन्दन॥ ऋषिन्हप्रणामकीन्हरघुनन्दन
भाइनसहितराममिलिराजहिं॥ चलेलवाइसमेतसमाजहिं
दो॰॥ आश्रमसागरशांतरसपूरणपावनपाथ॥ सैनमनहुंक
रुणसरितलिएजातरघुनाथ॥ २७७॥ चौ॰॥ तीरतिज्ञानवि
रागकरारे॥ वचनसशोकमिलतनदनारे॥ शोचउसांससमी
रतरंगा॥ धीरजतटतरुवरकरभंगा॥ विषमविषादतरावति
धारा॥ भयभ्रमभंवरआवर्तअपारा॥ केवटबुद्धिविद्यापडिना
वा॥ सकहिंनखेइएकनहिआवा॥ वनचरकोलकिरातविचा
रे॥ थकेविलोकिपथिकहियहारे॥ आश्रमउदधिमिलीजब
जाई॥ मनहुंउठेअम्बुधिअकुलाई॥ शोकविकलदोंराजसमा
जा॥ रहानज्ञाननधीरजलाजा॥ भूपरूपगुणशीलसराही॥
रोवहिंशोकसिंधुअवगाही॥ छन्द॥ अवगाहिशोकसमुद्रशो
चहिंनारिनरव्याकुलमहा॥ देदोषसकलसरोषबोलहिंवा
मविधिकीन्होकहा॥ २१॥ सुरसिद्धतापसयोगिजनमुनिदशा
देखिविदेहकी॥ तुलसीनसमरथकोउजोतरिशकैसरितस
नेहकी॥ २२॥ सोरठा॥ किएअमितउपदेशजहंतहंलोगन्हमु
निवरन्ह॥ धीरजधरियनरेशकहेउवशिष्ठविदेहसन॥ २७८

चौ० ॥ जासुज्ञानरविभवनिशिनाशा ॥ वचनकिरणमुनिकम
लविकाशा ॥ तेहिकिमोहममतानियराई ॥ यहसियरामस
नेहबडाई ॥ विषयीसाधकसिद्धसयाने ॥ त्रिविधजीवजगवे
दवखाने ॥ रामसनेहसरसमनजासू ॥ साधुसभाबडआदरता
सू ॥ सोहनरामप्रेमविनुज्ञाना ॥ कर्णधारविनुजिमिजलयाना ॥
मुनिबहुविधिविदेहसमझाए ॥ रामघाटसबलोगअन्हाए ॥
सकलशोकसंकुलनरनारी ॥ सोवासरबीतेउविनुवारी ॥ प
सुखगमृगनिनकीन्हअहारा ॥ प्रियपरिजनकरकवनविचा
रा ॥ दो० ॥ दोउसमाजमिलिराजरघुराजनहानेप्रात ॥ बैठेस
बवटविटपतरमनमलीनकृशगात ॥ २७६ ॥ चौ० ॥ जेमहिसु
रदशरथपुरवासी ॥ जेमिथिलापतिनगरनिवासी ॥ हंसवं
शगुरुजनकपुरोधा ॥ जिन्हजगमगपरमारथशोधा ॥ लगे
कहनउपदेशअनेका ॥ सहितधर्मनयविरतिविवेका ॥ कौ
शिककहिकहिकथापुराणी ॥ समुझाईसबसभासुबाणी ॥
तबरघुनाथकौशिकहिकहेऊ ॥ नाथकालिजलविनुसबर
हेऊ ॥ मुनिकहउचितकहतरघुराई ॥ गयउबीतिदिनपहर
अढाई ॥ ऋषिरुखलखिकहतिरहुतिराजू ॥ इहांउचितनहिं
अशनअनाजू ॥ कहाभूपभलसबहिंसोहाना ॥ पाइरजायस
चलेनहाना ॥ दो० ॥ तेहिअवसरफलफूलदलमूलअनेकप्र

कार॥लेआएवनचरविपुलभरिभरिकावरिभार॥२८०॥
चौ०॥कामदभेगिरिरामप्रसादा॥अवलोकतअपहरतवि
षादा॥सरसरितावनभूमिविभागा॥जनुउमगतआनन्दअ
नुरागा॥बेलिविटपसबसफलसफूला॥बोलतखगमृग
अलिअनुकूला॥तेहिअवसरवनअधिकउछाहू॥त्रिविधस
मीरसुखदसबकाहू॥जाइनवरणिमनोहरताई॥जनुमहि
करतजनकपहुनाई॥तबसबलोगनहाइनहाई॥रामज
नकमुनिआयसुपाई॥देखिदेखितरुवरअनुरागे॥जहँत
हँपुरजनउतरनलागे॥दलफलफूलकन्दविधिनाना॥पा
वनसुन्दरसुधासमाना॥दो०॥सादरसबकहँरामगुरुपठएभ
रिभरिभार॥पूजिपितरसुरगुरुअतिथिलगेकरणफला
हार॥२८१॥चौ०॥इहिविधिवासरबीतेचारी॥रामनिरखिनर
नारिसुखारी॥दुहुसमाजअसरुचिमनमाहीं॥विनुसिय
रामफिरवभलनाहीं॥सीतारामसंगवनवासू॥कोटिअम
रपुरसरिससुपासू॥परिहरिलषणरामवैदेही॥जेहिघ
रभाववामविधितेही॥दाहिनदैवहोइजबसबही॥रामस
मीपवसियवनतबही॥मन्दाकिनिमज्जनतिहुकाला॥रा
मदरशमुदमङ्गलमाला॥अटनरामगिरिवनतापसथल
असनअमियसमकन्दमूलफल॥सुखसमेतसंवतदुइसाता

पलसमहोंहिनजानीयजाता॥दो॰॥ यहिसुखयोगनलोगसब
कहहिंकहांअसभाग॥ सहजसुभावसमाजदुहुंरामचरणअनुरा
ग॥२८२॥चौ॰॥ इहिविधिसकलमनोरथकरहीं॥ वचनसप्रेमसुन
तमनहरहीं॥ सीयमातुतेहिसमयपठाई॥ दासीदेखिसुअवसर
आई॥ सावकाशसुनिसबसियसासू॥ आयउजनकराजरनिवासू॥
कौशल्यासादरसनमानी॥ आसनदीन्हसमयसबजानी॥ शील
सनेहसरसदुहुंओरा॥ द्रवहिंदेखिसुनिकुलिशकठोरा॥ पुलक
शिथिलतनुवारिविलोचन॥ महिनखलिखनलगीसबशोचन॥
सबसियरामप्रेमकीमूरति॥ जनुकरुणाबहुवेषविसूरति॥ सीय
मातुकहविधिबुधिबांकी॥ जिमिपयफेनुफोरपविटांकी॥दो॰॥
सुनियसुधादेखियगरलसबकरतूतिकराल॥ जहंतहंकाकउ
लूकवकमानससकृतमराल॥२८३॥चौ॰॥ सुनिसशोचकहदे
विसुमित्रा॥ विधिगतिअतिविपरीतविचित्रा॥ जोसृजिपालइह
रइबहोरी॥ बालकेलिसमविधिमतिमोरी॥ कौशल्याकहदोषन
काहू॥ कर्मविवशदुखसुखछतिलाहू॥ कठिनकर्मगतिजानवि
धाता॥ जोशुभअशुभकर्मफलदाता॥ ईशरजाइशीशसबहीके
उतपतिस्थितिलयविषहुअमीके॥ देविमोहवशशोचियवादी
विधिप्रपंचअसअचलअनादी॥ भूपतिजियवमरवउरआनी॥ शो
चियसखिलखिनिजहितहानी॥ सीयमातुकहसत्यसुवाणी॥ सु

रामा॰
अ॰
७८

कृतअवधिअवधतिपरानी॥ दो॰॥ लषणरामसियजांहिंवनभ
लिपरिणामनपोच॥गहवरिहियकहकौशल्यामोहिभरतकर
शोच॥२८४॥ चौ॰॥ ईशप्रसादअशीषतझारी॥ सुतसुतवधुदे
वसरिवारी॥ रामसपथमैकीन्हिनकाऊ॥ सोकरिसखीकहौस
तिभाऊ॥भरतशीलगुणविनयबडाई॥ भायपभक्तिभरोसभा
लाई॥ कहतशेषशारदमतिहीचे॥ सागरसीपकिकरन्हउली
चे॥ जानौसदाभरतकुलदीपा॥ बारबारमोहिकहेउमहीपा॥
कसैकनकमणिपारिषपाए॥पुरुषपरीखियसमयसुभाए॥
अनुचितआजुकहबअसमोरा॥ शोकसनेहसयानपथोरा॥ सु
निसुरसरिसमपावनिबाणी॥ भईसनेहविकलसबरानी॥ दो॰
कौशल्याकहिधीरधरिसुनहुदेविमिथिलेषि॥ कोविवेकनि
धिवल्लभहिंतमहिंसकैउपदेषि॥२८५॥ चौ॰॥ रानिरायसन
अवसरपाई॥ आपनिभांतिकहबसमुझाई॥ राखियलषणभर
तगवनहिवन॥ जोयहमतमानैमहीपमन॥ तोभलयतनकरब
सुविचारी॥ मोरेंशोचभरतकरभारी॥ गूढसनेहभरतमनमांही
रहेनीकमोहिलागतनाहीं॥ लखिसुभावसुनिसरलसुबाणी
सबभइमगनकरुणारसमानी॥ नभप्रसूनझरिधन्यधन्यध्वनि
शिथिलसनेहसिद्धयोगीमुनि॥ सबरनिवांसविथकिलखिरहे
ऊ॥ तबधरिधीरसुमित्राकहेऊ॥ देविदण्डयुगयामिनिबीनी॥

राममातसुनिउठीसप्रीती॥दो॥बेगिपायधारिअथलहिं
कहिसनेहसतिभाय॥हमरेंतवअबईशगतिकेमिथिलेश
सहाय॥२८६॥चौ॥लषिसनेहसुनिवचनविनीता॥जनक
प्रियागहिपांयपुनीता॥देविउचितअसविनयतुह्मारी॥द
शरथघरणिराममहतारी॥प्रभुअपनेनीचहुंआदरहीं॥अ
ग्निधुमगिरिशिरतृणधरहीं॥सेवकराउकर्ममनवाणी॥स
दासहायमहेशभवानी॥रौरेअंगयोगजगकोहै॥दीपसहा
यकिदिनकरसोहै॥रामजाईवनकरिसुरकाजू॥अचलअ
वधपुरकरिहहिंराजू॥अमरनागनररामबाहुबल॥सुख
वसिहहिंअपनेअपनेथल॥इहसबयाज्ञवल्ककहिराखा॥
देविनहोईमुधामुनिभाषा॥दो॥असकहिपदपरिप्रेमअति
सियहितविनयसुनाइ॥सियसमेतसियमाततवचलीसुआ
यसुपाइ॥२८७॥चौ॥प्रियपरिजनहिंमिलिवैदेही॥जोजे
हियोगभांतितिहिंतेही॥तापसवेषजानकिहिंदेषी॥भेसब
विकलविषादविशेषी॥जनकरामगुरुआयसुपाई॥चलेथ
लहिसियदेखेउआई॥लीन्हिलाइउरजनकजानकी॥पाहुनि
पावनिप्रेमप्राणकी॥उरउमगेउअंबुधिअनुरागू॥भयउभु
पमनमनहुंप्रयागू॥सीयसनेहवटबाढतजोहा॥तापररामप्रे
मशिशुसोहा॥चिरंजीविमुनिज्ञानविकलजनु॥बूडतलहेउ।

बालअबलबढ़॥ मोहमगनमतिनहिंविदेहकी॥ महिमा
सीयरघुबरसनेहकी॥ दो०॥ सियपितुमातुसनेहवशविक
लनशकेसंभारि॥ धरणिसुताधीरजधरेउसमयसुधर्मवि
चारि॥२८८॥ चौ०॥ तापसवेषजनकसियदेखी॥ भयउप्रेमपरि
तोषविशेषी॥ पुत्रिपवित्रकिएकुलदोऊ॥ सुयशधवलजग
कहसबकोउ॥ जितिसुरसरिकीरतिसरितोरी॥ गवनकीन्ह
विधिअंडकरोरी॥ गंगअवनिथलतीनिबडेरे॥ इहिंकिए
साधुसमाजघनेरे॥ पितुकहसत्यसनेहसुबाणी॥ सीयसं
कुचमहंमनहुंसमानी॥ पुनिपितुमातुलीन्हउरलाई॥ सिख
आसिषहितदीन्हिसुहाई॥ कहतिनसंकुचितमनमाहीं॥ इ
हांवसबरजनीभलनाहीं॥ लखिरुखिरानिजनायउराऊ॥
हृदयसराहतशीलसुभाऊ॥ दो०॥ बारबारमिलिभेंटिसिय
विदाकीन्हसनमानि॥ कहीसमयशिरभरतगतिरानिसुबा
णिसयानी॥२८९॥ चौ०॥ सुनिभूपालभरतव्यवहारू॥ स्वर्ण
सुगंधसुधाशशिसारू॥ मूंदेसजलनयनपुलकेतन॥ सुय
शसराहनलगेमुदितमन॥ सावधानसुनुसुमुखिसुलोचनि
भरतकथाभवबंधविमोचनि॥ धर्मराजनयब्रह्मविचारू॥ इहां
यथामतिमोरप्रचारू॥ सोमतिमोरिभरतमहिमाहीं॥ कहैका
छलछुअतिनछांहीं॥ विधिगणपतिअहिपतिशिवशारद॥

कविकोविदबुधबुद्धिविशारद॥भरतचरितकीरतिकरतूती
धर्मशीलगुणविमलविभूती॥समुझतसुनतसुखदसबका
हू॥सुचिसुरसरिरुचिनिदरसुधाहू॥दो०॥निरवधिगुणनि
रुपमपुरुषभरतभरतसमजानि॥कहियसुमेरुकिसेरसम
कविकुलमतिसकुचानि॥२९०॥चौ०॥अगमसबहिवरणतव
रवरणी॥जिमिजलहीनमीनगणधरणी॥भरतअमितमहि
मासुनुरानी॥जानहिंरामनशाकहिंवखानी॥वरणिसप्रेम
भरतअनुभाउ॥तियजियकीरुचिलखिकहराऊ॥बहुरहिंल
षणभरतवनजाही॥सबकरभलसबकेमनमांही॥देविप
रंतुभरतरघुवरकी॥प्रीतिप्रतीतिजाइनहिंतरकी॥यद्यपिरा
मसीमसमताके॥भरतअवधिसनेहममताके॥परमारथस्वा
रथसुखसारे॥भरतसपनेहुंमनहुंनिहारे॥साधनसिद्धराम
पदनेहु॥मोहिलखिपरतभरतमतिएहू॥दो०॥भोरेहुभरतन
वोलहहिंमनसहुरामरजाइ॥करियनशोचसनेहवशकहेउभू
पविलखाइ॥२९१॥चौ०॥रामभरतगुणगणतसप्रीती॥निसि
दंपतिहिंपलकसमवीती॥रामसमाजप्रातयुगजागे॥न्हाइन्हा
इसुरपूजनलागे॥गेनहाइगुरुपहिंरघुराई॥वन्दिचरणबो
लेरुषपाई॥नाथभरतपुरजनमहतारी॥शोकविकलवनवा
सदुखारी॥सहितसमाजराउमिथिलेसू॥वहुतदिवसभेसह

रामा० अ० ८०

तकलेसू॥ उचित होइ सो कीजिय नाथा॥ हित सबही कर रौरे हाथा॥ अस कहि अति सकुचे रघुराऊ॥ मुनि पुलके लखि शील सुभाऊ॥ तुम बिनु राम सकल सुख साजा॥ नरक सरिस दुहुं राज समाजा॥ दो०॥ प्राण प्राण के जीय जीय के सुख के सुख तु म राम॥ तुम तजि तात सोहान गृह जिन्हहिं तिन्हहिं विधि वाम २९२॥ चौ०॥ सो सुख करम धरम जरि जाऊ॥ जहं न राम पद पंकज भाऊ॥ योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू॥ जहां न राम प्रेम परधानू॥ तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेही॥ तुम जानहु जिय जो जेहि केही॥ राउर आयसु शिर सबही के॥ विदित कृपालहिं गति सब नीके॥ आपु आश्रमहिं धारिय पाऊ॥ भयउ सनेह शिथिल मुनिराऊ॥ करि प्रणाम तब राम सिधाए॥ ऋषि धरि धीर जनक पहिं आए॥ राम वचन गुरु नृपहिं सुनाए॥ शील सनेह सुभाव सुहाए॥ महाराज अब कीजिय सोई॥ सब कर धर्म सहित हित होई॥ दो०॥ ज्ञान निधान सुजान शुचि धर्मधीर नरपाल॥ तुम बिनु अस मंजस समन को समर्थ एहिं काल॥ २९३॥ चौ०॥ सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे॥ लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥ शिथिल सनेह गुणत मन मांही॥ आए इहां कीन्ह भल नाहीं॥ रामहिं राउ कहेउ वन जाना॥ कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रमाणा॥ हम अब वन तें वनहिं पठाई॥ प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई॥ तापस मुनि म

हिसुरसुनिदेखी॥भएप्रेमवशविकलविशेषी॥समयस
मुझिधरिधीरजराजा॥चलेभरतपहिंसहितसमाजा॥भर
तआयआगेंहोयलीन्हे॥अवसरसरिससुआसनदीन्हे॥ता
तभरतकहतिरहुतिराऊ॥तुमहिंविदितरघुवीरसुभाऊ॥
दो०॥रामसत्यब्रतधर्मरतसबकरशीलसनेहु॥संकटसहत
संकोचवशचहियसोआयसुदेहु॥२९४॥चौ०॥सुनितनुपुलकि
नयनभरिवारी॥बोलेभरतधीरधरिभारी॥प्रभुप्रियपूज्य
पितासमआपू॥कुलगुरुसमहितमायनबापू॥कौशिका
दिमुनिसचिवसमाजू॥ज्ञानअंबुनिधिआपुनआजू॥शि
शुसेवकआयसुअनुगामी॥जानिमोहिशिखदेइयस्वामी॥
इहिसमाजथलबूझबराउर॥मनमलीनमैंबोलतबाउर॥
छोटेबदनकहौंबडिबाता॥छमबतातलखिवामविधाता॥
आगमनिगमप्रसिद्धपुराणा॥सेवाधर्मकठिनजगजाना॥
स्वामीधर्मस्वारथहिविरोधू॥वैरअंधप्रेमहिंनप्रबोधू॥दो०॥
राखिरामरुखधर्मब्रतपराधीनमोहिजानि॥सबकेसंमतसर्व
हितकरियप्रेमपहिचानि॥२९५॥चौ०॥भरतवचनसुनिदेखि
सुभाऊ॥सहितसमाजसराहतराऊ॥सुगमअगममृदुमंजु
कठोरे॥अर्थअमितअतिआखरथोरे॥ज्यौंमुखमुकुरमुकुरनि
जपाणी॥गहिनजाइअसअद्भुतवाणी॥भूपभरतमुनिसाथस
माजू॥गेजहंविबुधकुमुदद्विजराजू॥सुनिसुधिशोचविकल

सबलोगा॥ मनहुंमीनगणनवजलयोगा॥ देवप्रथमकुल
गुरुगतिदेषी॥ निरखिविदेहसनेहविशेषी॥ रामभक्तिमय
भरतनिहारे॥ स्वरस्वारथीहहरिहियहारे॥ सबकोउरामप्रे
ममयपेखा॥ भयउअलेखशोचवशलेखा॥ दो०॥ रामसनेह
संकोचवशकहसशोचसुरराज॥ रचहुप्रपंचहिंपंचमिलि
नाहितभयउअकाज॥ २९६॥ चौ०॥ सुरन्हिसुमिरिशारदास
राही॥ देविदेवशरणागतपाही॥ फेरिभरतमतिकरिनिज॥
माया॥ पालुविबुधकुलकरिछलछाया॥ विबुधविनयसु
निदेविसयानी॥ बोलीसुरस्वारथजडजानी॥ मोसनकहहु
भरतमतिफेरू॥ लोचनसहसनसूझसुमेरू॥ विधिहरिह
रमायावडिभारी॥ सोनभरतमतिशकैनिहारी॥ सोमतिमो
हिकहतकरुभोरी॥ चांदनिकरैकिचन्द्रकरचोरी॥ भरतहृ
दयसियरामनिवासू॥ तहंकितिमिरजहंतरणिप्रकासू॥
असकहिशारदगइविधिलोका॥ विबुधविकलनिशिमान
हुकोका॥ दो०॥ सुरस्वारथीमलीनमनकीन्हकुमंत्रकुठाट॥
रचिप्रपंचमायाप्रबलभयभ्रमआरतिउचाट॥ २९७॥ चौ०॥ करि
कुचालिशोचतसुरराजू॥ भरतहाथसबकाजअकाजू॥ गए
जनकरघुनाथसमीपा॥ सनमानेसबरघुकुलदीपा॥ समय
समाजधर्मअविरोधा॥ बोलेतबरघुवंशपुरोधा॥ जनकभरत
संवादसुनाई॥ भरतकहाउतिकहीसुहाई॥ तातरामजसआय

सुदेहू॥ सो सब करै मोर मत एहू॥ सुनि रघुनाथ जोरि जुग पा
णी॥ बोले सत्य सरल मृदु बाणी॥ विद्यमान आश्रम मिथिलेसू॥
मोर कहब सब भांति भदेसू॥ राउर राय रजायसु होई॥ राउरि श
पथ सही सिर सोई॥ दो०॥ राम शपथ सुनि मुनि जनक सकुचे
सभा समेत॥ सकल विलोकहिं भरत मुख बनै न उतर देत॥ २९५
चौ०॥ सभा सकुचवश भरत निहारी॥ रामबंधु धरि धीरज भारी॥
कुसमय देखि सनेह संभारा॥ बढ़त विंध्य जिमि घटज निवारा॥
शोक कनकलोचन मति छोणी॥ हरी विमल गुणगण जगयोनी॥
भरत विवेक वराह विशाला॥ अनायास उधरी तिहि काला॥ क
रि प्रणाम सब कहं कर जोरे॥ राम राउ गुरु साधु निहोरे॥ छम
ब आजु अति अनुचित मोरा॥ कहउं बदन मृदु बचन कठोरा॥
हृदय सुमिरि शारदा सुहाई॥ मानस तें मुख पंकज आई॥ विम
ल विवेक धर्म नय शाली॥ भरत भारती मंजु मराली॥ दो०॥ नि
रखि विवेक विलोचनन्हि शिथिल नेह समाज॥ करि प्रणाम
बोले भरत सुमिरि सीय रघुराज॥ २९६॥ चौ०॥ प्रभु पितु मात सु
हृद गुरु स्वामी॥ पूज्य परम हित अंतरजामी॥ सरल सुसाहि
ब शील निधानू॥ प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानू॥ समरथ शरणा
गत हितकारी॥ गुणग्राहक अवगुण अघहारी॥ स्वामि गोसां
ईंहि सरिस गोसांई॥ मोहि समान मैं स्वामि दोहाई॥ प्रभु पितु ब
चन मोहवश पेली॥ आयउं इहां समाज सकेली॥ जग भल पोच

ऊंचअरुनीचू॥अमियअमरपदमाहुरमीचू॥रामरजायमे
टिमनमाहीं॥देखासुनाकतहुंकोउनाहीं॥सोमैंसबविधि
कीन्हिढिठाई॥प्रभुमानीसनेहसेवकाई॥दो०॥कृपाभला
ईअपनीनाथकीन्हभलमोर॥दूषणभेभूषणसरिससुय
शचारुचहुंओर॥३००॥चौ०॥राउरिरीतिसुबाणिबडाई॥
जगतविदितनिगमागमगाई॥कूरकुटिलखलकुमतिक
लंकी॥नीचनिःशीलनिरीशनिशंकी॥तेसुनिशरणसामु
हेंआए॥सकृतप्रणामकिएअपनाए॥देखिदोषकबहुंनउ
रआने॥सुनिगुणसाधुसमाजबखाने॥कोसाहिबसेवक
हिनिवाजी॥आपुसमानसाजसबसाजी॥निजकरतूतिन
समुझियसपने॥सेवकसंकुचशोचउरअपने॥सोगोसांइन
हिंदूसरकोपी॥भुजाउठाइकहौंपणरोपी॥पशुनाचतशुक
पाठप्रवीणा॥गुणगतिनटपाठकआधीना॥दो०॥यौंसुधा
रिसनमानिजनकिएसाधुशिरमोर॥कोकृपालविनुपालि
हैविरुदावलिबरजोर॥३०१॥चौ०॥शोकसनेहकिबालसु
भाए॥आयउंलाइरजायसुबाए॥तबहुंकृपालहेरिनिजओ
रा॥सबहिंभांतिभलमानेउमोरा॥देखेउंपायसुमंगलमूला॥
जानेउंस्वामिसहजअनुकूला॥बडेसमाजविलोकेउभागू॥
बडीचूकसाहिबअनुरागू॥कृपाअनुग्रहअंगुअघाई॥कीन्हि
कृपानिधिसबअधिकाई॥राखामोरदुलारगोसांई॥अपनेशी

लसुभावभलाई॥नाथनिपटमैंकीन्हिढिठाई॥स्वामिसमा
जसंकोचविहाई॥अविनयविनययथारुचिवाणी॥छमिय
देवअतिआरतजानी॥दो०॥सुहृदसुजानसुसाहिवहिंव
हुतकहववडिखोरि॥आयसुदेइयदेवअवसवहिंसुधारिय
मोरि॥२०२॥चौ०॥प्रभुपदपद्मपरागदोहाई॥सत्यसुकृतसु
खसीमसुहाई॥सोकरिकहौंहियेअपनेकी॥रुचिजागतसो
वतसपनेकी॥सहजसनेहस्वामिसेवकाई॥स्वारथछलफल
चारिविहाई॥आज्ञासमनसुसाहिवसेवा॥सोप्रसादजनपा
वैदेवा॥असकहिप्रेमविवशभएभारी॥पुलकशरीरविलोच
नवारी॥प्रभुपदकमलगहेअकुलाई॥समयसनेहनसोकहि
जाई॥कृपासिंधुसनमानिसुवाणी॥वैठाएसमीपगहिपाणी
भरतविनयसुनिदेखिसुभाऊ॥शिथिलसनेहसभारघुराऊ
छन्दः॥रघुराउशिथिलसनेहसाधुसमाजमुनिमिथिलाधनी
मनमहंसराहतभरतभायपभक्तिकीमहिमाघनी॥२३॥भर
तहिंप्रसंशतविवुधवरषतसुमनमानसमलिनसे॥तुलसी
विकलसवलोगसुनिसंकुचेनिशागमनलिनसे॥२४॥सोरठा
देखिदुखारीदीनदुहुसमाजनरनारिसव॥मघवामहामलीन
मुएमारिमंगलचहत॥२०३॥चौ०॥कपटकुचालिसीमसुरराजू
परअकाजप्रियआपनकाजू॥काकसमानपाकरिपुरीती॥छली

मलीनकतहूंनप्रतीती॥प्रथमकुमतिकरिकपटसंकेला॥
सोउचाटसबकेसिरमेला॥सुरमायासबलोगविमोहे॥राम
प्रेमअतिशयनविछोहे॥भयउचाटवशमनथिरनाहीं॥छण
वनरुचिछणसदनसोहाहीं॥दुविधमनोगतप्रजादुखारी॥
सरितसिंधुसङ्गमजिमिवारी॥दुचितकतहूंपरितोषनलहहीं
एकएकसनमर्मनकहहीं॥लखिहियहंसिकहकृपानिधा
नू॥सरिसस्वानमघवाकरवानू॥दो०॥भरतजनकमुनिगण
सचिवसाधुसचेतविहाइ॥लगीदेवमायासबहियथायोगज
नपाइ॥२७४॥चौ०॥कृपासिंधुलखिलोगदुखारे॥निजसनेह
सुरपतिछलभारे॥सभाराउगुरुमहिसुरमंत्री॥भरतभक्तिस
वकीमतियंत्री॥रामहिंचितवतचित्रलिखेसे॥सकुचतबो
लतवचनशिखेसे॥भरतप्रीतिनितिविनयबडाई॥सुनतसु
खदवरणतकठिनाई॥जासुविलोकिभक्तिलवलेशू॥प्रेम
मगनमुनिगणमिथिलेशू॥महिमातासुकहैकिमितुलसी
भक्तिप्रभावसुमतिहियहुलसी॥आपुछोटमहिमाबडिजानी
कविकुलकानिमानिसकुचानी॥कहिनसकतिगुणरुचिअ
धिकाई॥मतिगतिबालवचनकीनाई॥दो०॥भरतविमलय
शविमलविधुसुमतिचकोरकुमारि॥उदितविमलजनहृ
दयनभएकटकरहीनिहारि॥२७५॥चौ०॥भरतप्रभावनसु

ग्रामनिगममहूं॥ लघुमतिचापलताकविछमहूं॥ कहतसु
नतसतिभावभरतको॥ सीयरामपदहोइनरतको॥ सुमिर
तभरतहिप्रेमरामको॥ जेहिनसुलभतेहिसरिसवामको॥ ।
देखिदयालुदशासवहीकी॥ रामसुजानजानिजनजीकी॥ ।
धर्मधुरीणधीरनयनागर॥ सत्यसनेहशीलसुखसागर॥ देश
काललखिसमयसमाजू॥ नीतिप्रीतिपालकरघुराजू॥ बोले
वचनवाणीसरवससे॥ हितपरिणामसुनतशशिरससे॥ ता
तभरतत्वमधर्मधुरीणा॥ लोकवेदविधिपरमप्रवीणा॥ दो०॥
कर्मवचनमानसविमलत्वमसमानत्वमतात॥ गुरुसमाज
लघुवंधुगुणकुसमयकिमिकहिजात॥ ३०६॥ चौ०॥ जानहु
ताततरणिकुलरीति॥ सत्यसंधपितुकीरतिप्रीती॥ समयस
माजलाजगुरुजनकी॥ उदासीनहितअनहितमनकी॥ त्वम
हिंविदितसवहीकरमरमू॥ आपनमोरपरमहितधरमू॥ मोहि
सवभांतिभरोसत्वम्हारा॥ तदपिकहउंअवसरअनुसारा॥ तात
तातविनुवातहमारी॥ केवलकुलगुरुकृपासंभारी॥ नतरुप्र
जापुरजनपरिवारू॥ हमहिंसहितसवहोतखुआरू॥ जौंवि
नुअवसरअथवदिनेसू॥ जगकहहुंकाहेनहोइकलेसू॥ तसउत
पाततातविधिकीन्हा॥ मुनिमिथिलेशराखिसवलीन्हा॥ दो०॥
राजकाजसवलाजपतिधर्मधरणिधनधाम॥ गुरुप्रभावपालिहिं

सबहिंभलहोइहिपरिणाम॥२०७॥चौ०॥सहितसमाजतु
म्हारहमारा॥घरबनगुरूप्रसादरखवारा॥मातपितागुरुस्वा
मिनिदेसू॥सकलधर्मधरणीधरसेसू॥सोतुमकरहुकराव
हुमोहू॥ताततरणिकुलपालकहोहू॥साधनएकसकलसि
धिदेनी॥कीरतिसुगतिभूतिमयवेणी॥सोविचारिसहिसंक
टभारी॥करहुप्रजापरिवारसुखारी॥वांटीविपतिसबहिं
मोहिभाई॥तुमहिअवधिभरिअतिकठिनाई॥जानितुमहिं
मृदुकहौंकठोरा॥कुसमयतातनअनुचितमोरा॥होंहिकुठां
वसुबंधुसहाए॥ओटियहाथअसनिकोघाए॥दो०॥सेवक
करपदनयनसेमुखसोसाहिबहोइ॥तुलसीप्रीतिकिरीति
सुनिसुकविसराहहिंसोइ॥२०८॥चौ०॥सभासकलसुनिर
घुबरवाणी॥प्रेमपयोधिअमियजनुसानी॥सिथिलसमाज
सनेहसमाधी॥देखिदशाचुपशारदसाधी॥भरतहिंभयउप
रमसंतोषू॥सनमुखस्वामिविमुखदुखदोषू॥मुखप्रसन्नम
नमिटाविषादू॥भाजनुगूंगेहिंगिराप्रसादू॥कीन्हसप्रेमप्रणा
मबहोरी॥बोलेपाणिपंकरुहजोरी॥नाथभयउसुखसाथग
एको॥लहेउंलाभजगजन्मभएको॥अबकृपालजसआयसु
होई॥करौंसीसधरिसादरसोई॥सोअवलंबदेवमोहिदेई॥अ
वधिपारपावउंजेहिसोई॥दो०॥देवदेवअभिषेकहितगुरुअ

नुग्रहमनपाहु॥ आनेउंसबतीरथसलिलतेहिकहंकाहर
जाइ॥३०९॥ चौ०॥ एकमनोरथबडमनमांही॥ भयउंसंको
चजातकहिनांही॥ कहहुतातप्रभुआयसुपाई॥ बोलेबा
निसनेहसुहाई॥ चित्रकूटसुनिथलतीरथबन॥ खगमृग
सरिसरनिर्झरगिरिगण॥ प्रभुपदअंकितअवनिविशेषी
आयसुहोइतोआवउंदेखी॥ अवशिअत्रिआयसुशिरधरहू
तातविगतभयकाननचरहू॥ मुनिप्रसादवनमंगलदाता
पावनपरमसोहावनभ्राता॥ ऋषिनायकजहंआयसुदेही
राखेहुतीरथजलथलतेही॥ सुनिप्रभुवचनभरतसुखपा
वा॥ मुनिपदकमलमुदितसिरनावा॥ दो०॥ भरतरामसंवा
दसुनिसकलसुमंगलमूल॥ सुरस्वारथीसराहिंकुलहर्षि
तवरषहिंफूल॥३१०॥ चौ०॥ धन्यभरतजयरामगोसांई॥ क
हतदेवहरषितवरिआई॥ मुनिमिथिलेशसभासवकाहू॥ भ
रतवचनसुनिभयउउछाहू॥ भरतरामगुणग्रामसनेहू॥ पुल
किप्रशंसतराउविदेहू॥ सेवकस्वामिसुभावसुहावन॥ नेम
प्रेमअतिपावनपावन॥ मतिअनुसारसराहनलागे॥ सचिव
सभासदसवअनुरागे॥ सुनिसुनिरामभरतसंवादू॥ दुहुंस
माजहियहर्षविषादू॥ राममातुदुखसुखसमजानी॥ कहि

गुणदोषप्रबोधीरानी ॥ एककहहिंरघुबीरबडाई ॥ एकस
राहतभरतभलाई ॥ दो० ॥ अत्रिकहेउतबभरतसनशैलस
मीपसुकूप ॥ राखियतीरथतोयतहंपावनअमलअनूप ॥
२११ ॥ चौ० ॥ भरतअत्रिअनुशासनपाई ॥ जलभाजनसबदि
एचलाई ॥ सानुजआपुअत्रिमुनिसाधू ॥ सहितगएजहंकू
पअगाधू ॥ पावनपाथपुणपथलराखा ॥ प्रमुदितप्रेमअ
त्रिअसभाषा ॥ तातअनादिसिद्धथलएहू ॥ लोपेउकालवि
दितनहिकेहू ॥ तबसेवकनसरसथलदेखा ॥ कीन्हसुजल
हितकूपविशेषा ॥ विधिवशभयेउविस्वउपकारू ॥ सुगमअ
गमअतिधर्मविचारू ॥ भरतकूपअबकहिहहिंलोगा ॥ अति
पावनतीरथजलयोगा ॥ प्रेमसनेमनिमज्जतप्राणी ॥ होइह
हिंविमलकर्ममनवाणी ॥ दो० ॥ कहतकूपमहिमासकल
गएजहांरघुराउ ॥ अत्रिसुनायेउरघुवरहितीरथपुणप्रभाउ
२१२ ॥ चौ० ॥ कहतधर्मइतिहाससप्रीती ॥ भयेउभोरनिशिसो
सुखबीती ॥ नित्यनिवाहिभरतदोउभाई ॥ रामअत्रिगुरुआय
सपाई ॥ सहितसमाजसाजसबसादे ॥ चलेरामवनअटनप
यादे ॥ कोमलचरणचलतविनुपनही ॥ भईमृदुभूमिसंकुचि
मनमनही ॥ कुशकटककांकरीकुराई ॥ कटुककठोरकुवस्तु

दुराइ॥ महिमंजुमृदुमारगकीन्हे॥ बहतसमीरत्रिविधिसुख
लीन्हे॥ सुमनबरषिसुरघनकरिछांही॥ बिटपफूलिफ
लितृणमृदुताही॥ मृगविलोकिखगबोलिसुबाणी॥ सेव
हिंसकलरामप्रियजानी॥ दो०॥ सुलभसिद्धिसबप्राकृतहुरा
मकहतजंभुआत॥ रामप्राणप्रियभरतकहंयहनहोइबडि
बात॥ ३११॥ चौ०॥ इहिंबिधिभरतफिरतबनमांही॥ नेमप्रेम
लखिमुनिसंकुचाही॥ पुण्यजलाश्रयभूमिविभागा॥ खग
मृगतरुतृणगिरिवनवागा॥ चारुविचित्रपवित्रविशेषी॥
बूझतभरतदिव्यथलदेषी॥ सुनिमनमुदितकहतऋषिराऊ
हेतनामगुणपुण्यप्रभाऊ॥ कतहुंनिमज्जनकतहुंप्रणामा
कतहुंविलोकतवनअभिरामा॥ कतहुंबैठिमुनिआयसुपा
ई॥ सुमिरतसीयसहितदोभाई॥ देखिसुभावसनेहसुसेवा॥
देतअशीषमुदितवनदेवा॥ फिरहिंगयेदिनपहरअढाई॥
प्रभुपदकमलविलोकहिंआई॥ दो०॥ देखेथलतीरथसक
लभरतपांचदिनमांझ॥ कहतसुनतहरिहरसुयशगयउदि
वसभइसांझ॥ ३१२॥ चौ०॥ भोरन्हाइसबजुरासमाजू॥ भरत
भूमिसुरतिरहुतिराजू॥ भलदिनआजुजानिमनमांही॥ रा
मकृपालुकहतसंकुचाही॥ गुरुनृपभरतसभाअवलोकी॥ सं
कुचिरामफिरिअवनिविलोकी॥ शीलसराहिसभासबशोची

कहूंनरामसमस्वामिसकोची॥भरतसुजानरामरुखदेषी
उठिसप्रेमधरिधीरविशेषी॥करिदंडवतकहतकरजोरी॥राषी
नाथसकलरुचिमोरी॥मोहिलगिसबहिंसहेउसंतापू॥बहु
तभांतिदुखपावाआपू॥अबगोसांइमोहिदेउरजाई॥सेवौंअव
धिअवधभलगिजाई॥दो०॥जेहिउपायपुनिपायजनदेखैदीन
दयाल॥सोसिखदेइअअवधिलगिकोशलपालकृपाल॥२
चौ०॥पुरजनपरिजनप्रजागोसांई॥सबशुचिसरससनेहसगा
ई॥राउरबदिभलभवदुखदाहू॥प्रभुबिनुबादिपरमपदलाहू
स्वामिसुजानजानिसबहीकी॥रुचिलालसारहनिजनजीकी
प्रणतपालपालिहिसबकाहू॥देवदुहूंदिशिओरनिबाहू॥अ
समोहिसबविधिभूरिभरोसो॥कियेंविचारनशोचखरोसो॥
आरतिमोरिनाथकरछोहू॥दुहूंमिलिकीन्हढीठहठिमोहू॥
यहबडदोषदूरिकरिस्वामी॥तजिसंकोचशिखइअअनुगामी
भरतविनयसुनिसबहिंप्रशंसी॥षीरनीरविवरणगतिहंसी
दोहा॥दीनबंधुसुनिबंधुकेवचनदीनछलहीन॥देशकाल
अवसरसरिसबोलेरामप्रवीण॥२९६॥चौपाई॥ताततुम्हारि
मोरपरिजनकी॥चिन्तागुरुहिंनृपहिंघरबनकी॥माथेपरगु
रुमुनिमिथिलेसू॥हमहिंतुमहिंसपनेहुंनकलेसू॥मोरतु
म्हारपरमपुरुषारथ॥स्वारथसुयशधरमपरमारथ॥पितुआय

९५

सुपालियदुहुभाई॥ लोकवेदभलभूपभलाई॥ गुरुपितु
मातुस्वामिशिखपाले॥ चलतकुमगपगपरतनखाले॥ अ
सविचारिसवशोचविहाई॥ पालहुअवधअवधिभरिजाई॥
देशकोषपुरजनपरिवारू॥ गुरुपदरजहिंलागछतभारू॥
तुमसुनिमातुसचिवशिखमानी॥ पालहुपुहुमिप्रजारजधा
नी॥ दोहा॥ मुखिआमुखसोचाहियैखानपानकहंएक॥ पालै
पोषैसकलअंगतुलसीसहितविवेक॥ ३१७॥ चौपाई॥ राजधर्म
सरवसइतनोई॥ जिमिमनमांहमनोरथगोई॥ वंधुप्रवोधकी
न्हवहुभांती॥ विनुअधारमनतोषनशांती॥ भरतशीलगुरुस
चिवसमाजू॥ संकुचसनेहविवशरघुराजू॥ प्रभुकरिकृपा
पांवरीदीन्ही॥ सादरभरतशीसधरिलीन्ही॥ चरणपीठकरु
णानिधानके॥ जनुयुगजामिकप्रजाप्राणके॥ संपुटभरतस
नेहरतनके॥ आखरयुगजनुजीवयतनके॥ कुलकपाटकर
कुशलकर्मके॥ विमलनयनसेवासुधर्मके॥ भरतमुदितअव
लंबलहेते॥ अससुखजससियरामरहते॥ दोहा॥ मांगउविदा
प्रणामकरिराममलिएउरलाइ॥ लोगउचाटेअमरपतिकुटिल
कुअवसरपाइ॥ ३१८॥ चौपाई॥ सोकुचालिसवकहंभइनीकी॥
अवधिआशसमजीवनजीकी॥ नतरुलखणसियरामवियोगा॥
हहरिभरतसवलोगकुरोगा॥ रामकृपाअवरेवसुधारि॥ विवुध

धारिभरतगुणगणदुखहारी॥ भेंटतभुजभरिभाइभरतसो॥ रामप्रे
मरसकहिनपरतसो॥ तनमनवचनउमगिअनुरागा॥ धीर
धुरन्धरधीरजत्यागा॥ वारिजलोचनमोचतवारी॥ देखिदशा
सुरसभादुखारी॥ मुनिगणगुरूजनधीरजनकसे॥ ज्ञानअन
लमनकसेकनकसे॥ ज्ञानअनलमनकसेकनकसे॥ जेविर
ञ्चिनिरलेपउपाए॥ पद्मपत्रजिमिजगजलजाए॥ दोहा॥ तेउ
विलोकिरघुवरभरतप्रीतिअनूपअपार॥ भएमगनमनतनव
चनसहितविचार॥ ३१९॥ चौपाई॥ जहांजनकगुरूगतिमतिभो
री॥ प्राकृतप्रीतिकहतबडखोरी॥ वरणतरघुवरभरतवियोगू॥
सुनिकठोरकविजानिहिंलोगू॥ सोसंकोचवशअकथसुबाणी॥
समयसनेहसुमिरिसकुचानी॥ भेटिभरतरघुवरसमुझाए॥ पु
निरिपुदमनहर्षिहियलाए॥ सेवकसचिवभरतरूखपाई॥ निज
निजकाजलगेसबजाई॥ सुनिदारूणदुखराजसमाजा॥ लगेच
लनकेसाजनसाजा॥ प्रभुपदपद्मवन्दिदोभाई॥ चलेशीसधरि
रामरजाई॥ मुनितापसवनदेवनिहोरी॥ सवसनमानिबहोरि
बहोरी॥ दोहा॥ लषणहिंभेटिप्रणामकरिशिरधरिसियपदधू
रि॥ चलेसप्रेमअशीषसुनिसकलसुमङ्गलमूरि॥ ३२०॥ चौ॥
सानुजरामनृपहिंशिरनाई॥ कीन्हिबहुतविधिविनयबडाई॥ दे
वदयावशबडदुखपाए॥ सहितसमाजकाननहिंआए॥ पुरप

गुधारियदेइअशीषा॥ कीन्हथीरयरिगामनमहीशा॥ मुनि
महिदेवसाधुसनमाने॥ विदाकिएहरिहरसमजाने॥ सासुस
मीपगएदोभाई॥ फिरेबन्दिपदआशिषपाई॥ कौशिकवामदे
वजाबाली॥ परिजनपुरजनसचिवसुचाली॥ यथायोगक
रिविनयप्रणामा॥ विदाकिएसबसानुजरामा॥ नारिपुरुष
लघुमध्यबडेरे॥ सबसनमानिकृपानिधिफेरे॥ दोहा॥ भरत
मातुपदवन्दिप्रभुसुचिसनेहमिलिभेटि॥ विदाकीन्हसजि
पालकीसंकुचशोचसबमेटि॥ ३२१॥ चौपाई॥ परिजनमातुपि
तहिंमिलिसीता॥ फिरीप्राणप्रियप्रेमपुनीता॥ करिप्रणा
मभेटीसबसासू॥ प्रीतिकहतकबिहियनहुलासू॥ सुनिशि
खअभिमतआशिषपाई॥ रहीसीयदुहुंप्रीतिसमाई॥ रघुपति
पटुपालकीमंगाई॥ करिप्रबोधसबमातुचढाई॥ बारबारहि
लिमिलिदोभाई॥ समसनेहजननीपहुंचाई॥ साजिबाजिग
गजबाहननाना॥ भूपभरतदलकीन्हपयाना॥ हृदयरामसि
यलषणसमेता॥ चलेजाहिंसबलोगअचेता॥ बसहबाजि
गजपशुहियहारे॥ चलेजाहिंपरबशमनमारे॥ दोहा॥ गुरु
गुरुतियपदवन्दिप्रभुसीतालषणसमेत॥ फिरेहर्षविस्मय
सहितआएपर्णनिकेत॥ ३२२॥ चौपाई॥ विदाकीन्हसनमानि
निषादू॥ चलेउहृदयबडिविरहविषादू॥ कोलकिरातभिलवन
चारी॥ फेरेफिरेजोहारिजुहारी॥ प्रभुसियलषणबैठिवटछांही

प्रियपरिजनवियोगविलखांही॥ भरतसनेहसुभावसुबाणी
प्रियाअनुजसनकहतवखानी॥ प्रीतिप्रतीतिवचनमनकरणी
श्रीमुखराममप्रेमवशावरणी॥ तेहिंअवसरखगमृगजनमीना
चित्रकूटचरअचरमलीना॥ विबुधविलोकिदशारघुवरकी॥
वरषिसुमनकहिगतिघरघरकी॥ प्रभुप्रणामकरिदीन्हभरो
सो॥ चलेशुदितमनडरनखरोसो॥ दोहा॥ सानुजसीयसमेत
प्रभुराजतपर्णकुटीर॥ भक्तिज्ञानवैराग्यजनुसोहतधरेश
रीर॥ २२३॥ चौपाई॥ मुनिमहिसुरगुरुभरतभुआलू॥ रामवि
रहसबसाजवेहालू॥ प्रभुगुणग्रामगणतमनमांही॥ सब
चुपचापचलेमगजांही॥ यमुनाउतरिपारसबभएऊ॥ सोवा
सरबिनुभोजनगएऊ॥ उतरिदेवसरिदूसरिवासू॥ रामसखा
सबकीन्हसुपासू॥ सईउतरिगोमतीनहाए॥ चौथेदिवसअ
वधपुरआए॥ जनकरहेपुरवासरचारी॥ राजकाजसबसाज
सम्भारी॥ सौंपिसचिवगुरुभरतहिंराजू॥ तिरहुतिचलेसाजि
सबसाजू॥ नगरनारिनरगुरुशिखमानी॥ वसेसुखेनराम
रजधानी॥ दोहा॥ रामदरशलगिलोगसबकरतनेमउपवास
तजितजिभूषणभोगसुखजिअतअवधिकीआश॥ २२४॥
चौपाई॥ सचिवसुसेवकभरतप्रबोधे॥ निजनिजकाजपाइ
शिषशोधे॥ पुनिशिषदीन्हबोलिलघुभाई॥ सौंपीसकलमा
तुसेवकाई॥ भूसुरबोलिभरतकरजोरे॥ करिप्रणामबरविनय

निहोरे॥ ऊंचनीचकारजभलपोचू॥ आयसुदेवनकरवसंको
चू॥ परिजनपुरजनप्रजाबुलाए॥ समाधानकरिसुवसबसा
ए॥ सानुजगेगुरुगेहबहोरी॥ करिदंडवतकहतकरजोरी॥
आयसुहोइतोरहेउसनेमा॥ बोलेमुनितनपुलकिसप्रेमा॥
समुझवकहवकरवतुमसोई॥ धर्मसारजगहोइहिंजोई॥ दो॰॥
मुनिशिषपाइअशीषवडिगणकबोलिदिनसाधि॥ सिंहासन
प्रभुपादुकावैठारीनिरूपाधि॥ ३२५॥ चौपाई॥ राममातगुरूपद
सिरनाई॥ प्रभुपदपीठरजायसुपाई॥ नन्दिग्रामकरिपर्णकुटी
रा॥ कीन्हनिवासधर्मधुरधीरा॥ जटाजूटशिरमुनिपटधारी
महिखनिकुशसाथरीसंवारी॥ अशनवसनवासनव्रतनेमा
करतकठिनव्रतधर्मसप्रेमा॥ भूषणवसनभोगसुखभूरी॥ म
नतनुवचनतजेतृणतोरी॥ अवधराजसुरराजसिहाहीं॥ दश
रथधनलखिधनदलजाहीं॥ तेहिंपुरवसवभरतविनुरागा
चञ्चरीकजिमिचंपकवागा॥ रमाविलासरामअनुरागी॥ त
जतवमनइवजनबडभागी॥ दोहा॥ रामप्रेमभाजनभरतबडेन
इहिकरतूति॥ चातकहंससराहिअतटेकविवेकविभूति॥ ३२६
चौपाई॥ देहदिनहिंदिनदुवरिहोई॥ घटततेजबलमुखछविसो
ई॥ नितनवरामप्रेमपणपीना॥ बढतधर्मबलमनननमलीना॥
जिमिजलनिघटतशारदप्रकाशे॥ विलसतवेतसवनजविकासे

रामा॰
अ॰
८५

शमदमसंयमनेमउपासा॥ नखतभरतहियविमलअकाशा
ध्रुवविस्वासअवधिराकासी॥ स्वामीसुरतिसुरवीथिविकाशी॥
रामप्रेमविधुअचलअदोषा॥ सहितसमाजसोहनितचोषा॥
भरतरहनिसमुझनिकरतूती॥ भक्तिविरतिगुणविमलविभूती
वरणतसकलसुकविसकुचाहीं॥ शेषगणेशगिरागमनाहीं
दोहा॥ नितपूजतप्रभुपांवरीप्रीतिनहृदयसमाति॥ मांगिमां
गिआयसुकरतराजकाजबहुभांति॥ ३२३॥ चौपाई॥ पुलका
गातहियसियरघुवीरा॥ जीहनामजपलोचननीरा॥ लषण
रामसियकाननवसहीं॥ भरतभवनवसितपतनुकसहीं॥ दु
हुंदिशिसमुझिकहतसवलोगू॥ सवविधिभरतसराहनयोगू
सुनिव्रतनेमसाधसकुचाहीं॥ देखिदशामुनिराजलजाहीं॥
परमपुनीतभरतआचरणु॥ मधुरमञ्जुमुदमङ्गलकरणु॥
हरणकठिनकलिकलुषकलेशू॥ महामोहनिशिदलन
दिनेशू॥ पापपुञ्जकुञ्जरमृगराजू॥ शमनसकलसन्तापसमा
जू॥ जनरञ्जनभञ्जनभवभारू॥ रामसनेहसुधाशशिसारू॥
छन्द॥ सियरामप्रेमपियूषपूरणहोतजन्मनभरतको॥ मुनि
मनअगमयमनियमशमदमविषमव्रतआचरतको॥ २५॥
दुखदाहदारिददम्भदूषणसुयशमिसअपहरतको॥ कलि
कालतुलसीसेशठहिंहठिराममनमुखकरतको॥ २६॥ सो

२७॥ भरतचरितकरिनेमतुलसीजेसादरसुनहिं॥ सीयराम
पदप्रेमअवशिहोइभवरसविरति॥ ३२६॥ इतिश्रीरामचरितमा
नसेसकलकलिकलुषविध्वंसनेविमलविज्ञानवैराग्यसंपादनो
नामतुलसीकृतायोध्याकाण्डद्वितीयःसोपानःसमाप्तःशुभमस्तु
सिद्धिरस्तु॥॥

ॐ श्रीगणेशायनमः॥ अथआरण्यकाण्डलिख्यते॥ श्लोक॥ मू
लंधर्मतरोर्विवेकजलधेःपूर्णेन्दुमानन्ददम्॥ वैराग्यम्बुज
भास्करंह्यघघनध्वान्तापहंतापहम्॥ मोहाम्भोधरपूगपाटन
विधौस्वःसम्भवंशङ्करम्॥ वन्देब्रह्मकुलंकलङ्कशमनंश्रीरा
मभूपप्रियम्॥१॥ सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुंपीताम्बरंसुन्द
रं॥ पाणौबाणशरासनंकटिलसत्तूणीरभारंवरं॥ राजीवाय
तलोचनंधृतजटाजूटेनसंशोभितं॥ सीतालक्ष्मणसंयुतंपथि
गतंरामाभिराममभजे॥२॥ सोरठा॥ उमारामगुणगूढपण्डि
तमुनिपावहिंविरति॥ पावहिंमोहविमूढजेहरिविमुखनध
र्मरत॥१॥ चौपाई॥ पुरनरभरतप्रीतिमैगाई॥ मतिअनुरूपअ
नूपसुहाई॥ अबप्रभुचरितसुनहुअतिपावन॥ करतजेवन
सुरनरमुनिभावन॥ एकबाररघुनिकुसुमसुहाए॥ निजकर
भूषणरामबनाए॥ सीतहिंपहिराएप्रभुसादर॥ बैठेसफटि
कशिलापरभाधर॥ सुरपतिसुतधरिवायसवेषा॥ शठचा
हतरघुपतिबलदेखा॥ जिमिपिपीलिकासागरथाहा॥ महा
मन्दमतिपावनचाहा॥ सीताचरणचुंचहतिभागा॥ मूढम
न्दमतिकारणकागा॥ चलारुधिररघुनायकजाना॥ सींकध
नुषशायकसंधाना॥ दोहा॥ अतिकृपालरघुनायकहिंसदादी

नपरनेह॥तासनआइसुकीन्हछलमूरखअवगुणगेह॥२॥
चौपाई॥बिनापराधप्रभुहतेनकाहू॥अबसरपरैग्रसैशशिरा
हू॥जबप्रभुलीन्हसींकधनुबाणा॥क्रोधजानिभाअनलसमा
ना॥प्रेरितमंत्रब्रह्मसरधावा॥चलाभाजिबायसभयपावा॥
धरिनिजरूपगयेउपितुपाहीं॥रामविमुखराखातिन्हनाहीं
भानिराशउपजीउरत्रासा॥यथाचक्रभयऋषिदुर्वासा॥ब्रह्म
धामशिवपुरसबलोका॥फिराश्रमितव्याकुलभयशोका॥
काहुबैठनकहानओही॥रखिकोशकैरामकरद्रोही॥मातु
मृत्युपितुशमनसमाना॥सुधाहोइविषसुनुहरिजाना॥मि
त्रकरैशतरिपुकीकरणी॥ताकहंविबुधनदीबैतरणी॥स
बजगताहिअनलतैंताता॥जोरघुवीरविमुखसुनुभ्राता॥
दोहा॥जिमिजिमिभाजतशक्रसुतव्याकुलअतिदुखदीन॥
तिमितिमिधावतरामशरपाछेंपरमप्रवीण॥३॥चौपाई॥ब
चहिंउरगबरुग्रसैखगेशा॥रघुपतिशरकुटिविचवअदेशा॥
नारददेखाविकलजयंता॥लागिदयाकोमलचितसंता॥हृ
दहितेंकहिप्रभुप्रभुताई॥भजेजानबहुविधिसमुझाई॥पठ
वातुरतरामपहंताही॥कहसिपुकारिप्रणतहितपाही॥आ
तुरसभयगहसिपदजाई॥त्राहित्राहिदयालरघुराई॥अतुलि

त बल अतुलित प्रभुताई॥ मै मतिमन्द जानि नहि पाई॥ नि
जकृत कर्म जनित फल पायेउं॥ अब प्रभु पाहि शरण तकि आ
येउं॥ सुनि कृपाल अति आरत बाणी॥ एकनयन करि तजा भ
वानी॥ सोरठा॥ कीन्ह मोह बश द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित
प्रभु छाडेउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम॥ ४॥ चौपाई॥ रघु
पति चित्रकूट बसि नाना॥ चरित करत श्रुति सुधा समाना॥ ।
बहुरि राम अस मन अनुमाना॥ होइहि भीर सबहि मोहि जा
ना॥ सकल मुनिन्ह सन विदा कराई॥ सीता सहित चले दोउ
भाई॥ अत्रिके आश्रम जब प्रभु चलि गयेउ॥ सुनत महामुनि हर्षि
त भयेऊ॥ पुलकित गात अत्रि उठि धाए॥ देखि राम आतुर च
लि आए॥ करत दण्डवत मुनि उर लाए॥ प्रेम बारि दोउ जन अ
न्हवाए॥ देखि राम छबि नयन जुडाने॥ सादर निज आश्रम त
ब आने॥ करि पूजा कहि बचन सुहाए॥ दिए मूल फल प्रभु म
न भाए॥ सोरठा॥ प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखि
मुनिवर परम प्रबीण जोरि पाणि अस्तुति करत॥ ५॥ छन्दः॥
नमामि भक्तवत्सलं॥ कृपालु शील कोमलं॥ भजामि ते पदाम्बु
जं॥ अकामिनां स्वधामदं॥ १॥ निकाम श्याम सुन्दरं॥ भवाम्बुना
थ मन्दरं॥ प्रफुल्ल कंज लोचनं॥ मदादि दोष मोचनं॥ २॥ प्रलंब
बाहु विक्रमं॥ प्रभोऽप्रमेय वैभवं॥ निषंग चाप सायकं॥ धरं त्रिलो

रामा.
अ्रा.
२

कनायकं ॥२॥ दिनेशवंशमंडनं ॥ महेशचापखंडनं ॥ मुनी
न्द्रसन्तरंजनं ॥ सुरारिवृन्दभंजनं ॥४॥ मनोजवैरिवन्दितं ॥ अ
जादिदेवसेवितं ॥ विशुद्धबोधविग्रहं ॥ समस्तदूषणापहं ॥५॥
नमामिइन्दिरापतिं ॥ सुखाकरंसतांगतिं ॥ भजेसशक्तिसानु
जं ॥ शचीपतिप्रियानुजं ॥६॥ तदंघ्रिमूलयेनरा ॥ भजन्तिहीन
मत्सरा ॥ पतन्तिनोभवार्णवे ॥ वितर्कवीचिसंकुले ॥७॥ वि
विक्तवासिनःसदा ॥ भजन्तिमुक्तयेमुदा ॥ निरस्यइन्द्रियादि
कं ॥ प्रयान्तितेगतिंस्वकं ॥८॥ त्वमेकमद्भुतंप्रभुं ॥ निरीहमी
श्वरंविभुं ॥ जगद्गुरुंचशाश्वतं ॥ तुरीयमेवकेवलं ॥९॥ भजा
मिभाववल्लभं ॥ कुयोगिनांसुदुर्लभं ॥ स्वभक्तकल्पपादपं ॥ स
मस्तसेव्यमन्वहं ॥१०॥ अनूपरूपभूपतिं ॥ नतोहमुर्वीजाप
तिं ॥ प्रसीदमेनमामिते ॥ पदाब्जभक्तिदेहिमे ॥११॥ पठन्तिये
स्तवंइदं ॥ नरादरेणतेपदं ॥ व्रजन्तिनात्रसंशयं ॥ त्वदीयभाव
संयुतं ॥१२॥ दोहा ॥ विनतीकरिमुनिनाइसिरकहकरजोरिब
होरि ॥ चरणसरोरुहनाथजनिकबहुंतजैमतिमोरि ॥६॥ चौ
पाई ॥ अनुसूयाकेपदगहिसीता ॥ मिलीबहोरिसुशीलविनी
ता ॥ ऋषिपत्नीमनसुखअधिकाई ॥ आशिषदेइनिकटबैठा
ई ॥ दिव्यवसनभूषणपहिराए ॥ जेनितनूतनअमलसुहाए ॥
अरूःकीचौपाईमो ॥ ॥ ॥ जन्मजन्मनवपदसुखकन्दा ॥ बढौ

प्रेमचकोरजिमिचन्दा॥देखिराममुनिविनयप्रणामा
विविधभांतिपाएउविश्रामा॥जेसियसकललोकसुखदा
ता॥अखिलकोटिब्रह्माण्डकीमाता॥तेउपाइमुनिवरवर
भामिनि॥सखीभईजनुदिनिजिमियामिनि॥जाहिनिर
खिदुखदूरिपराहीं॥गरुडजानिजिमिपन्नगजाहीं॥दोहा
एसेवसनविचित्रसुठिदिएसीयकहंआनि॥सनमानीप्रि
यवचनकहिप्रीतिनजाइवखानि॥७॥चौपाई॥कहऋषि
वधूसरलमृदुवाणी॥नारीधर्मकछुव्याजवखानी॥मा
तुपिताभ्राताहितकारी॥मितसुखप्रदसुनुराजकुमारी
अमितदानिभर्त्ताबैदेही॥अधमसोनारिजोसेवनतेही॥
धीरजधर्ममित्रअरुनारी॥आपदकालपरिखिएहिचारी
वृद्धरोगवशजडधनहीना॥अन्धवधिरक्रोधीअतिदीना॥ऐ
सेहुपतिकरकियअपमाना॥नारिपावयमपुरदुखनाना
एकैधर्मएकव्रतनेमा॥कायवचनमनपतिपदप्रेमा॥जग
पतिव्रताचारिविधिअहहीं॥वेदपुराणसन्तअसकहहीं॥
दोहा॥उत्तममध्यमनीचलघुसकलकहउंसमुझाइ॥आगे
सुनहिंतेभवतरहिंसुनहुसीयचितलाइ॥८॥इहदोहाक्षेपक
है॥चौपाई॥उत्तमकेअसवसमनमाहीं॥सपनेहुंआनपुरु
षजगनाहीं॥मध्यमपरपतिदेखहिंकैसे॥भ्रातापितापुत्रनि

जजैसे॥धर्मविचारिसमुझिकुलरहहीं॥सोनिकृष्टत्रिय
श्रुतिअसकहहीं॥विनुअवसरभयतेंरहजोई॥जानेहुअध
मनारिजगसोई॥पतिवंचकपरपतिरतिकरई॥रौरवनर
ककल्पशतपरई॥छिनुसुखलागिजन्मसतकोटी॥दुख
नसमुझैतेसमकैषोटी॥विनुश्रमनारिप्रेमगतिलहई॥प
तिव्रतधर्मछाडिछलगहई॥पतिप्रतिकूलजनमजहंजा
ई॥विधवाहोयपाइतरुणाई॥सोरठा॥सहजअपावनिनारि
पतिसेवतशुभगतिलहहिं॥यशगावतश्रुतिचारिअजहुं
तुलसिकाहरिःप्रिया॥९॥सुनुसीतातवनामसुमिरिनारि
पतिव्रतकरहिं॥तुम्हहिंप्राणप्रियरामकहेउंकथासंसारहि
त॥१०॥चौपाई॥सुनिजानकीपरमसुखपावा॥सादरतासु
चरणसिरनावा॥तबमुनिसनकहकृपानिधाना॥आयसु
होइजाउंवनआना॥सन्ततमोपरकृपाकरेहू॥सेवकजानि
तजेहुजनिनेहू॥धर्मधुरन्धरप्रभुकैवाणी॥सुनिसप्रेमवो
लेमुनिज्ञानी॥जासुकृपाअजशिवसनकादी॥चहतसक
लपरमारथवादी॥इहांसों॥तेतुमरामअकामपिआरे॥दी
नदीवन्धुमृदुवचनउचारे॥अवजानीमैंश्रीचतुराई॥भजेउं
तुमहिंसवदेवविहाई॥जेहिंसमानअतिशयनहिंकोई॥ता
करशीलकसनअसहोई॥केहिविधिकहौंजाहुअवस्वामी॥

कहहु नाथ तुम अन्तरजामी ॥ अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि
धीरा ॥ लोचन जल बह पुलक शरीरा ॥ छन्द ॥ तनु पुलक निर्भ
र प्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिए ॥ मन ज्ञान गुण गोतीत
प्रभु मैं दीख जप तप का किए ॥ ९ ॥ जप योग धर्म समूह तेन
र भक्ति अनुपम पावई ॥ रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास
तुलसी गावई ॥ १० ॥ दोहा ॥ कलिमल शमन दमन भव राम
सुयश सुखमूल ॥ सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनु
कूल ॥ ११ ॥ सोरठा ॥ कठिन काल मल कोष धर्म न ज्ञान न
योग तप ॥ परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ १
दोहा ॥ मुनि इं किय अस्तुति कीन्ह प्रभु दीन्ह सुभग वरदान ॥
सुमन वृष्टि नभ संकुल जय जय कृपानिधान ॥ १२ ॥ इहां तांई
तेपक है ॥ चौपाई ॥ मुनि पद कमल नाई करि शीसा ॥ चले
वनहिं सुर नर मुनि ईशा ॥ आगे राम अनुज पुनि पाछे ॥
मुनिवर वेष वने अति काछे ॥ उभय बीच सिय सोहति कैसी
ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ उपमा बहुरि कहौं जिय जोही
विधु बुध मध्य रोहिणी सोही ॥ सरिता वन गिरि अवघट घा
टा ॥ पति पहिचानि देहिं वर वाटा ॥ जहं जहं जाहिं देव रघु
राया ॥ करहिं मेघ नभ तहं तहं छाया ॥ इहां तें तेपक है ॥ आ
श्रम विपुल दीख वन मांही ॥ देव सदन तेहि पटतर नाही ॥

बहुतबागसुन्दरश्रमराई॥भाँतिभाँतिसबमुनिन्हलगाई॥
दिब्यविटपफलचहुंदिशसोहैं॥देखतसुनतसकलमनमो
हैं॥पतिअनेकओरबहुरङ्गा॥कूजहिंकलरवकरहिंविह
ङ्गा॥दोहा॥निजनिजआश्रमवेदिकातेहिपरतुसिविराज
अनुजजानकीसहिततहांराजतभएरघुराज॥४॥आनि
सुआसनमुदितमनपूजिपङ्कनईकीन्ह॥कन्दमूलफल
अमीयसमआनिरामकहंदीन्ह॥५५॥चौपाई॥अनुजसी
यसहभोजनकीन्हा॥जोजेहिभावसुभगवरदीन्हा॥तेहि
दिनतहंप्रभुकीन्हनिवासा॥सकलमुनिन्हमिलिकीन्हसु
पासा॥प्रातःकालउठिरघुकुलदेवा॥मज्जनकीन्हकरिपा
र्थिवसेवा॥तबरघुवीरमुनिन्हसिरनावा॥आशीर्वादसब
हिसनपावा॥सुमिरिउमापतिसिद्धगणेशा॥पुनिप्रभुच
लेसुनहुंखगईशा॥बनअनेकसुन्दरगिरिनाना॥लांघत
चलेजाहिंभगवाना॥मिलाअसुरविराधमगजाता॥गरज
तघोरकठोररिसाता॥रूपभयंकरमानहुंकाला॥वेगवन्त
धाएउजिमिव्याला॥गगनदेवगणमुनिवरनाना॥तेहि
लखाहृदयहारिभयमाना॥गहेपाणित्रिशूलअतिघोरा
केहरिमारिबांधिचहुंओरा॥तुरतहिंसोसीतहिलैगयेऊ
रामहृदयकछुविस्मयभयेऊ॥समुझिहृदयकैकेयिकरकर

दो०॥ बहुरि एक शर मारेउ परा धरणि धुनि माथ॥ उठा बहुरि सो गर्जेउ ता चलेउ जहाँ रघुनाथ॥
१८ त्रुटी६

णी॥ कही अनुज सन बहु विधि वरणी॥ बहुरि लषण रघु
वरहिं प्रबोधा॥ पांच बाण छांडा करि क्रोधा॥ छन्द॥ भये क्रो
ध लषण संधानि धनु शर मारि तेहि व्याकुल कियो॥ पुनि उ
ठि निशाचर राखि सीतहिं शूल लै छाडत भयो॥ १५॥ जनु का
लदण्ड कराल धावत विकल सब खग मृग भये॥ धनु ताणि
श्री रघुवंश मणि पुनि काटि तेहि रज सम किये॥ १६॥ चौपाई
ऐसे कहत निशाचर धावा॥ श्रवनहि बचऊत महि मे खावा
आव प्रबल जेहिं विधि जनु भूधर॥ होइहि कहा कहहिं व्या
कुल सुर॥ तासु तेज शत मरुत समाना॥ टूटहिं तरु बहु उउ
हिं पषाना॥ जीव जंतु जह लगि रहे जे ते॥ व्याकुल भागि च
ले सब तेते॥ उरग समान जो रिशर शाता॥ आवत हीं रघुना
थ निपाता॥ तरत हिं रुचिर रूप तेहि पावा॥ देखि दुखी नि
ज धाम पठावा॥ तासु अस्थि गाडेउ प्रभु धरणी॥ देव मुदित ल
खि प्रभु की करणी॥ सीता आइ चरण लपटानी॥ अनुज सहि
त तब चले भवानी॥ पुनि आए जहं मुनि शरभङ्गा॥ सुन्दर अ
नुज जानकी सङ्गा॥ गए कहन प्रभु देन शिषावण॥ दिशि व
लभेद बसत जह रावण॥ दोहा॥ सुरपति संपायत मम मर॥
रघुपति तेज दिनेश॥ रावण जीवन निशा सम बीते कुटहिं क
लेश॥ १७॥ चौपाई॥ सुना सीर प्रभु तेहिं तण देषा॥ तेज निधान

रामा॰
आ॰
५

5

सुभ्रअतिबेषा॥ तुरंगचारिबलमरुतसमाना॥ रथबिस
मयनहींजाइबषाना॥ तिन्हितिनपरशाइअनारहितरहई॥
स्वेतछत्रचामरसिरढरई॥ इहिंविधिप्रभुसुरेशाकहदेखा
भयेमगनसुखपायविशेषा॥ अनुजहिंप्रियहिकहीसमु
झाई॥ सुरपतिमहिमागुणप्रभुताई॥ जेहिकारणआमसबत
हआए॥ सोकछुवचनकहेनहींपाए॥ वीचहिंसुनिआग
मनप्रभुकेरा॥ कहिसारथिहिंतुरततरथफेरा॥ दूरिहिते
करिप्रभुहिप्रणामा॥ हरषसुरेशगयेउनिजधामा॥ इ
हांतेंक्षेपकहै॥ मिलाअसुरविराधमगजाता॥ आवत
हीरघुवीरनिपाता॥ तुरतहिंरुचिररूपतिहिंपावा॥ देखि
दुखीनिजधामपठावा॥ पुनिआएजहमुनिसरभंगा॥ सु
न्दरअनुजजानकीसंगा॥ दोहा॥ देखिराममुखपंकजहि
मुनिवरलोचनभृङ्ग॥ सादरपानकरतअतिधन्यजन्मशरभ
ङ्ग॥ ८॥ चौपाई॥ कहमुनिसुनुरघुवीरकृपाला॥ शङ्करमा
नसराजमराला॥ जातरहेउविरंचिकेधामा॥ सुनेउंश्रवण
वनआवतरामा॥ चितवतपन्थरहेउदिनराती॥ अवप्रभुदे
खिजुडानीछाती॥ नाथसकलसाधनमैंहीना॥ कीन्हीकृ
पाजानिजनदीना॥ सोकछुदेवनमोरनिहोरा॥ निजपण
राखेउजनमनचोरा॥ तवलगिरहहुदीनहितलागी॥ जब

लगितन्दैमिलौंतनुत्यागी ॥ योगयज्ञजपतपब्रतकीन्हा ॥
प्रभुकहंदेइभक्तिबरलीन्हा ॥ इहिंविधिशररचिमुनिशरभंगा
बैठेहृदयछाडिसबसंगा ॥ दोहा ॥ सीताअनुजसमेतप्रभुनील
जलदतनुश्याम ॥ ममहियवसहुनिरन्तरहिंसगुणरूपश्रीरा
म ॥ १९ ॥ चौपाई ॥ असकहियोगअग्नितनुजारा ॥ रामकृपावै
कुण्ठसिधारा ॥ तातैंमुनिहरिलीननभयेऊ ॥ प्रथमहिंभेदभ
क्तिबरलयेऊ ॥ ऋषिनिकायमुनिबरगतिदेखी ॥ सुखीभएनिज
हृदयविशेषी ॥ अस्तुतिकरहिंसकलमुनिवृन्दा ॥ जयतिप्र
णतहितकरुणाकन्दा ॥ पुनिरघुनाथचलेबनआगे ॥ मुनि
बरवृन्दचलेसंगलागे ॥ अस्थिसमूहदेखिरघुराया ॥ पूछामु
निन्हलागिअतिदाया ॥ जानतहूंकाशकहुस्वामी ॥ सबदर
शीतुमअन्तरजामी ॥ निशिचरनिकरसकलमुनिखाए ॥ सु
निरघुनाथनयनजलछाए ॥ दोहा ॥ निशिचरहीनकरौंमही
भुजउठाइपणकीन्ह ॥ सकलमुनिन्हकेआश्रमन्हजाइजाइ
सुखदीन्ह ॥ २० ॥ चौपाई ॥ मुनिअगस्तकरशिष्यसुजाना ॥
नामसुतीक्षणरतभगवाना ॥ मनक्रमवचनरामपदसेवक ॥
सपनेहुआनभरोसनदेवक ॥ प्रभुआगमनश्रवणसुनिपावा
करतमनोरथआतुरधावा ॥ हेविधिदीनबन्धुरघुराया ॥ मोसे
शठपरकरिहहिंदाया ॥ सहितअनुजमोहिरामगोसांई ॥ मिलि

हरिहिं निजसेवककीनाईं॥ मोरेदृढभरोसजीयनाहीं॥ भक्ति
नविरतिज्ञानमनमाहीं॥ नहिसतसंगयोगजपयागा॥ न
हिदृढचरणकमलअनुरागा॥ एकवाणिकरुणानिधानकी
सोप्रियजाकेगतिनआनकी॥ छन्द॥ सोपरमप्रियअतिपा
तकीजिन्हकबहुप्रभुसुमिरणकस्यो॥ तेआजुमैनिजनय
नदेखौंपूरिपुलकितहियभस्यो॥ ९॥ जेपदसरोजअनेक।
मुनिकरिध्यानकबहुनपावहीं॥ तेरामश्रीरघुबंशमणिप्र
भुप्रेमतेंसुखपावहीं॥ १०॥ दोहा॥ पन्नगारिसुनुप्रेमसमभ
जननहिसरआन॥ इहविचारिमुनिपुनिपुनिकरतरामगुण
गान॥ २१॥ चौपाई॥ होइहहिंसुफलआजुममलोचन॥ देखि
वदनपंकजभवमोचन॥ निर्भरप्रेममगनमुनिज्ञानी॥ कहि
नजाईसोदशाभवानी॥ दिशिअरुविदिशिपन्थनहिसूझा
कोमैंचलेउंकहानहिबूझा॥ कबहुंकनृत्यकरैगुणगाई॥
अविरलप्रेमभक्तिमुनिपाई॥ कबहुंकफिरिपाछेंहटिजाई॥
प्रभुदेखहिंतरुओटलुकाई॥ अतिशयप्रीतिदेखिरघुवीरा॥
प्रगटेहृदयहरणभवभीरा॥ मुनिमगमांझअचलहोइबैशा
पुलकशरीरपनसफलजैसा॥ तबरघुनाथनिकटचलिआए
देखिदशानिजजनमनभाए॥ सोरठा॥ राममुसाहिबसंतप्रि
यसेवकदुखदारिदमन॥ मुनिमनप्रभुकहिआयउउठउबहि

जन मम प्राण सम ॥२२॥ चौपाई॥ मुनिहिं राम बहु भांति जगावा॥
जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥ भूप रूप तब राम दुरावा॥ हृद
य चतुर्भुज रूप दिखावा॥ मुनि अकुलाइ उठा तब कैसे॥ विकल
हीन मणि विनु फणि जैसे॥ आगे देखि राम तनु श्यामा॥ सीता
अनुज सहित सुखधामा॥ परेउ लकुट इव चरणन्ह लागी॥ प्रेम
मगन मुनिवर बडभागी॥ भुज विशाल गहि लिये उठाई॥ पर
म प्रीति राखेउ उर लाई॥ मुनिहिं मिलत अस सोह कृपाला॥ कन
क तरुहि जनु भेंट तमाला॥ राम वदन विलोकि मुनि ठाढा॥ मा
नहुं चित्र मांझ लिखि काढा॥ दोहा॥ तब मुनि हृदये धीर धरि ग
हि पद बारहिं बार॥ निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रका
र॥२३॥ चौपाई॥ कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी॥ अस्तुति करौं
कवन विधि तोरी॥ महिमा अमित मोर मति थोरी॥ रवि सन्मुख
खद्योत अंजोरी॥ श्याम तामरस दाम शरीरं॥ जटा मुकुट परिध
न मुनि चीरं॥ पाणि चाप शर कटि तूणीरं॥ नौमि निरन्तर श्री रघु
वीरं॥ मोह विपिन घन दहन कृशानुं॥ सन्त सरोरुह कानन भानुं॥
निशिचर करि वरूथ मृगराजं॥ त्रातु सदा नो भव खग वाजं॥ अरु
ण नयन राजीव सुवेषं॥ सीता नयन चकोर निशेषं॥ हर हृदि मा
नस बाल मरालं॥ नौमि राम उर बाहु विशालं॥ संशय सर्प ग्रसन
उरगादं॥ शमन सकल मन ताप विषादं॥ भव भञ्जन रञ्जन सुर यूथं॥
त्रातु सदा नो कृपा वरूथं॥ निर्गुण सगुण विषम सम रूपं॥ ज्ञान गि

रामा.
आ.
७

रागोतीतयदनूपं॥ अमलमखिलमनवद्यमपारं॥ नौमिरा
रामभञ्जनमहिभारं॥ भक्तकल्पपादपआरामं॥ तर्जनक्रोधलो
भमदकामं॥ अतिनागरभवसागरसेतुं॥ त्रातुसदादिनकरकु
लकेतुं॥ अतुलितभुजप्रतापबलधामं॥ कलिमलविपुल
विभञ्जननामं॥ धर्मवर्मशर्मदगुणग्रामं॥ सन्ततशन्तनोतुअ
भिरामं॥ यद्यपिविरजव्यापकअविनाशी॥ सबकेहृदयनि
रन्तरवासी॥ तदपिअनुजसियसहितखरारी॥ वसहुमानस
ममकाननचारी॥ जेजानहितेजानहुस्वामी॥ सगुणअगुण
उरअन्तरजामी॥ जोकोशलपतिराजीवनयना॥ करौसोराम
हृदयममअयना॥ सोरठा॥ मायाबशजगजीबरहहिंसदासन
तमगन॥ तिमिलागहुमोहिपीवकरुणाकरसुन्दरसुखद॥ २
चौपाई॥ असअभिमानजाइनहिभोरे॥ मैसेवकरघुपतिपतिमो
रे॥ रामभक्तितजिचहकल्याणा॥ सोनरअथमशृगालसमा
ना॥ परमप्रसन्नजानिमुनिमोही॥ जोबरमांगुदेउंमैतोही॥ सु
निमुनिवचनराममनभाए॥ बहुरिहर्षिमुनिवरउरलाए॥ मु
निकहमैबरकबहुंनयांचा॥ समुझिनपरैझूठकासांचा॥ तुम॰
हिंनीकलागैरघुराई॥ सोमोहिदेहुदाससुखदाई॥ अविरल
भक्तिविरतिविज्ञाना॥ होहुसकलगुणज्ञाननिधाना॥ प्रभुजो
दीन्हसोवरमैपावा॥ अबसोदेहुमोमाहिजोभावा॥ दोहा॥ अनु
जजानकीसहितप्रभुचापवाणधरराम॥ ममहियगगनइंदुइ

५

वबसहुसदायहकाम॥२५॥ चौपाई॥ एवमस्तुकहिरमानिवा
सा॥ हर्षिचलेकुम्भजऋषिपाशा॥ पुनिप्रणामकरिकहकरजोरी
॥ सुनहुनाथकछुविनतीमोरी॥ बहुतदिवसगुरुदर्शननपाये॥
भएमोहिएहिआश्रमआये॥ अवप्रभुसंगजाउंगुरुपाहीं॥ तुम
कहंनाथनिहोरानाहीं॥ चलेजातमगातवपदकंजा॥ देखिहौं
सौंविराधमदभंजा॥ देखिकृपानिधिमुनिचतुराई॥ लिएसंग
विहंसेद्वौभाई॥ पन्थकहतनिजभक्तिअनूपा॥ मुनिआश्रमप
हुंचेसुरभूपा॥ आश्रमदेखिमहाशुचिसुन्दर॥ सरितसरोवर
काननभूधर॥ वनचरजलचरजीवजहांते॥ वैरनकरहिंप्रीति
सवहीते॥ दोहा॥ तरुवहुविधविहंमृगवोलतविविधप्रकार॥
वसहिंसिद्धमुनितपकरहिंमहिमागुणआगार॥२६॥ चौपाई॥
तुरतसुतीक्षणगुरुपहंगयऊ॥ करिदंडवतकहतअसभयऊ
नाथकोशलाधीशकुमारा॥ आएमिलनजगतआधारा॥ राम
अनुजसमेतवैदेही॥ निशिदिनदेवजपतहहुजेही॥ सुनत
अगस्त्यतुरतउठिधाए॥ हरिहिंविलोकिलोचनजलछाए॥ मु
निपदकमलपरेद्वौभाई॥ ऋषिअतिप्रीतिलिएउरलाई॥ सादर
कुशलपूछिमुनिज्ञानी॥ आसनपरवैठारेआनी॥ पुनिकरिवहु
प्रकारप्रभुपूजा॥ मोहिसमभाग्यवंतनहिंदूजा॥ जहंलगिरहे
अपरमुनिवृन्दा॥ हर्षेसवविलोकिसुखकन्दा॥ दोहा॥ मुनिसमू
हमहंवैठेसन्मुखसवकीओर॥ शरदइन्दुतनचितवतमान

डुनिकर चकोर॥२७॥ चौपाई॥ पाइ सुख थल जल हर्षित मीना॥
पारस पाइ सुखी जिमि दीना॥ प्रभुहि निरखि सुख भा इहि भांती
चातक जथा पाइ जल स्वाती॥ तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं॥ तुम
सन प्रभु दुराव कछु माहीं॥ तुम जानहु जेहि कारण आयेउं॥ ता
ते नाथ न कहि समुझायेउं॥ अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही॥ जेहि प्र
कार मारौं सुरद्रोही॥ निशिचर अवन वचहिं मुनिराई॥ जिमि पं
कज वन हिम ऋतु पाई॥ मुनि मुसकाने सुनि प्रभु वाणी॥ पूछ
हु नाथ मोहि का जानी॥ तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी॥ जानौं महि
मा कछुक तुम्हारी॥ दोहा॥ भृकुटी निरखत नाथ तव रहत सदा
पद कमल तर॥ जिन्ह डारे निज उदर महं विबुध विधाता सिद्ध नर ॥२८॥
चौपाई॥ अति कराल सब पर जग जाना॥ औरौं कहौं सुनिय भ
गवाना॥ ऊमर तरु विशाल तव माया॥ फल ब्रह्माण्ड अनेक
निकाया॥ जीव चराचर जन्तु समाना॥ भीतर वसहिं न जानहिं
आना॥ ते फल भक्षक कठिन कराला॥ तव भय डरत सदा सो
काला॥ ते तुम सकल लोकपति साईं॥ पूछेहु मोहि मनुज की
नाईं॥ यह वर मांगौं कृपानिकेता॥ वसहु हृदय सिय अनुज समे
ता॥ अविरल भक्ति विरति सत संगा॥ चरण सरोरुह प्रीति अभ
ङ्गा॥ यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता॥ अनुभवगम्य भजहिं जे सन्ता॥
अस तव रूप वखानौं जानौं॥ फिरि फिरि सगुण ब्रह्म रति मानौं॥
सोरठा॥ जाहि जीव पर माय रहत तम महिं मन्नत दिवस॥ तिनकी

महिमानजायसेवकतमकहुमाणप्रिय॥२९॥चौपाई॥
सन्ततदासन्हदेहुबडाई॥तातेमोहिपूछेहुरघुराई॥हैप्रभु
परममनोहरठाऊं॥पावनपंचवटीतेहिनाऊं॥गोदावरीन
दीतहंबहई॥चारिहुयुगप्रसिद्धसोअहई॥दण्डकबनपु-
नीतप्रभुकरहू॥उग्रशापमुनिवरकैहरहू॥वासकरहुतहं
रघुकुलराया॥कीजेसकलमुनिन्हपरदाया॥चलेरामसु
निआयसुपाई॥तुरतहिपंचवटीनिअराई॥दिब्यलताद्रुम-
प्रभुमनभाए॥निरखिरामतेभएसोहाए॥लक्ष्मणरामसि
यचरणनिहारी॥काननअवभागासुखकारी॥दोहा॥गी
धराजसोंभेंटभइबहुविधप्रीतिदृढाइ॥गोदावरीसमीपप्र
भुरहेपर्णगृहछाइ॥३०॥चौपाई॥जबतेरामकीन्हतहंबासा
सुखीभएमुनिबीतीत्रासा॥गिरिवननदीतालछविछाए
दिनदिनप्रीतिअतिहोतसुहाए॥खगमृगवृन्दअनन्दितर
हहीं॥मधुरमधुपगुंजतछविलहहीं॥सोवनवरणिनशक
अहिराजा॥जहांप्रगटरघुवीरविराजा॥एकवारप्रभुसुख-
आसीना॥लक्ष्मणवचनकहेछलहीना॥सुरनरमुनिसच
राचरसांई॥मैपूछौनिजप्रभुकीनाई॥मोहिसमुझाइकहहु
सोइदेवा॥सवतजिकरौंचरणरजसेवा॥कहहुज्ञानविराग
अरुमाया॥कहहुसोभक्तिकरहुजेहिदाया॥दोहा॥ईश्वर
जीवभेदप्रभुसकलकहहुसमुझाइ॥जातेहोईचरणरतिशो

कमोदहुभ्रमजाइ॥२१॥ चौपाई॥ थोरेमहंसबकहौंबुझाई॥ सु
नहुतातमतिमनचितलाई॥ मैअरुमोरतोरतैंमाया॥ जेहिब
शकीन्हेजीवनिकाया॥ गोगोचरजहंलगिमनजाई॥ सोस
बमायाजानेहुभाई॥ तेहिकरभेदसुनहुतुमसोऊ॥ बिद्याअ
परअबिद्यादोऊ॥ एकदुष्टअतिशयदुखरूपा॥ जावशजीव
परेभवकूपा॥ एकरचैजगगुणवशजाके॥ प्रभुप्रेरितनहि
निजबलताके॥ ज्ञानमानजहंएकौनाहीं॥ देखतब्रह्मरूप
सबमाहीं॥ कहियेतातसोपरमबिरागी॥ तृणसमसिद्धितीनि
गुणत्यागी॥ दोहा॥ मायाईशनआपुकहंजानिकहैसोजीव
बंधमोक्षप्रदसर्वपरमायाप्रेरकशीव॥२२॥ चौपाई॥ धर्मतेंबि
रतियोगतेंज्ञाना॥ ज्ञानमोक्षप्रदवेदबखाना॥ जातेंवेगिद्र
वौंमैभाई॥ सोममभक्तिभक्तसुखदाई॥ सोस्वतंत्रअवलम्बन
आना॥ तेहिआधीनज्ञानविज्ञाना॥ भक्तितातअनुपमसुखमू
ला॥ मिलइजोसन्तहोहिंअनुकूला॥ भक्तिकेसाधनकहौंब
खानी॥ सुगमपन्थमोहिपावहिंप्राणी॥ प्रथमहिंविप्रचरण
अतिप्रीती॥ निजनिजधर्मनिरतश्रुतिरीती॥ एहिकरफलपु
निविषयविरागा॥ तबममचरणउपजअनुरागा॥ श्रवणादि
कनवभक्तिदृढाहीं॥ ममलीलारतिअतिमनमाहीं॥ सन्तच
रणपंकजअतिप्रेमा॥ मनक्रमवचनभजनदृढनेमा॥ गुरुपि
तुमातुबंधुपतिदेवा॥ सबमोहिकहंजानेंदृढसेवा॥ ममगुण

गावतपुलकशरीरा॥गदगदगिरानयनबहनीरा॥का
मादिकमदंदंभनजाके॥तातनिरन्तरवशमैताके॥दोहा
वचनकर्ममनमोरिगतिभजनकरैंनिःकाम॥तिन्हकेहृ
दयकमलमहंकरौंसदाविश्राम॥२२॥चौपाई॥भक्तियोग
सुनिअतिसुखपावा॥लक्ष्मणप्रभुचरणन्हशिरनावा॥
नाथसुनेगतममसंदेहा॥भयउज्ञानउपजेनवनेहा॥अ
नुजवचनसुनिप्रभुमनभाए॥हर्षिरामनिजहृदयलगाए
इहिविधिगयेकछुकदिनबीती॥कहतविरागज्ञानगुणनी
ती॥शूर्पणखारावणकीबहिनी॥दुष्टहृदयदारुणजसि
अहिनी॥पंचवटीसोगईएकवारा॥देखिविकलभइयुगल
कुमारा॥भ्रातापितापुत्रउरगारी॥पुरुषमनोहरनिरखति
नारी॥होइविकलशकमननहिरोकी॥जिमिरविमणिद्र
वरविहिविलोकी॥दोहा॥अथमनिशाचरिकुटिलअतिच
लीकरणउपहास॥सनुखगेशभावीप्रबलभावहनिशि
चरनाश॥२४॥चौपाई॥रुचिररूपधरिप्रभुपहंजाई॥बोली
वचनमधुरमुसकाई॥तुमसमपुरुषनमोसमनारी॥यह
संयोगविधिरचाविचारी॥ममअनुरूपपुरुषजगनाहीं॥
देखेउँखोजिलोकतिहुंमांही॥तातेंअबलगिरहीकुमारी
मनमानाकछुतुमहिनिहारी॥सीतहिचितइकहीप्रभुवा
ना॥अहैकुमारमोरलघुभाता॥गइलछमणरिपुभगिनीजानी

प्रभुविलोकिबोलेमृदुबाणी॥सुन्दरिसुनुमैंउन्हकरदासा
पराधीननहितोरसुपाशा॥प्रभुसमर्थकोशलपुरराजा॥
जोकछुकरहिंउन्हैंसबछाजा॥दोहा॥केहरिसमनहिकरि
हिंबलवाकिवाजसमान॥प्रभुसेवकहमिजानहुमानहुव
चनप्रमाण॥२५॥चौपाई॥सेवकसुखचहमानभिखारी॥
ब्यसनीधनशुभगतिव्यभिचारी॥लोभीयसचहचाहगुमा
नी॥नभदुहिदूधचहतयप्राणी॥पुनिफिरिरामनिकटसोआ
ई॥प्रभुलक्ष्मणपंहंबहुरिपठाई॥लक्ष्मणकहातोहिसोवरई
जोतृणतोरिलाजपरिहरई॥तबखिसिआनिरामपहंजाई॥
रूपभयङ्करप्रगटदिखाई॥विथुरेकेशवदनविकराला॥भ्रृ
कुटीकुटिलकरणालगिगाला॥सीतहिंसभयदेखिरघुराई
कहाअनुजसनसैनबुझाई॥अनुजराममनकीगतिजानी॥
उठेरिसाइसोसुनहुंभवानी॥दोहा॥लक्ष्मणअतिलाघवसों
नाककानविनुकीन्ह॥ताकेकररावणकहंमनहुंचुनौती
दीन्ह॥२६॥चौपाई॥नाककानविनभइविकरारा॥जनुस्रव
शैलगेरुकैधारा॥षणामघटादेखतघनवेरी॥नहवासवथ
नुमनहुउगेरी॥खरदूषणपहंगइविलपंता॥धिकधिक
तवपौरुषबलभ्राता॥तेइपूछासवकहेसिवुझाई॥यात
धानसुनिसेनवनाई॥चोदहसहस्रसुभटसङ्गलीन्हे॥ति
न्हसपनेहुंरणपीठनदीन्हे॥धाएनिशिचरनिकरवरूथा

जनुसपछकज्जलगिरिजूथा॥नानावाहननानाकारा॥नाना
आयुधधरघोरअपारा॥सूर्पनखहिंआगेंकरिलीन्ही॥असुभरूप
श्रुतिनासाहीनी॥दोहा॥निजनिजबलसबमिलिकहहिंएक
हिंएकसनाइ॥बाजनबाजहिंजावनेहर्षनहृदयसमाइ॥१७॥
चौपाई॥असगुनअमितहोहिंभयकारी॥गनहिंनमृत्युविव
शवशझारी॥गर्जहिंतर्जहिंगगनउडाहीं॥देखिकटकभट
अतिहरषाहीं॥कोउकहजिअतधरहुदोउभाई॥धरिमारहुति
यलेहुछडाई॥कोउकहसुनियसत्यहमकहहीं॥काननफिर
हिंवीरकोउअहहीं॥एकनकहासुपूर्वहिंउरदहहू॥खरकेआगेंअ
सजनिकरहहू॥बहुविधवचनकहतरणधीरा॥आपसकलज
हाँरघुवीरा॥धुरिपूरिनभमण्डलरहेऊ॥रामबुलाइअनुजस
नकहेऊ॥लैजानकीहिंजाहुगिरिकन्दर॥आवानिशिचरक
टकभयङ्कर॥रहेहुसजागसुनिप्रभुकेबाणी॥चलेसहितश्रि
यशरधनुपाणी॥देखिरामरिपुदलचलिआवा॥विहंसिकठि
नकोदण्डचढावा॥छन्द॥कोदण्डकठिनचढाइप्रभुशिरजा
टाबांधतसोहक्यों॥मरकतशैलपरलसतदामिनिकोटिसोंयु
गभुजगज्यों॥१९॥कटिकसिनिषङ्गविशालभुजगहिचापवि
शिखसुधारिके॥चितवतमनहुंमृगराजप्रभुगजराजघटानि
हारिके॥२०॥सोरठा॥आइगयेबगमेलधरहुधरहुधावहिंसुभट
यथाविलोकिअकेलबालरविहिंघेरतदनुज॥२१॥चौपाई॥दे

आ. ५

रिरहेनिशिचरसमुदाई॥दाउकखगमृगाचलेपराई॥प्रभुवि
लोकिशरशाकहिंनडारी॥थकितभईरजनीचरधारी॥सचिव
वोलिबोलेखरदूषण॥यहकोउनृपबालकनरभूषण॥सुर
नरनागअसुरमुनिजेते॥देखेसुनेहतेहमकेते॥हमभरिज
नमसुनहुंसबभाई॥देखीनहीअससुन्दरताई॥यद्यपिभगि
निहिंकीन्हकुरूपा॥बधलायकनहिपुरुषअनूपा॥देहुतु
रतनिजनारिदुराई॥जीवतभवनजाहुदोउभाई॥मोरकहातु
मताहिसुनावहु॥तासुवचनसुनिआतुरआवहु॥दोहा॥भ
एकालवशमूढसबजानहिंनहिरघुवीर॥मशाकफूंककिमि
मेरुउडसुनहुगरुडमतिधीर॥१९॥चौपाई॥दूतन्हकहाराम
सनजाई॥सुनतरामबोलेमुसकाई॥आजुभयेउबडभागप्रह
मारा॥तुम्हरेप्रभुअसकीन्हविचारा॥हमक्षत्रीमृगयावनकर
हीं॥तमसेखलमृगखोजतफिरहीं॥तमसेखलमृगखोज
तफिरहीं॥रिपुबलवन्तदेखिनहिडरहीं॥एकवारकालहु
सनलरहीं॥यद्यपिमनुजदनुजकुलघातक॥मुनिबालकख
लशालकबालक॥जौंनहोइबलघरफिरिजाहू॥समरविमु
खमेहतोंनकाहू॥रणचढिकरियकपटचतुराई॥रिपुपर
कृपापरमकदराई॥दूतन्हजाइतुरतसबकहेऊ॥सुनिखरदू
षणउरअतिदहेऊ॥छन्द॥उरदहेउकहेउकिधरहुधावहु
विकटभटरजनीचरा॥शरचापतोमरशक्तिशूलकृपाण॥प॰

रिपुपरभूपरा॥२१॥ प्रभुकीन्हधनुषटंकारप्रथमकठोरघो
रभयम्बहा॥ भएबधिरब्याकुलयातुधाननज्ञानतेहिअवस
ररहा॥२२॥ दोहा॥ सावधानहोइधाएउजानिसबलआराति
लागेबरषणरामपरअस्त्रशस्त्रबहुभांति॥४०॥ तिन्हकेआयु
धतिलसमसरिकरिकाटेरघुबीर॥ तानिशरासनश्रवणलगि
पुनिछाडेनिजतीर॥४१॥ छन्द॥ तबचलेंबाणकरालफुंकरत
जनुबहुव्याल॥ कोपेउसमरश्रीरामचलेविशिखनिसितनि
काम॥२३॥ अवलोकिखरतरतीरमुरिचलनिशिचरवीर॥ प
कएककोउनसंभार करैंतातमातपुकार॥२४॥ भएक्रुद्धतीने
भाइ जोभागिरणतेंजाइ॥ तेहिबधवमैंनिजपाणि फिरेमरण
मनमहंठानि॥२५॥ आयुधअनेकप्रकार॥ सनमुखतेकरहिंप्र
हार॥ रिपुपरमकोपेजानि॥ प्रभुधनुषशारसंधानि॥२६॥ छाडे
विपुलनाराच॥ लगेकटनविकटपिशाच॥ उरशीसकरभुज
चरण॥ जहंतहंलगेमहिपरण॥२७॥ चिक्करतलागतबाण
धरपरतकुधरसमान भटकटततनूषातखंड॥ पुनिउठतक
रिपाखंड॥२८॥ नभउडतबहुभुजमुंड॥ विनुमौलिधावतरुंड
खगकंककाकसृगाल॥ कटकटहिंकठिनकराल॥२९॥ छन्द
कटकटहिंजंबुकभूतप्रेतपिशाचखप्परसंचहीं॥ बैतालबी
रकपालतालबजाइयोगिनिनाचहीं॥३०॥ रघुबीरबाणप्रचंड
खंडहिंभटन्हकेउरभुजशिरा॥ जहंतहंपरहिंउठिलरहिंधरुध

रुकरहिंगिराभयंकरा॥२१॥अंत्रावलीलैउडतगीधपिशा
चकरगहिधावहीं॥संग्रामपुरवासीमनहुंबहुबालगुडीउ
डावहीं॥मारेपछारेउरविदारेविपुलभटकहंरतपरे॥अव
लोकिनिजदलविकलभटत्रिशिरादिखरदूषणफिरे॥२२
शरशक्तितोमरपरशुशूलकृपाणएकहिंबारहीं॥करिकों
पश्रीरघुवीरपरअगणितनिशाचरडारहीं॥प्रभुनिमिषम
हंरिपुशरनिवारिप्रचारिडारेशायका॥दशदशविशिख
उरमांझमारेसकलनिशिचरनायका॥२३॥महिपरतउठि
भटभिरतपुनिपुनिकरतमायाअतिघनी॥सुरडरतचौदह
सहसनिशिचरएकश्रीरघुकुलमणी॥सुरमुनीसभयप्रभु
देखिमायानाथअतिकौतुककरयो॥देखहिंपरस्परराम
करिसंग्रामरिपुदललरिमरयो॥२४॥दोहा॥रामरामकहित
नुतजहिंपावहिंपदनिर्वाण॥करिउपायरिपुमारेउछणम
हंकृपानिधान॥४२॥हर्षितवर्षहिंसुमनसुरबाजहिंगगन
निशान॥अस्तुतिकरिकरिसबचलेशोभितविविधविमान
॥४३॥चौपाई॥जबरघुनाथसमररिपुजीते॥सुरनरमुनिसब
केदुखबीते॥तबलछमणसीतहिंलआए॥प्रभुपदपरतह
र्षिउरलाए॥सीतानिरखिश्याममृदुगाता॥परमप्रेमलोचन
नअघाता॥पञ्चवटीबसिश्रीरघुनायक॥करतचरितसुरमु
निसुखदायक॥धुआंदेखिखरदूषणकेरा॥जाइसूर्पनखारा

वणप्रेरा॥बोलीबचनक्रोधकरिभारी॥देशाकोशाकइसुरति
विसारी॥करसिपानसोवसिदिनराती॥शुधिनतोहिशिरप
रआराती॥राजनीतिबिनुधनबिनुधर्मा॥हरिहिसमर्पेबिनु
सतकर्मा॥विद्याबिनुविवेकउपजाये॥श्रमफलपाढेकियेअ
रुपाये॥संगतेयतीकुमंत्रतेराजा॥मानतेज्ञानपानतेंलाजा॥
प्रीतिप्रणायबिनुमदतेगुणी॥नाशहिंबेगिनीतिअससुनी॥
सोरठा॥रिपुरुजपावकपापप्रभुअहिगणियनछोटकरि॥अ
सकहिविविधविलापकरिलागीरोदनकरण॥४५॥दोहा॥
सभामांझपरिव्याकुलबहुप्रकारकहरोइ॥तोहिजिअतदश
कन्धरमोरिकिअसगतिहोइ॥४५॥चौपाई॥सुनतसभासद
उठेअकुलाई॥समुझाईगहिबांहउठाई॥कहलंकेशकहसि
निजबाता॥केहिंतवनासाकाननिपाता॥अवधनृपतिदश
रथकेजाए॥पुरुषसिंहवनखेलनआए॥समुझिपरीमोहिउ
न्हकैकरणी॥रहितनिशाचरकरिहहिंधरणी॥जिनकरभु
जबलपाइदशानन॥अभयभयेमुनिविचरहिंकानन॥देख
तबालककालसमाना॥परमधीरधन्वीगुणनाना॥अतुलि
तबलप्रतापदोउभ्राता॥खलबधरतसुरमुनिसुखदाता॥शो
भाधामरामअसनामा॥तिन्हकेसंगनारिएकश्यामा॥सोरठा
अतिसुकुमारिपियारिपटतरयोगनआहिकोउ॥मैंमनदीख
विधातानिजहांरदेतेहिसमनकोउ॥४६॥चौपाई॥अजउकुमारदे

रामा॰
आ॰
१३

13

खवतमतवहीं॥ह्वैरुद्रविकलनासुवशातवहीं॥जीवनमु
क्तलोकसवताके॥दशमुखवसुनजनसुन्दरिअसजाके॥रूप
राशिविधिनारिसंभारी॥रतिशतनकोटितासुवलिहारी॥ता
सुअनुजकाटीश्रुतिनासा॥सुनितवभगिनीकरिपरिहा
सा॥खरदूषणसुनिलागुगोहारी॥तणमहंसकलकटक
उनमारी॥खरदूषणत्रिशिराकरघाता॥सुनिदशशीसजरा
सवगाता॥दोहा॥सूर्पनखहिंसमझाइकरिवलवोलेसि
वहुभांति॥गवनगयेउअतिशोचवशनींदपरीनहिराति॥२
चौपाई॥सुरनरअसुरनागगमहिमांही॥मोरेअनुचरकहंको
उनाहीं॥खरदूषणमोसमवलवंता॥तिन्हेकोमारेविनुभग
वंता॥सुररंजनभंजनमहिभारा॥जौंजगदीशलीन्हअवता
रा॥तौमैजाइवैरहठिकरऊं॥प्रभुकरमरिभवसागरतरऊं॥
होयभजननहिंतामसदेहा॥मनक्रमवचनमंत्रदृढएहा॥
जौंनररूपभूपसुतकोऊ॥हरिहौंनारिजीतिरणदोऊ॥चला
अकेलयानचढितहंवां॥वसमारीचसिंधुतटजहंवां॥रथ
अनूपजोरेखरचारी॥वेगवन्तइमिजिमिउरगारी॥छन्द॥उ
रगारिसमअतिवेगवर्णितजाइनहीउपमाकही॥पीतछत्र
शोभितचपलमनजनुचवरश्वेतविराजही॥२५॥यहिभांति
नांघवनसरितशैलअनेकवापीसोहहीं॥वनवागउपवन॰
वाटिकासुचिनगरमुनिमनमोरहीं॥२६॥दोहा॥वरतउगग

सुचि बिहंग मृग बोलत बिबिध प्रकार ॥ एहि बिधि आयो
सिंधु तट शत योजन बिसतार ॥ ४८ ॥ चौपाई ॥ सुन्दर जीव बि
बिध बिध जाती ॥ करहिं कुलाहल दिन अरु राती ॥ एक छन्द
हिं ते गर्जहिं घन नाई ॥ महाबली बल बर्णि न जाई ॥ कनक बा
लु सुन्दर सुखदाई ॥ बैठहिं सकल जे तरु तर जाई ॥ तेहि पर दि
ब्य लता द्रुम भागे ॥ जेहि देखत मुनि मन अनुरागे ॥ गुहा बिबि
ध बिध रहहिं बनाई ॥ बर्णत शारद मति सकुचाई ॥ चाहिय
जहां ऋषिन कर बासा ॥ तहां निशाचर करहिं निवासा ॥ दश
मुख देखि सकल सकुचाने ॥ जे जड जीव सजीव पराने ॥ रहो
राम जप शुक्रि बनाई ॥ सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ दोहा ॥ ल
छमण गए बन हिं जब लेन मूल फल कन्द ॥ जनकसुता सन बो
लेउ बिहंसि कृपा सुख बृन्द ॥ ४९ ॥ चौपाई ॥ सुनहु प्रिया ब्रत रु
चिर सुशीला ॥ मै कछु करब ललित नर लीला ॥ तुम पावक म
हं करहु निवासा ॥ जौं लगि करौं निशाचर नाशा ॥ जबहिं राम
सब कहेउ बखानी ॥ प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥ निज प्र
तिबिम्ब राखि तहं सीता ॥ तैसइ शील स्वरूप बिनीता ॥ लछमणहु
यह मरम न जाना ॥ जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ दशमुख गएउ
जहां मारीचा ॥ नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ नवनि नीच की अति
दुखदाई ॥ जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई ॥ भयदायक खल की
प्रिय बाणी ॥ जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ दोहा ॥ करि पूजा

मारीचतबसादरपूछीबात॥कवनहेतुमनब्यग्रअतिएक
सरआयेहुतात॥५०॥चौपाई॥दशमुखसकलकथातेहिआगे
कहीसहितअभिमानअभागे॥होहुकपटमृगतुमछलकारी
जेहिबिधिहरिआनौंनृपनारी॥तेहुपुनिकहासुनहुदशशीशा
तेनररूपचराचरईशा॥तासोंतातबैरनहिंकीजे॥मारेमरियजि
आएजीजे॥मुनिमखराखनगयेउकुमारा॥बिनुफरशररघु
पतिमोहिमारा॥शतयोजनआयेउंछणमाहीं॥तिन्हस
नबैरकिएभलनाहीं॥भइममकीटभृंगकीनाई॥जहँतहँ
मैदेखोंदोउभाई॥जौंनरतततदपिअतिसूरा॥तिनहिबिरो
धनआइहिपूरा॥दोहा॥जेहिंताडकासुबाहुहतिखंडेउहर
कोदंड॥खरदूषणत्रिशिराबधेउमनुजकिअसबरिबंड॥५१॥
चौपाई॥जाहुभवनकुलकुशलबिचारी॥सुनतजरादीन्हेसि
बहुगारी॥गुरुजिमिमूढकरसिममबोधा॥कहुजगमोहि
समानकोयोधा॥तबमारीचहृदयअनुमाना॥नवहिबिरोधे
नहिकल्याणा॥शस्त्रीमर्मीप्रभुशठधनी॥बैदबंदिकबिमान
सगुणी॥उभयभांतिदेखानिजमरणा॥तबताकेसिरघुनायक
शरणा॥उतरदेतमोहिबधिअभागे॥कसनमरौंरघुपतिश
रलागे॥असजियजानिदशाननसंगा॥चलारामपदप्रेमअभंगा॥
मनअतिहर्षजनावनतेही॥आजुदेखिहौंपरमसनेही॥छन्द॥
निजपरमप्रीतमदेखिलोचनसफलकरिसुखपाइहौं॥श्री

सहितअनुजसमेतकृपानिकेतपदमनलाइहौं ॥ २७ ॥ नि
र्वाणदायकक्रोधजाकरभक्तिअवशहिंवशकरी ॥ निजपा
णिशरसंधानिसोमोहिवधहिंसुखसागरहरी ॥ २८ ॥ दोहा
ममपाछेंधरथवतपरेशरासनबाण ॥ फिरिफिरिप्रभुहि
विलोकिहौंधन्यनमोसमआन ॥ ५२ ॥ चौपाई ॥ सीतालषण
सहितरघुराई ॥ जेहिवनवसहिंमुनिन्हसुखदाई ॥ तेहिव
ननिकटदशाननगयेऊ ॥ तबमारीचकपटमृगभयेऊ ॥ अ
तिविचित्रकछुवरणिनजाई ॥ कनकदेहमणिरचितबनाई
सीतापरमरुचिरमृगदेखा ॥ अङ्ग-अङ्ग-सुमनोहरवेषा ॥ सु
नहुदेवरघुवीरकृपाला ॥ एहिमृगकरअतिसुन्दरछाला ॥
सत्यसंधप्रभुवधकरिएही ॥ आनहुचर्मकहतिवैदेही ॥ तब
रघुपतिजानासबकारण ॥ उठेहर्षिसुरकाजसंवारण ॥ मृ
गविलोकिकटिपरिकरबांधा ॥ करतलचापरुचिरशरसा
धा ॥ प्रभुलक्ष्मणहिंकहासमुझाई ॥ फिरतविपिननिशि
चरबहुभाई ॥ सीताकेरिकरेहुरखवारी ॥ बुधिविवेकबलस
मयविचारी ॥ दोहा ॥ असकहिचलेउतहांप्रभुजहांकपटमृ
गनीच ॥ देवहर्षविस्मयविवसचातकजिमिवरषावीच ॥ ५३ ॥
चौपाई ॥ प्रभुहिविलोकिचलामृगभाजी ॥ धायरामशरास
नसाजी ॥ निगमनेतिशिवध्याननपावा ॥ मायामृगपाछेंसो
धावा ॥ कबहुंनिकटपुनिदूरिपराई ॥ कबहुंकप्रगटैकबहुं

छपाई॥ प्रगटत दुरत करत छल भूरी॥ एहि बिधि प्रभुहि ग
यो लै दूरी॥ तब तकि राम कठिन शर मारा॥ धरणि परेउ क
रि घोर पुकारा॥ लक्ष्मण कर प्रथमहिं लै नामा॥ पाछें सुमि
रेसि मन महुं रामा॥ प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा॥ सुमि
रेसि राम समेत सनेहा॥ अन्तर प्रेम तासु पहिचाना॥ मुनि दु
र्लभ गति दीन्ह सुजाना॥ दोहा॥ विपुल सुमन सुर वर्षहिं
गावहिं प्रभु गुण गाथ॥ निज पद दीन्हा असुर कहं दीनबं
धु रघुनाथ॥ २७॥ चौपाई॥ खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा॥ सो
ह चाप कर कटि तूणीरा॥ आरत गिरा सुनी जब सीता॥ कह
लक्ष्मण सन परम सभीता॥ जाहु बेगि संकट अति भ्राता॥
लक्ष्मण बिहंसि कहा सुनु माता॥ भृकुटि विलास सृष्टि लय
होई॥ सपनेहु संकट परै कि सोई॥ सौंपि गए मोहि रघुपति था
ती॥ जौं तजि जाउं तोष नहिं छाती॥ यह जिय जानि सुनहु म
म माता॥ पूछत कहहु कवन मैं बाता॥ मर्म बचन सीता जब
बोला॥ हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला॥ चहुं दिशि रेख खचा
इ अहीशा॥ बारबार नावा पद सीशा॥ वन दिशि देव सौंपि सब
काहू॥ चले जहां रावण शशि राहू॥ चितवहिं लक्ष्मण सिय
हि फिरि कैसें॥ तजत वत्स निज मातहि जैसे॥ दोहा॥ एक उ
रत दुर राम के दूजे सीय अकेलि॥ लक्ष्मण तेज तनु हत भयो
जिमि बाढी दव वेलि॥ २८॥ चौपाई॥ शून्य बीच दशकन्धर

देखा॥ आवानिकटयतीकेभेषा॥ जाकेउरसुरअसुरउ
राहीं॥ निशिननीन्ददिनअन्ननखांहीं॥ सोदशशीशस्वा
नकीनाईं॥ इतउतचितइचलाभेंडिहाईं॥ जिमिकुपन्थपग
देतखगेशा॥ रहनतेजबलबुधिलबलेषा॥ करिअनेकवि
धिकुलचतुराई॥ मांगेउभिक्षादशमुखजाई॥ अतिथिजा
निसियकन्दमूलफल॥ देनलगीतेहिंकीन्हबडूरिछल॥
कहदशमुखसुनुसुन्दरिबाणी॥ बांधीभीखनलेउंसेयानी
विधिगतिवामकालकठिनाई॥ रेखलांघिसियबाहिरआई॥
दोहा॥ विश्वभरणिअघदलनिसियकरणिसकलसुरकाज
जानानहितेहिसमयमहंदशशिरकपटकेसाज॥५८॥ चौपा॰
नानाविधकहिकथासुहाई॥ राजनीतिभयप्रीतिदेखाई॥ क
हसीतासुनुयतीगोसांईं॥ बोलेहुवचनदुष्टकीनाईं॥ तबरा
वणनिजरूपदेखावा॥ भईसभीतजबनामसुनावा॥ कहसी
ताधरिधीरजगाढा॥ आइगएप्रभुरहुखलठाढा॥ जिमिह
रिवधूहिक्षुद्रशशचाहा॥ भएसिकालवशनिशिचरनाहा॥
वायसकरिचहखगपतिसमता॥ सिन्धुसमानहोइकिमिस
रिता॥ खरीकिहोइसुरधेनुसमाना॥ जाहुभवननिजसुनुअ
ज्ञाना॥ सुनतवचनदशशीशरिसाना॥ मनमहुचरणबन्दि
सुखमाना॥ दोहा॥ क्रोधवन्ततबरावणलीन्हेसिरथबैठाइ
चलेउगगनपथआतुरभयरथहांकिनजाइ॥५९॥ चौपाई॥

हाजगदीपादेवरघुराया॥केहिअपराधविसारेऊदाया॥
आरतिहरणशरणसुखदायक॥हारघुकुलसरोजदिनना
यक॥हालक्ष्मणतुम्हारनहिदोषा॥सोफलपायेउंकीन्हे
उंरोषा॥कैकेयीमनजोकछुरहेऊ॥सोविधिआजुमोहिदुख
दयेऊ॥पंचवटीकेखगमृगजाती॥दुखीभएजलचरबहुभां
ती॥विविधविलापकरतिवैदेही॥भूरिकृपाप्रभुदूरिसनेही
विपतिमोरिकोप्रभुहिसुनावा॥पुरोडाशचहरासभखावा
सीताकेविलापसुनिभारी॥भयेउचराचरजीवदुखारी॥दो
हा॥बहुविधकरतिविलापनभलिएजाततदशशीश॥उरत
नखलवरपाइभलजोदीन्होअजईश॥५८॥चौपाई॥गृद्धरा
जसुनिआरतवाणी॥रघुकुलतिलकनारिपहिचानी॥अध
मनिशाचरलीन्हेजाई॥जिमिमलेछवशकपिलागाई॥अ
रहप्रथमबलममतनुनाही॥तदपिजाइदेखौंबलनाही॥
सीतापुत्रिकरसिजनित्रासा॥करिहौंयातुधानकरनाशा॥
धावाक्रोधवंतखगकैसें॥छूटैपविपर्वतकहंजैसें॥रेरेदुष्ट
ठकिनहोही॥निर्भयचलेसिनजानेसिमोही॥आवतदेखि
कृतांतसमाना॥फिरिदशकंधकरतअनुमाना॥कीमैनाक
किखगपतिहोई॥ममबलजानिसहितपतिसोई॥जानाज
रठजटायुएहा॥ममकरतीरथछाडिहिदेहा॥दोहा॥ममभु
जबलनहिजानहीआवतकिन्हमदार॥समरचढैतौयहि

हतौं जिसु तन निज थल जाहू ॥ ५९ ॥ चौपाई ॥ सुनत गृध्र क्रोधा
तुर धावा ॥ कह सुनु रावण मोर शिखावा ॥ तजि जानकिहि कु
शल गृह जाहू ॥ नाहित खंडित होइहि बाहू ॥ राम रोष पावक
अति घोरा ॥ होइहि सकल शलभ कुल तोरा ॥ उतर न देत दशा
नन योधा ॥ तबहिं गृध्र धावा करि क्रोधा ॥ धरि कच विरथ कीन्ह
महि गिरा ॥ सीतहि राखि गृध्र पुनि फिरा ॥ दशमुख उठि कृत
शर संधाना ॥ गृध्र आइ काटेउ धनु बाणा ॥ चोंचन्ह मारि विदारे
सि देही ॥ दंड एक भइ मूर्छा तेही ॥ दोहा ॥ जेइं रावण निज वश कि
ए मुनि गण सिद्ध सुरेश ॥ तेहि रावण सन समर अति धीर बीर
गृध्रेश ॥ ६० ॥ चौपाई ॥ सुर [illegible] ति भए पुनि उठि सो धावा ॥ मारी गृध्र ।
सन्मुख तें हि आवा ॥ कीन्हेसि बहु विधि युद्ध खगेशा ॥ थकित भ
या तब जरठ गिध्रेशा ॥ तब सक्रोध निशिचर खिसिआना ॥ काढे
सि परम कराल कृपाणा ॥ काटेसि पंख परा खग धरणी ॥ सुमि
रि राम कर अद्भुत करणी ॥ मन मह गृध्र परम सुख माना ॥ राम का
ज मम लागेउ प्राणा ॥ सीतहिं यान चढाइ बहोरी ॥ चला उताइल
त्रास न थोरी ॥ करति विलाप जाति नभ सीता ॥ व्याध विवश जनु
मृगी सभीता ॥ गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी ॥ कहि हरि नाम दीन्ह
पट डारी ॥ इहि विधि सीतहि सो लै गयऊ ॥ वन अशोक मह राखत
भयऊ ॥ दोहा ॥ हारि परा खल बहुत विधि भय अरु प्रीति देखाइ ॥
तब अशोक पादप तरे राखेसि यतन कराइ ॥ ६१ ॥ चौपाई ॥ उहाँ वि

रामा॰
आ॰
१७

पातामनअनुमाना॥ सुरपतिबोलिमञ्जअसठाना॥ तातजन
कतनयापहिंजाहू॥ सुपिनपावजिमिनिशिचरनाहू॥ असक
हिविपिसुन्दरहविआनी॥ सोंपिबहुरिबोलेमृदुबाणी॥ इहि
भलणाकुतलथानपियासा॥ वर्षसहसपकसंशयनाशा॥ सो
प्रसादलैंआयसुपाई॥ चल्योहियसुमिरतरघुराई॥ ककुवास
वमायानिजहोई॥ रत्नकरहेगपतहंसोई॥ तदपिउरतसीता
पहंआयो॥ करिप्रणामनिजनामसुनायो॥ निश्चयजानिस
रेप्रासुजाना॥ पिताजनकदशरथसममाना॥ करिपरितोष
हूरिकरिशोका॥ दब्यखवारगयोनिजलोका॥ दोहा॥ जेहि
विपकपटकुरङ्गसङ्गधारचलेश्रीराम॥ सोछविसीताराखिउ
ररटतिरहतिहरिनाम॥ ९२॥ चौपाई॥ रघुपतिअनुजहिआव
तदेषी॥ मनमहंचिन्ताकीन्हविशेषी॥ जनकसुतापरिहरेहु
अकेली॥ आयेहुतातवचनममपेली॥ निशिचरनिकरफिर
हिंवनमाहीं॥ ममनमनसीताआश्रमनाहीं॥ अहहतातभलकी
न्हहुनाहीं॥ सियविहीनममजीवननाहीं॥ पहितेकवनविप
तिवडभाई॥ सोपउंसीयकाननहींआई॥ गहिपदकमलअनु
जकरजोरी॥ कहेउनाथककुमोहिनखोरी॥ अनुजसमेतग
एप्रभुतहवां॥ गोदावरितटआश्रमजहवां॥ आश्रमदेखिजान
कीहीना॥ भएविकलजसप्राकृतदीना॥ दोहा॥ काननगहेउ
तहागईवेचककचकईसियराम॥ गवणनिशिविकुरनभयेदु

खबीतेचहुंयाम॥२८॥चौपाई॥परदुखहरणशोकदुखना।
ही॥भाविषादतिन्हकेमनमांही॥हागुणखानिजानकीसीता
रूपशीलब्रतनेमपुनीता॥लक्ष्मणसमुझाएबहुभांती॥पूछ
तचलेलतातरुपांती॥हेखगमृगहेमधुकरश्रेणी॥तुमदेखी
सीतामृगनयनी॥खंजनशुककपोतमृगमीना॥मधुपनिक
रकोकिलाप्रबीणा॥कुन्दकलीदाडिमदामिनी॥शरदकम
लशशिअहिभामिनी॥वरुणपाशमनोजधनुहंसा॥गजके
हरिनिजकरतप्रशंसा॥श्रीफलकनककदलिहर्षाही॥नेकु
नशंकसकुचमनमांही॥सुनुजानकीतोहिबिनुआजु॥हर्षे
सकलपाईजनुराजु॥किमिसहिजातअनखतोहिपांही॥प्रि
यावेगिप्रगटसिकसनाही॥दोहा॥फणिमणिहीनदीनजिमि
मीनहीनजिमिवारि॥तिमिव्याकुलभयेलक्ष्मणतहंरघुवरद
शानिहारि॥२९॥चौपाई॥धरीउरधीरबुझावहिंरामहिं॥तजहिं
नशोकअधिकसुखधामहिं॥इहिविधिखोजतविलपतस्वामी
मनहुंमहाविरहीअतिकामी॥पूरणकामरामसुखराशी॥
मनुजचरितकरअजअविनाशी॥सरवरअमितनदीगिरि।
खोहा॥बहुविधिरामलक्ष्मणतहंजोहा॥आगेंपरागृध्रपतिदे
खा॥सुमिरतरामचरणजिन्हरेखा॥शोचहृदयकछुकहिन
हिआवा॥टूटपंखवधशरआगेपावा॥कहुंकहुंशोणितदेखि
यकेसे॥आवणजलभादौंरजजैसे॥करतेरामलक्ष्मणाहिं।

बूझाई॥ काहू कीन्ह गृद्ध पहि ठाई॥ दोहा॥ कर सरोज शिर प
रसेउ कृपासिंधु रघुवीर॥ निरखि राम छवि धाम मुख विगत
भई सब पीर॥ ६५॥ चौपाई॥ तब कह गृध्र वचन धरि धीरा॥ सुन
हु राम भंजन भव भीरा॥ नाथ दशानन यह गति कीन्ही॥ तेहि
खल जनकसुता हरि लीन्ही॥ लै दक्षिण दिशि गयेउ गोसांई॥
विलपति अति कुररी की नाई॥ दरश लागि प्रभु राखेउं प्राणा
चलन चहत अब कृपानिधाना॥ राम कहा तनु राखहु ताता
मुख मुसकाइ कही तेइ बाता॥ जाकर नाम मरत मुख आवा॥
अधमउ मुक्त होइ श्रुति गावा॥ सो मम लोचन गोचर आगे॥ रा
खौं देह नाथ केहि खांगे॥ जल भरि नयन कहहिं रघुराई॥ तात क
र्म निज तें गति पाई॥ परहित बस जिन्ह के मन मांही॥ तिन्ह क
हं जग दुर्लभ कछु नाही॥ तनु तजि तात जाहु मम धामा॥ दे
उं कहा तम पूरण कामा॥ गृध्र देह तजि धरि हरि रूपा॥ भूषण
बहु पट पीत अनूपा॥ श्याम गात विशाल भुज चारी॥ अस्तुति
करत नयन भरि वारी॥ दोहा॥ सीता हरण तात जिमि कहहु
पिता सन जाइ॥ जो मैं राम त कुल सहित कहहि दशानन जाइ॥
६६॥ छन्द॥ जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही
दशशीश बाहु प्रचंड खंडन चाप पार मंडन मही॥ ३९॥ पाथो
ज गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं॥ नित नौमि राम कृ
पालु बाहु विशाल भव भय मोचनं॥ ४०॥ बलमप्रमेयमनादि

मजमव्यक्तमेकगोचरं॥गोविन्दगोपरद्वंद्वहरविज्ञानघ
नधरणीधरं॥४१॥जेराममंत्रजपंतसन्तअनन्तजनमनरंज
नं॥नितनौमिरामअकामप्रियकामादिखलदलगंजनं॥४२
जेहिश्रुतिनिरंतरब्रह्मव्यापकविरजअजकहिगावहीं॥क
रिध्यानज्ञानविरागयोगअनेकमुनिजेहिपावहीं॥४३॥सोप्र
गटकरुणाकन्दशोभावृन्दअगजगमोहई॥ममहृदयपंक
जभृंगअ[illegible]नंगबहुछबिसोहई॥४४॥जोअगमसुगमस्व
भावनिर्मलअसमसमशीतलसदा॥पश्यन्तियंयोगीयतन
करिकरतमनगोवशयदा॥४५॥सोरामरमानिवाससन्तत
दासवशत्रिभुवनधनी॥ममउरवसउसोशमनसंसृतिजा
सुकीरतिपावनी॥४६॥दोहा॥अविरलभक्तिमांगिबरगृध्रग
यउहरिधाम॥तेहिकीक्रियायथोचितनिजकरकीन्हीराम॥
चौपाई॥कोमलचितअतिदीनदयाला॥कारणबिनुरघुना
थकृपाला॥गृध्रअधमखगआमिषभोगी॥सहितेहिदीन्ह
जोयाचतयोगी॥सुनहुउमातेलोगअभागी॥हरितजिहोहि
विषयअनुरागी॥पुनिसीतहिंखोजतदोउभाई॥चलेविलो
कतबहुताई॥संकुललताविटपघनकानन॥बहुखगमृग
तहँगजपंचानन॥आवतपंथकबन्धनिपाता॥तेइंसबकही
शापकीबाता॥दुर्वासामोहिदीन्हीशापा॥प्रभुपददेखिमि
टासोपापा॥सुनुगन्धर्वकहौंमैंतोही॥मोहिनसुहाईब्रह्मक

लहोंही॥ दोहा॥ मनक्रमबचनकपटतजिजोकरभूसुरसेव॥
मोहिसमेतबिरंचिशिवबशताकेसबदेव॥६८॥ चौपाई॥ शाप
तताडतपरूषकहन्ता॥ विप्रपूज्यअसगावहिंसन्ता॥ पूजि
यविप्रशीलगुणहीना॥ शूद्रनगुणगणज्ञानप्रवीणा॥
कहिनिजधर्मताहिसमुझावा॥ निजपदप्रीतिदेखिमनभा
वा॥ रघुपतिचरणकमलशिरनाई॥ गयउगगनआपनिग
तिपाई॥ ताहिदेइगतिरामउदारा॥ शबरीकेआश्रमपगुधारा॥
शबरीदेखिरामगृहआए॥ मुनिकेवचनसमुझिजियभाए॥
सरसिजलोचनबाहुविशाला॥ जटामुकुटसिरउरबनमाला॥
श्यामगौरसुन्दरदोउभाई॥ शबरीपरीचरणलपटाई॥ प्रेमम
गनमुखवचननआवा॥ पुनिपुनिपदसरोजसिरनावा॥
सादरजललैचरणपखारी॥ पुनिसुन्दरआसनबैठारी॥
दोहा॥ कन्दमूलफलसरसअतिदिएरामकहंआनि॥ प्रे
मसहितप्रभुखाएउबारहिंबारबखानि॥६९॥ चौपाई॥ पाणि
जोरिआगेभइठाढी॥ प्रभुहिंविलोकिप्रीतिअतिबाढी॥ के
हिविधिअस्तुतिकरौंतुम्हारी॥ अधमजातिमैंजडमतिभारी॥
अधमतेंअधमअधमअतिनारी॥ तिनमहंमैंमतिमन्दअघा
री॥ कहरघुपतिसुनुभामिनिबाता॥ मानौंएकभक्तिको
नाता॥ जातिपांतिकुलधर्मबडाई॥ धनबलपरिजनगुणच
तुराई॥ भक्तिहीननरसोहैकैसे॥ बिनजलवारिददेखियजैसे

नवधामभक्तिकहौंतोहीपाही॥ सावधानसुनुधरुमन
मांही॥ प्रथमभक्तिसन्तनकरसंगा॥ दूसरिरतिममकथा
प्रसंगा॥ दोहा॥ गुरुपदपङ्कजसेवातीसरिभक्तिअमान॥ चौ
थिभक्तिममगुणगणाकरैकपटतजिगान॥ ७०॥ चौपाई॥
मंत्रजापममदृढविश्वासा॥ पंचमभजनसोवेदप्रकाशा
छटंदमशीलविरतिबहुकर्मा॥ निरतनिरन्तरसज्जनध
र्मा॥ सप्तमसबमोहिमयजगदेखै॥ मोतेंसन्तअधिकक
रिलेखै॥ अष्टमयथालाभसन्तोषा॥ सपनेहुनहिदेखैप
रदोषा॥ नवमसरलसबसोंछलहीना॥ ममभरोसजिय
हर्षनदीना॥ नवमहुंएककोजिन्हकेंहोई॥ नारिपुरुषसचरा
चरकोई॥ सोअतिशयप्रियभामिनिमोरे॥ सकलप्रकारभ
क्तिदृढतोरे॥ योगिबृन्ददुर्लभगतिजोई॥ तोकहुंआजसु
लभभईसोई॥ ममदर्शनफलपरमअनूपा॥ जीवपावनि
जसहजस्वरूपा॥ दोहा॥ सबप्रकारतबभागबडसमचर
णन्हअनुरागा॥ तबमहिमाजेहिउरबसिहिंतासुपरमबड
भाग॥ ७१॥ चौपाई॥ सुनिप्रभुवचनहर्षकहुंपाई॥ पुनिबो
लेप्रभुगिरासुहाई॥ जनकसुताकैसुधिकहुंभामिनि॥ जा
नहिंकहुकरिवरगामिनी॥ पम्पासरहिंजाहुरघुराई॥ मुनि
वरविपुलरहेजहुंकाई॥ अरुषिमतहुंमहिमागुणभारी॥
जीववराचररहतसुखारी॥ वैरनकरकाहूसनकोई॥ जास

रा.मा.
आ.
२०
20

नबैरप्रीतिकरुसोई॥ शिखरसुहावनकाननफूले॥ खग
मृगजीवजन्तुअनुकूले॥ करहुसफलआश्रमसबजाई॥
तहंहोइहरिसुग्रीवमिताई॥ सोसबकहहिंदेवरघुवीरा॥ जान
तहूंपूछतमतिधीरा॥ बारबारप्रभुपदसिरनाई॥ प्रेमसहि
तसबकथासुनाई॥ छन्द॥ कहिकथासकलबिलोकिह
रिमुखहृदयपदपङ्कजधरे॥ तजियोगपावकदेहहरि
पादलीनभइजहनहिफिरे॥ ५७॥ नरबिबिधकर्मअधर्मब
हुमतशोकप्रदसबत्यागहु॥ विश्वासकरिकहदासतुल
सीरामपदअनुरागहु॥ दोहा॥ जातिहीनअघजन्ममहिं
मुक्तकीन्हअसनारि॥ महामन्दमनसुखचहसिऐसेप्रभु
हिंबिसारि॥ २२॥ चौ०॥ चलेउरामत्यागावनसोऊ॥ अतुलि
तबलनबकेहरिदोऊ॥ विरहीइवप्रभुकरतविषादा॥ कह
तकथाअनेकसंवादा॥ लक्ष्मणदेखहुकाननशोभा॥ देख
तकेहिकरमननहिंछोभा॥ नारिसहितसबखगमृगबृन्दा
मानहुमोहिकरतहहिंनिन्दा॥ हमहिंदेखिमृगनिकरपरा
ही॥ मृगीकहहिंतमकहभयनाहीं॥ तुमआनन्दकरहुमृ
गजाए॥ कञ्चनमृगखोजनएआए॥ सङ्गलाइकरिणीक
रिलेही॥ मानहुमोहिसिखावनदेही॥ शास्त्रसुचिन्तित
पुनिपुनिदेखिय॥ भूपसुसेवितवशनहिंलेखिय॥ राखि
यनारियदपिउरमाहीं॥ युवतीशास्त्रनृपतिवशनाहीं॥ दे

खेहुतातबसन्तसुहावा॥प्रियाहीनमोहिभयउपजावा
दोहा॥बिरहबिकलबलहीनमोहिजानेसिनिपटअकेल
सहितबिपिनमधुकरखगमदनकीन्हबगमेल॥७३॥
देखिगयउभ्रातासहिततासुदूतसुनिबात॥डेराकीन्हेउम
नहुतिन्हकटकहटकिमनजात॥७४॥चौपाई॥बिटपबि॰
साललताअरुझानी॥बिबिधबितानदिएजनुतानी॥क
दलितालबरधुजापताका॥देखिनमोहधीरमनजाका॥
बिबिधभांतिफूलेतरुनाना॥जनुबानैतबनेबहुबाना॥क
हुंकहुंसुन्दरबिटपसुहाए॥जनुभटबिलगबिलगहोइ॰
छाए॥कूजतपिकमानहुगजमाते॥ढेकमहोषऊंटबिस
राते॥मोरचकोरकीरबरबाजी॥पारावतमरालसबताजी॥
तीतरलावपदचरजूथा॥बरणिनजाइमनोजबरूथा॥र
थगिरिसिलादुन्दभीझरणा॥चातकबन्दीगुणगणबरणा
मधुकरमुखभेरीसहनाई॥त्रिबिधबयारिबसीठीआई॥च
तुरंगिनीसेनसंगलीन्हे॥बिचरतसबहिचुनोतीदीन्हे॥ल
छमणदेखहुकामअनीका॥रहहिधीरतिन्हकेजगलीका
एहिकेएकपरमबलनारी॥तेहितेउबरेसुभटसोभारी॥
दो०॥तात तीनिअतिप्रबलखलकामक्रोधअरुलोभ॥मु
निबिज्ञानिधानमनकरहिंनिमिषमहुंछोभ॥७५॥लोभ
केइछादंभबलकामकेकेवलनारि॥क्रोधकेपरुषबचनब

लखुनिबरकहहिंबिचारि॥३६॥चौ०॥गुणातीतसचराचर
स्वामी॥रामउमासबअन्तरजामी॥कामिन्हकीदीनतादि
खाई॥धीरकेन्हकेमनबिरतिदृढाई॥क्रोधमनोजमहम
दमाया॥छूटहिंसकलरामकीदाया॥सोनरइन्द्रजालल
नहिभूला॥जापरहोइसोनटअनुकूला॥उमाकहौंमैअनु
भवअपना॥सत्यहरिभजनजगतसबसपना॥पुनिप्रभु
गएसरोबरतीरा॥पंपानामसुभगगंभीरा॥सन्तहृदयज
सनिर्मलबारी॥बान्धेघाटमनोहरचारी॥जहंतहंपिअहि
बिबिधमृगनीरा॥जनुउदारगृहयाचकभीरा॥दो०॥पुरइ
निसघनओटजलबेगिनपाइयमर्म॥मायाछन्ननदीख
जिमिकेवलिनिर्गुणब्रह्म॥३७॥दो०॥सुखीमीनसबएकर
सअतिअगाधजलमांहि॥यथाधर्मशीलन्हिकेदिनसुख
संयुतजाहिं॥३८॥चौ०॥बिकसेसरसिजनानारंगा॥मधुर
मुखरगुंजतबहुभृंगा॥बोलतजलकुक्कुटकलहंसा॥
प्रभुबिलोकिजनुकरतप्रसंसा॥चक्रवाकबकखगसमुदा
ई॥देखतबनैवरणिनहिजाई॥सुन्दरखगगणगिरासुहा
ई॥जातपथिकजनुलेतबुलाई॥तालसमीपमुनिन्हगृहछा
ए॥चहुंदिसिकाननबिटपसुहाए॥चंपकबकुलकदंबत
माला॥पाटलपनसपलाशरसाला॥नवपल्लवकुसुमित
तरुनाना॥चंचरीकपटलीकरगाना॥शीतलमंदसुगंधसु

भाऊ॥ सन्ततबहैमनोहरवाऊ॥ कहूंकहूंकोकिलपिकध्व
निकरहीं॥ सुनिरवसरसध्यानमुनिटरहीं॥ दोहा॥ फूलेफ
लेविटपसबरहेभूमिनिअराइ॥ परउपकारीपुरुषजिमि
नमहिंसुसंपतिपाइ॥ ७९॥ चौ०॥ देखिरामअतिरुचिरत
लावा॥ मज्जनकीन्हपरमसुखपावा॥ देखेउसुन्दरतरुव
रछाया॥ वैठेअनुजसहितरघुराया॥ तहंपुनिसकलदे
वमुनिआए॥ अस्तुतिकरिनिजधामसिधाए॥ वैठेपरम
प्रसन्नकृपाला॥ कहतअनुजसनकथारसाला॥ विरह
वन्तभगवन्तहिदेषी॥ नारदमनभाशोचविशेषी॥ मोर
शापकरिअंगीकारा॥ सहतरामनानादुखभारा॥ ऐसेप्र
भुहिविलोकौंजाई॥ पुनिनवनहिअसअवसरआई॥ यह
विचारिनारदकरबीणा॥ गएजहांप्रभुसुखआसीना॥ ।
गावतरामचरितमृदुबाणी॥ प्रेमसहितबहुभांतिवखानी
करतदंडवतलिएउठाई॥ राखेवडीवारउरलाई॥ स्वागत
पूछिनिकटबैठारे॥ लक्ष्मणसादरचरणपखारे॥ दोहा
नानाविधिविनतीकरीप्रभुप्रसन्नजियजानि॥ नारदवो
लेवचननतबजोरिसरोरुहपाणि॥ ८०॥ चौपाई॥ सुनहुउ
दारपरमरघुनायक॥ सुन्दरअगमसुगमवरदायक॥ दे
हुएकवरमांगौंस्वामी॥ यद्यपिजानतअन्तरजामी॥ जा
नहुमुनितुममोरसुभाऊ॥ जनसनकबहूंनकरौंदुराऊ

रामा.
अ.
२२
22

कवनवस्तुअसप्रियमोहिलागी॥ जोमुनिवरनशकहुतुममागी॥ जनकहंकछुअदेयनहिमोरे॥ असविश्वासतजहुजनिभोरे॥ तवनारदबोलेहर्षाई॥ असवरमागौंकरौंढिठाई॥ यद्यपिप्रभुकेनामअनेका॥ श्रुतिकहअधिकएकतेएका॥ रामसकलनामन्हतेअधिका॥ होउनाथअघखगगणबधिका॥ दो०॥ राकारजनीभक्तितवरामनामसोइसोम॥ अपरनामउडुगणविमलवशहुभक्तउरव्योम॥ ४१॥ एवमस्तुमुनिसनकहेउकृपासिंधुरघुनाथ॥ तवनारदमनहर्षअतिप्रभुपदनाएउमाथ॥ ४२॥ चौपाई॥ अतिप्रसन्नरघुनाथहिंजानी॥ पुनिनारदबोलेमृदुबाणी॥ रामजवहिंप्रेरेहुनिजमाया॥ मोरेहुमोहिसुनहुरघुराया॥ तवविवाहचाहौंमैकीन्हा॥ प्रभुकेहिकारणकरैनदीन्हा॥ सुनुमुनितोहिकहौंसहरोसा॥ भजहिंमोहितजिसकलभरोसा॥ करौंसदातिन्हकीरखवारी॥ जिमिबालकहिंराखुमहतारी॥ गहिशिशुवतसअनलअहिधाई॥ तहंराखैजननीअरुगाई॥ प्रौढभएतेहिसुतपरमाता॥ प्रीतिकरैनहिपाछिलबाता॥ मोरेप्रौढतनयसमज्ञानी॥ बालकसुतसमदासअमानी॥ जिनहिमोरबलनिजबलताही॥ ताकहंकामक्रोधरिपुआही॥ यहविचारिपंडितमोहिभजहीं॥ पाएहुंज्ञानभक्तिनहितजहीं॥ दो०॥ कामक्रोधलोभादिमदप्रबलमोहकैधारि

तिन्हमहँअतिदारुणदुखदमायारूपीनारि॥४३॥चौपाई॥
सुनुमुनिकहपुराणश्रुतिसंता॥मोहविपिनकहँनारिबसं
ता॥जपतपनेमजलाशयझारी॥होइग्रीषमशोषैसबनारी
॥कामक्रोधमदमत्सरभेका॥इन्हहिहरषप्रदबरषाएका॥दु
र्वासनाकुमुदसमुदाई॥तिन्हकहँशरदसदासुखदाई॥धर्म
सकलसरसीरुहबृन्दा॥होइहिमतिनहिदेतिदुखमन्दा॥पु
निममताजवासबहुताई॥बाढहिनारिशिशिररितुपाई॥पा
पउलूकनिकरसुखकारी॥नारिनिबिडरजनीअँधियारी॥
बुधिबलशीलसत्यसबमीना॥बडशीसमत्रियकहहिंप्रबी
णा॥दोहा॥अवगुणमूलशूलप्रदप्रमदासबदुखखानि॥ता
तेंकीन्हनिवारणमुनिमैंयहजियजानि॥४४॥चौपाई॥सुनि
रघुपतिकेवचनसुहाए॥मुनितनपुलकिनयनभरिआए॥
कहहुकवनप्रभुकीअसरीती॥सेवकपरममताअतिप्रीती॥
जेनभजहिंअसप्रभुभ्रमत्यागी॥ज्ञानरंकनरमंदअभागी॥पु
निसादरबोलेमुनिनारद॥सुनहुरामविज्ञानविशारद॥सं
तन्हकेलक्षणरघुबीरा॥कहहुरामभंजनभवभीरा॥सुनु
मुनिसंतनकेगुणकहऊं॥जेहितेंमैंउन्हकेबशरहऊं॥षट
विकारजितअनघअकामा॥अकलअकिंचनशुचिसुखधामा
अमितबोधपरमारथभोगी॥सत्यसारकविकोविदयोगी॥
सावधानमानदमदहीना॥धीरधर्मगतिपरमप्रवीणा॥दो०

गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह॥ तजि मम चरण
सरोज प्रिय तिन्ह कहं देह न गेह॥४५॥ चौपाई॥ निज गुण
सुनत श्रवण सकुचाहीं॥ पर गुण सुनत अधिक हर्षाहीं॥
सम शीतल नहिं त्यागहिं नीती॥ सरल सुभाव सबहि सन
प्रीती॥ जप तप ब्रत दम संयम नेमा॥ गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा
श्रद्धा क्षमा मइत्री दाया॥ मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥ विर
ति विवेक विनय विज्ञाना॥ बोध जथारथ वेद पुराणा॥ दंभ
मान मद करहिं न काऊ॥ भूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥ गावहिं
सुनहिं सदा मम लीला॥ हेतु रहित परहित रत शीला॥ सु
नु मुनि साधुन्ह के गुण जेते॥ कहि न सकहिं शारद श्रुति तेते
छन्दः॥ कहि शाक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे
अस दीनबंधु कृपालु अपने भक्त गुण निज मुख कहे॥ ४९॥
शिर नाइ वारहिं वार चरणन्हि ब्रह्मपुर नारद गये॥ ते धन्य तु
लसीदास आश विहाइ जे हरि रंग रये॥ ५०॥ दोहा॥ राव
णारि जश पावन गावहिं सुनहिं जे लोग॥ राम भक्ति दृढ पा
वहीं विनु विराग जप योग॥ ४६॥ दीप शिखा सम युवति ज
न मन जनि होसि पतंग॥ भजहि राम तजि काम मद करहि
सदा सतसंग॥ ४७॥ इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलि
कलुषविध्वंसने विमल वैराग्यसंपादनो नाम तृतीयः सो
पानः समाप्तः॥ शुभमस्तु सिद्धिरस्तु॥ श्रीरामचन्द्राय नमः

ॐ श्रीगणेशायनमः॥ अथकिष्किन्धाकाण्डलिख्यते॥ श्लोक॥ ॐ
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौविज्ञानधामावुभौ॥ शोभाढ्यौव
रधन्विनौश्रुतिनुतौगोविप्रवृन्दप्रियौ॥ मायामानुषरूपिणौ
रघुवरौसद्धर्मवर्म्मौहितौ॥ सीतान्वेषणतत्परौपथिगतौभ
क्तिप्रदौतेहिनः॥१॥ ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवंकलिमलप्रध्वंसनं
चाव्ययं॥ श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरेसंशोभितंसर्वदा॥ सं
सारामयभेषजंसुमधुरंश्रीजानकीजीवनं॥ धन्यास्तेकृति
नःपिबन्तिसततंश्रीरामनामामृतम्॥२॥ सोरठा॥ मुक्तिजन्म
महिजानिज्ञानखानिअघहानिकर॥ जहँबसशंभुभवानि
सोकाशीसेइयनकिन॥१॥ जरतसकलसुरबृन्दविषमगर
लजेहिपानकिय॥ तेहिनभजसिमतिमन्दकोकृपालशंक
रसरिस॥२॥ चौपाई॥ आगेचलेबहुरिरघुराई॥ ऋष्यमूकपर्व
तनियराई॥ तहँरहसचिवसहितसुग्रीवा॥ आवतदेखि
अतुलबलसींवा॥ अतिसभीतकहसुनुहनुमाना॥ पुरुष
युगलबलरूपनिधाना॥ धरिवटुरूपदेखुतैंजाई॥ कहेसिमो
हिजियसैनबुझाई॥ पठवाबालिहोइमनमैला॥ भागोंतुरतत
जौंयहशैला॥ विप्ररूपधरिकपितहँगयऊ॥ माथनाइपूछत
असभयऊ॥ कोतुमश्यामलगौरशरीरा॥ क्षत्रीरूपफिरहुव
नवीरा॥ कठिनभूमिकोमलपदगामी॥ कवनहेतुविचरहुवन

स्वामी॥ मृदुल मनोहर सुन्दर गाता॥ सहत दुसह बन आतप
बाता॥ की तुम तीनि देव महँ कोऊ॥ नर नारायण की तुम दोऊ॥
दोहा॥ जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार॥ की तुम
अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार॥१॥ चौपाई॥ को
शलेश दशरथ के जाए॥ हम पितु बचन मानि बन आए॥ ना
म राम लक्ष्मण दोउ भाई॥ संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ इहाँ
हरी निशिचर बैदेही॥ खोजत बिप्र फिरहिं हम तेही॥ आप
न चरित कहा हम गाई॥ कहहु बिप्र निज कथा बुझाई॥ प्रभु
पहिचानि परेउ गहि चरणा॥ सो सुख उमा जाइ नहिं बरणा॥
पुलकित तनु मुख आव न बचना॥ देखत रुचिर बेष कै रच
ना॥ पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्हा॥ हर्ष हृदय निज नाथ
हिं चीन्हा॥ मैं अजान होप पूछा सांई॥ तुम कस पूछहु नर की
नाई॥ तव माया वश फिरौं भुलाना॥ तातैं नहिं प्रभु पद पहिचा
ना॥ दोहा॥ एक मन्द मैं मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान॥ पुनि
प्रभु मोहि बिसारेऊ दीनबन्धु भगवान॥२॥ चौपाई॥ यद्यपि
नाथ बहु अवगुण मोरे॥ सेवक प्रभुहिं परै नहिं भोरे॥ नाथ जी
व तव माया मोहा॥ सो निस्तरै तुम्हारे हिं छोहा॥ तो पर मैं रघु
बीर दोहाई॥ जानौं नहिं कछु भजन उपाई॥ सेवक सुत पति
मातु भरोसे॥ रहै अशोच बनै प्रभु पोषे॥ अस कहि चरण परे

अकुलाई॥ निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई॥ तब रघुपति उठाइ उ
र लाए॥ निज लोचन जल सींचि जुडाए॥ सुनु कपि जिय जनि
मानेसि ऊना॥ तैं मम प्रिय लछमन तें दूना॥ समदरसी मोहि
कह सब कोई॥ सेवक प्रिय अनन्य गति होई॥ दोहा॥ सो अन
न्य असजा हि के मति न टरै हनुमन्त॥ मै सेवक सचराचर रूप
स्वामि भगवन्त॥५॥ चौपाई॥ देखि पवनसुत पति अनुकूला॥
हृदय हरष बीता सब सूला॥ नाथ शैल पर कपिपति रहई॥ सो
सुग्रीव दास तव अहई॥ तासन नाथ मइत्री कीजे॥ दीन जानि ते
हि अभय करीजे॥ सो सीता कर खोज कराइहि॥ जहं तहं मर
कट कोटि पठाइहि॥ इहि बिधि सकल कथा समुझाई॥ लिये
दोऊ जन पीठ चढाई॥ जब सुग्रीव राम कहं देखा॥ अतिशय
जन्म धन्य करि लेखा॥ सादर मिले नाइ पद माथा॥ भेटे अनुज
सहित रघुनाथा॥ कपि के मन विचार यह रीती॥ करिहहिं
बिधि मो सन ये प्रीती॥ दोहा॥ तब हनुमन्त उभय दिशि की स
ब कथा बुझाइ॥ पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ॥६॥
चौपाई॥ कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा॥ लछमन राम चरित सब
भाषा॥ कह सुग्रीव नयन भरि बारी॥ मिलहिं नाथ मिथिले
शकुमारी॥ मंत्रिन सहित इहां एक बारा॥ बैठ रहउं मै करत वि
चारा॥ गगन पंथ देखी मै जाता॥ परबश परी बहुत बिलपा
ता॥ राम राम हा राम पुकारी॥ मम दिशि देखी दीन्ह पट डारी

मांगारामतबरतसोदीन्हा॥ पटउरलाइसोचअतिकीन्हा॥ क
हसुग्रीवसुनहुरघुबीरा॥ तजहुसोचमनआनहुधीरा॥ सब
प्रकारकरिहौंसेवकाई॥ जेहिंबिधिमिलहिंजानकीआई॥
दोहा॥ सखाबचनसुनिहरषेहिंकृपासिंधुबलसीव॥ कारण
कवनबसहुबनमोसनकहहुसुग्रीव॥५॥ चौपाई॥ नाथबा
लिअरुमैंद्वौभाई॥ प्रीतिरहीकछुबरणिनजाई॥ मयसुतम
यावीतेहिंनाऊं॥ आवासोप्रभुहमरेगाऊं॥ अर्धरातिपुरद्वार
पुकारा॥ बालिहुंरिपुबलसहैनपारा॥ धावाबालिदेखिसो
भागा॥ मैंपुनिगएउबन्धुसंगलागा॥ गिरिवरगुहापैठसो
धाई॥ बालिमोहितबकहाबुझाई॥ परषेहुमोहिएकपखवा
रा॥ नहिंआवौंतोजानेहुमारा॥ मासदिवसतहंरहेउखरारी॥
निसरीरुधिरधारतहंभारी॥ तबमैंनिजमनकीन्हविचारा॥
जानातिन्हबंधुकहंमारा॥ बालिहतेसिमोहिमारिहिंआई॥
शिलाद्वारदेचलेउपराई॥ मंत्रिन्हपुरदेखाविनुसांई॥ दीन्हे
उराजमोहिबरिआई॥ बालिताहिमारिगृहआवा॥ देखिमोहि
जियभेदबढावा॥ रिपुसमानमोहिमारसिभारी॥ हरिलीन्हे
सिसर्वसुअरुनारी॥ ताकेभयरघुवीरकृपाला॥ सकलभु
वनमैंफिरेउविहाला॥ इहांशापवशआवतनाहीं॥ तदपिस
भीतरहौंमनमाहीं॥ सुनिसेवकदुखदीनदयाला॥ फरकि
उठेदोउभुजाविशाला॥ दोहा॥ सुनुसुग्रीवमैंमारिहौंबालि

हिंएकहिंबाण॥ ब्रह्मरुद्रशरणागतङ्गएनउबरहिंप्राण
चौपाई॥ जेनमित्रदुखहोहिंदुखारी॥ तिन्हैविलोकतपातक
भारी॥ निजदुखगिरिसमरजकैजाना॥ मित्रकेदुखरजमेरु
समाना॥ जिनकेअसमतिसहजनआई॥ तेशठहठकतक
रतमिताई॥ कुपथनिवारिसुपन्थचलावा॥ गुणप्रगटेअव
गुणहिंदुरावा॥ देतलेतमनशंकनधरहीं॥ बलअनुमानस
दाहितकरहीं॥ विपतिकालकरशतगुणनेहा॥ श्रुतिक
हसन्तमित्रगुणएहा॥ आगेकहमृदुवचनवनाई॥ पाछेअ
नहितमनकुटिलाई॥ जाकरचितअहिगतिसमभाई॥ अ
सकुमित्रपरिहरेभलाई॥ सेवकशठनृपकृपणकुनारी॥ क
पटीमित्रशूलसमचारी॥ सखाशोचत्यागहुबलमोरे॥ सब
विधिकरबकाजमैंतोरे॥ कहसुग्रीवसुनहुरघुबीरा॥ बालि
महाबलअतिरणधीरा॥ दुन्दुभिअस्थितालदिखराए॥ बि
नुप्रयासरघुनाथढहाए॥ देखिअमितबलबाढीप्रीती॥
बालिबधनकरभइपरतीती॥ बारहिंबारनावपदशीसा॥ प्र
भुहिंजानिमनहर्षकपीशा॥ उपजाज्ञानवचनतबबोला॥ ना
थकृपामनभएउअलोला॥ सुखसम्पतिपरिवारबडाई॥ सब
परिहरिकरिहौंसेवकाई॥ एसबरामभक्तिकेबाधक॥ कहहिं
सन्ततवपदअवराधक॥ शत्रुमित्रदुखसुखजगमाहीं॥ माया
कृतपरमारथनाहीं॥ बालिपरमहितजासुप्रसादा॥ मिलेहुरा

रामा. कि. ३

3

मतसमशमनविषादा॥ सपनेजेहिसनहोइलराई॥ जागेस
मुझतमनसंकुचाई॥ अबप्रभुकृपाकरहुयहिभांती॥ सबत
जिभजनकरौंदिनराती॥ सुनिविरागसंयुतकपिबाणी॥
बोलेबिहंसिरामधनुपाणी॥ जोकछुकहेउसत्यसबसोई॥
सखाबचनममम्रिषानहोई॥ नटमरकटइवसबहिंनचावत
रामखगेशबेदअसगावत॥ लैसुग्रीवसंगरघुनाथा॥ चले
चापशायकगहिहाथा॥ तबरघुपतिसुग्रीवपठावा॥ गर्जे
सिजाइनिकटबलपावा॥ सुनतबालिक्रोधातुरधावा॥
गहिकरचरणनारिसमुझावा॥ सुनुपतिजिनहिंमिलासुग्री
वा॥ तेदोउबन्धुतेजबलसीवा॥ कोशलेशसुतलछमणरामा
कालहुजीतिशकहिंसंग्रामा॥ दोहा॥ कहाबालिसुनुभीरुप्रि
यसमदरशीरघुनाथ॥ जौंकदापिमोहिमारिहैंतौपुनिहोव
सनाथ॥७॥ चौपाई॥ असकहिचलामहाअभिमानी॥ तृण
समानसुग्रीवहिंजानी॥ भिरेउभयबालिअतितर्जा॥ मुष्टिक
मारिमहाध्वनिगर्जा॥ तबसुग्रीवविकलहोइभागा॥ मुष्टिप्र
हारबज्रसमलागा॥ मैजोकहारघुवीरकृपाला॥ बंधुनहोइमो
रयहकाला॥ एकरूपतुमभ्रातादोऊ॥ तेहिभ्रमतेनहिमारेउ
सोऊ॥ करपरशासुग्रीवशरीरा॥ तनुभाकुलिशगईसबपीरा
मेलीकण्ठसुमनकैमाला॥ पठवापुनिबलदेइविशाला॥ पु
निनानाविधिभईलराई॥ विटपओटदेखहिंरघुराई॥ दोहा॥

बहुकुलबलसुग्रीवकरिहृदयहारिभयमानि॥ मारा बा

लिहिंरामतबहियेमाऊशरतानि॥ ९॥ चौपाई॥ पराविक

लिहिंरामतबहियेमाऊशरतानि॥ ९॥ चौपाई॥ पराविक

लमहिशरकेलागे॥ पुनिउठिवैठदेखिप्रभुआगे॥ श्याम

गातसिरजटाबनाए॥ अरुणनयनशरचापचढाए॥ पुनि

पुनिचितैचरणचितदीन्हे॥ सफलजन्ममानाप्रभुचीन्हे॥

हृदयप्रीतिमुखवचनकठोरा॥ बोलाचितैरामकीओरा॥

धर्महेतुअवतरेहुगोसाँई॥ मारेहुमोहिव्याधकीनाई॥ मे

बैरीसुग्रीवपिआरा॥ कारणकवननाथमोहिमारा॥ अ

नुजवधूभगिनीसुतनारी॥ सुनुशठयेकन्यासमचारी॥

इन्हेकुदृष्टिविलोकैजोई॥ ताहिवधेकछुपापनहोई॥ मूढ

तोहिअतिशयअभिमाना॥ नारिशिखावनकरेसिनकाना॥

ममभुजबलआश्रिततेहिजानी॥ मारा चहसिअधमअभि

मानी॥ दोहा॥ सुनहुरामस्वामीसनचलनचातुरीमोरि

प्रभुअजहूंमैपातकीअन्तकालगतितोरि॥ १०॥ चौपाई॥ सु

नतरामअतिकोमलबाणी॥ बालिशीसपरसेउनिजपा

णी॥ अचलकरौंतनुराखहुप्राणा॥ बालिकहासुनुकृपा

निधाना॥ जन्मजन्ममुनियतनकराहीं॥ अन्तराम कहि

आवतनाहीं॥ जासुनामबलशंकरकाशी॥ देतसबहिं

समगतिअविनाशी॥ ममलोचनगोचरसोआवा॥ बहुरि

किप्रभुअसबनहिंबनावा॥ छन्द॥ सोनयनगोचरजासुगु।

रा.मा.
कि.
५

णनितनेतिकहिश्रुतिगावहीं॥ जीतिपावनमनगोचर
सकरिमुनिध्यानकबहुंकपावहीं॥१॥ मोहीजानिअतिअ
भिमानवशप्रभुकहेउराखुशरीरहीं॥ असकवनशठहठि
हठिकाटिसुरतरुवारिकरहिंकरीरहीं॥२॥ अबनाथकरि
करुणाविलोकहुदेयहुवरमांगऊं॥ जेहिंयोनिजनमौक
र्मवशतहंरामपदअनुरागऊं॥ यहतनयममसमविन
यवलकल्याणपदप्रभुदीजियै॥ गहिबांहसुरनरनाहआ
ऊदासआपनकीजियै॥४॥ दोहा॥ रामचरणदृढप्रीति
करिबालिकीन्हतनुत्याग॥ सुमनमालजिमिकण्ठतेंगि
रतनजानैनाग॥१०॥ चौपाई॥ रामबालिनिजधामपठावा॥
नगरलोकसबव्याकुलधावा॥ नानाविधविलापकरतारा॥
छूटेकेशनदेहसम्भारा॥ ताराविकलदेखिरघुराया॥ दी
न्हज्ञानहरिलीन्हीमाया॥ छितिजलपावकगगनसमीरा॥
पंचरचितयहअधमशरीरा॥ प्रगटसोतनुतवआगेसोवा॥
जीवकेहिकेहिलगितमरोवा॥ उपजाज्ञानचरणतबला
गी॥ लीन्हेसिपरमभक्तिवरमांगी॥ उमादारुयोषितकी
नाईं॥ सबहिनचावतरामगोसांईं॥ तबसुग्रीवहिंआयसु
दीन्हा॥ मृतककर्मविधिवतसबकीन्हा॥ रामकहाअनुज
हिंसमुझाई॥ राजदेहुसुग्रीवहिंजाई॥ रघुपतिचरणनाइ
कसिमाथा॥ चलेसकलप्रेरितरघुनाथा॥ दोहा॥ लक्ष्मण

तुरतबुलावपुरजनविप्रसमाज॥राजदीन्हसुग्रीवक
हँअंगदकहँयुवराज॥११॥चौपाई॥उमारामसमहितजग
माहीं॥गुरुपितुमातुबन्धुकोउनाहीं॥सुरनरमुनिसबके
यहरीती॥स्वारथलागिकरैंसबप्रीती॥बालित्रासब्याकु
लदिनराती॥तनुबिबरणचिंताजरछाती॥सोसुग्रीवकी
न्हकपिराऊ॥अतिकोमलरघुबीरसुभाऊ॥ऐसेप्रभुकहँ
जोपरिहरहीं॥काहेनविपतिजालनरपरहीं॥पुनिसुग्री
वहिंलीन्हबुलाई॥बहुप्रकारनृपनीतिसिखाई॥कहप्र
भुसुनुसुग्रीवहरीशा॥पुरनजाउँदशचारिवरीषा॥गत
ग्रीषमवरषारितुआई॥रहिहौंनिकटशैलपरछाई॥अंग
दसहितकरहुतुमराजू॥सन्ततहृदयधरेहुममकाजू॥
तबसुग्रीवभवनफिरिआए॥रामप्रवर्षणगिरिपरछाए
दोहा॥प्रथमहिंदेवनगिरिगुहाराखीरुचिरबनाई॥रामकृ
पानिधिकछुकदिनवासकरहिंगेआई॥१२॥चौपाई॥सु
न्दरवनकुसुमिततरुशोभा॥गुंजतचंचरीकमधुलोभा॥
कन्दमूलफलपत्रसुहाये॥भयेबहुतजबतेंप्रभुआये॥दे
खिमनोहरशैलअनूपा॥रहेतहांअनुजसहितसुरभूपा
मंगलरूपभयउबनतबते॥कीन्हनिवासरमापतिजबते॥
मधुकरखगमृगतनुधरिदेवा॥करहिंसिद्धमुनिप्रभुकैसे
वा॥स्फटिकशिलाअतिशुभ्रसुहाई॥सुखआसीनतहांदो

कालिंग
५

उभाई ॥ कहतअनुजसनकथाअनेका ॥ भक्तिविरतिनृप
नीतिविवेका ॥ वरषाकालमेघनभछाए ॥ गरजतलागतप
रमसुहाए ॥ दोहा ॥ लक्ष्मणदेखहुमोरगणनाचतवारिद
पेखि ॥ गृहीविरतिरतहर्षजशविस्नुभक्तकहंदेखि ॥ १५ ॥
चौपाई ॥ घनघमण्डनभगरजतघोरा ॥ प्रियाहीनडरपतम
नमोरा ॥ दामिनिदमकिरहैघनमाही ॥ खलकैप्रीतियथा
थिरनाही ॥ वरषहिंजलदभूमिनिअराये ॥ यथानमहिंबु
धविद्यापाये ॥ विन्दुअघातसहैगिरिकैसे ॥ खलकेवचन
सन्तसहैजैसे ॥ छुद्रनदीभरिचलिउतराई ॥ जशथोरेधन
खलबौराई ॥ भूमिपरतभाढावरपानी ॥ जिमिजीवहिंमा
यालपटानी ॥ सिमिटिसिमिटिजलभरैतलावा ॥ जिमिस
दगुणसज्जनपहंआवा ॥ सरिताजलजलनिधिमहंजाई ॥
होइअचलजिमिजनहरिपाई ॥ दोहा ॥ हरितभूमितृणसं
कुलसमुझिपरैनहिपन्थ ॥ जिमिपाषण्डविवादतेगुप्तभ
एसदग्रन्थ ॥ १६ ॥ चौपाई ॥ दादुरध्वनिचहुंओरसुहाई ॥ वेद
पढैजनुबटुसमुदाई ॥ नवपल्लवभेविटपअनेका ॥ साध
कमनजशहोइविवेका ॥ अर्कजवासपातविनुभयऊ ॥ ज
ससुराज्यखलउद्यमगयऊ ॥ खोजतकतहुंमिलैनहिधूरी
करैक्रोधजिमिधर्महिदूरी ॥ ससिसंपन्नसोहमहिकैसे ॥
उपकारीकीसंपतिजैसे ॥ निशितमघनखद्योतविराजा ॥

जनु दंभिन कर मिला समाजा॥ महावृष्टि चलि फूटि कियारी
जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहिं नारी॥ कृषी निरावहिं चतुर कृषाना॥
जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ देखियत चक्रवाक खग नाहीं॥
कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥ ऊसर वरषै तृण नहिं जामा॥
सन्त हृदय जस उपज न कामा॥ विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा
बढै प्रजा जिमि पाइ सुराजा॥ जहँ तहँ पथिक रहे थकि नाना॥
जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञाना॥ दोहा॥ कबहुँ प्रबल चल मारुत
जहँ तहँ मेघ विलाहिं॥ जिमि कुपूत कुल ऊपजे संपति धर्म न
साहिं॥ १७॥ कबहु दिवस महँ निबीड तम कबहुँक प्रगट पतङ्ग
उपजै विनशै ज्ञान जिमि पाइ सुसङ्ग कुसङ्ग॥ १८॥ चौपाई॥ वर्षा
विगत शरद ऋतु आई॥ देखहु लक्ष्मण परम सुहाई॥ फूले का
श सकल महि छाई॥ जनु वर्षा कृत प्रगट बुढाई॥ उदित अगस
त्य पन्थ जल शोषा॥ जिमि लोभहिं शोषै सन्तोषा॥ सरिता सर
जल निर्मल सोहा॥ सन्त हृदय जस गत मद मोहा॥ रस रस शो
ष सरित सर पानी॥ ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी॥ जानि सरद
ऋतु खंजन आए॥ पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ पङ्क न रे
णु सोह अस धरणी॥ नीति निपुण नृप के जस करणी॥ जल सं
कोच विकल भै मीना॥ अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना॥ विनु घ
न निर्मल सोह अकाशा॥ जिमि हरिजन परिहर सब आशा॥
कहुँ कहुँ वृष्टि शारदी थोरी॥ कोउ एक पाव भक्ति जिमि मोरी॥
दोहा॥ चले हर्षि तजि नगर नृप तापस वणिक भिखारि॥ जिमि हरि

रिभक्तिपाइश्रमतजहिंआश्रमीचारि॥१९॥चौपाई॥सखीमी
नजहंनीरअगाधा॥जिमिहरिशरणनएकोबाधा॥फूलेकम
लसोहसरकैसे॥निर्गुणब्रह्मसगुणभएजैसे॥गुंजतमधुकर
निकरअनूपा॥सुन्दरखगरवनानारूपा॥चक्रबाकमनदुख।
निशिपेखी॥जिमिदुर्जनपरसंपतिदेखी॥चातकरटततृषा
अतिओही॥जिमिसुखलहैनशङ्करद्रोही॥शरदातपनि।
शिशशिअपहरई॥सन्तदरशजिमिपातकटरई॥देखहिंविधु
चकोरसमुदाई॥चितवहिंहरिजनहरिजिमिपाई॥मशकदं
शबीतेहिमत्रासा॥जिमिद्विजद्रोहकियेकुलनाशा॥दोहा॥
भूमिजीवसंकुलरहेगएशरदऋतुपाइ॥सतगुरुमिलेजाहिं
जिमिसंशयभ्रमसमुदाइ॥२०॥चौपाई॥वर्षागतनिर्मलऋ
तुआई॥सुधिनतातसीताकीपाई॥एकवारकैसेउंसुधिपावौं
कालहुंजीतिनिमिषमहंल्यावौं॥कतहुंरहैजौंजीवतहोई॥
तातयतनकरिआनौंसोई॥सुग्रीवहुंसुधिमोरिबिसारी॥पा
वाराजकोषपुरनारी॥जेहिंशायकमैमाराबाली॥तेहिंशर
हतौंमूढकहंकाली॥जासुकृपाछूटैमदमोहा॥ताकहंउमा
किसपनेहुकोहा॥जानहिंयहचरित्रमुनिज्ञानी॥जिन्हरघु
वीरचरणरतिमानी॥लक्ष्मणक्रोधवन्तप्रभुजाना॥धनुष।
चढाइगहेकरबाणा॥दोहा॥तबअनुजहिंसमुझावारघुप
तिकरुणासींव॥भयदेखाइलैआवहुंतातसखासुग्रीव॥२१॥
चौपाई॥इहांपवनसुतहृदयविचारा॥रामकाजसुग्रीवबि

सारा॥ निकटजाइचरणनसिरनावा॥ चारिहुबिधितेहिकहि
समुझावा॥ सुनिसुग्रीवपरमभयमाना॥ बिषयमोरहरिली
न्हउज्ञाना॥ अबमारुतसुतदूतसमूहा॥ पठवहुजहंतहंबा
नरजूहा॥ कहहुपाषमहुआवनजोई॥ मोरेकरताकरबधहो
ई॥ तबहनुमन्तबुलाएदूता॥ सबकरकरिसनमानबहूता॥
भयअरुप्रीतिनीतिदिखराई॥ चलेसकलचरणन्हिसिरनाइ॥
तेहिअवसरलक्ष्मणपुरआए॥ क्रोधदेखिजहंतहंकपिधाए॥
दोहा॥ धनुषचढाइकहातबजारिकरौंपुरछार॥ ब्याकुलन
गरदेखितबआएउबालिकुमार॥२२॥ चौपाई॥ चरणनाइसिर
बिनतीकीन्हा॥ लक्ष्मणअभयबांहतेहिदीन्हा॥ क्रोधवन्तल
क्ष्मणसुनिकाना॥ कहकपीशअतिभयअकुलाना॥ सुनुह
नुमन्तसङ्गलैतारा॥ करिबिनतीसमझाउकुमारा॥ तारासहि
तजाइहनुमाना॥ चरणबन्दिप्रभुसुयशबखाना॥ करिबिन
तीमन्दिरलैआए॥ चरणपखारिपलङ्गबैठाए॥ तबकपीश
चरणनसिरनावा॥ गहिभुजलक्ष्मणकण्ठलगावा॥ नाथबि
षयसममदकछुनाहीं॥ मुनिमनमोहकरैक्षणमांहीं॥ सु
नतविनीतबचनसुखपावा॥ लक्ष्मणतेहिबहुविधिसमुझा
वा॥ पवनतनयसबकथासुनाई॥ जेहिविधिगयेदूतसमुदाई॥
दोहा॥ हरषिचलेसुग्रीवतबअङ्गदादिकपिसाथ॥ रामअनु
जआगेंकियेंआएजहंरघुनाथ॥२३॥ चौपाई॥ नाइचरणसिर

रामा॰ कि॰

कहकरजोरी॥नाथमोहिकछुनाहिनखोरी॥अतिशयप्रब
लदेवतवमाया॥छूटतबहिंकरहुजबदाया॥विषयविवश
सुरनरमुनिस्वामी॥मैपामरपशुकपिअतिकामी॥नारिनय
नशरजाहिनलागा॥महाघोरनिशिसोंवतजागा॥लोभपा
शजेहिगरनबधाया॥सोनरतुमसमानरघुराया॥वहगुण
साधनतेनहिहोई॥तुम्हरीकृपापावकोइकोई॥तबरघुप
तिबोलेमुसकाई॥तुमप्रियमोहिभरतजिमिभाई॥अबसो
इयतनकरहुमनलाई॥जेहिविधसीताकीसुधिपाई॥दोहा
इहिविधहोतबतकहीआयेवानरयूथ॥नानावरणअतुलल
वलदेखियकीशवरूथ॥२१॥चौपाई॥वानरकटकउमामै
देखा॥सोमूरखजोकियचहलेखा॥आइरामपदनावहिमाथा
निरखिवदनसवहोहिंसनाथा॥असकपिएकनसेनामाहीं॥
रामकुशलप्रछाजेहिनाहीं॥यहनकछुकप्रभुकेअधिकाई
विश्वरूपव्यापकरघुराई॥ठाढेजहँतहँआयसुपाई॥कहि
सुग्रीवसवहिंसमुझाई॥रामकाजअरुमोरनिहोरा॥वानरयू
थजाहुचहुंओरा॥जनकसुताकहँखोजहुजाई॥माससदिवस
महंआयेहुभाई॥अवधिमेटिजोविनुसुधिपाये॥अबसिमु
हिहिंसोममकराआये॥दोहा॥वचनसुनतसववानरजहँतहँ
चलेतुरन्त॥तवसुग्रीवबुलायअंगदादिहनुमन्त॥२२॥
चौपाई॥सुनहुनीलअंगदहनुमाना॥जाम्बवंतमतिधीरसु

जाना॥ सकल सुभट मिलि दछिण जाहू॥ सीता सुधि पूछे
हु सब काहू॥ मन वच क्रम सो यतन विचारेहु॥ रामचन्द्र कर
काज सम्बारेहु॥ भानु पीठ सेइय उर आगी॥ स्वामी सेइय सब
छल त्यागी॥ तजि माया सेइय परलोका॥ मिटै सकल भव सं
भव शोका॥ देह धरे कर यह फल भाई॥ भजिय राम सब काम
विहाई॥ पाछें पवन तनय सिर नावा॥ जानि काज प्रभु निकट
बुलावा॥ आयसु मांगि चरण सिर नाई॥ चले हर्षि सुमिरत रघु
राई॥ स्परषा शीस सरोरुह पाणी॥ कर मुद्रिका दीन्ह जन जा
नी॥ बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु॥ कहि बल वीर्य वेगि तुम
आयेहु॥ हनुमन्त जन्म सुफल करि जाना॥ चले हृदय धरि कृ
पानिधाना॥ यद्यपि प्रभु जानत सब बाता॥ राजनीति राखत।
सुरत्रात॥ दोहा॥ चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो
राम काज लय लीन मन विसरा तन कर छोह॥ २९॥ चौपाई॥ क
तहुं होइ निसिचर सन भेटा॥ प्राण लेहिं एक एक चपेटा॥ बहु
प्रकार गिरि कानन हेरहिं॥ कोउ मुनि मिलै ताहि सब घेरहिं॥
लागि तृषा अति शय अकुलाने॥ मिलै न जल बन गहन भुलाने
तब हनुमान कीन्ह अनुमाना॥ मरण चहत सब बिनु जल पाना
चढि गिरि शिखर चहूं दिशि देखा॥ भूमि विवर एक कौतुक
पेखा॥ चक्रवाक बक हंस उडाहीं॥ बहुतेक खग प्रविशहिं तेहि

रामा०
कि०
८

माहीं॥ गिरितेउतरपवनसुतआवा॥ सबकहं लैसोविबर
दिखावा॥ आगेकरिहनुमन्तहिलीन्हा॥ पैठेविवरबिलम्ब
नकीन्हा॥ दोहा॥ देखिजाइउपवनसुभगसरविकसेबहुकंज
मन्दिरएकरुचिरतहांबैठिनारितपपुञ्ज॥ २४॥ चौपाई॥ दूरि
हितेंतेहिसबसिरनावा॥ पूछेसिनिजबृत्तान्तसुनावा॥ त
बतेइकहाकरहुजलपाना॥ खाहुसरससुन्दरफलनाना॥
मज्जनकीन्हमधुरफलखाए॥ तासुनिकटपुनिसबचलि।
आए॥ तेइसबआपनिकथासुनाई॥ मैंअबजावजहांरघुराई॥
मूदहुनयनविवरतजिजाहू॥ पैहहुसीतहिजनिकदराहू
नयनमूंदिनबदेखहिंवीरा॥ ठाढेसकलसिंधुकेतीरा॥
सोपुनिगईजहांरघुनाथा॥ जाइकमलपदनाएसिमाथा॥
नानाभांतिविनयतेइकीन्ही॥ अनपावनिभक्तिप्रभुदीन्ही॥
दोहा॥ बदरीवनकहंसोगईप्रभुआज्ञाधरिशीस॥ उरधरिराम
चरणयुगजोवन्दितअजईश॥ २५॥ चौपाई॥ इहांविचारकपि
न्हमनमाहीं॥ बीतीअवधिकाजकछुनाहीं॥ सबमिलिकहहिं
परस्परबाता॥ बिनुसुधिलियेकरबकाभ्राता॥ कहअंगद।
लोचनभरिवारी॥ दुहुप्रकारभइमृत्युहमारी॥ इहांनसुधिसी
ताकरपाई॥ उहांगयेमारिहिकपिराई॥ पिताबधेपरमारत
मोही॥ राखारामनिहोरनवोही॥ पुनिपुनिअंगदकहसबपा

ही॥ मरणभयोककुसंशयनाही॥ असकहिलवणसिंधुत
टजाई॥ बैठकपीसबदर्भडसाई॥ जाम्बवन्तअंगददुखदेखी॥
कहीकथाउपदेशविशेखी॥ तातरामकहंनरजनिमानहु॥
निर्गुणब्रह्मअजितअजजानहु॥ हमसबसेवकअतिबडभागी
सन्ततसगुणब्रह्मअनुरागी॥ दोहा॥ निजइच्छाअवतरेउप्रभु
सुरद्विजगोमहिलागि॥ सगुणउपासकरहहिंसबमोक्षस
कलसबत्यागि॥ २६॥ चौपाई॥ इहिविधिकहतभएबहुभांती
गिरिकन्दरासुनासंपाती॥ बाहिरहोइदेखेसबकीशा॥ मोहि
आहारदीन्हजगदीशा॥ आजुसबन्हकहंभक्षणकरऊं॥ दिन
बहुचलेआहारबिनुमरऊं॥ कबहुनमिलेभरिउदरआहारा॥
आजदीन्हविधिएकहिवारा॥ डरपेगृध्रवचनसुनिकाना॥ अ
बभामरणसत्यहमजाना॥ कपिसबउठेगृध्रकहंदेखी॥ जाम्ब
वन्तमनशोचविशेषी॥ कहविचारअंगदमनमांही॥ धन्यज
टायुसरिसकोउनाही॥ रामकाजकारणतनुत्यागी॥ हरिपुर
गयेउपरमबडभागी॥ सुनिखगहर्षशोकयुतवाणी॥ आवा
निकटकपिन्हभयमानी॥ ताहिदेखिसबचलेपराई॥ ठाढकी
न्हतेहिशपथदिवाई॥ तिन्हेंअभयकरिपूछेसिजाई॥ कथास
कलतिन्हताहिसुनाई॥ सुनिसंपातिबन्धुकीकरणी॥ रघुप
तिमहिमाबहुविधिवरणी॥ दोहा॥ मोहिलैचलहुसिंधुतटदेउं॥

तिलांजलिताहि॥ बचनसहायकरबमैंपैहहुखोजहुजाहि
२०॥ चौपाई॥ अनुजक्रियाकरिसागरतीरा॥ कहिनिजकथासु
नहुकपिबीरा॥ हमदोउबन्धुप्रथमतरुणाई॥ गगनगयेउंर
बिनिकटउडाई॥ तेजनसहिसकसोफिरिआवा॥ मैंअभिमानि
रविहिनिअरावा॥ जरेपंखअतितेजअपारा॥ परेउंभूमिकरि
घोरचिकारा॥ मुनिएकनामचन्द्रमाओही॥ लागीदयादेखि
करिमोही॥ बहुप्रकारतिन्हज्ञानसिखावा॥ देहजनितअभि
मानछुडावा॥ त्रेताब्रह्ममनुजतनुधरिहैं॥ तासुनारिनिशिच
रपतिहरिहैं॥ तासुखोजपठउबप्रभुदूता॥ तिन्हेंमिलेतमहो
वपुनीता॥ जामिहिपंखकरसिजनिचिन्ता॥ तिन्हेंदेखाइदेव
तैंसीता॥ मुनिकैगिरासत्यभइआजू॥ सुनिममबचनकरहु
प्रभुकाजू॥ गिरित्रिकूटऊपरबसलङ्का॥ तहंरहरावणसह
जअशङ्का॥ तहांअशोकवाटिकाअहई॥ सीताबैठितहंशोच
तिरहई॥ दोहा॥ मैंदेखौंतुमनाहिनगृध्रहिंदृष्टिअपार॥ बूढ
भयउनतोकरितेउंकछुकसहायतुम्हार॥ २१॥ चौपाई॥ जोलां
घेशतयोजनसागर॥ करैसोरामकाजमतिआगर॥ जोकोउक
रैरामकरकाजू॥ तेहिसमधन्यआननहिंआजू॥ मोहिबिलो
किधरहुमनधीरा॥ रामकृपाकसभयेउशरीरा॥ पापिउजा
करनामसुमिरहीं॥ अतिअपारभवसागरतरहीं॥ तासुदूतत

मतजिकदराई॥ रामहृदयधरिकरहुउपाई॥ असकहिउमागृ
ध्रजबगयेऊ॥ सबकेमनअतिविस्मयभयेऊ॥ निजनिजबल
सबकाहूभाषा॥ पारजानकरसंशयराखा॥ जरठभयेउअबक
हेउरिछेशा॥ नहितनुरहाप्रथमबललेखा॥ जबहित्रिविक्रम
भयेउखरारी॥ तबमैंतरुणरहाबलभारी॥ दोहा॥ बलिबांधतप्र
भुबाढेऊसोतनुबरणिनजाइ॥ उभयघरीमहंदीन्हमैंसातप्रद
क्षिणधाइ॥२९॥ चौपाई॥ अंगदकहाजाउंमैंपारा॥ जियसंशय
कछुफिरतीवारा॥ जाम्बवन्तकहतुमसबलायक॥ किमिपठवौं
सबहीकरनायक॥ कहारिछपतिसुनुहनुमाना॥ काचुपसा
धिरहाबलवाना॥ पवनतनयबलपवनसमाना॥ बुद्धिविवेकवि
ज्ञाननिधाना॥ कौनसोकाजकठिनजगमाहीं॥ जोनहितातहो
इतुमपाहीं॥ रामकाजलगितवअवतारा॥ सुनतहिभयेउपर्व
ताकारा॥ कनकवरणतनुतेजविराजा॥ मानहुंअपरगिरन्हक
रराजा॥ सिंहनादकरिबारहिबारा॥ लीलहिंनांघौंजलनिधि
खारा॥ सहितसहायरावणहिंमारी॥ आनौंइहांत्रिकूटउपारी
जाम्बवन्तमैंपूछौंतोही॥ उचितसिखावनदीजैमोही॥ इतना
करहुताततुमजाई॥ सीतहिंदेखिकहौसुधिआई॥ तबनिज
भुजबलराजिवनयना॥ कौतुकलागिसंगकपिसयना॥ छंद॥
कपिसेनसंगसंघारिनिशिचररामसीतहिंआनिहैं॥ त्रैलोक्य

पावनसुयशसुरमुनिनारदादिबखानिहैं ॥ ५ ॥ जोसुनतगा
वतकहतसमुझतपरमपदनरपावहीं ॥ रघुवीरपदपाथोज
मधुकरदासतुलसीगावहीं ॥ ६ ॥ दोहा ॥ भवभेषजरघुनाथय
शसुनैजोनरअरुनारि ॥ तिनकरसकलमनोरथसिद्धकरहिं
त्रिपुरारि ॥ ३३ ॥ सोरठा ॥ नीलोतपलतनुश्यामकामकोटिशो
भाअधिक ॥ सुनियतासुगुणग्रामजासुनामअघखगवधिक
३४ ॥ इतिश्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वंसनेवि
मलवैराग्यसंपादनोनामचतुर्थःसोपानः ॥ किष्किन्धाकाण्डः
समाप्तः शुभमस्तुसिद्धिरस्तु ॥ श्रीरामचन्द्रायनमः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

रामाख्यंजगदीश्वरंसुरगुरुंमायामनुष्यंहरिं॥वन्देहंकरुणाकरंरघुवरंभूपालचूडामणिम॥तुटी ३

ॐश्रीश्रीगणेशायनमः॥अथसुन्दरकाण्डलिख्यते॥

श्लोक॥शान्तंशाश्वतमप्रमेयमनघंनिर्वाणशान्तिप्रदंब्र
ह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशंवेदान्तवेद्यंविभुम॥१॥नान्या
स्पृहारघुपतेहृदयेस्मदीयेसत्यंवदामिचभवानखिला
न्तरात्मा॥भक्तिंप्रयच्छरघुपुङ्गवनिर्भरांमेकामादिदोष
रहितंकुरुमानसंच॥२॥अतुलितबलधामंस्वर्णशैलाभदे
हंदनुजवनकृशानुंज्ञानिनामग्रगण्यम॥सकलगुणनि
धानंवानराणामधीशंरघुपतिवरदूतंवातजातंनमामि॥३॥
चौपाई॥जाम्बवन्तकेवचनसुहाये॥सुनिहनुमानहृदयअ
तिभाये॥तबलगिमोहिपरेखहुभाई॥सहिदुखकन्दमूलफ
लखाई॥जबलगिआवौंसीतहिदेखी॥होइहिकाजमनहर्षवि
शेषी॥असकहिनाइपवनकहंमाथा॥चलेउहर्षिहियधरि
रघुनाथा॥सिन्धुतीरएकसुन्दरभूधर॥कौतुककूदिचढेउते
हिऊपर॥वारवाररघुवीरसंभारी॥तरकेउपवनतनयबलभा
री॥जेहिगिरिचरणदेइहनुमन्ता॥सोचलिगयेउपातालतुर
न्ता॥जिमिअमोघरघुपतिकेवाणा॥एहीभांतिचलाहनुमा
ना॥जलनिधिरघुपतिदूतविचारी॥तैमैनाकहोउश्रमहारी
दोहा॥हनूमानतेहिपरसिकरपुनितेहिकीन्हप्रणाम॥राम
काजकीन्हेविनामोहिकहांविश्राम॥१॥चौपाई॥जातपवन
सुतदेवनदेखा॥जानैचहंबलबुद्धिविशेषा॥सुरसानामअहि

रामा. सुं. १

नकै माता॥ पठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥ आजु सुरन्ह मो
हि दीन्ह अहारा॥ सुनि हँसि बोल पवनकुमारा॥ राम का
ज करि फिरि मैं आवौं॥ सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं॥
तब तव बदन पैठिहौं आई॥ सत्य कहौं मोहि जान दे माई॥ क
वनिहु यतन देइ नहि जाना॥ ग्रससि न मोहि कहा हनुमाना॥
योजन भरि तेहिं बदन पसारा॥ कपि तन कीन्ह द्विगुण बि
स्तारा॥ सोरह योजन मुख तेइं ठयऊ॥ तुरत पवनसुत बत्ती
स भयऊ॥ जस जस सुरसा बदन बढावा॥ तासु द्विगुण क
पि रूप दिखावा॥ शत योजन तेइं आनन कीन्हा॥ अति ल
घु रूप पवनसुत लीन्हा॥ बदन पैठि पुनि बाहर आवा॥
मांगी बिदा ताहि सिर नावा॥ मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठा
वा॥ बुधि बल मर्म तोर मैं पावा॥ दोहा॥ रामकाज सब क
रिहहु तुम बल बुद्धि निधान॥ आशिष दै सुरसा गयी हर्षि
चले हनुमान॥ २॥ चौपाई॥ निशिचरि एक सिंधु महं रहई॥
करि माया नभ के खग गहई॥ जीव जन्तु जे गगन उडाहीं॥ ज
ल बिलोकि तिनकी परिछाहीं॥ गहै छाह सक सो न उडा
ई॥ यहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ सोई छल हनुमान ते की
न्हा॥ तासु कपट कपि तुरतहिं चीन्हा॥ ताहि मारि मारुतसु
त बीरा॥ बारिधि पार गयउ मतिधीरा॥ तहां जाइ देखी बन शो
भा॥ गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ नाना तरु फल फूल सुहाये

खगमृगवृन्ददेखिमनभाए॥ शैलविशालदेखिएकआ
गे॥ तापरकूदिचढेउभयत्यागे॥ उमानकछुकपिकीअ
धिकाई॥ प्रभुप्रतापजोकालहिखाई॥ गिरिपरचढिलं
कातेंहदेखी॥ कहिनजाइअतिदुर्गविशेषी॥ अतिउतंगज
लनिधिचहुंपाशा॥ कनककोटकरपरमप्रकाशा॥ छं
द॥ कनककोटविचित्रमणिकृतसुन्दरायतनअतिघना
चौहट्टहट्टसुवट्टवीथीचारुपुरबहुविधवना॥ गजवा
जिखच्चरनिकरपदचररथवरूथनिकोगनै॥ बहुरूप
निशिचरयूथअतिवलसेनवरणतनहिबनै॥२॥ वनवा
गउपवनवाटिकासरकूपवापीसोहहीं॥ नरनागसुरग
न्धर्वकन्यारूपमुनिमनमोहहीं॥३॥ कहुंमलदेहविशा
लशैलसमानअतिबलगर्जहीं॥ नानाअखारन्हभिरहिं
बहुविधएकएकन्हतर्जहीं॥४॥ करियतनभटकोटिन्ह
विकटतनुनगरचहुंदिशिरक्षहीं॥ कहुंमहिषमानुषधेनु
खरअजखलनिशाचरभक्षहीं॥५॥ इहिलागितुलसीदा
सइनकीकथासंक्षेपहिकही॥ रघुवीरशरतीरथसरीरन
न्हत्यागिगतिपैहैंसही॥६॥ दोहा॥ पुररखवारेदेखिबहुक
पिमनकीन्हविचार॥ अतिलघुरूपधरौंनिशिनगरकरौं
पैसार॥३॥ चौपाई॥ मशकसमानरूपकपिधरी॥ लंका
चलेसुमिरिनरहरी॥ नामलंकिनीएकनिशिचरी॥ सो

कहुचलेसिमोहिनिरदरी॥ जानसिनाहिंमर्मशठमोरा
मोरआहारलंकाकरचोरा॥ मुष्टिकाएकताहिकपिहनी॥
रुधिरबमतधरणीढनमनी॥ पुनिसंभारिउठीसोलंका॥
जोरिपाणिकरिबिनयसशंका॥ जबरावणहिंब्रह्मबर
दीन्हा॥ चलतबिरंचिकहामोहिचीन्हा॥ बिमलहोसिज
बकपिकेमारे॥ तबजानेसिनिशिचरसंहारे॥ तातमोरअ
तिपुण्यबहूता॥ देखेउंनयनरामकरदूता॥ दोहा॥ तातस्व
र्गअपवर्गसुखधरियतुलाएकअंग॥ तूलनताहिसक
लमिलिजोसुखलवसतसंग॥ ४॥ चौपाई॥ प्रविशिन
गरकीजैसबकाजा॥ हृदयराखिकोशलपुरराजा॥ गरल
सुधारिपुकरैमिताई॥ गोपदसिंधुअनलसितलाई॥ गरु
डसुमेरुरेणुसमताही॥ रामकृपाकरिचितवहिंजाही
अतिलघुरूपधरेउहनुमाना॥ पैठानगरसुमिरिभगवाना
मन्दिरमन्दिरप्रतिकरिशोधा॥ देखाजहंतहंअगणितयो
धा॥ गयेउदशाननमन्दिरमाही॥ अतिबिचित्रकहिजात
सोनाही॥ शयनकिएदेखाकपितेही॥ मन्दिरमहंनदीख
वैदेही॥ भवनएकपुनिदीखसुहावा॥ हरिमन्दिरतहंभि
न्नबनावा॥ रामनामअंकितगृहशोहा॥ बरणिनजाइदेखि
मनमोहा॥ दोहा॥ रामायुधअंकितगृहशोभाबरणिन
जाइ॥ नवतुलसीकेवृन्दबहुदेखिहर्षकपिराइ॥ ५॥ चौ०

लंकानिशिचरनिकरनिवासा॥इहांकहांसज्जनकरवासा
मनमहुंतर्ककरणकपिलागे॥ताहीसमयविभीषणजागे
रामरामतेहिंसुमिरणकीन्हा॥हृदयहर्षकपिसज्जनची
न्हा॥इहिसनहठिकरिहौंपहिचानी॥साधुतेहोइनकारज
हानी॥विप्ररूपधरिवचनसुनावा॥सुनतविभीषणउठि
तहंआवा॥करिप्रणामपूछीकुशलाई॥विप्रकहहुनि
जकथाबुझाई॥कीतुमहरिदासनमेकोई॥मोरेहृदयप्रीति
अतिहोई॥कीतुमरामदीनअनुरागी॥आयेहुमोहिकरण
बडभागी॥दोहा॥तबहनुमन्तकहीसबरामकथानिजना
म॥सुनतयुगलतनपुलकअतिमगनसुमिरिगुणग्राम
६॥चौपाई॥सुनहुपवनसुतरहनिहमारी॥जिमिदशनन्ह
महजीभविचारी॥तातकबहुंमोहिजानिअनाथा॥करिह
हिंकृपाभानुकुलनाथा॥तामसतनुकछुसाधननाही॥प्री
तिनपदसरोजमनमांही॥अबमोहिभाभरोसहनुमन्ता॥
विनुहरिकृपामिलहिंनहिसन्ता॥जोरघुवीरअनुग्रहकीन्हा
तोतुममोहिदरशहठिदीन्हा॥सुनहुविभीषणप्रभुकेरीती
करहिंसदासेवकपरप्रीती॥कहहुकवनमैपरमकुलीना॥
कपिचञ्चलसबहीविधिहीना॥प्रातलेइजोनामहमारा॥
तादिनताहिनमिलैअहारा॥दोहा॥असमैअधमसखासु
नुमोहूपररघुवीर॥कीन्हीकृपासुमिरिगुणभरेविलोचन

रा.मा.
सुं.
३

नीर ॥७॥ चौपाई ॥ जानतहूंअसस्वामिविसारी ॥ फिरितेका
हेनहोहिंदुखारी ॥ इहिविधकहतरामगुणग्रामा ॥ पाव
नश्रवणसुखदविश्रामा ॥ पुनिसवकथाविभीषणकही
जेहिविधजनकसुताजहंरही ॥ तबहनुमन्तकहासुनुभ्रा
ता ॥ देखाचहौंजानकीमाता ॥ जुक्तिविभीषणसकलसुना
ई ॥ चलउपवनसुतविदाकराई ॥ करिसोरूपगयेउपुनित
हंवा ॥ वनअशोकसीतारहिजहंवा ॥ देखिमनहिमनकी
न्हप्रणामा ॥ वैठेवीतिजातनिशियामा ॥ कृशतनुशीसज
टाएकवेणी ॥ जपतिहृदयरघुपतिगुणश्रेणी ॥ दोहा ॥ नि
जपदनयनदियेंमनरामचरणमहंलीन ॥ परमदुखीभापव
नसुतनिरखिजानकीदीन ॥८॥ चौपाई ॥ तरूपल्लवमहंर
हालुकाई ॥ करैविचारकरौंकाभाई ॥ तेहिअवसररावणत
हंआवा ॥ सङ्गनारिवहुकिएवनावा ॥ वहुविधखलसीत
हिंसमुझावा ॥ सामदामभयभेददिखावा ॥ कहरावण
सुनुसुमुखिसयानी ॥ मन्दोदरीआदिसवरानी ॥ तवअ
नुचरीकरौंपणमोरा ॥ एकवारविलोकुममओरा ॥ तृणध
रिओटकहतिवैदेही ॥ सुमिरिअवधपतिपरमसनेही ॥ सु
नुदशमुखखद्योतप्रकाशा ॥ कवहुंकिनलिनीकरहिंवि
कासा ॥ असमनसमुझुकहतिजानकी ॥ खलसुधिनहिं
रघुवीरवाणकी ॥ शठसूनेहरिआनेसिमोही ॥ अधमनिलज

ज्जलाजनहितोही॥दोहा॥आपुहिसुनिखद्योतसमराम
हिंभानुसमान॥परुषवचनसुनिकाढिअसिबोलाअति
खिसिआन॥९॥चौपाई॥सीतातैंममकृतअपमाना॥काटौं
तवसिरकठिनकृपाणा॥नाहितसपदिमानुममबाणी
सुमुखिहोतनतजीवनहानी॥श्यामसरोजदामसमसु
न्दर॥प्रभुभुजकरिकरसमदशकंधर॥सोभुजकंठकित
वअसिघोरा॥सुनुशठअसप्रमाणपणमोरा॥चन्द्रहास
हरुममपरितापा॥रघुपतिविरहअनलसन्तापा॥शीतल
निशितवहसिवरधारा॥कहसीताहरुममदुखभारा॥सु
नतवचनपुनिमारणधावा॥मयतनयाकहिनीतिबुझावा
कहेसिसकलनिशिचरन्हिबुलाई॥सीतहिबहुविधित्रास
हुजाई॥मासदिवसमहंकहानमाना॥तौमैमारवकढिनकृ
पाणा॥दोहा॥भवनगयउदशकंधतबइहांनिशाचरिवृन्द
सीतहित्रासदिखावहींधरहिंरूपबहुमन्द॥१०॥चौपाई॥
त्रिजटानामराक्षसीएका॥रामचरणरतनिपुणविवेका॥
सबहिबुलाइसुनायेसिसपना॥सीतहिसेइकरोहितअप
ना॥सपनेवानरलंकाजारी॥यातुधानसेनासबमारी॥खर
आरूढनगनदशशीसा॥मुंडितशिरखंडितभुजबीसा॥
एहिविधिसोदक्षिणदिशिजाई॥लंकामनहुंविभीषणपाई
नगरफिरीरघुवीरदोहाई॥तवप्रभुसीताबोलिपठाई॥२८

रामा. सुं. ३

५

सपनामैकहौंविचारी॥होइहैसत्यगएंदिनचारी॥तासुब
चनसुनितेसबडरी॥जनकसुताकेचरणन्हिपरी॥दोहा॥
जहाँतहाँगइंसकलतबसीताकेमनशोच॥मासदिवसबी
तेमोहिमारिहिंनिशिचरपोच॥११॥चौपाई॥त्रिजटासनबो
लीकरजोरी॥मातुविपतिसंगिनितैमोरी॥तजौंदेहकरू
वेगिउपाई॥दुसहविरहअवनहिंसहिंजाई॥आनुकाठरा
चुचितावनाई॥मातअनलतमदेहुलगाई॥सत्यकरहुम
मप्रीतिसयानी॥सुनैकोश्रवणशूलसमवाणी॥सुनतब
चनपदगहिसमुझावा॥प्रभुप्रतापवलसुयशसुनावा॥नि
शिनअनलमिलुराजकुमारी॥असकहिसोनिजभवनसि
धारी॥कहसीताविधिभाप्रतिकूला॥मिलैनपावकमिटैन
शूला॥देखियतप्रगटगगनअंगारा॥अवनिनआवतए
कौतारा॥पावकमयशशिस्रवतनआगी॥मानहुंमोहिजा
निहतभागी॥सुनहुविनयममविटपअशोका॥सत्यनाम
करूहरूममशोका॥नूतनकिशलयअनलसमाना॥देहु
अगिनिममकरहुनिदाना॥देखिपरमविरहाकुलसीता॥
सोक्षणकपिहिकल्पसमवीता॥सोरठा॥कपिकरिहृदय
विचारदीन्हमुद्रिकाडारितव॥जनुअशोकअंगारदीन्हह
र्षिउठिकरगहेउ॥१२॥चौपाई॥तवदेखीमुद्रिकामनोहर॥
रामनामअंकितअतिसोहर॥चकितचितैमुद्रिकपहिचानी

हर्षविषादहृदयअकुलानी॥ जीतिकोशकैअजयरघुरा
ई॥ मायातेअसरचीनजाई॥ सीतामनविचारकरनाना॥ म
धुरवचनवोलेहनुमाना॥ रामचन्द्रगुणवरणनलागे॥ सु
नतहिसीताकरदुखभागे॥ लागीसुनेश्रवणमनलाई॥ आ
दिहितेसवकथासुनाई॥ तवहनुमन्तनिकटचँ(लग)येऊ॥ फिरि
वैठीमनविस्मयभयेऊ॥ रामदूतमैमातुजानकी॥ सत्यशप
थकरुणानिधानकी॥ यहमुद्रिकामातुमैआनी॥ दीन्हरा
मतुमकहँसहिदानी॥ नरवानरहिसंगकहुकैसे॥ कहीक
थासंगतिभइजैसे॥ दोहा॥ कपिकेवचनसप्रेमसुनिउपजा
मनविश्वास॥ जानामनक्रमवचनयहकृपासिंधुकरदास॥
चौपाई॥ हरिजनजानिप्रीतिअतिवाढी॥ सजलनयनपुल
कावलिवाढी॥ बूडतविरहजलधिहनुमाना॥ भयेहुतातमो
कहँजलयाना॥ अवकहुकुशलजाउँवलिहारी॥ अनुजसहि
तसुखभवनखरारी॥ कोमलचित्तकृपालरघुराई॥ कपि
केहिहेतधरीनिठुराई॥ सहजवानिसेवकसुखदायक॥ क
वहुंकमोहिसुमिरतरघुनायक॥ कवहुंनयनममशीतलता
ता॥ होइहहिनिरखिस्याममृदुगाता॥ वचननआवनयन
भरिवारी॥ अहोनाथमोहिनिपटविसारी॥ देखिविरहव्याकु
लअतिसीता॥ वोलेउकपिमृदुवचनविनीता॥ मातुकुशल

प्रभुअनुजसमेता॥तबदुखदुखीसोकृपानिकेता॥जन
नीजनिमानहुमनऊना॥तुमतेप्रेमरामकहंदूना॥दोहा
रघुपतिकेसन्देशअबसुनुजननीधरिधीर॥असकहिक
पिगद्गदभएभरेविलोचननीर॥१४॥चौपाई॥रामवियो
गकहासुनुसीता॥मोकहंसकलभएउविपरीता॥नूत
नकिशलयमनहुंकृशानू॥कालनिशासमनिशिश
शिभानू॥कुवलयविपिनकुन्तबनसरिसा॥वारिदतप्त
तेलजनुवरिषा॥जेहितरहेहोंकरतसोपीरा॥उरगस्वास
समत्रिविधसमीरा॥कहेहूतेंदुखघटिकछुहोई॥काहि
कहोंयहजाननकोई॥तत्वप्रेमकरममअरुतोरा॥जान
तप्रियाएकमनमोरा॥सोमनसदारहततोहिपाहीं॥जा
नुप्रीतिरसएतनेहिमाहीं॥प्रभुसन्देशसुनतवैदेही॥मग
नप्रेमतनुसुधिनहितेही॥कहकपिहृदयधीरधरुमाता॥
सुमिरिरामसेवकसुखदाता॥उरआनहुरघुपतिप्रभुताई
सुनिममवचनतजहुविकलाई॥दोहा॥निशिचरनिक
रपतङ्गसमरघुपतिबाणकृशानु॥जननीहृदयधीरध
रुजरेनिशाचरजानु॥१५॥चौपाई॥जौंरघुवीरहोतसुधि
पाई॥करतेनहिविलम्बरघुराई॥रामबाणरविउदयजान
की॥तमवरूथकहंजातुधानकी॥अबहिंमातमैंजाउंलै

वाई॥ प्रभुआयसुनहिंरामदोहाई॥ कछुकदिवसजननीध
रुधीरा॥ कपिन्हसहितऐहैंरघुवीरा॥ निशिचरमारितिमा
हिंलेजैहैं॥ तिहुंपुरनारदादियशगैहैं॥ हैंसुतकपिसबतु
महिंसमाना॥ यातुधानभटअतिबलवाना॥ मोरेहृदयपर
मसन्देहा॥ सुनिकपिप्रगटकीन्हनिजदेहा॥ कनकभूधरा
कारशरीरा॥ समरभयङ्करअतिबलधीरा॥ सीतामनभरो
सतबभयऊ॥ पुनिलघुरूपपवनसुतलयऊ॥ दोहा॥ सुनु
माताशाखामृगहिंनहिबलबुद्धिविशाल॥ प्रभुप्रतापतेग
रुडहीखाइपरमलघुव्याल॥१६॥ चौपाई॥ मनसन्तोषसुन
तकपिवाणी॥ तनुअतिपुलकनयनढरुपानी॥ भक्तिप्रता
पतेजबलसानी॥ आशिषदीन्हरामप्रियजानी॥ अजरअम
रगुणनिधिसुतहोहू॥ करहुबहुतरघुनायकछोहू॥ करहिं
कृपाप्रभुअससुनिकाना॥ निर्भरप्रेममगनहनुमाना॥ बार
वारनावहिंपदशीसा॥ बोलेवचनजोरिकरकीशा॥ अबकृ
तकृत्यभएउंमैमाता॥ आशिषतवअमोघविख्याता॥ सुनि
यमातुमोहिअतिशयभूखा॥ लागिदेखिसुंदरफलरूखा॥
सुनसुतकरहिंविपिनरखवारी॥ परमसुभटरजनीचरभा
री॥ [illegible]करभयमातामोहिनाही॥ जौतुमसुखमानहुमन
माही॥ दोहा॥ देखिबुद्धिबलविपुलकपिकहाजानकीजा
हु॥ रघुपतिचरणहृदयधरितातमधुरफलखाहु॥१७॥ चौपा

रामा. सुं. ६

6

चलानाइसिरपैठेउबागा॥ फलखाएसितरुतोरनलागा॥
रहेतहांबहुभटरखवारे॥ कछुमारेकछुजाइपुकारे॥ ना
थएकआवाकपिभारी॥ तेंइंअशोकवाटिकाउजारी॥ खा
एसिफलअरुविटपउपारेसि॥ जहंतहंपटकिपटकिभ
टमारेसि॥ सुनिरावणपठएभटनाना॥ तिन्हहिंदेखिग
र्जाहनुमाना॥ सबरजनीचरकपिसंघारे॥ गएपुकारतक
छुअधमारे॥ पुनिपठवातेंइंअक्षकुमारा॥ चलासंगलैसु
भटअपारा॥ आवतदेखिविटपगहितर्जा॥ ताहिनिपाति
महाध्वनिगर्जा॥ दोहा॥ कछुमारेसिकछुमर्देसिकछुक
मिलाएसिधूरि॥ कछुपुनिजाइपुकारप्रभुमर्कटब
लभूरि॥१८॥ चौपाई॥ सुनिसुतबधलंकेशरिसाना॥ पठ
वामेघनादबलवाना॥ मारेसिजिनिसुतबांधेसिताही॥ दे
खिअकपिकहांकरआही॥ चलाइन्द्रजितअतुलितयोधा॥
बन्धुनिधनसुनिउपजाक्रोधा॥ कपिदेखादारुणभटआ
वा॥ कटकटाइगर्जाअरुधावा॥ अतिविशालतरुएकउपा
रा॥ विरथकीन्हलंकेशकुमारा॥ रहेमहाभटताकेसङ्गा॥
गहिगहिकपिमर्देनिजअङ्गा॥ तिन्हेंनिपातिताहिस
नवाजा॥ भिरेजुगलमानहुंगजराजा॥ मुष्टिकमारिचढा
तरुजाई॥ ताहिएकछणमूर्छाआई॥ उठिबहोरिकीन्हेसिब
हुमाया॥ जीतिनजाइप्रभंजनजाया॥ दोहा॥ ब्रह्मअस्त्रतें·

हिंसाधाकपिमनकीन्हविचार॥जौंनब्रह्मसरमानौंमहिमा
मिटैअपार॥१९॥चौपाई॥ब्रह्मबाणतेहिंकपिकहंमारा॥पर
तेहुबारकटकसंघारा॥तेहिंजानाकपिमूर्छितभएऊ॥नागपा
शबांधतलैगभएऊ॥जासुनामजपिसुनहुभवानी॥भवबन्ध
नकाटहिंनरज्ञानी॥तासुदूतकिबन्धनतरुआवा॥प्रभुकार
जलगिआपुबंधावा॥कपिबन्धनसुनिनिशिचरधाए॥कौतु
कलागिसभालेआए॥दशमुखसभादीखकपिजाई॥कहिन
जाइककुअतिप्रभुताई॥करजौरेसुरदिशिपविनीता॥भृकु
टिविलोकहिंसकलसभीता॥देखिप्रतापनकपिउरशंका॥
जिमिअहिगणमहंगरुडअशंका॥दोहा॥कपिहिंविलोकि
दशाननविहंसाकहिदुर्बाद॥सुतबधसुरतिकीन्हपुनिउप
जाहृदयविषाद॥२०॥चौपाई॥कहलंकेशकवनतैंकीशा॥के
हिकेबलघालेहिबनखीशा॥कीधौंश्रवणसुनेहिनहिंमोही
देखौंअतिअशंकशठतोही॥मारेसिनिशिचरकेहिअपराधा
कहुशठतोहिनप्राणकीबाधा॥सुनरावणब्रह्माण्डनिकाया
पाइजासुबलविरचितमाया॥जाकेबलविरञ्चिहरिईशा॥पा
लतहरतसृजतदशशीसा॥जाबलशीसधरेसहसानन॥अ
ण्डकोशसमेतगिरिकानन॥धरेजोविविधदेहसुरत्राता॥तु
मसेशठशिखावनदाता॥हरकोदंडकठिनजेहिंभंजा॥तेहि
समेतनृपदलमदगंजा॥खरदूषणत्रिशिराअरुबाली॥बधे

सकलअतुलितबलशाली॥दोहा॥जाकेबललवलेश
तेंजितेउंचराचरझारि॥तासुदूतमैंजाहिकीहरिआनेहुप्रिय
नारि॥२१॥चौपाई॥जानौंमैंतुम्हारिप्रभुताई॥सहसबाहुसन
परीलराई॥समरबालिसनकरिजसपावा॥सुनिकपिब
चनबिहसिबिहरावा॥खायेउंफलमोहीलागीभूखा॥कपि
सुभावतेंतोरेउंरूखा॥सबकेदेहपरमप्रियस्वामी॥मारहिं
मोहिकुमारगगामी॥जिन्हमोहिमारातेहिमैंमारा॥तेहि
परबांधेउतनयतुम्हारा॥मोहिनकछुबांधेकरलाजा॥की
न्हचहौंनिजप्रभुकरकाजा॥विनतीकरौंजोरीकररावण॥
सुनहुमानतजिमोरशिखावण॥देखहुतुमनिजहृदयविचा
री॥भ्रमतजिभजहुभक्तभयहारी॥जाकेडरअतिकालडेराई
जोसुरअसुरचराचरखाई॥तासोंबैरकबहुंनहिकीजे॥मोरे
कहेजानकीदीजे॥दोहा॥प्रणतपालरघुवंशमणिकरुणा
सिंधुखरारि॥गयेशरणप्रभुराखिहैंतवअपराधविसारि॥२२
चौपाई॥रामचरणपंकजउरधरहू॥लंकाअचलराजतुमक
रहू॥ऋषिपुलस्त्ययशविमलमयंका॥तेहिकुलमहंज
निहोसिकलंका॥रामनामबिनुगिरानसोहा॥देखुविचा
रित्यागिमदमोहा॥सबभूषणभूषितवरनारी॥वसनहीन
नहिसोहसुरारी॥रामविमुखसंपतिप्रभुताई॥जाइरहीपाई
बिनुपाई॥सजलमूलजेहिसरितानाहीं॥बरषिगयेपुनितबहिं

सुखाहीं॥ सुनुदशकंठकहौंपणरोपी॥ रामविमुखत्रातान
हिकोपी॥ शंकरसहस्रविस्नुअजतोही॥ शकहिंनराखिरामा
करद्रोही॥ दोहा॥ मोहमूलबहुशूलप्रदत्यागहुतमअभिमा
न॥ भजहुरामरघुनायककृपासिंधुभगवान॥ २३॥ चौपाई
॥ यद्यपिकहीकपिअतिहितबाणी॥ भक्तिविवेकविरतिनय
सानी॥ बोलाविहंसिमहाअभिमानी॥ मिलाहमहिंकपि
गुरुबडज्ञानी॥ मृत्युनिकटआईखलतोही॥ लागेसिअधम
सिखावनमोही॥ उलटाहोइकहाहनुमाना॥ मतिभ्रमतोहि
प्रगटमैजाना॥ सुनिकपिवचनबहुतरिसिआना॥ वेगिन
हरहुमूढकरप्राणा॥ सुनतनिशाचरमारणधाये॥ सचिव
न्हसहितविभीषणआये॥ नाइशीसकरिविनयबहूता॥ नी
तिविरोधनमारियदूता॥ आनदंडकछुकरियगोसांई॥ सब
हीकहतमंत्रभलभाई॥ सुनतविहंसिबोलादशकंधर॥ अं
गभंगकरिपठबहुबन्दर॥ दोहा॥ कपिकरममतापूछपर
सबहिंकहासमुझाइ॥ तेलबोरिपटबांधिपुनिपावकदेहुल
गाइ॥ २४॥ चौपाई॥ पूछहीनबंदरजबजाइहि॥ तबशठनिज
नाथहिलेआइहि॥ जिन्हकैकीन्हेसिअमितबडाई॥ देखौं
मैंतिन्हकैप्रभुताई॥ वचनसुनतकपिमनमुसकाना॥ भई
सहायशारदमैजाना॥ यातुधानसुनिरावणवचना॥ लागे
रचनमूढसोइरचना॥ रहाननगरवसनघृततेला॥ बाढी

पूछकीन्हकपिखेला॥कौतककहंआएपुरवासी॥मारहिं
चरणकरहिंवहुहांसी॥वाजहिढोलदेहिंसवतारी॥नगर
फेरिपुनिपूछप्रजारी॥पावकजरतदेखिहनुमन्ता॥भयउ
परमलघुरूपतुरन्ता॥निबुकिचढेउकपिकनकअटारी॥
भयेसभीतनिशाचरनारी॥दोहा॥हरिप्रेरिततेंहिअवसर
चलेपवनउनचाश॥अट्टहासकरिगर्जेहिंकपिवढिलाग
आकाश॥२५॥चौपाई॥देहविशालपरमहरुआई॥मंदिर
तेमंदिरचढिजाई॥जरेनगरभेलोगवेहाला॥लपटझप
टवहुकोटिकराला॥तातमातसवकरहिंपुकारा॥एहिंअ
वसरकोहमहिउवारा॥हमजोकहायहकपिनहिंहोई॥वा
नररूपधरेसुरकोई॥साधुअवज्ञाकरफलऐसा॥जरेनग
रअनाथकरजैसा॥जारानगरनिमिषएकमाहीं॥एकवि
भीषणकोगृहनाहीं॥ताकरदूतअनलजेंहसिरजा॥जरान
सोतेहिकारणगिरिजा॥उलटिपलटिलंकासवजारी॥कू
दिपरातवसिंधुमझारी॥दोहा॥पूछवुझाइखोइश्रमधरि
लघुरूपवहोरि॥जनकसुताकेआगेठाढभयउकरजोरि
चौपाई॥मातुमोहिदीजैककुचीन्हा॥जैसेंरघुनायकमो
हिदीन्हा॥चूडामणिउतारितवदएऊ॥हर्षसमेतपवनसु
तलएऊ॥कहेहुतातअसमोरप्रणामा॥सवप्रकारप्रभुपू
र्णकामा॥दीनदयालविरदसम्भारी॥हरहुनाथममसं

कटभारी॥ तातशक्रसुतकथासुनायेहु॥ बाणप्रतापप्रभु
हिसमुझायेहु॥ मासदिवसमहुंनाथनआवइ॥ तौपुनिमो
हिजियतनहिपायेहु॥ कहुकपिकेहिबिधिराखौंप्राणा॥
तुमहूंतातकहतअबजाना॥ तुमहिदेखिशीतलभइछाती
पुनिमोकहंसोइदिनसोइराती॥ दोहा॥ जनकसुतहिसमु
झाइकरिबहुबिधिधीरजदीन्ह॥ चरणकमलसिरनाइकपि
गमनरामपहंकीन्ह॥२७॥ चौपाई॥ चलतमहाध्वनिगरजे
उभारी॥ गर्भस्रवेउसुनिनिशिचरनारी॥ लांघिसिंधुएहिपा
रहिंआवा॥ शब्दकिलकिलाकपिन्हसुनावा॥ हर्षेसबबि
लोकिहनुमाना॥ नूतनजन्मकपिनतबजाना॥ मुखप्रसन्न
तनुतेजविराजा॥ कीन्हेसिरामचन्द्रकरकाजा॥ मिलेसकल
अतिभयेसुखारी॥ तलफतमीनपावजनुवारी॥ चलेहर्षि
रघुनायकपासा॥ पूछतकहतनवलइतिहासा॥ तबमधुव
नभीतरसबआये॥ अंगदसहितमधुरफलखाये॥ रखवारे
तबवरजनलागे॥ मुष्टिप्रहारकरतसबभागे॥ दोहा॥ जाइपु
कारेसकलतेबनउजारयुवराज॥ सुनिसुग्रीवहर्षकपिक
रिआयेप्रभुकाज॥२८॥ चौपाई॥ जौंनहोतसीतासुधिपाई॥
मधुवनकेफलसकहिंकेखाई॥ एहिविधिमनविचारकरु
राजा॥ आइगयेकपिसहितसमाजा॥ आइसबन्हिनावापद
शीसा॥ मिलेसबन्हिअतिप्रेमकपीशा॥ पूछेउकुशलकुश

लपटदेषी॥रामकृपाभाकाजविशेषी॥नाथकाजकीन्हेउ
हनुमाना॥राषेसकलकपिन्हकरप्राणा॥सुनिसुग्रीवबहुरि
उठिमिलेऊ॥कपिन्हसहितरघुपतिपहंचलेऊ॥रामकपिन्ह
जबआवतदेषा॥कियेकाजउरहर्षविशेषा॥स्फटिकशिलाबै
ठदोउभाई॥परेसकलकपिचरणनजाई॥दोहा॥प्रीतिसहित
भेटेसकलरघुपतिकरुणापुंज॥पूछेउकुशलनाथअबकु
शलदेखिपदकंज॥२९॥चौपाई॥जाम्बवन्तकहसुनरघुरा
या॥जापरनाथकरहुतुमदाया॥ताहिसदाशुभकुशलनि
रन्तर॥सुरनरमुनिप्रसन्नतेहिऊपर॥सोविजयीविनयीगु
णसागर॥तासुसुयशत्रैलोकउजागर॥प्रभुकीकृपाभय
उसबकाजू॥जन्महमारसफलभाआजू॥नाथपवनसुतकी
न्हजोकरणी॥सोमुखलतहुंजाइनवरणी॥सुनिकृपालु
उठिहृदयलगाये॥जानिसुभटरघुपतिमनभाये॥कहहुंता
तकेहिभांतिजानकी॥रहतिकरतिरक्षास्वप्राणकी॥दोहा॥
नामपाहरूदिवसनिशिध्यानतुम्हारकपाट॥लोचननिज
पदयंत्रिकाप्राणजाहिकेहिबाट॥३०॥चौपाई॥चलतमोहि
चूडामणिदीन्हा॥रघुपतिहृदयलाइतेहिलीन्हा॥नाथयुग
ललोचनभरिवारी॥वचनकहेउककुजनककुमारी॥अनु
जसमेतगहेहुप्रभुचरणा॥दीनबंधुप्रणतारतिहरणा॥मन
क्रमवचनचरणअनुरागी॥केहिअपराधनाथमोहित्यागी॥

अवगुणएकमोरमैजाना॥विछुरतप्राणनकीन्हप्रयाना॥
नाथसोनयनन्हकरअपराधा॥निसरतप्राणकरहिंहठिबाधा
विरहअनलतनुतूलसमीरा॥स्वासजरैछणमांहशरीरा॥नय
नस्रवैजलनिजहितलागी॥जरैनपावदेहविरहागी॥सीता
केअतिविपतिविशाला॥विनहिंकहेभलदीनदयाला॥दो०
निमिषनिमिषकरुणायतनजाहिकलपशतबीति॥बेगिच
लियप्रभुआनियेभुजबलखलदलजीति॥३१॥चौपाई॥सुनि
सीतादुखप्रभुसुखअयना॥भरिआएजलराजीवनयना॥व
चनकायमनममगतिजाही॥सपनेहुंविपतिकिचाहियता
ही॥कहहनुमानविपतिप्रभुसोई॥जबतबसुमिरणभजन
नहोई॥केतिकबातप्रभुयातुधानकी॥वेगिचलियआनिये
जानकी॥सुनुकपितोहिसमानउपकारी॥नहिकोउसुरनर
मुनितनुधारी॥प्रतुपकारकरौंकातोरा॥सनमुखहोइनश
कतमनमोरा॥सुनुकपितोहिउरिणमैंनाही॥देखेउंकरि
विचारमनमांही॥पुनिपुनिकपिहिंचितवसुरत्राता॥लो
चननीरपुलकअतिगाता॥दोहा॥सुनिप्रभुवचनविलोकि
मुखहृदयहर्षहनुमन्त॥चरणपरेउप्रेमाकुलत्राहित्राहि
भगवन्त॥३२॥चौपाई॥वारवारप्रभुचहतउठावा॥प्रेममग
नतेहिउठवनभावा॥प्रभुपदपङ्कजकपिकरशीशा॥सुमि
रिसोदशामगनगौरीशा॥सावधानमनकरिपुनिशङ्कर॥

लागेकहनकथाअतिसुन्दर॥कपिउठायप्रभुहृदयलगा
वा॥करगहिपरमनिकटबैठावा॥कहुकपिरावणपालितलं
का॥केहिविधिदहेउदुर्गअतिबंका॥प्रभुप्रसन्नजानाहनुमा
ना॥बोलेवचनविगतअभिमाना॥शाखामृगकेबडिमनुसा
ई॥शाखातेंशाखापरजाई॥लांघिसिन्धुहाटकपुरजारा॥नि
शिचरगणबधिविपिनउजारा॥सोसबतवप्रतापरघुराई॥ना
थनकछुकमोरिप्रभुताई॥दोहा॥ताकहंप्रभुकछुअगमनहि
जापरतुमअनुकूल॥तवप्रतापबडवानलहिंजारिसकैखल
तूल॥३३॥चौपाई॥नाथभक्तितवअतिसुखपावनि॥देहुकृ
पाकरिशिवमनभावनि॥सुनिप्रभुपरमसरलकपिवाणी॥
एवमस्तुतवकहेउभवानी॥उमारामसुभावजिन्हजाना॥।
ताहिभजनतजिभावनआना॥यहसम्वादजासुउरआवा॥र
घुपतिचरणभक्तितेंइपावा॥सुनिप्रभुवचनकहिंकपिवृन्दा
जयजयजयकृपालसुखकन्दा॥तबरघुपतिकपिपतिहिं
बुलावा॥कहाचलेकरकरहुबनावा॥अबविलम्बकेहिकार
णकीजै॥सुरतकपिनकहंआयसुदीजे॥कौतुकदेखिसु
मनबहुवर्षे॥नभतेभवनचलेसुरहर्षे॥दोहा॥कपिपतिबे
गिबुलाएआयजूथपजूथ॥नानाबरणअतुलबलवानर
भालुवरूथ॥३४॥चौपाई॥प्रभुपदपंकजनावहिंशीशा॥ग
रजहिंभालुमहाबलकीशा॥देखारामसकलकपिसेना॥चि

तेकृपाकरिराजीवनयना॥ रामकृपाबलपाइकपिन्दा॥ भ
एपत्तयुतमनहुँगिरीन्दा॥ हर्षिरामतबकीन्हप्रयाणा॥ सगु
णभएसुन्दरशुभनाना॥ जासुसकलमंगलमयकीती॥ ता
सुपयानसगुणयहनीती॥ प्रभुपयानजानावैदेही॥ फरके
वामअंगजनुतेही॥ जोजोसगुणजानकहिंहोई॥ असगुणभय
उरावणहिंहोई॥ चलाकटककोवरणैपारा॥ गरजहिंबानर
भालुअपारा॥ नखआयुधगिरिपादपधारी॥ चलेगगनमहि
इच्छाचारी॥ केहरिनादभालुकपिकरहीं॥ डगमगमहिदि
ग्गजचिक्करहीं॥ छन्द॥ चिक्करहिंदिग्गजडोलमहिगि
रिलोलसागरखरभरे॥ मनहर्षदिनकरसोमसुरमुनिनाग
किन्नरदुखटरे॥ ७॥ कटकटहिंमरकटविकटभटबहुकोटि
कोटिन्हधावहीं॥ जयरामप्रबलप्रतापकोशलनाथगुणग
णगावहीं॥ ८॥ सहिशकनभारअपारअहिपतिबारबार वि
मोहई॥ गहिदशनपुनिपुनिकमठपृष्ठकठोरसोकिमिसो
हई॥ ९॥ रघुवीररुचिरपयानप्रस्थितिजानिपरमसुहावनी॥
जनुकमठखर्परसर्पराजसोलिखतअविचलपावनी॥ १०॥
दोहा॥ इहिंविधिजाइकृपानिधिउतरेसागरतीर॥ जहँतहँला
गेखानफलभालुविपुलकपिवीर॥ ३५॥ चौपाई॥ उहांनिशा
चररहहिंसशंका॥ जबतेंजारिगयउकपिलंका॥ निजनिजगृ
हसबकरहिंविचारा॥ नहिनिशिचरकुलकेरउबारा॥ जासुदूत

बलबरणिनजाई॥ तेहिंआपुरकवनभलाई॥ अतिसभीति
सुनिपुरजनबाणी॥ मन्दोदरीहृदयअकुलानी॥ रहसिजोरि
करपतिपदलागी॥ बोलीबचननीतिरसपागी॥ कान्तकर्ष
हरिसनपरिहरहू॥ मोरकहाअतिहितचितधरहू॥ समुझ
तजासुदूतकीकरणी॥ स्रवहिंगर्भरजनीचरघरणी॥ तासु
नारिनिजसचिवबुलाई॥ पठवहुकान्तजोचहहुभलाई॥
तवकुलकमलविपिनदुखदाई॥ सीतासीतनिशासमआई॥
सुनहुनाथसीताबिनुदीन्हे॥ हितनतुम्हारशम्भुअजकीन्हे॥
दोहा॥ रामबाणअहिगणसरिसनिकरनिशाचरभेक॥ ज
बलगिग्रसतनतबहिंलगियतनकरहुतजिटेक॥ ३६॥ चौ
पाई॥ श्रवणसुनतशठताकरिबाणी॥ बिहंसाजगतविदि
तअभिमानी॥ सभयसुभावनारिकरसांचा॥ मंगलमांह
अमंगलराचा॥ जोआवैमरकटकटकाई॥ जिअहिंबि
चारेनिशिचरखाई॥ कंपहिंलोकपजाकेत्रासा॥ तासुनारि
सभीतबडिहासा॥ असकहिबिहंसिताहिउरलाई॥ चलेउ
सभाममताअधिकाई॥ मन्दोदरीहृदयकरचिन्ता॥ भयउका
न्तपरबिधिबिपरीता॥ बैठेउसभाखबरिअसपाई॥ सिन्धु
पारसेनासबआई॥ बूझेसिसचिवउचितमतकहहू॥ तेसबहं
सेमष्टकरिरहहू॥ जितेहुसुरासुरतबश्रमनाहीं॥ नरबानर
केहिलेखामाहीं॥ दोहा॥ सचिववैद्यगुरुतीनिजोंबोलहिंप्रि

यप्रभुआश॥ राजधर्मतनुतीनिकरहोइबेगहींनाश॥ ३७॥
चौपाई॥ सोइरावणकहवनीसहाई॥ अस्तुतिकरहिंसुनाइसु
नाई॥ अवसरजानिविभीषणआवा॥ भ्राताचरणशीसतेहिं
नावा॥ पुनिसिरनाइबैठिनिजआसन॥ बोलावचनपाइअनु
शासन॥ जौकृपालपूछेहुमोहिबाता॥ मतिअनुरूपकहउ
हितताता॥ जोआपनचाहहुकल्याणा॥ सुयशसुमतिशुभग
तिसुखनाना॥ सोपरनारिलिलारगोसाँई॥ तजौचौथिचन्दा
कीनाई॥ चौदहभुवनएकपतिहोई॥ भूतद्रोहतिष्ठैनहिंकोई॥
गुणसागरनागरनरजोऊ॥ अल्पलोभभलकहैनकोऊ॥ दो०
कामक्रोधमदलोभसबनाथनरककरपन्थ॥ सबपरिहरिर
घुबीरपदभजहुकहहिंसदग्रन्थ॥ ३८॥ चौपाई॥ तातरामन
हिनरभूपाला॥ भुवनेश्वरकालहुकरकाला॥ ब्रह्मअनामय
अजभगवन्ता॥ व्यापकअजितअनादिअनन्ता॥ गोद्विजधेनु
देवहितकारी॥ कृपासिंधुमानुषतनुधारी॥ जनरञ्जनभञ्जन
खलब्राता॥ वेदधर्मरक्षकसुनुभ्राता॥ ताहिबैरतजिनाइयमा
था॥ प्रणतारतिभञ्जनरघुनाथा॥ देहुनाथप्रभुकहंबैदेही॥
भजहुरामविनुकामसनेही॥ शरणागतप्रभुकाहुनत्यागा॥
विश्वद्रोहकृतअघजेहिंलागा॥ जासुनामत्रयतापनशावन
सोप्रभुप्रगटसमझुजियरावण॥ दोहा॥ बारबारपदलाग
उंविनयकरौंदशशीश॥ परिहरिमानमोहमदभजहुकोश

लाधीश॥३९॥मुनिपुलस्तिनिजशिष्यसनकहिपठईयह
बात॥तुरतसोमैंप्रभुसनकहीपाइसुअवसरुतात॥४०॥चौ
पाई॥माल्यवन्तअतिसचिवसयाना॥तासुवचनसुनिअति
सुखमाना॥तातअनुजतवनीतिविभूषण॥सोउरधरियजो
कहहिंविभीषण॥रिपुउतकर्षकहतशठदोऊ॥दूरिकरहु
इतरहैनकोऊ॥माल्यवन्तगृहगयउबहोरी॥कहेउविभीष
णपुनिकरजोरी॥सुमतिकुमतिसबकेउररहहीं॥नाथपुरा
णनिगमअसकहहीं॥जहांसुमतितहंसम्पतिनाना॥जहां
कुमतितहंविपतिनिदाना॥तवउरकुमतिबसीविपरीती॥
हितअनहितमानहुरिपुप्रीती॥कालरात्रिनिशिचरकुलके
री॥तेहिंसीतापरप्रीतिघनेरी॥दोहा॥तातचरणगहिमागउं
राखहुमोरदुलार॥सीतादेहुरामकहुअतिहितहोइतुम्हार॥ ४२
चौपाई॥बुधपुराणश्रुतिसम्मतबाणी॥कहीविभीषणनी
तिबखानी॥सुनतदशाननउठारिसाई॥खलतोहिंमृत्युनि
कटचलिआई॥जिअसिसदाशठमोरजिआवा॥रिपुकरप
क्षमदातोहिभावा॥कहेसिनखलअसकोजगमाहीं॥भुजब
लजेहिंजितेहमनाहीं॥ममपुरबसितपस्विसनप्रीती॥श
ठमिलुजाउताहिंकहुनीती॥असकहिकीन्हेसिचरणप्रहारा
अनुजगहेपदवारहिंवारा॥उमासन्तकैइहैबडाई॥मन्दकर
तजोकरैभलाई॥तुमपितुसरिसभलेमोहिमारा॥रामभजे

हित होइ तुम्हारा ॥ सचिव संग लै नभ पथ गयऊ ॥ सबहि सु
नाइ कहत अस भयऊ ॥ दोहा ॥ राम सत्य संकल्प प्रभु सभा का
लवश तोरि ॥ मैं रघुनायक शरण अब जाउं देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥
चौपाई ॥ अस कहि चला विभीषण जबहीं ॥ आयुहीन भए नि
शिचर तबहीं ॥ साधु अवज्ञा तुरत भवानी ॥ कर कल्याण अखि
ल कै हानी ॥ रावण जबहिं विभीषण त्यागा ॥ भयउ विभव बिनु
तबहि अभागा ॥ चलेउ हर्षि रघुनायक पांही ॥ करत मनोरथ
बहु मन मांही ॥ देखिहौं जाइ चरण जलजाता ॥ अरुण मृदु
ल सेवक सुखदाता ॥ जे पद परसि तरी ऋषिनारी ॥ दंडक का
नन पावनकारी ॥ जे पद जनकसुता उर लाए ॥ कपट कुरंग सं
ग धर धाए ॥ हर उर सर सरोज पद जोई ॥ अहो भाग्य मैं देखब सो
ई ॥ दोहा ॥ जिन पायन कर पादुका भरत रहे मन लाइ ॥ ते पद आ
जु बिलोकिहौं इन नयनन अब जाइ ॥ ४२ ॥ चौपाई ॥ इहि बिधि
करत सप्रेम विचारा ॥ आयउ सपदि सिंधु के पारा ॥ कपिन्ह विभी
षण आवत देखा ॥ जाना कोउ रिपुदूत विशेषा ॥ ताहि राखि कपी
श पहिं आए ॥ समाचार सब ताहि सुनाए ॥ कह सुग्रीव सुनिय र
घुराई ॥ आवा मिलन दशानन भाई ॥ कह प्रभु सखा बूझिये का
हा ॥ कहै कपीश सुनहु नरनाहा ॥ जानि न जाइ निशाचर माया
कामरूप केहि कारण आया ॥ भेद हमार लेन शठ आवा ॥ राखि
य बांधि मोहि अस भावा ॥ सखा नीति तुम नीकि विचारी ॥ मम पण

शरणागतभयहारी॥सुनिप्रभुवचनहर्षहनुमाना॥शरणा
गतवत्सलभगवाना॥दोहा॥शरणागतकहंजेतजहिंनिज
अनहितअनुमानि॥तेनरपामरपापमयतिनहिंविलोकतहा
नि॥४४॥चौपाई॥कोटिविप्रबधलागहिंजाहीं॥आएशरण
तजौंनहिताही॥सन्मुखहोइजीवमोहिजबहीं॥जन्मकोटि
अघनाशौंतबहीं॥पापवन्तकरसहजसुभाऊ॥भजनमोर
तेहिभावनकाऊ॥जोपैदुष्टहृदयसोहोई॥मोरेसन्मुखआव।
किसोई॥निर्मलमनजनसोमोहिपावा॥मोहिकपटछलछि
द्रनभावा॥भेदलेनपठवादशशीशा॥तबहुंनकछुभयहानि
कपीशा॥जगमहंसखानिशाचरजेते॥लक्ष्मणहनहिंनि
मिषमहंतेते॥जौंसभीतआवाशरणाई॥रखिहौंताहिप्राण
कीनाई॥दोहा॥उभयभांतितिलेआवहुहंसिकहकृपानिधान॥
जयकृपालकहिकपिचलेअंगदादिहनुमान॥४५॥चौपा॰
सादरतेहिंआगेकरिवानर॥चलेजहांरघुपतिकरुणाकर॥
दूरिहितेंदेखेदोउभ्राता॥नयनानन्ददानकेदाता॥बहुरिरा
मछविधामविलोकी॥रहासोठाढनयनपलरोकी॥भुज
प्रलम्बकञ्जारुणलोचन॥श्यामलगातप्रणतभयमोचन
सिंहकन्धआयतउरशोहा॥आननअमितमदनकविमोहा॥
नयननीरपुलकितअतिगाता॥मनधरिधीरकहीमृदुबाता॥
निशिचरवंशजनमसुरत्राता॥नाथदशाननकरमैंभ्राता॥स

सहजपापप्रियतामसदेहा॥ यथाउलूकहितमपरनेहा॥

दोहा॥ श्रवणसुयशसुनिआएउँप्रभुभञ्जनभवभीर॥ त्राहि त्राहिआरतिहरणशरणसुखदरघुवीर॥४५॥

चौपाई॥ असकहिकरतदण्डवतदेखी॥ तुरतउठेप्रभुहर्षविशेषी॥ दीनवचनसुनिप्रभुमनभावा॥ भुजविशालगहिहृदयलगावा॥ अनुजसहितमिलिढिगबैठारे॥ बोलेवचनभक्तभयहारे॥ कहुलंकेशसहितपरिवारा॥ कुशलकुठाहरवासतुम्हारा॥ खलमण्डलीवसहुदिनराती॥ सखाधर्मनिबहैकेहिभांती॥ मैजानौंतुम्हारसबरीती॥ अतिनयनिपुणनभावअनीती॥ वरुभलवासनरककरताता॥ दुष्टसङ्गजनिदेहिविधाता॥ अबपददेखिकुशलरघुराया॥ जौतुमकीन्हिजानिजनदाया॥

दोहा॥ तबलगिकुशलनजीवकहँसपनेहुँमनविश्राम॥ जबलगिभजतनरामकहँशोकधामतजिकाम॥

चौपाई॥ तबलगिहृदयवसतखलनाना॥ लोभमोहमत्सरमदमाना॥ जबलगिउरनबसतरघुनाथा॥ धरेचापशायककटिभाथा॥ ममतातिमिरतरुणअंधिआरी॥ रागद्वेषउलूकसुखकारी॥ तबगिवसतजीवउरमाहीं॥ जबलगिप्रभुप्रतापरविनाहीं॥ अबमैकुशलमिटेभयभारे॥ देखिरामपदकमलतुम्हारे॥ तुमकृपालजापरअनुकूला॥ ताहिनव्यापत्रिविधभवशूला॥ मैनिशिचरअतिअधमसुभाऊ

शुभआचरणकीन्हनहिकाऊ॥जासुरूपमुनिध्याननआ
वा॥सोप्रभुहरषिहृदयमोहिलावा॥दोहा॥अहोभाग्यममअ
मितअतिरामकृपासुखपुंज॥देखेउनयनविरञ्चिशिवसे॥
व्युगलपदकंज॥४८॥चौपाई॥सुनहुसखानिजकहउंसुभा
ऊ॥जानभुशुण्डिशम्भुगिरिजाऊ॥जोनरहोइचराचरद्रोही॥
आवैसभयशरणतकिमोही॥तजिमदमोहकपटछलनाना॥
करौंसद्यतेहिसाधुसमाना॥जननीजनकबंधुसुतदारा॥त
नुधनभवनसुहृदपरिवारा॥सबकेममताताग बटोरी॥म
मपदमनहिबांधिवरडोरी॥समदरशीइच्छाकछुनाही॥
हर्षशोकभयनहिमनमाही॥अससज्जनममउरबसकैसे॥
लोभीहृदयबसतधनजैसे॥तुमसोसन्तसदाप्रियमोरे॥धरे
उदेहनहिआननिहोरे॥दोहा॥सगुणउपासकपरमहित
निरतनीतिदृढनेम॥तेनरप्राणसमानममजिनकेहिद्वि
जपदप्रेम॥४९॥चौपाई॥सुनुलंकेशसकलगुणतोरे॥ता
तेतुमअतिशयप्रियमोरे॥रामवचनसुनिवानरयूथा॥स
कलकहहिजयकृपावरूथा॥सुनतविभीषणप्रभुकर
वाणी॥नहिअघातश्रवणामृतजानी॥पदअम्बुजगहि॥
बारहिंबारा॥हृदयसमातनप्रेमअपारा॥सुनहुदेवसचरा॥
चरस्वामी॥प्रणतपालउरअन्तरजामी॥उरकछुप्रथमवा
सनारहेऊ॥प्रभुपदप्रीतिसरितसोबहेऊ॥अबकृपालनि

जभक्तिजोपावनि॥देहुदयाकरिशिवमनभावनि॥एवम
स्तुप्रभुकहिरणधीरा॥मांगातुरतसिंधुकेनीरा॥यद्यपिस
खातोहिइच्छानाहीं॥ममदर्शनअमोघजगमाहीं॥असक
हिरामतिलकतेहिसारा॥सुमनवृष्टिनभभइअपारा॥
दोहा॥रावणक्रोधअनलनिजश्वाससमीरप्रचण्ड॥जरतबि
भीषणराखेउदीन्हेउराजअखण्ड॥५०॥जोसंपतिशिवराव
णहिंदीन्हदियेदशमाथ॥सोसंपदाविभीषणहिसकुचिदी
न्हरघुनाथ॥५१॥चौपाई॥असप्रभुछाडिभजहिंजेआना॥तेन
रपशुविनुपूंछविषाणा॥निजजनजानिताहिअपनावा॥
प्रभुस्वभावकपिकुलमनभावा॥पुनिसर्वज्ञसर्वउरवासी
सर्वरूपसवरहितउदासी॥बोलेवचननीतिप्रतिपालक
कारणमनुजदनुजकुलघालक॥सुनुकपीशलंकापतिबी
रा॥केहिविधितरियजलधिगंभीरा॥संकुलउरगमकरझ
षजाती॥अतिअगाधदुस्तरसवभांती॥कहलंकेशसुनहुर
घुनायक॥कोटिसिंधुशोषकतवसायक॥यद्यपितदपि
नीतिअसगाई॥विनयकरियसागरपहंजाई॥दोहा॥प्रभु
तुम्हारकुलगुरुजलधिकहहिंउपायविचारि॥विनुप्रया
ससागरतरहिंसकलभालुकपिधारि॥५२॥चौपाई॥सखा
कहितुमनीकिउपाई॥करवदेवजौंहोइसहाई॥मंत्रनयह
लछमणमनभावा॥रामवचनसुनिअतिदुखपावा॥नाथदैव

करकवनभरोसा॥शोषियसिंधुकरियमनरोषा॥कादरम
नकाएकअधारा॥दैवदैवआलसीपुकारा॥सुनतविहंसि
बोलेरघुवीरा॥ऐसेंइकरवधरहुमनधीरा॥असकहिप्रभुअ
नुजहिसमुझाई॥प्रथमप्रणामकीन्हप्रभुजाई॥बैठेनटपु॰
निदर्भडसाई॥जवहिंविभीषणप्रभुपहिंआए॥पाछेंरावण
दूतपठाए॥दोहा॥सकलचरितदेखातिन्हधरेकपटकपिदे
ह॥प्रभुगुणहृदयसराहिअतिशरणागतपरनेह॥५१॥चौ
पाई॥प्रगटवखानतरामसुभाऊ॥अतिसप्रेमगाविशरिदुरा
ऊ॥रिपुकेदूतकपिन्हतवजाने॥ताहिवान्धिकपिपतिपहं
आने॥कहसुग्रीवसुनहुसवनचर॥अङ्ग॰भङ्ग॰करिपठवहु
निशिचर॥सुनिसुग्रीववचनकपिधाए॥वान्धिकटकच॰
हुंपाशफिराए॥वहुप्रकारमारणकपिलागे॥दीनपुकारत
दपिनत्यागे॥जोहमारहरनासाकाना॥तेहिकोशलाधीशा
करआना॥सुनिलक्ष्मणतेहिनिकटवुलाए॥दयालागिहं
सितीन्हछुडाए॥रावणकरदीन्हेहुयहपाती॥लक्ष्मणवच
नवांचुकुलघाती॥दोहा॥कहेहुमुखागरमूढसनममसं
देशउदार॥सीतादेइमिलहुनतआवाकालतुम्हार॥५२॥चौ
पाई॥तुरतनाइलक्ष्मणपदमाथा॥चलेदूतवरणतगुणगा
था॥कहतरामयशलंकाआए॥रावणचरणशीसतिन्हना
ए॥विहंसिदशाननपूछेसिवाता॥कहशिनशुकआपनि

कुशलाता॥ पुनिकहुकुशलविभीषणकेरी॥ जासुमृत्युआ
ईअतिनेरी॥ करतराजलंकाशठत्यागा॥ होइहिंदवकरकीट
अभागा॥ पुनिकहुभालुकीसकटकाई॥ कठिनकालप्रेरित
चलिआई॥ तिन्हकेजीवनकररखवारा॥ भयउमृदुलचित
सिंधुविचारा॥ कहुतपसिन्हकरबातबहोरी॥ जिन्हकेहृद
यत्रासअतिमोरी॥ दोहा॥ किभइभेटकिफिरिगएश्रवणसुय
शसुनिमोर॥ कहसिनरिपुदलतेजबलबहुतचकितचित
तोर॥५५॥ चौपाई॥ नाथकृपाकरिपूछेहुजैसें॥ मानेहुवचन
क्रोधतजितैसें॥ मिलाजाइअवअनुजतुम्हारा॥ जातहिराम
तिलकतेहिसारा॥ रावणदूतहमहिसुनिकाना॥ कपिन्ह
वांधिदीन्हेउदुखनाना॥ श्रवणनासिकाकाटनलागे॥ राम
शपथदीन्हीहमत्यागे॥ पूछेहुनाथकीशकटकाई॥ वदन
कोटिशतवरणीनजाई॥ नानावरणभालुकपिधारी॥ विक
टाननविशालभयकारी॥ जेहपुरदहेउवधेउसुततोरा॥ स
कलकपिन्हमहंतेहिबलथोरा॥ अमितनामभटकठिनक
राला॥ विपुलवरणतनुतेजविशाला॥ दोहा॥ द्विविदमयं
दनीलनलअंगदगदविकटास्य॥ दधिमुखकेसरिकुमुद
गवजामवन्तबलराशि॥५६॥ चौपाई॥ एकपिसबसुग्रीव
समाना॥ इन्हसमकोटिनगणैकोनाना॥ रामकृपाअतुलि
तबलतिनहीं॥ तृणसमानत्रयलोकहिगनहीं॥ असमैंश्रव

णसुनादशकंधर॥ पद्मअठारहजूथपबंदर॥ नाथकटकम
हंसोकपिनाही॥ जोनतुमहिजीतैरणमांही॥ परमक्रोधमी
जहिंसबहाथा॥ आयसुपैनदेहिंरघुनाथा॥ शोषहिंसिंधुस
हितझखब्याला॥ पूरहिंनतोभरिकुधरबिशाला॥ मर्दिगर्द
मिलवहिंदशशीशा॥ ऐसेवचनकहहिंसबकीशा॥ गर्जहिं
तर्जहिंसहजअशंका॥ मानहुंग्रसनचहततहहिंलंका॥ दोहा
सहजशूरकपिभालुसबपुनिशिरपरश्रीराम॥ रावणकाल
कोटिकहजीतिसकहिंसंग्राम॥ ५५॥ चौपाई॥ रामतेजबल
बुधिबिपुलाई॥ शेषसहस्रशतशकहिंनगाई॥ शकशरए
कशोषिशतसागर॥ तबभ्रातहिपूछेउनयनागर॥ तासुब
चनसुनिसागरपांही॥ मांगतपंथकृपामनमांही॥ सुनतब
चनबिहंसादशशीसा॥ जोंअसमतिसहायकृतकीशा॥ स
हजभीरुकरवचनदृढाई॥ सागरसनठानीमचलाई॥ मूढ
मृषाकाकरसिबडाई॥ रिपुबलबुद्धिथाहमैपाई॥ सचिवस
भीतबिभीषणजाके॥ विजयविभूतिकहांजगताके॥ सुनि
खलवचनदूतरिसिबाढी॥ समयविचारिपत्रिकाकाढी॥
रामअनुजदीन्हीयहपाती॥ नाथवचाइजुडावहुछाती॥
बिहंसिबामकरलीन्हेसिरावण॥ सचिवबोलिशठलाग
बचावन॥ दोहा॥ बातन्हमनहिरिझाइशठजनिघालसि
कुलखीश॥ रामबिरोधनउबरहिशरणविष्णुअजईश॥

होउमानतजिअनुजइवप्रभुपदपंकजभृंग॥होहिंराम
शरअनलखलकुलसहितपतंग॥५९॥चौपाई॥सु
नतसभयमनमुखमुसुकाई॥कहतदशाननसबहिंसु
नाई॥भूमिपराकरगहतअकाशा॥लघुतापसकरबाग
विलासा॥कहशुकनाथसत्यसबवाणी॥समुझहुछाडि
प्रकृतिअभिमानी॥सुनहुवचनममपरिहरिक्रोधा॥ना
थरामसनतजहुविरोधा॥अतिकोमलरघुवीरसुभाऊ॥
यद्यपिअखिललोककरराऊ॥मिलतकृपाप्रभुतमपर
करिहैं॥उरअपराधनएकौधरिहैं॥जनकसुतारघुनाथ
हिदीजै॥एतनाकहामोरप्रभुकीजै॥जबतेइदेनकहेउवै
देही॥चरणप्रहारकीन्हशठतेही॥चरणनाइशिरचला
सोतहंवा॥कृपासिंधुरघुनायकजहंवा॥करिप्रणामनि
जकथासुनाई॥रामकृपाआपनगतिपाई॥ऋषिअगस
त्यकरशापभवानी॥राक्षसभएउरहामुनिज्ञानी॥बंदिरा
मपदवारहिंवारा॥मुनिनिजआश्रमकहपगुधारा॥दो
हा॥विनयनमानतजलधिजडगएतीनिदिनबीति॥बो
लेरामसकोपतबभयविनुहोइनप्रीति॥६०॥चौपाई॥लछ
मणवाणशरासनआनू॥शोषौंवारिधिविशिखकृशानू॥
शठसनविनयकुटिलसनप्रीती॥सहजकृपणसनसु
न्दरनीती॥ममतारतसनज्ञानकहानी॥अतिलोभीसन

रामा.
सुं.
१७

विरतिबखानी॥ क्रोधिहिशमकामिहिहरिकथा॥ ऊष
रबीजवयेफलयथा॥ असकहिरघुपतिचापचढावा॥ यह
मतलछमणकेमनभावा॥ संधानेउप्रभुविशिखकराला॥
उठीउदधिउरअंतरज्वाला॥ मकरउरगझषगणअकुलाने॥
जरतजंतुजलनिधिपहिचाने॥ कनकथारभरिमणिगण
नाना॥ विप्ररूपआयउतजिमाना॥ दोहा॥ काटेपैकद
लिफरैकोटियतनकोउसीच॥ विनयनमानखगेशसुनु
डाटेहिपैनमनीच॥५८॥ चौपाई॥ सभयसिंधुगहिपदप्रभुके
रे॥ छमहुनाथसबअवगुणमेरे॥ गगनसमीरअनलजल
धरणी॥ इनकैनाथसहजजडकरणी॥ तवप्रेरितमायाउप
जाये॥ सृष्टिहेतसवग्रंथनगाये॥ प्रभुआयसुजेहिकहंजै
सअहई॥ सोतेहिभांतिरहेसुखलहई॥ प्रभुभलकीन्ह
मोहिशिखदीन्ही॥ मर्य्यादासवतुम्हरीकीन्ही॥ ढोलगं
वारशूद्रपशुनारी॥ येसवताडनकेअधिकारी॥ प्रभुप्रताप
मैजावसुखाई॥ उतरहिकटकनमोहिबडाई॥ प्रभुआज्ञा
अपेलश्रुतिगाई॥ करहुवेगिजोतुमहिसोहाई॥ दोहा॥
सुनतविनीतवचनअतिकहकृपालुमुसुकाय॥ जेहिवि
धिउतरैकपिकटकतातसोकरहुउपाय॥५९॥ चौपाई॥ ना
थनीलनलकपिदोउभाई॥ लरिकाईऋषिआशिषपाई॥
तिनकेपरसकियेगिरिभारे॥ तरिहहिंजलधिप्रतापतुम्हा

२॥ मैपुनिउरधरिप्रभुप्रभुताई॥ करिहौंबलअनुमानसहाई॥
एहिविधिनाथपयोधिबन्धाइए॥ जेहियसुयशलोकतिहुगा
इए॥ एहिशरममउत्तरतटवासी॥ तहहुनाथनरखलअघराशी
सुनिकृपालुसागरमनपीरा॥ तुरतहिहरीरामरणधीरा॥ देखि
रामबलअतुलितभारी॥ हर्षिपयोनिधिभएउसुखारी॥ सक
लचरितकहिप्रभुहिसुनावा॥ चरणबन्दिपाथोधिसिधावा
छन्द॥ निजभवनगवनेउसिंधुश्रीरघुवीरहियमतभाएऊ॥ य
हचरितकलिमलहरणजथामतिदासतुलसीगाएऊ॥ १॥
सुखभवनसंशयशमनदमनविषादरघुपतिगुणगणा॥
तजिआशसकलभरोसगावहिंसुनहिसज्जनसठिमना॥ २
दोहा॥ सकलसुमंगलदायकरघुनायकगुणगान॥ सादर
सुनहिंतेतरहिभवसिन्धुविनाजलयान॥ ६६॥ इतिश्रीरामच
रितमानसेसकलकलिकलुषविध्वंसनेविमलविज्ञानवै
राग्यसंपादनोनामपंचमःसोपानःसुन्दरकाण्डसमाप्तः॥ शुभम्

ॐ श्रीगणेशायनमः॥ अथलङ्काकाण्डलिख्यते॥ श्लोक॥

शंखेंद्वाभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं॥ कालव्यालकरालभूषणधरं गंगाशशांकप्रियम्॥ काशीशंकलिकल्मषौघशमनंकल्याणकल्पद्रुमं॥ नौमीड्यंगिरिजापतिंगुणनिधिंश्रीशंकरंकामहम्॥१॥ योददातिसतांशंभुः कैवल्यमतिदुर्लभम्॥ खलानांदंडकृद्योसौशंकरःशंतनोतुमे॥२॥ रामंकामारिसेव्यंभवभयहरणंकालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रंज्ञानगम्यंगुणनिधिमजितंनिर्गुणंनिर्विकारं॥ मायातीतंसुरेशंखलवधनिरतंब्रह्मवृन्दैकदेवंवंदेकुन्दावदातंसरसिजनयनंदेवमुर्वीशरूपम्॥३॥ दोहा॥

लवनिमेषपरमाणुजुगबरषकलपसरचंड॥ भजसिनमनतेहिरामकहँकालजासुकोदंड॥१॥ सोरठा॥

सिंधुबचनसुनिरामसचिवबोलिप्रभुअसकहेउ॥ अबबिलंबकेहिकामकरहुसेतुउतरैकटक॥२॥ सुनहुभानुकुलकेतुजामवन्तकरजोरिकह॥ नाथनामतवसेतुनरचढिभवसागरतरहिं॥३॥ चौपाई॥

यहलघुजलधितरतकतिबारा॥ अससुनिपुनिकहपवनकुमारा॥ प्रभुप्रतापबडवानलभारी॥ सोषेउप्रथमपयोनिधिबारी॥ तवरिपुनारिरुदनजलधारा॥ भरेउबहोरिभयोतेहिंखारा॥ सुनिअतिउकुतिपवनसुतकेरी॥ हरषेकपिरघुपतितनहेरी॥ जामवन्तबोलेदो

रामा.
लं.
९

भाई॥नलनीलहिंसबकथासुनाई॥रामप्रतापसुमिरि
मनमांही॥करहुसेतुप्रयासकछुनाही॥बोलिलियेक
पिनिकरबहोरी॥सकलसुनहुविनतीएकमोरी॥रामच
रणपंकजउरधरहू॥कौतुकएकभालुकपिकरहू॥धाव
हुमर्कटविकटवरूथा॥आनहुविटपगिरिन्हकेयूथा॥
सुनिकपिभालुचलेकरिहूहा॥जयरघुवीरप्रतापसमू
हा॥दोहा॥अतिउतंगगिरिपादपलीलहिंलेहिंउठाई॥
आनिदेहिंनलनीलकहंविरचहिंसेतुबनाई॥४॥चौपा०
शैलविशालआनिकपिदेहीं॥कंदुकइवनलनीलसोले
हीं॥देखिसेतुअतिसुन्दररचना॥विहंसिकृपानिधिबो
लेवचना॥परमरम्यउत्तमयहधरणी॥महिमाअमित
जाइनहिंवरणी॥करिहौंइहांशंभुथापना॥मोरेहृदय
परमकलपना॥सुनिकपीशबहुदूतपठाये॥मुनिब
रसकलबोलिलैआये॥लिंगथापिविधिवतकरिपूजा॥
शिवद्रोहीममभक्तकहावे॥सोनरसपनेहुमोहिनपावे
शंकरविमुखभक्तिचहमोरी॥सोनरमूढमंदमतिथोरी
दोहा॥शंकरप्रियममद्रोहीशिवद्रोहीममदास॥तेनर
करहिंकल्पभरिघोरनरकमहंवास॥५॥चौपाई॥जोरामे
श्वरदर्शनकरिहहिं॥तेतनुतजिममधामसिधरिहहिं
जोगंगाजललानिचढाइहिं॥सोसायुज्यमुक्तिनरपाइहिं

॥शिवसमानप्रियमोहिनदूजा त्रुटी ७

होइअकामजोछलतजिसेइहिं॥भक्तिमोरतेहिसंकर
देइहिं॥ममकृतसेतुजोदरशनकरहिं॥सोविनुश्रमभव
सागरतरहिं॥रामवचनसबकेमनभाये॥मुनिवरनिजनि
जआश्रमआये॥गिरिजारघुपतिकीयहरीती॥सन्ततक
रहिंप्रणतपरप्रीति॥बांधेउसेतुनीलनलनागर॥रामकृ
पाजसभयउउजागर॥बूडहिंआनहिबोरहिंजेई॥भयेउ
पलबोहितसमतेई॥महिमाकछुनजलधिकीबरणी॥
पाहनगुणकपिनकीकरणी॥दोहा॥श्रीरघुवीरप्रताप
तेंसिंधुतरेपाषाण॥तेमतिमन्दजेरामतजिभजहिंजाइ
प्रभुआन॥८॥चौपाई॥बांधिसेतुअतिसुदृढबनावा॥देखि
कृपानिधिकेमनभावा॥चलीसेनकछुवरणिनजाई॥गर्जे
हिंमर्कटभटसमुदाई॥सेतुबंधढिगचढिरघुराई॥चितव
कृपालुसिंधुबहुताई॥देखनकहप्रभुकरुणाकन्दा॥प्रग
टभयेसबजलचरबृन्दा॥मकरनक्रनानाझषव्याला॥शत
योजनतनुपरमविशाला॥ऐसेएककहिंतिनजेखाहीं॥एक
निकेडरतेकपिडेराहीं॥प्रभुहिविलोकहिंटरहिंनटारे॥म
नहर्षितसबभयेसुखारे॥तिनकीओटनदेखियबारी॥म
गनभयेहरिरूपनिहारी॥चलाकटकप्रभुआयसुपाई॥
कोकहिसककपिदलविपुलाई॥दोहा॥सेतुबंधभइभीरअ
तिकपिनभपंथउडाहिं॥अपरजलचरन्हिउपरचढिचढि

मपारहिंजाहिं॥४॥ चौपाई॥ असकौतुकविलोकिद्वौभा
ई॥ विहंसिचलेकृपालरघुराई॥ सेनसहितउत्तरेरघुवीरा
कहिनजाइकपियूथपभीरा॥ सिंधुपारप्रभुडेराकीन्हा॥
सकलकपिनकहंआयसुदीन्हा॥ खाहुजाइफलमूलसु
हाये॥ सुनतभालुकपिजहंतहंधाये॥ सबतरुफरेराम
हितलागी॥ ऋतुअरुकुऋतुकालगतित्यागी॥ खाहिं
मधुरफलविटपहिलावहिं॥ लंकासन्मुखशिखरचलाव
हिं॥ जहंकहुंफिरतनिशाचरपावहिं॥ घेरिसकलबहु
नाचनचावहिं॥ दशननकाटिनासिकाकाना॥ कहिप्रभु
सुयशदेहिंतबजाना॥ जिनकरनासाकाननिपाता॥ तेइं
रावणहिकहीसबबाता॥ सुनतश्रवणवारिधिबंधाना॥
दशमुखबोलिउठाअकुलाना॥ दोहा॥ बांधेउजलनिधि
नीरनिधिजलधिसिंधुवारीश॥ सत्यतोयनिधिपंकनि
धिउदधिपयोधिनदीश॥५॥ चौपाई॥ निजव्याकुलतास
मुझिवहोरी॥ विहंसिचलागृहकरिभयभोरी॥ मन्दोद
रीसुनाप्रभुआये॥ कौतुकहीपाथोधिबंधाये॥ करगहि
पतिहिंभवननिजआनी॥ बोलीपरममनोहरवाणी॥ च
रणनाइसिरअंचलरोपा॥ सुनहुवचनप्रियपरिहरिको
पा॥ नाथवैरकीजैताहीसों॥ वुधिवलजीतिशकियजाही
सों॥ तमहिंरघुपतिहीअन्तरकैसा॥ खलुखद्योतदिंदिन

करइजैसा॥अतिबलमधुकैटभजिनमारे॥महाबीरदिति
सुतसंहारे॥जेहबलिबाधिसहसभुजमारा॥सोअवतरेउ
हरणमहिभारा॥तासुविरोधनकीजियनाथा॥कालक
र्मगुणजिनकेहाथा॥दोहा॥रामहिंसौंपहुजानकीनाइ
कमलपदमाथ॥सुतकहंराजसमर्पिबनजाइभजहुरघु
नाथ॥६॥चौपाई॥नाथदीनदयालरघुराई॥बाघउसन्मु
खगयेनखाई॥चाहियकरणसोसबकरिबीते॥तुमसु
रअसुरचराचरजीते॥वेदकहहिंअसनीतिदशानन॥चौ
थेपनजाइयनृपकानन॥तासुभजनकिजैतहंभर्ता॥जो
कर्तापालकसंहर्ता॥सोइरघुवीरप्रणतअनुरागी॥भजहु
नाथममतामदत्यागी॥मुनिवरयतनकरहिंजेहिलागी
भूपराजतजिहोहिंविरागी॥सोइकोशलाधीशरघुराया
आयेउकरणतोहिपरदाया॥जौंप्रियमानहुमोरशिखावन
सुयशहोइतिहुंपुरअतिपावन॥दोहा॥असकहिलोचन
वारिभरिगहिपदकंपितगात॥नाथभजहुरघुनाथपदम
मअहिवातनजात॥७॥चौपाई॥तबरावणमयसुताउठा
ई॥कहैलागखलनिजप्रभुताई॥सुनतैंप्रियामृषाभयमा
ना॥जगयोधाकोमोहिसमाना॥बरुणकुबेरपवनयमा
काला॥भुजबलजितेसकलदिगपाला॥देवदनुजनरसब
वशमोरे॥कवनहेतुउपजाभयतोरे॥नानाविधतेहिकहि

सुकाई॥ सभावहोरिवैठुसोजाई॥ मन्दोदरीहृदयअसजा
ना॥ कालविवशउपजाअभिमाना॥ सभाजाइमंत्रिनते-
हिवूझा॥ करियकवनविधिरिपुसनजूझा॥ कहहिंस
चिवसुनुनिशिचरनाहा॥ वारवारप्रभुपूछहुकाहा॥ कह
हुकवनभयकरियविचारा॥ नरकपिभालुअहारहमारा

दोहा॥ सबकेवचनकानकरकहप्रहस्तकरजोरि॥ नीति
विरोधनकरियप्रभुमंत्रिनमतिअतिथोरि॥ ११॥ चौपाई॥

कहहिंसचिवसठठकुरसोहाती॥ नाथनपूरआवएहि-
भांती॥ वारिधिलांघिएककपिआवा॥ तासुचरितमनम
हंसवगावा॥ छुधानरहीतुमहिंतबकाहू॥ जारतनगरन
कसधरिखाहू॥ सुनतनीकआगेदुखपावा॥ सचिवनअ
समतप्रभुहिंसुनावा॥ जोवारीशबंधाएउहेला॥ उतरेक
पिदलसहितसुवेला॥ सोजनमनुजखावहमभाई॥ वच
नकहहुसबगालफुलाई॥ सुनिममवचनतातअतिआद
र॥ जनिमनगुणहुमोहिकरिकादर॥ प्रियवाणीजेसुन
हिंजेकहहीं॥ ऐसेजगनिकायनरअहहीं॥ वचनपरमहि
तसुनतकठोरे॥ कहहिंसुनहिंतेनरप्रभुथोरे॥ प्रथमव-
सीठपठाइयनीती॥ सीताहिंदेइकरियपुनिप्रीती॥ दोहा

नारिपाइफिरिजाहिंजौंतौनवढाइयरारि॥ नाहितोसन्मु
खसमरमहिंनाथकरियहठमारि॥ १२॥ चौपाई॥ यहमतजौं

मानहु प्रभु मोरा ॥ उभय प्रकार सुयश जग तोरा ॥ सुत स
नक कह दशकण्ठ रिसाई ॥ असमति शठ केहि तोहि सिखा
ई ॥ अबही ते उर संशय होई ॥ वेणुमूल सुत भयउ घमोई ॥ सु
नि पितु गिरा परुष अति घोरा ॥ चला भवन कहि वचन क
ठोरा ॥ हित मत तोहि न लागत कैसे ॥ काल विवश कहं भे
षज जैसे ॥ संध्या समय जानि दशशीसा ॥ भवन चला नि
रखत भुजबीसा ॥ लंका शिखर रुचिर आगारा ॥ अति वि
चित्र तहं होइ अखारा ॥ वैठु जाइ तेहि मंदिर रावण ॥ लागे
किन्नर गुण गण गावन ॥ बाजै ताल पखाउज बीणा ॥ नृ
त्य करहिं अपसरा प्रवीणा ॥ दोहा ॥ सुनासीर शत सरिस सो
संतत करै विलास ॥ परम प्रवल रिपु शीश पर तदपि न म
नक त्रास ॥ १३ ॥ चौपाई ॥ इहां सुवेल शैल रघुवीरा ॥ उत
रे सेन सहित अति भीरा ॥ शैल शृंग एक सुंदर देखी ॥ परम
रम्य सम शुभ्र विशेषी ॥ तहं तरु किशलय सुमन सुहाये ॥
लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाये ॥ ता पर रुचिर मृदुल मृग
छाला ॥ तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ प्रभु कृत शीश क
पीश उछंगा ॥ वाम दहीन दिशि चाप निषंगा ॥ दुहुं कर
कमल सुधारत वाना ॥ कह लंकेश मंत्र लगि काना ॥ वडभा
गी अंगद हनुमाना ॥ चरण कमल चांपत विधि नाना ॥ प्र
भु पाछे लक्ष्मण वीरासन ॥ कटि निषंग कर धरे सरासन

रा.मा.
लं.
४

दोहा॥ इहि बिधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन॥ धन्य सो
नर यह ध्यान रत रहत सदा लवलीन॥ १४॥ पूरब दिशा बि
लोकि प्रभु देखा उदित मयंक॥ कहेउ सबहिं देखहु शशि
हि मृगपति सरिस अशंक॥ १५॥ चौपाई॥ पूरब दिशि गिरि
गुहा निवासी॥ परम प्रताप तेज बल राशी॥ मत्त नाग तम
कुम्भ विदारी॥ शशि केसरी गगन बन चारी॥ बिथुरे नभ
मुकुताहल तारा॥ निशि सुन्दरी केर सृंगारा॥ कह प्रभु श
शि महँ मेचकताई॥ कहहु काह निज निज मति भाई॥ क
ह सुग्रीव सुनहु रघुराई॥ शशि महँ प्रगट भूमि की झाई॥
मारेउ राहु शशिहि कह कोई॥ उर महँ परी श्यामता सोई॥
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा॥ सार भाग शशि क
र हरि लीन्हा॥ छिद्र सो प्रगट इंदु उर मांही॥ तेहि मग देखि
य नभ परिछांही॥ कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा॥ अति प्रि
यतम उर दीन्ह बसेरा॥ बिष संयुत कर निकर पसारी॥ जा
रत बिरहवन्त नर नारी॥ दोहा॥ कह हनुमन्त सुनहु प्रभु
शशि तुम्हार प्रिय दास॥ तव मूरति तेहि उर बसत सोइ श्य
मता भास॥ १६॥ पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे राम सु
जान॥ दक्षिण दिशा बिलोकि प्रभु बोले कृपानिधान॥ १७॥
चौपाई॥ देखु बिभीषण दक्षिण आशा॥ घन घमंड दामिनी
बिलासा॥ मधुर मधुर गाजे घन घोरा॥ होइ बृष्टि जनि उप

लकटारी॥ कहहिंविभीषणसुनहुकृपाला॥ होइनत
डितनवारिदमाला॥ लंकाशिखरऊपरआगारा॥ तहंद
शकंधरकेरअखारा॥ छत्रमेघडंबरसिरधारी॥ सोप्रभु
जलदघटाअतिकारी॥ मन्दोदरीश्रवणताटंका॥ सोप्र
भुजनुदामिनीदमंका॥ वाजहिंतालमृदङ्गअनूपा॥ सो
रवमधुरसुनहुसुरभूपा॥ प्रभुमुसकानसमुझिअभिमा
ना॥ चापचढाइवाणसंधाना॥ दोहा॥ छत्रमुकुटताटंक
सबहतेएकहीबाण॥ सबकेदेखतमहिगिरेमर्मनकोऊ
जान॥ १८॥ यहकौतुककरिरामशरप्रविशेआइनिषंग॥
रावणसभासशंकसबदेखिमहारसभंग॥ १९॥ चौपाई॥
कंपनभूमिनमरुतविशेषा॥ अस्त्रशस्त्रकोउनयननदेषा॥
सोचहिंसबनिजहृदयविचारी॥ असगुणभयउभयङ्कर
भारी॥ रावणदेखिसभाभयपाई॥ विहंसिवचनकहयुक्ति
बनाई॥ शीशगिरेंसन्ततशुभजाही॥ मुकुटगिरेंकसअश
गुणताही॥ शयनकरहुनिजनिजगृहजाई॥ गवनेभवन
सकलसिरनाई॥ मन्दोदरीशोचउरबसेऊ॥ जबतेश्रवणफू
लमहिखसेऊ॥ सजलनयनकहयुगकरजोरी॥ सुनहुप्रा
णपतिविनतीमोरी॥ कान्तरामविरोधपरिहरहु॥ जानिम
नुजजनिहठउरधरहू॥ दोहा॥ विश्वरूपरघुवंशमणिकर
हुवचनविश्वास॥ लोककल्पनावेदकहअंगअंगप्रतिजा

रामा. लं. ५

5

स्व ॥ १० ॥ चौपाई ॥ पदपाताल शीस अजधामा ॥ अपर लोक
अंग अंग विश्रामा ॥ भृकुटि विलास भयंकर काला ॥ नयन
दिवाकर कच बन माला ॥ जासु घ्राण अश्विनी कुमारा ॥ निशि
अरु दिवस निमेष अपारा ॥ श्रवण दिशा दश वेद बखानी ॥ ‸
मारुत श्वास निगम निज बाणी ॥ अधर लोभ यम दशन करा
ला ॥ माया हास बाहु दिगपाला ॥ आनन अनल अम्बुपति ‸
जीहा ॥ उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ रोम राजि अष्टादश ‸
भारा ॥ अस्थि शैल सरिता नस जारा ॥ उदर उदधि अधगो जात
ना ॥ जग मय प्रभु की बहु कल्पना ॥ दोहा ॥ अहङ्कार शिव बुद्धि
अज मन शशि चित्त महान ॥ मनुज बास सचराचर रूप राम भ
गवान ॥ २१ ॥ अस विचारि सुनु प्राणपति प्रभु सन वैर विहाइ ॥
प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाइ ॥ २२ ॥ चौपाई ॥ ॥
विहंसा नारि बचन सुनि काना ॥ अहो मोह महिमा बलवाना ॥
नारि सुभाव सत्य कवि कहहीं ॥ अवगुण आठ सदा उर रहहीं ॥ ‸
साहस अनृत चपलता माया ॥ भय अविवेक अशौच अदाया ॥
रिपु कर रूप सकल तैं गावा ॥ अति विशाल भय मोहि सुनावा ॥
सो सब प्रिया सहज बश मोरे ॥ समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ ‸
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई ॥ यहि मिस कहेहु मोरि प्रभुताई ॥ त
ब बतकही मूढ मृगलोचनि ॥ समुझत सुखद सुनत भयमो
चनि ॥ मन्दोदरी मन महं यह ठयऊ ॥ पियहि काल बश मति भ्र

सादेरी २

मभयऊ ॥ दोहा ॥ बहुविधजल्पैसिसकलनिशिप्रातभयेद
शकन्ध ॥ सहजअमङ्कसोलंकपतिसभागयोमदअन्ध ॥ २३ ॥
सोरठा ॥ फूलैफरैनवेतयद्यपिसुधावरषैजलद ॥ मूरखहृद
यनचेतजोगुरुमिलहिंविरञ्चिशत ॥ २४ ॥ दोहा ॥ मंत्रिनसहि
तदशाननचढेउधौरहरजा ॥ शुकसारनकहराजसबदेखऊ
दलसमुदाइ ॥ २५ ॥ चौपाई ॥ यहजोसिंहनादकिलकाई ॥ नह
वरसमसमानउचाई ॥ सहसकोटिशतशंकुसमाना ॥ पहिके
सङ्कवानरपरिमाना ॥ रणअजीतअरुसहजअशंका ॥ नाद
सुनेकांपैगढलंका ॥ लगिअकाशवनचरलङ्गूरा ॥ जनुअरु
णपावसपतनभपूरा ॥ विश्वकरमाकेसुतअभिमानी ॥ इनसा
गरबांधेउअनुमानी ॥ वसहिनाअगिरिकन्दरमाहीं ॥ गोदाव
रीविमलजलपाहीं ॥ अतिबलआगेधावहिबीरा ॥ इनपरकृपा
करहिंरघुबीरा ॥ इनकेपरसकियेगिरिशीला ॥ जलमेतरहि
नामनलनीला ॥ दोहा ॥ पद्मअठारहकपिकटकचलेइनकेभु
जछांह ॥ अपनेहाथसुपुष्पलैरघुपतिपूजीबांह ॥ २६ ॥ चौपाई
यहजोआवतअचलसमाना ॥ चोटहतारऊचपरमाना ॥ वास
पुलिन्दाकेतटकरई ॥ अम्बुदऊपरयहसंचरई ॥ रक्तकमलके
सरसमदेहा ॥ जनुआकाशसंध्याकरमेहा ॥ हतैमेदिनीपूकु
भ्रमाई ॥ लंकाओरचितैजनुखाई ॥ ताराहुअनबालिकोजायो
अतिनऊरारघुपतिमनभायो ॥ मनमेजैपैरामकरनोऊ ॥ नि

षिदिनयेकरयहैसभांऊ॥ कैरैवज्रवासवकरभंऊ॥ उदया
चलकहंलेइउतसंऊ॥ सैनापतियहसबकेआगे॥ रघुपति
कृपाकरतबउभागे॥ दोहा॥ पांवभूमिजोचापहीपवनगाहो
हिप्रकाज॥ पांचपद्मवानरलियेयहअंऊदयुवराज॥२७॥
चौपाई॥ यहजोस्वेतलसैतनुरेषा॥ जनुरूपेकरअंऊसुवे
षा॥ दीर्घकेषादारुणाभुजदंडा॥ पायचपलइवंगबुद्धिप्र-
चंडा॥ वासकरैजलनिधिकेतीरा॥ पानकरैगोमतीसुनीरा
नृपसुग्रीवकेरअधिकारी॥ सबलव्यूहयहरचैसंवारी॥ ब
लअरुबुद्धिनइनसमआना॥ इनकरपुर्षारथजगजाना॥
जेहिदिनजनमेउबलअधिकाई॥ चढेउगगनषाषिटेविल
लाई॥ चन्द्रहिधरेगगनउछ्करेउ॥ सतरिजोजनतेपुनिफेरेऊ
दोहा॥ मरकटकोटिपंचाषासैरहैसर्वदासाथ॥ कालरुद्रतेर
णमेजुझैऊसुदनामकपिनाथ॥२८॥ चौपाई॥ यहदेखहुजो
वटासोहाई॥ मनोभरभाटोंकैबहुताई॥ आगेपाछेदशोदिशि
धावहि॥ षिलाश्रृंऊतरुनोरतआवहि॥ सहसनागबलषो-
ऊसमाना॥ सप्तपद्मइनकरपरमाना॥ येऊरतपकाशीकेवा
सी॥ अजरअजीतअचलअविनाषी॥ नीलवर्णदंतनरवासुध-
धारी॥ गहिमारहिगजदन्तउपारी॥ इनअरुतनकरशुथअपा
रा॥ भूमकेलयहपालनहारा॥ इन्द्रकरैजोषुवनुजासवन्ता
जिहिकेबलकरअरहिनअन्ता॥ तीनिलोकसोजनुजैपारै॥

मर्कट पैं सो मेरु उखारै ॥ बसै अशंक नर्मदा तीरा ॥ बज्र स
मान अभेद शरीरा ॥ दोहा ॥ राजा करयह मंतरी रघुपति के
प्रिय दास ॥ कालहु ते जू जै समर नेकन लेइ उस्वास ॥ २९ ॥ चौ०
अब देखहु यह यूथ अपारा ॥ पीत बरण होइ गव उ पहारा ॥
बाल अरुण रविकी रंगास फूटी ॥ कुंकुम माट दिशा जनु छूटी
चौविश अर्बुद इनकर यूहा ॥ सहस सहूं दसो कोटि समूहा ॥
शिला शृंग जे आगे परहीं ॥ पायन मीडि किरि किरि करहीं
कञ्चन गिरि कन्दर के वासी ॥ इनकर यूथ नाथ अविनाशी
अतिबल वासव कर हितकारी ॥ सखा सुकाद के रणभका
री ॥ पान करै गंगा कर नीरा ॥ पर्वत शृंग समान शरीरा ॥ त
ण तण सिंहनाद जो होई ॥ यह गरजत आवत है सोई ॥ सोर
ठा ॥ यथा तिहुं गण उगलित गज बल करना हिन आन्त ॥ यह
कपिराजा केसरी जिहि कर सुत हनुमन्त ॥ ३० ॥ चौपाई ॥ व
टपक आवत है जूटी ॥ जनु मधु सिंधु बलै निशि फूटी ॥ भू
मि अकाश अचल अब माने ॥ उत्तर तें जनु सलभ उड़ाने ॥ यहि
महँ यूथनाथ जो अहई ॥ अतिबल राजा के संग रहई ॥ कपि
के हृदय अनल अविनासी ॥ ये दोउ पारिपात्र के वासी ॥ अनिरु
न्द्र अरु समर विपत्ती ॥ महावीर दोऊ गवय गवाती ॥ पीव ।
हित अग्र भद्र करजीरा ॥ प्रमर्दन गंधमादन दोऊ वीरा ॥ सादि
मरद मनाग बल जाही ॥ इन महँ एक कहौं मैं ताही ॥ भेरीनाद

रामा.
लं.
९

सिंहकरठाना ॥ विक्रमसार ह्लसुनुमाना ॥ दोहा ॥ देवन
मेजस सुरपति तेज न मेजस भानु ॥ पवन सुनाम यह ह्वानर अ
तिबल नीति निधानु ॥ २१ ॥ चौपाई ॥ यह जो कमल पत्र सम
देहा ॥ जनु कैलास शृङ्ग की रेहा ॥ लोचन मधुपिङ्गल अति ।
लोणे ॥ कामरूप चितवत चहुं कोणे ॥ लंका सौं हलकूरन
वाई ॥ गर्जत आवत वज्र की नाई ॥ सुरपति संग युद्ध कर हेगय
उ ॥ तबते कामरूप यह भयउ ॥ पहिसो वासव सो जु मिताई ॥
ताते यह देवन को भाई ॥ सहस कोटि कपि पहि के संगा ॥ रा
ते पीत स्वेत बहुरंगा ॥ दोहा ॥ गिरिवर लंघत आवही चलत
उड़ावै रेणु ॥ तरणि तेज यह रूं पेउ नाराति तनय सुषेणु ॥ २२ ॥
चौपाई ॥ यह कपि को देखहु तनु फेरा ॥ जनु सपक्ष उउ चलेउ
सुमेरा ॥ एक बार लंका पहिं जारी ॥ पुनि गर्जत आवत पहिंपा
री ॥ जे हि दिन गर्भ ते जननी जायो ॥ बाल स्वरूप लीलन कहं धा
यो ॥ जोजन तीन सहस उडि गयउ ॥ उदयाचल ऊपर है गहेउ
सब देवन्ह मिलि अस्तुति कीन्हा ॥ तब रवि कौं उडि पवन सुत
दीन्हा ॥ कामरूप अतुलित बल येही ॥ काल दण्ड कुलिश
सम देंही ॥ वेगवन्त जम सागरु उडाही ॥ बुद्धिवन्त ह्सर अस
नाही ॥ विद्या पढन भानु पहं जांही ॥ उलटे गति रवि सं..उडा
ही ॥ नाकनाग नर पुर गति कारी ॥ महाप्रवीप तप ते जप धा
री ॥ वारिधि लांघेउ ओपद जैसे ॥ यह हि कपीश मन ज्ञ कब अब

कैसे ॥ दोहा ॥ तेजतरणि रवि पावक पवन तें वेग अपार ॥ कंध
लिये दोउ बंधु कों श्री रघुबंश कुमार ॥ ३३ ॥ चौपाई ॥ अतसी वर
ण कुसुम तनु रेषा ॥ पुरुष पुराण धरे नर वेषा ॥ मत्त गजेन्द्र शु
ण्ड भुजदण्डा ॥ धनुष बाण असि धरणि प्रचंडा ॥ उर विशाल
अति उन्नत कन्धर ॥ कम्बु कंठ रेषा प्रसन्न वर ॥ मुख छवि की
उपमा कवि जो हैं ॥ शशि सरोज सम कहैं न सोहैं ॥ दशन पं
ति की कान्ति कहै को ॥ ललत मनः पटतर हि लैहै को ॥ देखत
अधरन की अरुणाई ॥ बिंबाफल बन्धूक लजाई ॥ शुक तुण्ड
हि नाशिका लजावैं ॥ थके सुकवि न हि पटतर पावैं ॥ शीर्ष ज
टा के मुकुट बनाये ॥ भाल विशाल तिलक अति भाये ॥ दक्षि
ण दिशि लक्ष्मण बलवीरा ॥ राम बाहु अरु प्राण समीरा ॥ दो
हा ॥ वामभाग विभीषण सिर अभिषेका राज ॥ बीज मंत्र सब
जानही अब कसर करहि अकाज ॥ ३४ ॥ चौपाई ॥ अब देखहु
यह सैना आई ॥ जस भर भादौं की मेघवाई ॥ रक्त पीत अरु श्वेत
शीआहा ॥ शिलाश्रृंग तरुवर की छाहा ॥ कन्यापक ब्रह्म उप
जाई ॥ नैन भूरि अरु रूप लोणाई ॥ बालिभाय दिनकर बल दी
न्हा ॥ अब तजा नै वास वरति कीन्हा ॥ जातक जमल वीर दोऊ
जाये ॥ देव अंश वानर होय आये ॥ किष्किन्धापुरि इन कर आ
स्थाना ॥ देव सरिस सम भुवन उद्याना ॥ अच्छ मुकरन कर विश्रामा
चात मांस अव सेज हं रामा ॥ बाली ज्येष्ठ राम रण मारा ॥ यहि क

हराजतिलकप्रभुमारा॥ तारातासुपाटकीराणी॥ जिहि
करसुतअंगदअभिमानी॥ सहससशंकुकरअर्बुदएका॥ अ
र्बुदसहसकीवृन्दविशेका॥ सहसवृन्दजोहोइप्रमाना॥
महापद्मतेहिकरपरमाना॥ ऐसेपद्मअठारहसाजा॥ विग्र
हबढेउरामकेकाजा॥ वीरवेषअरुनयनविशाला॥ कम्बुक
ण्ठमोतिनकीमाला॥ दोहा॥ हस्तीसाठिसहस्रबलसदा।
धर्मकीसींव॥ श्वेतछत्रसिरशोभितयहराजासुग्रीव॥ २५
इहिविधसकलदेखापचारनकपिदलयूह॥ गणीनराव
णाकालवशअतिशयगर्बसमूह॥ २६॥ चौपाई॥ इहांप्रात
जागेरघुराई॥ पूछामतसबसचिवबुलाई॥ कहहुवेगिका
करियउपाई॥ जाम्बवन्तकहपदसिरनाई॥ सुनुसर्वज्ञस
कलउरवासी॥ बुद्धिबलतेजधर्मगुणराशी॥ मंत्रकहउंनि
जमतिअनुसारा॥ दूतपठाइयबालिकुमारा॥ नीकमंत्रस
बकेमनमाना॥ अंगदसनकहकृपानिधाना॥ बालितनय
बुधिबलगुणधामा॥ लंकाजाहुतातममकामा॥ बहुतबु
झाइतुमहिकाकहऊं॥ परमचतुरमैजानतअहऊं॥ काजु
हमारतासुहितहोई॥ रिपुसनकरेहुबतकहीसोई॥ सोरठा
प्रभुआज्ञाधरिशीसचरणबन्दिअङ्गदकहेउ॥ सोइगुणसा
गरईशरामकृपाजापरकरहु॥ २७॥ स्वयंसिद्धसबकाजना।
थमोहिआदरदयउ॥ असबिचारियुवराजतनुपुलकितहर

षितहिये॥ १८॥ चौपाई॥ बन्दिचरणउरधरिप्रभुताई॥
अंगदचलेउसबहिसिरनाई॥ प्रभुप्रतापउरसहजअशंका॥ रणबांकुराबालिसुतबंका॥ पुरपैठतरावणकरबेटा॥ खेलतरहासोहोइगइभेटा॥ बातहिंबातकर्षबढिआई॥ युगलअतुलबलपुनितरुणाई॥ तेहिअंगदकहुंलातउठाई॥ गहिपदपटकेउभूमिभ्रमाई॥ निशिचरनिकरदेखिभटभारी॥ जहंतहंचलेनशकहिंपुकारी॥ एकएकसनमर्मनकहहीं॥ समुझितासुबधचुपकरिरहहीं॥ भयउकोलाहलनगरमझारी॥ आवाकपिलंकजेहिंजारी॥ अबधौंकहाकरहिंकरतारा॥ अतिसभीतसबकरहिंविचारा॥ विनुपूछेमगुदेहिंबताई॥ जिहिचितवहिसोजाइसुखाई॥ दोहा॥ गयउसभादरबारतबसुमिरिरामपदकञ्ज॥ सिंहठवनिइतउतचितैधीरवीरबलपुञ्ज॥

चौपाई॥ तुरितनिशाचरएकपठावा॥ समाचाररावणहिजनावा॥ सुनतबचनबोलेउदशशीशा॥ आनहुबोलिकहांकरकीशा॥ आयसुपाइदूतबहुधाये॥ कपिकुंजरहिबोलिलैआये॥ अंगददीखदशाननबैसा॥ सहितप्राणकज्जलगिरिजैसा॥ भुजाविटपसिरशृङ्गसमाना॥ रोमावलीलताजनुनाना॥ मुखनासिकानयनअरुकाना॥ गिरिकन्दराखोहअनुमाना॥ गयउसभामनमेंकुनमुरा॥

बालितनयअतिबलबांकुरा॥ उठेसभासदकपिकहं
देखी॥ रावणउरभाक्रोधविशेषी॥ दोहा॥ यथामत्तगज
यूथमहंपञ्चाननचलिजाय॥ रामप्रतापसम्भारिउर
बैठुसभमहिसिरनाय॥ ४०॥ चौपाई॥ कहदशकन्धकवन
तैंबन्दर॥ मैंरघुवीरदूतदशकन्धर॥ ममजनकहितोहि
रहीमिताई॥ तवहितकारणआएउंभाई॥ उत्तमकुलपु
लस्त्यकरनाती॥ शिवविरञ्चिपूजेहुबहुभांती॥ वरपा
येउकीन्हेउसबकाजा॥ जीतेहुलोकपालसबराजा॥ नृ
पअभिमानमोहवशकिम्बा॥ हरिआनेहुसीताजग
दम्बा॥ अबशुभकहाकरहुतुममोरा॥ सबअपराधछ
मिहिप्रभुतोरा॥ दशनगहहुतृणकंठकुठारी॥ परिजन
संगसहितनिजनारी॥ सादरजनकसुताकरिआगे॥ ए
हिविधिचलहुसकलभयत्यागे॥ दोहा॥ विश्वरूपरघु
वंशमणित्राहित्राहिअबमोहि॥ सुनतहिआरतवच
नप्रभुअभयकरहिगेतोहि॥ ४१॥ चौपाई॥ रेकपिपोच।
बोलुसम्हारी॥ मूढनजाननिमोहिसुरारी॥ कहुनिज
नामजनककरभाई॥ केहिनातेमानियेमिताई॥ अंगद
नामबालिकरबेटा॥ तासोंकबहूंभइतोहिभेटा॥ अंगद
वचनसुनतसकुचाना॥ रहाबालिवानरमैंजाना॥ अंग
दतेहिबालिकरबालक॥ उपजेहुवंशअनलकुलघालक

गर्भ न खसेउ बृथा तुम जायउ॥ निज मुख तापस दूत क
हायउ॥ अब कहु कुशल बालि कहं अहई॥ बिहंसि बचन
अंगद अस कहई॥ दिन दश गए बालि पहं जाई॥ पूछेहु
कुशल सखा उर लाई॥ राम बिरोध कुशल जश होई॥ सो
सब तुमहिं सुनाउहि सोई॥ सुनु शठ भेद होइ मन जाके॥
श्री रघुबीर हृदय नहिं ताके॥ दोहा॥ हम कुल घालक स
त्य तुम कुल पालक दशशीश॥ अन्धो बधिर न कहहिं अस
श्रवण नयन तोहि बीश॥ ४२॥ चौपाई॥ शिव विरञ्चि सुर
मुनि समुदाई॥ चाहत जासु चरण सेवकाई॥ तासु दूत
होइ हम कुल बोरा॥ ऐसी मति उर बिहर न तोरा॥ सुनि क
ठोर बाणी कपि केरी॥ कहत दशानन नयन तरेरी॥ खल
तव वचन कठिन मैं सहऊं॥ नीति धर्म सब जानत अहऊं॥
कह कपि धर्मशीलता तोरी॥ हमहु सुना कृत परतिय चो
री॥ देखेउ नयन दूत रखवारी॥ बूडि न मरहु धर्म ब्रतधारी॥
नाक कान बिनु भगिनी निहारी॥ क्षमा कीन्ह तुम धर्म वि
चारी॥ धर्मशीलता तव जग जागी॥ पावा दरश हमहुं ब
डभागी॥ दोहा॥ जनि जल्पसि जड जन्तु कपि शठ विलोकु
मम बाहु॥ लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु जिमि
राहु॥ ४३॥ पुनि नभ शर मम कर निकर कमलन पर
वास॥ शोभित भयउ मराल इव शम्भु सहित कैलाश॥ ४४॥

चौपाई॥ तुम्हरे कटक मांझ सुनु अंगद॥ मो सन भिरहि
कवन योधा बद॥ तव प्रभु नारि विरह बलहीना॥ अनुज
तासु दुख दुखित मलीना॥ तुम सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ॥
अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ जाम्बवन्त मंत्री अति बूढा
सो किमि होइ समर आरूढा॥ शिल्पकर्म जानत नल नी
ला॥ है कपि एक महाबलशीला॥ आवा प्रथम नगर जे
हिं जारा॥ सुनि हंसि बोलेउ बालिकुमारा॥ सत्य बचन क
हु निशिचर नाहा॥ सांचहुं कीश कीन्ह पुर दाहा॥ रावण
नगर अल्प कपि दहई॥ सुनि अस बचन सत्य को कहई॥
जो अति सुभट सराहेहु रावण॥ सो सुग्रीव केर लघु धा
वन॥ चलै बहुत सो वीर न होई॥ पठवा खबरि लेन हम सो
ई॥ दोहा॥ सत्य नगर कपि जारेउ विनु प्रभु आयसु पाइ॥
फिरि न गयउ सुग्रीव पहं तेहि भय रहेउ लुकाइ॥ ५५॥ स
त्य कहहु दशकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह॥ कोउ
न हमरे कटक अस तुम सन लरत जो सोह॥ ५६॥ प्रीति
विरोध समान सन करिय नीति असि आहि॥ जो मृगपति
बध मेडुकन्हि भल कि कहै कोउ ताहि॥ ५७॥ यद्यपि लघुता रा
म कहं तोहि बधे बड दोष॥ तदपि कठिन दशकंठ सुनु
क्षत्रिजाति कर रोष॥ ५८॥ हंसि बोलेउ दशमौलि तब कपि
कर बड गुण एक॥ जो प्रतिपालै तासु हित करै उपाय अनेक

चौपाई॥ धन्यकीशजोनिजप्रभुकाजा॥ जहँतहँनाचहिंप-
रिहरिलाजा॥ नाचिकूदिकरिलोकरिझाई॥ पतिहितकर
हिंधर्मनिपुणाई॥ अंगदस्वामिभक्ततवजाती॥ प्रभुगुणक
सनकहसिएहिभांती॥ मैगुणगाहकपरमसुजाना॥ तव
कटुवचनकरौंनहिकाना॥ कहकपितवगुणगाहकताई॥
सत्यपवनसुतमोहिसुनाई॥ वनविध्वंसिसुतवधिपुरजारा॥
तदपिनतेहिकछुकृतअपकारा॥ सोइविचारितवप्रकृतिसु
हाई॥ दशकन्धरमैकीन्हढिठाई॥ देखेउआइजोकछुकपि
भाषा॥ तुम्हरेलाजनरोषनमाखा॥ दोहा॥ वक्रउक्तिधनुवच
नशरहृदयदहेउरिपुकीश॥ प्रतिउत्तरसनसिन्हमनहुंकाढ
तभटदशशीश॥ ५०॥ चौपाई॥ जोअसमतिपितुखायेहुकी
शा॥ कहिअसवचनहंसादशशीशा॥ पितहिंखाइखातेउ
अवतोही॥ अवहीसमुझिपराकछुमोही॥ वालिविमलय
शभाजनजानी॥ हतौननतोहिअधमअभिमानी॥ कहुरावण
रावणजगकेते॥ मैनिजश्रवणसुनेसुनुतेते॥ रावणएकम
हावलगर्वा॥ जीतनचलेउसुरासुरसर्वा॥ सागरउतरिपार
सोगयऊ॥ नारिवृन्दसोदेखतभयऊ॥ तिनसनकहसिपतिन
परिजाहू॥ करुएकआयउनिशिचरनाहू॥ तवमैतिनहिंजी
तिसंग्रामा॥ लेजैहौंतुम्हकोनिजधामा॥ सुनतवचनएकज
ठरिमानी॥ धाइचरणगहिगगनउडानी॥ गईदूरिरिपुरिपुरिज

कठोरा॥उरेसिसिंधुमध्यअतिजोरा॥दोहा॥गएउअगाथ
अचेतहोइमरैनविप्रप्रसाद॥सावधानउठिचलेउपुनिहियेन
हरषविषाद॥५१॥चौपाई॥एकरावणकेकहेउकहानी॥जी
तईचलेउशाशीअभिमानी॥गएउनिकटअतिशीतभएऊ
कम्पितगात्रविकलभयफिरेऊ॥बलिजीतनएकगएउपता
ला॥राखाबांधिशिशुनहयशाला॥खेलहिंबालकमा
रहिंजाई॥दयालागिबलिदीन्हकुडाई॥एकबहोरिसहस
भुजदेखा॥धाइधराजनुजन्तुविशेषा॥कौतकलागिभव
नलैआवा॥सोपुलसत्यमुनिजाइकुडावा॥बहुप्रकारमु
निनाहिसिखावा॥गएउसोपुरपरिलाजनआवा॥दोहा॥
एककहतमोहिसकुचअतिरहाबालिकेकांख॥इन्हमहं
रावणतेंकवनसत्यकहहुतजिमांख॥५२॥चौपाई॥सुनु
शठसोइरावणबलशीला॥हरगिरिजानजासुभुजलीला
जानउमापतिजासुशूराई॥पूजेजेहिंशिरसुमनचढाई॥
शिरसरोजनिजकरन्हउतारी॥पूजेउअमितवारत्रिपुरारी
भुजविक्रमजानहिंदिकपाला॥शठअजहूजिनकेउरशा
ला॥जानहिंदिग्गजउरकठिनाई॥जबजबभिरेउजाइबरि
आई॥जिनकेदशनकरालनफूटे॥उरलागतमूलकइवटूटे
जासुचलतडोलतइमिधरणी॥चढतमत्तगजजिमिलघु
तरणी॥सोइरावणजगविदितप्रतापी॥सुनेनश्रवणअलीक

प्रलापी॥ दोहा॥ तेहिरावणकहलघुकहहसिनरकरकर
सिवखान॥ रेकपिबर्बरखर्बखलतबमनजानअबजान॥ ५३
चौपाई॥ सुनिअंगदसकोपकहबाणी॥ बोलुसम्भारिअध
मअभिमानी॥ सहसबाहुभुजगहनअपारा॥ दहनअनल
कुलजासुकुठारा॥ जासुपरशुसागरखरधारा॥ बूडेनृपअ
गणितबहुबारा॥ तासुगर्बजेहिदेखतभागा॥ सोनरकिमि
दशकण्ठअभागा॥ राममनुजकससेरेशठबंगा॥ धन्वीकाम
नदीपुनिगंगा॥ पशुसुरधेनुकल्पतरुरूषा॥ अन्नदानअरु
रसकिपीयूषा॥ वैनतेयखगअहिसहसानन॥ चिन्तामणि
कीउपलदशानन॥ सुनुमतिमन्दलोकवैकुण्ठा॥ लाभकि
रघुपतिभक्तिअकुण्ठा॥ दोहा॥ सेनसहिततबमानमथिव
नउजारिपुरजारि॥ कसरेशठहनुमानकपिगयउजोतवसुत
मारि॥ ५४॥ चौपाई॥ सुनुरावणपरिहरिचतुराई॥ भजसिन
कृपासिंधुरघुराई॥ जौंखलभयेसिरामकरद्रोही॥ ब्रह्म
रुद्रशकराखिननतोही॥ मूढमृषाजनिमारसिगाला॥ रा
मवैरहोइहिअसहाला॥ तबसिरनिकरकपिनकेआगे॥ प
रिहैधरणीरामशरलागे॥ तेतबसिरकंदुकसमनाना॥ खे
लिहिंभालुकीशचौगाना॥ जबहिंसमरकोपहिंरघुनायक
छुटिहिअतिकरालबहुशायक॥ तबकिचलिहिअसगा
लतम्हारा॥ असविचारिभजुरामउदारा॥ सुनतवचनराव
णपरजरा॥ जरतमहानलमहजनुघृतपरा॥ दोहा॥ कुम्भ

कंपितममबंधुममसुतप्रसिद्धशक्रारि॥ममबलप्रवनहि
नेसिशठजितेउंचराचरझारि॥५५॥चौपाई॥शठशाखामृ
गजोरिसहाई॥बान्यासिंधुइहैप्रभुताई॥लांघहिंखगअने
कवारीशा॥सूरनहोहिंतेसुनकीशा॥ममभुजसागरबलजल
बलपूरा॥जहँबूडेसुरनरबहुसूरा॥बीसपयोधिअगाधअ
पारा॥कोअसवीरजोपावहिंपारा॥दिकपालनपरनीरभ
रावा॥भूपसुयशखलमोहिसुनावा॥जौंपैसमरसुभटतव
नाथा॥पुनिपुनिकहसिजासुगुणगाथा॥तौवसीठपठ
वाकेहिकाजा॥रिपुसनप्रीतिकरतनहिंलाजा॥हरगिरि
मथननिरखिममबाहू॥पुनिशठकपिनिजप्रभुहिसराहू
दोहा॥शूरकवनरावणसरिसस्वकरकाटिनिजशीश॥हु
तेअनलमहवारबहुहर्षितसाखिगिरीश॥५६॥चौपाई॥
जरतविलोकेउंजबहिंकपाला॥विधिकेलिखेअंकनिज
भाला॥नरकेकरआपनवधवांची॥हंसेउंजानिविधिगिरा
असांची॥सोमनसमुझित्रासनहिमोरे॥लिखाविरंचिजर
ठमतिभोरे॥आनवीरबलशठममआगे॥पुनिपुनिकह
सिलाजपरित्यागे॥कहअंगदसलज्जजगमांही॥रावण
तोहिसमानकोउनाही॥लाजवन्ततवसहजसुभाऊ॥नि
जगुणनिजमुखकहसिनकाऊ॥शिरअरुशैलकथाचि
तरही॥तातेंवारवीसतेकहही॥सोभुजबलराखेउउरघा
ली॥जीतेउसहसबाहुबलिबासी॥सुनुमतिमन्ददेहीअब

सूरा॥ काटे सीस न होइ हि सूरा॥ इन्द्रजालि कहु कहिय
न बीरा॥ काटे निज कर सकल शरीरा॥ दोहा॥ जरहिं प
तङ्ग मोह वश भार वहहिं खर वृन्द॥ ते नहिं सूर कहाव
हीं समुझि देखु मतिमन्द॥ ५७॥ चौपाई॥ अब जनि बात
बढाव खल करही॥ सुनु मम वचन मान परिहरही॥ द
शमुख मैं न वसीठी आयेउ॥ अस विचारि रघुवीर पठाये
उ॥ वार वार अस कहै कृपाला॥ नहि गजारि यश वधे सृ
गाला॥ मन महं समुझि वचन प्रभु केरे॥ सहेउं कठोर व
चन शठ तेरे॥ नाहिं त करि मुख भंजन तोरा॥ लै जातेउं सी
तहि वरजोरा॥ जानेउ तव बल अधम सुरारी॥ सूने हरि
आनिहि परनारी॥ तै निशिचर पति गर्व बहूता॥ मै
रघुपति सेवक कर दूता॥ जौं न राम अपमानहि डरऊं॥
तोहि देखत अस कौतुक करऊं॥ दोहा॥ तोहि पटकि म
हि सेन हति चौपट करि तव गाउं॥ तव युवतिन्ह समेत
शठ जनकसुतहि लै जाउं॥ ५८॥ चौपाई॥ जौ अस करउं
तदपि न बडाई॥ मुयेहि वधे कछु नहिं मनुसाई॥ कौल का
मवश कृपण विमूढा॥ अति दरिद्र अयशी अति बूढा॥
सदा रोगवश सन्तत क्रोधी॥ विष्णु विमुख श्रुति सन्त
विरोधी॥ तनु पोषक निन्दक अघखानी॥ जीवत सव
सम चौदह प्राणी॥ अस विचारि खल वधौं न तोही॥ अ

वज्रनिर्मितउपजावसिमोही॥ सुनिसकोपकहनि
शिचरनाथा॥ अधरदशनउसिमीजतहाथा॥ रेकपि
अधममरणअबचहसी॥ छोटेबदनवातबउकहसी
कटुजलल्पसिषाठबुधिबलजाके॥ बलप्रतापबुधि
तेजनताके॥ दोहा॥ अगुणअमानविचारितेहिं पिता
दीन्हवनवास॥ सोदुखअरुयुवतीविरहपुनिनिशि॥
दिनममत्रास॥ ५९॥ जिनकेबलकरगर्बतोहिपेसेम
नुजअनेक॥ खाहिंनिशाचरदिवसनिशिमूढसमुफ
नजिटेक॥ ६०॥ चौपाई॥ जबतेहिंकीन्हरामकरनिन्दा॥
क्रोधवन्ततबभएउकपीन्द्रा॥ हरिहरनिन्दासुनहिंजे
काना॥ होइपापगोघातसमाना॥ कटकटाइकपिकुं
जरभारी॥ दौभुजदण्डतमकिमहिमारी॥ डोलतधरणि
सभासदखसे॥ चलैभागिभयमारुतग्रसे॥ गिरतद
शाननउठेउसम्भारी॥ भूतलपरेउमुकुटषटचारी॥ क
छुतेहिंलैनिजसिरनिसमारे॥ कछुअंगदप्रभुपासप
वारे॥ आवतमुकुटदेखिकपिभागे॥ दिनहीलूकपर
विधिलागे॥ कीरावणकरिकोपचलाए॥ कुलिशचा
रिआवतअतिधाए॥ कहप्रभुहंसिजनिहृदयडेराहु॥
लूकनअशनिकेतुनहिराहु॥ एकिरीटदशकन्धरके
रे॥ आवतबालितनयकेप्रेरे॥ दोहा॥ तरकिपवनसुतक

रगहेआनियरेप्रभुपास॥ कौतुकदेखहिंभालुकपिदि
नकरसरिसप्रकाश॥६१॥ सोरठा॥ उहांकोपिदशाननस
बसनकहतरिसाय॥ यरहुकपिहिंयरिमारहु सुनिअंग
दमुसुकाय॥६२॥ चौपाई॥ उहांकहतदशकन्यरिसाई॥
यरिमारहुकपिभागिनजाई॥ इहिवियवेगिसुभटसब
यावाहु॥ खाहुभालुकपिजहंजहंपावहु॥ मर्कटहीनक
रहुमहिजाई॥ जियतयरहुतपसीदोउभाई॥ पुनिसकोप
बोलेउयुवराजा॥ गालबजावततोहिनलाजा॥ मरुगर
काटिनिलजकुलघाती॥ बलविलोकिविदरतिनहिछा
ती॥ रेतियचोरकुमारगगामी॥ खलमलराशिमन्द
मतिकामी॥ सन्निपातजल्पसिदुर्बादा॥ भएसिकालव
शखलमनुजादा॥ याकोफलपावहुगेआगे॥ वानरभा
लुचपेटनलागे॥ राममनुजबोलतअसवाणी॥ गिरहि
नतवरसनाअभिमानी॥ गिरिहैंरसनासंशयनाही॥ शि
रनसमेतसमरमहिमाही॥ सोरठा॥ सोनरकसदशकन्य
बालिवयेउजेहिंपकशार॥ बीसहुलोचनअन्यधृकतव
जन्मकुजातिजड॥६३॥ तवशोणितकीप्यासतृषितराम
शायकनिकर॥ तजेउंतोहितेहिंत्रासकटुजल्पसिनिशि
चरअयम॥६४॥ चौपाई॥ मैतवदशनतोरिवेलायक॥ आ
यसुमोहिनदीन्हरघुनायक॥ असिरिसिहोतदशोमुख

तोरी॥ लंका गारि समुद्र महं बोरी॥ गूलरि फल समान
तव लंका॥ बसहिं मध्य जनु जन्तु अशंका॥ मैं बानर फ
ल खात न बारा॥ आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ जुक्ति सुनत
रावण मुसकाई॥ मूढ शिखि सिक कहं बहुत झुठाई॥ बालि
क बहुं असगाल न मारा॥ मिलि तपसिन तैं भए शिल वारा॥
सांचेहु मैं लबार भुज बीहा॥ जौं न उपारौं तव दश जीहा॥
राम प्रताप सुमुझि कपि कोपा॥ सभा मांझ प्रण करि पद
रोपा॥ जौं मम चरण शकसि शठ टारी॥ फिरहिं राम सीता
मैं हारी॥ सुनहु सुभट सब कह दशशीसा॥ पद गहि ध
रणि पछारहु कीशा॥ इन्द्रजीत आदिक बलवाना॥ हर्षि
उठे जहं तहं भट नाना॥ झपटहिं करि बल विपुल उपाई॥
पद न टरै बैठहिं सिर नाई॥ पुनि उठि झपटहिं सुर आरा
ती॥ टरहि न कीश चरण यहि भाती॥ पुरुष कुयोगी जि
मि उरगारी॥ मोह विटप नाशक हिं उपारी॥ दोहा॥ भूमि
न छांडत कपि चरण देखत रिपु मद भाग॥ कोटि विघ्न
जिमि सन्त कहं तदपि नीति नहि त्याग॥ ३५॥ चौपाई॥॥
कपि बल देखि सकल हिय हारे॥ उठा आपु युवराज प्रचा
रे॥ गहत चरण कह बालि कुमारा॥ मम पद गहे न तोर उ
बारा॥ गहसि न राम चरण शठ जाई॥ सुनत फिरा मन अ
ति सकुचाई॥ भयेउ तेज हत श्री सब गाई॥ मध्य दिवस जिमि

शाषि सो हई ॥ सिंहासन बैठा सिर नाई ॥ मानहु संपति
सकल गावाई ॥ जगदाधार प्रणतपति रामा ॥ तासु वि
मुख कि मिलहि विश्रामा ॥ उमा राम कर भृकुटि विला
सा ॥ होइ विश्व पुनि पावै नाशा ॥ तृण तें कुलिश कुली
श तृण करहीं ॥ तासु दूत प्रण कहु किमि टरहीं ॥ पुनि क
पि कहा नीति विधि नाना ॥ मान न ताहि काल निअराना
रिपु मद मथि प्रभु सुयश नायेउ ॥ यह कपि चला बालि
नृप जायेउ ॥ सबही सुख काक रौं बउराई ॥ हतें हौं खेत खे
लाइ खेलाई ॥ प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा ॥ सो सु
नि रावण भयेउ दुखारा ॥ यातुधान अंगद बल देखी ॥ भ
य व्याकुल सब हृदय विशेषी ॥ दोहा ॥ रिपु बल हर्षि ह
र्षि हिय बालितनय बल पुञ्ज ॥ सजल नयन तनु पुलक
अति गहे राम पद कञ्ज ॥ ६६ ॥ सांझ जानि दशकन्धर तव
भवन गयेउ विलखाइ ॥ मन्दोदरी अनेक विधि बहुरि क
हा समुझाइ ॥ ६७ ॥ चौपाई ॥ कान्त समुझि मन तजहु कु
मतिहीं ॥ सोह न समर तुमहिं रघुपतिहीं ॥ राम अनुज
लघु रेख खचाई ॥ सो नहि लांघेहु अस मनुसाई ॥ प्रिय
नेहि तैं जीतन वहं संग्रामा ॥ जाके दूत केर अस कामा ॥ कौतु
क सिंधु लांघि तव लंका ॥ आयउ कपि केसरी अशंका ॥
रखवारे हति विपिन उजारा ॥ देखत तव महिं सुनयजिन्द

मारा॥जारिनगरजेइकीन्हेसिछारा॥कहांरहाबल
गर्वतुम्हारा॥अबपतिमृषागालजनिमारहु॥मोरकहा
कछुहृदयविचारहु॥पतिरघुपतिहिंनृपतिजनिजा
नहु॥अगजगनाथअतुलबलमानहु॥बाणप्रताप
जानमारीचा॥तासुकहानहिंमानेहुनीचा॥जनकस
भाअगणितमहिपाला॥रहेउतहांतुमगर्वविशाला
भञ्जिधनुषजानकीविवाही॥तबसंग्रामजितेहुनहि
ताही॥सुरपतिसुतजानाबलथोरा॥राखाजियतआं
खिगहिफोरा॥सूर्पनखाकीगतितुमदेखी॥तदपि
हृदयनहिंलाजविशेषी॥दोहा॥बधिविराधखरदूष
णहिंलीलाहतेउकबन्ध॥बालिएकशरमारेउतेहि
नरकहदशकन्ध॥३८॥चौपाई॥जेहिंजलनाथबन्धाये
उहेला॥उतरेउकपिदलसहितसुवेला॥कारुणीक
दिनकरकुलकेतू॥दूतपठाएउतवहितहेतू॥सभामां
झजेइंतवबमटमथा॥करिवरूथमहंमृगपतियथा॥
अंगदहनुमतअनुचरजांके॥रणबांकुरेबीरअतिबां
के॥तेहिंकहंप्रियपुनिपुनिनरकहहू॥मुधामानम
मतामदबहहू॥अहहकान्तकृतरामविरोधा॥काल
विवशमनहोयनबोधा॥कालदण्डगहिकाहुनमारा
हरैधर्मबलबुद्धिविचारा॥निकटकालजेहिंआवतसांई

तेहिंभ्रमहोइरवमहारिहिंनाई॥दोहा॥दुइसुतमारेउ
नगरजरायअजहुंपरतियदेहु॥कृपासिंधुरघुवीरभजि
नाथविमलयशलेहु॥१९॥चौपाई॥नारिवचनसुनि
विशिषसमाना॥सभागयउउठिहोतविहाना॥बैठाजा
इसिंहासनफूली॥अतिअभिमानत्राससबभूली॥इहां
रामअंगदहिंबुलावा॥आइचरणपंकजसिरनावा॥अ
तिआदरसमीपबैठारी॥बोलेविहंसिकृपालुखरारी॥
वालितनयअतिकौतुकमोही॥तातसत्यकहुंपूछौंतो
ही॥रावणयातुधानकुलटीका॥भुजबलअतुलजासु
जगलीका॥तासुमुकुटतुमचारिचलाए॥कहहुतात
कवनेविधिपाए॥कहावालिसुतसुनहुखरारी॥मु
कुटनहोइभूपगुणचारी॥सामदामअरुदण्डविभे
दा॥नृपउरवसहिंनाथकहवेदा॥नीतिधर्मकेचरणसु
हाए॥असजियजानिनाथपहंआए॥दोहा॥धर्महीन
प्रभुपदविमुखकालविवशदशशीश॥आपगुणतजि
रावणहिंसुनहुकोशलाधीश॥२०॥परमचतुरताश्र
वणसुनिविहंसेरामउदार॥समाचारतबसबकहैग
ढकेवालिकुमार॥२१॥चौपाई॥रिपुकेसमाचारजबपा
ए॥रामसचिवसबनिकटबुलाए॥लंकाबांकाचारिदु
आरा॥केहिविधिलागियकरहुविचारा॥तबकपीश॥

रामा. लं. ५५

16

ऋक्षेशविभीषण॥ सुमिरिहृदयदिनकरकुलभूषण॥
करिविचारतिन्हमंत्रदृढावा॥ चारिअनीककपिकटक
बनावा॥ यथायोगसेनापतिकीन्हे॥ यूथपसकलबो
लितिन्हलीन्हे॥ प्रभुप्रतापसबकपिसमुझाये॥ सिंहना
दकरिसबकपिधाये॥ गर्जहिंतर्जहिंभालुकपीशा॥ ज
यरघुवीरकोशलाधीशा॥ जानतपरमदुर्गअतिलंका॥
प्रभुप्रतापकपिचलेअशंका॥ घटाटोपकरिचहुंदिशि
घेरी॥ मुखहिंनिसानबजावहिंभेरी॥ दोहा॥ जयतिरा
मभ्रातासहितजयकपीशसुग्रीव॥ गर्जहिंकेहरिनाद
कपिभालमहाबलसीव॥ २२॥ चौपाई॥ लंकाभयउको
लाहलभारी॥ सुनेउदशाननअतिअहंकारी॥ देखहुबा
नरकेरिढिठाई॥ विहसिनिशाचरसेनबुलाई॥ आये
कीशकालकेप्रेरे॥ क्षुधावन्तरजनीचरमेरे॥ असकहि
अट्टहासशठकीन्हा॥ गृहबैठेअहारविधिदीन्हा॥ सु
भटसकलचारिहुदिशिजाहू॥ धरिधरिभालुकीशस
बखाहू॥ उमारावणहिअसअभिमाना॥ जिमिटिटिही
खगसूतउताना॥ चलेनिशाचरआयसुमांगी॥ गहिक
रभिंडिपालवरसांगी॥ तोमरमुद्गरपरिघप्रचण्डा॥ शू
लकृपाणपरशुगिरिखण्डा॥ जिमिअरुणोपलनिकर
निहारी॥ धावहिंशठखगमांसअहारी॥ चोंचभंगदुखति

नहिंनसूझा॥तिमिधायेमनुजादअबूझा॥दोहा॥ना
नायुधशरचापधरियातुधानबरवीर॥कोटकंगूरनच
ढिगयेकोटिकोटिरणधीर॥२४॥चौपाई॥कोटकंगूर
नसोहहिंकैसे॥मेरुश्रृंगनपरजनुघनवैसे॥बाजहिंढो
लनिसानजुझाऊ॥सुनिधुनिसुभटनकेमनचाऊ॥बाज
हिंभेरीनफीरिअपारा॥सुनिकादरउरहोइदरारा॥देखि
नजाइकपिनकेठट्टा॥अतिविशालतनुभालुसुभट्टा॥
कटकटाइकोटिनभटगर्जहिं॥दशननओठकाटिअति
तर्जहिं॥उतरावणइतरामदोहाई॥जयतिजयतिकरि
परीलराई॥निशिचरशिखरसमूहढहावहिं॥कूदिधर
हिंकपिफेरिचलावहिं॥छन्द॥धरिकुधरखण्डप्रचण्ड
मर्कटभालुगढपरडारहीं॥झपटहिंचरणगहिपटकि
महिमहँबारबारप्रचारहीं॥१॥अतितरलतरलप्रताप
तर्जहितमकिगढपरचढिगये॥कपिभालुचढिमन्दि
रनजहँतहँरामयशगावतभये॥२॥दोहा॥एकएकनि
शिचरगहिपुनिकपिचलेपराइ॥ऊपरआपुनतरअसु
रगिरहिंधरणिमहँआइ॥२५॥चौपाई॥रामप्रतापप्रबल
कपियूथा॥मर्दहिंनिशिचरसुभटवरूथा॥चढेदुर्गपु
निजहँतहँबानर॥जयरघुवीरप्रतापदिवाकर॥चलेनि
शाचरनिकरपराई॥प्रबलपवनजिमिघनसमुदाई॥हा

रामा. लं. ९

17

हाकारभयेउपुरभारी॥रोवहिंआरतबालकनारी॥स
बमिलिदेहिंरावणहिंगारी॥राजकरतजेइमृत्युहंकारी
निजदलविचलसुनाजबकाना॥फिरेसुभटलेकेशरिमा
ना॥जोरणविमुखफिरामैजाना॥तेहिमारिहौंकरालकृ
पाणा॥सर्वस्वखाइभोगकरिनाना॥समरभूमिभादुर्लभ
प्राणा॥उग्रवचनसुनिसकलडेराने॥फिरेवीरकरिक्रोध
लजाने॥सन्मुखमरणवीरकीशोभा॥तबतिननतजाप्रा
णकरलोभा॥दोहा॥बहुआयुधधरिसुभटसिरहिं
प्रचारिप्रचारि॥कियेव्याकुलभालुकपिपरिघत्रिशूल
निमारि॥७८॥चौपाई॥भयआतुरकपिभागनलागे॥य
द्यपिउमाजीतिहैंआगे॥कोउकहकहँअंगदहनुमन्ता॥
कहँनलनीलदुबिदबलवन्ता॥निजदलविचलसुनाह
नुमाना॥पश्चिमद्वाररहाबलवाना॥मेघनादतहँकरैल
राई॥टूटनद्वारपरमकठिनाई॥पवनतनयमनभाअति
क्रोधा॥गर्जेउप्रबलकालसमयोधा॥कूदिलङ्कगढऊ
परआवा॥गहिगिरिमेघनादपरधावा॥भञ्जेउरथसार
थीनिपाता॥तासुहृदयमहँमारेउलाता॥दूसरसूतवि
कलतेहिजाना॥स्यन्दनघालितुरतघरआना॥दोहा॥
अङ्गदसुनेउकिपवनसुतगढपरगयउअकेल॥समर
बांकुरावालिसुततरकिचढेउकरिखेल॥७७॥चौपाई॥

युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दोउ बन्दर॥ राम प्रताप सुमिरि उर अन्तर॥
रावण भवन चढे दोउ धाई॥ करहिं कोशलाधीश दोहाई॥
कलश सहित गहि भवन ढहावा॥ देखि निशाचर अति
भय पावा॥ नारिवृन्द कर पीटहिं छाती॥ अब द्वौ कपि आये
उतपाती॥ कपि लीला करि सबहिं डेरावहिं॥ रामचन्द्र कर
सुयश सुनावहिं॥ पुनि कर गहि कञ्चन कर खम्भा॥ कह
हिं करउ उतपात अरम्भा॥ गर्जि परे रिपु कटक मझारी॥ ला
गे मर्दन भुज बल भारी॥ काहुहि लात चपेटन केहू॥ भजेहु
न रामहिं सो फल लेहू॥ दोहा॥ एक एक सन मर्दहिं तोरि
चलावहिं मुण्ड॥ रावण आगे परहिं ते जनु फूटहिं दधि कु
ण्ड॥ ३८॥ चौपाई॥ महा महा मुखिया जे पावहिं॥ ते पद गहि
प्रभु पास चलावहिं॥ कहहिं विभीषण तिन के नामा॥ देहिं
राम तिन्ह का निज धामा॥ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी॥
पावहिं गति जो याचत योगी॥ उमा राम मृदुचित करुणाक
र॥ वयर भाव मोहि सुमिरत निशिचर॥ देहिं परम गति अ
स जियजानी॥ को कृपालु अस अहै भवानी॥ जे अस प्रभु
न भजहिं भ्रमत्यागी॥ ते मतिमन्द सो परम अभागी॥ अङ्ग
द अरु हनुमन्त प्रवेशा॥ कीन्ह दुर्ग अस कहिय अवधेशा॥
लंका मह्यँ कपि सोहहिं केसे॥ मथहिं सिंधु दुइ मन्दर जैसे॥
दोहा॥ भुजबल रिपुदल दलिमलेउ देखि दिवस को अन्त॥

कृदिषुगलविगतश्रमस्प्रायेजहंभगवान्न ॥ ७९ ॥ चौपाई
प्रभुपदकमलसीसतिननाये ॥ देखिसुभटरघुपतिमन
भाये ॥ रामकृपाकरिजुगलनिहारे ॥ भयेविगतश्रमपरम
सुखारे ॥ गयेजानिअंगदहनुमाना ॥ फिरेभालुमर्कटभ
टनाना ॥ यातुधानप्रदोषबलपाई ॥ धायेकरिदससीसदो
हाई ॥ निसिचरअनीदेखिकपिफिरे ॥ कटकटाइजहंतहं
भटभिरे ॥ दोउदलभिरहिंप्रबलपचारी ॥ लरहिंसुभटन
हिंमानहिंहारी ॥ बीरनिशाचरसबअतिकारे ॥ नानाबर
णबलीमुखभारे ॥ सबलजुगलदलसमबलअतियोधा ॥ वि
विधप्रकारलरहिंकरिक्रोधा ॥ प्रावृटसरदपयोदघनेरे ॥
लरतमनहुंमारुतकेप्रेरे ॥ अनीपअकंपनअरुअतिकाया ॥
विचलतसेनकीनतिनमाया ॥ भयउनिमिषमहंअतिअं
धियारा ॥ वृष्टिहोइरुधिरोपलछारा ॥ दोहा ॥ देखिनिबि
डतमदसहंदिसिकपिदलभयउखभार ॥ एकहिएकनदे
खजबजहंतहंकरहिंपुकार ॥ ८० ॥ चौपाई ॥ यहसबमर्म
विभीषणजाना ॥ लियेबोलिअंगदहनुमाना ॥ समाचा
रसबकहिसमुझाये ॥ सुनतकोपिकपिकुंजरधाये ॥ पु
निकृपालहंसिचापचढावा ॥ पावकसायकसपदिच
लावा ॥ भयउप्रकासकतहुंतमनाहीं ॥ ज्ञानउदयजिमि
संसयजाहीं ॥ भालुबलीमुखपाइप्रकासा ॥ धायेकोपि

विगतश्रमत्रासा॥ हनूमानअंगदरणगाजे॥ हांकसुन
तरजनीचरभाजे॥ भागतभटपटकहिंधरिधरणी॥ करहिं
भालुकपिअद्भुतकरणी॥ गहिपदडारहिंसागरमांही॥
मकरउरगझषधरिधरिखांही॥ दोहा॥ कछुघायलकछु
रणपरेकछुगढचलेपराइ॥ गर्जहिमर्कटभालुभटरिपु
दलबलविचलाइ॥८१॥ चौपाई॥ निशाजानिकपिचारिउ
अनी॥ आयेसबजहंकोशलधनी॥ रामकृपाकरिचितये
जबहीं॥ भयेविगतश्रमबानरतबहीं॥ उहांदशाननसचि
वहंकारे॥ सबसनकहेसिसुभटजेमारे॥ आधाकटकक
पिनसंहारा॥ कहहुवेगिकाकरियविचारा॥ माल्यवन्तअ
तिजरठनिशाचर॥ रावणमातपितामंत्रीवर॥ बोलावच
ननीतिअतिपावन॥ तातसुनहुकछुमोरशिखावन॥ ज
बतेंतुमसीताहरिआनी॥ असगुणहोहिंनजातबखानी॥
वेदपुराणजासुयशगावा॥ रामविमुखसुखकाहुनपावा॥
दोहा॥ हिरण्याक्षभ्रातासहितमधुकैटभबलवान॥ जेंइ
मारेसोइअवतरेउकृपासिंधुभगवान॥८२॥ कालरूपख
लबलदहनगुणागारघनबोध॥ शिवविरंचिजेंहिसेवहिं
तासोंकवनविरोध॥८३॥ चौपाई॥ परिहरिवैरदेहुवैदेही
भजहुकृपानिधिपरमसनेही॥ ताकेवचनबाणसमलागे
करियामुखकरिजाहुअभागे॥ बूढभयसिनतमरतेंतोही

अबजनिवदनदेखावसिमोही॥तेंइअपनेमनअसअनु
माना॥वधेचहततपद्दिकृपानिधाना॥सोउहिगणउकहत
दुर्बादा॥तबसकोपबोलेउघननादा॥कौतुकप्रातदेखि
येऊमोरा॥करिहौंवहुतकहतहौंथोरा॥सुनिसुतवचन
भरोसाआवा॥प्रीतिसमेतनिकटबैठावा॥करतविचार
भयउभिनुसारा॥लगेभालुकपिचारिहुद्वारा॥कोपि
कपिनदुर्गमगढघेरा॥नगरकोलाहलभयउघनेरा॥
विविधअसुरगाहनिशिचरधाय॥गाढतेपर्बतशिखरढ
हाये॥छन्द॥ढाहेमहीधरशिखरकोटिनविविधविधि
गोलाचले॥घहरातजिमिपविपातगर्जतप्रलयकेजनु
बादले॥१॥मर्कटविकटभटजुटतलरतकुटततनुजर्ज
रभये॥गहिशैलतेहिगढपरचलावहिंजहंसोहतहंनिशि
चरहये॥४॥दोहा॥मेघनादसुनिश्रवणअसगढपुनिछें
काआइ॥उतरिदुर्गतेवीरवरसनमुखचलावजाइ॥५४॥
चौपाई॥कहांकोशलाधीशदोउभ्राता॥धन्वीसकललो
कविख्याता॥कहंनलनीलदुविदसुग्रीवा॥कहंहनुमंत
अंगदबलसीवा॥कहांविभीषणभ्राताद्रोही॥आजुशठ
हिंहठमारउओही॥असकहिकठिनबाणसंधाने॥अति
शयकोधिश्रवणलगिताने॥शरसमूहसोछाडैलागा॥
जनुसपक्षधावैबहुनागा॥जहंतहंपरतदेखियेवानर॥

सनमुखि होइ न शाकत तेहि अवसर॥ भागे भय व्याकुल क
पि जूथा॥ बिशरी सबहिं युद्ध की इच्छा॥ सो कपि भालु न रण
महँ देषा॥ कीन्हेसि जेहि न प्राण अवशेषा॥ दोहा॥ दश द
श शत सब मारेसि परे भूमि कपि बीर॥ सिंहनाद करि ग
र्जेत ब मेघनाद रण धीर॥ ७५॥ चौपाई॥ देखि पवन सुत कट
क बिहाला॥ क्रोधवन्त धावा जनु काला॥ महा महीधर त
रत उपारा॥ अति रिसि मेघनाद पर डारा॥ आवत देखि गये
उ नभ सोई॥ रथ सारथी तुरंग सब खोई॥ बार बार प्रचार ह
नुमाना॥ निकट न आव मरम सो जाना॥ राम समीप गए
उ घननादा॥ नाना भाँति कहत दुर्वादा॥ अस्त्र शस्त्र बहु आ
युध डारे॥ कौतकहीं प्रभु काटि निवारे॥ देखि प्रभाव मूढ
खिसियाना॥ करै लाग माया विधि नाना॥ जिमि कोउ क
रै गरुड सन खेला॥ डरपावहिं गहि स्वल्प सपेला॥ दोहा॥
जासु प्रबल माया विवश शिव विरंचि बड छोट॥ ताहि दे
खावै निशिचर निज माया मति खोट॥ ७६॥ चौपाई॥ नभ च
ढि बरषै विपुल अङ्गारा॥ महि ते प्रगट होइ जलधारा॥ ना
ना भांति पिशाच पिशाची॥ मारु काटु ध्वनि बोलहिं नाची॥
कीन्हेसि विष्ट रुधिर कच हाडा॥ बर्षै कबहुं उपल बहु छा
डा॥ बर्षि धूरि कीन्हेसि अंधियारा॥ सूझ न आवन हाथ प
सारा॥ अकुलाने कपि माया देखे॥ सब कर मरण बना यह

श्रीराग उत्र:
सिंधुराग:

लेखे॥ कौतुकदेखिरामसुसकाने॥ भयेसभीतसकल
कपिजाने॥ एकबाणकाटीसबमाया॥ जिमिदिनकर
हरतिमिरनिकाया॥ कृपादृष्टिकपिभालुविलोके॥ भ
येप्रबलरणरहहिंनरोके॥ दोहा॥ आयसुमांगिरामप
हिंअंगदादिकपिसाथ॥ लक्ष्मणचलेसकोपतवबा
णशरासनहाथ॥ ८७॥ चौपाई॥ छतजनयनउरबाहु
विशाला॥ हिमगिरिनिभतनुकछुएकलाला॥ उहाँ
दशाननसुभटपठाये॥ नानाअस्त्रशस्त्रगहिधाये॥ भू
धरविटपआयुधधरिभारी॥ धायेकपिजयरामपुकारी
भिरेसकलजोरीसनजोरी॥ इतउतजयइच्छानहिंथोरी
मुठिकनलातनदांतनकाटहिं॥ कपिगिरिशिलामारि
पुनिडांटहिं॥ मारुमारुधरुधरुधरुमारु॥ शीसतोरि
गहिभुजाउपारु॥ असिरवपूरिरहीनवखण्डा॥ धाव
हिंजहंतहंरुंडप्रचण्डा॥ देखहिंकौतुकनभसुरवृन्दा॥
कबहुंकविस्मयकबहुंअनन्दा॥ दोहा॥ रुधिरगाउभ
रिभरिजम्योऊपरधूरिउडाइ॥ जिमिअंगाररासिनिपर
मृतकधूमरह्योछाइ॥ ८८॥ चौपाई॥ घायलवीरविराजहिं
कैसे॥ कुसुमितकिंसुककेतरुजैसे॥ लक्ष्मणमेघनादद्वौ
जोधा॥ भिरहिंपरस्परकरिअतिक्रोधा॥ एकहिएकस
केनहिंजीती॥ निशिचरछलबलकरैअनीती॥ क्रोधवन्त

तबभपउअनंता ॥ भंजेउरथसारथीतुरंता ॥ नानाप्रुधप्र
हारकरिशेषा ॥ राक्षसभपउप्राणअवशेषा ॥ तेहिंअपने
मनअसअनुमाना ॥ सङ्कटभयेहरिहिममप्राणा ॥ बीर
घातिनीछाडेसिसांगी ॥ तेजपुञ्जलक्ष्मणउरलागी ॥ मू
र्छाभईशक्तिकेलागे ॥ तबचलिगपउनिकटभयत्यागे ॥
दोहा ॥ मेघनादसमकोटिशतयोधारहेउठाइ ॥ जगदाधा
रअनन्तसोउठहिंनचलालजाइ ॥ ५५ ॥ चौपाई ॥ सुनिगि
रिजाक्रोधानलजासू ॥ जारभुवनचारिदशआसू ॥ सकै
संग्रामजीतिकोताही ॥ सेवहिंसुरनरअगजगजाही ॥
यहकौतुकजानहिंजनसोई ॥ जेहिपरकृपारामकीहोई ॥
संध्याभईफिरीदोउवाहिनी ॥ लगेसंभारणनिजनिजअ
नी ॥ व्यापकब्रह्मअजितभुवनेश्वर ॥ लक्ष्मणकहंबूझा
करुणाकर ॥ तबलगिलैआयेहनुमाना ॥ अनुजदेखि
प्रभुअतिदुखमाना ॥ जाम्बवन्तकहवैद्यसुषेणा ॥ ल
ङ्कारहपठइयकोउलेना ॥ धरिलघुरूपगयेहनुमन्ता
आनेउभवनसमेततुरन्ता ॥ दोहा ॥ रघुपतिचरणसरो
जसिरनायउआइसुषेण ॥ कहानामगिरिऔषधीजा
हुपवनसुतलेन ॥ ५६ ॥ चौपाई ॥ रामचरणसरसिजउरा
खी ॥ चलेउप्रभंजनसुतबलभाषी ॥ उहांदूतएकमरम
जनावा ॥ रावणकालनेमिगृहआवा ॥ दशमुखकहाम

रमतेंर सुनेऊ॥ पुनि पुनि कालनेमि शिर धुनेऊ॥ देखत।
तुमहिं नगरु जेहिं जारा॥ तासु पंथ को रोकन हारा॥ भजि
रघुपतिहि करहु हित अपना॥ तजहु नाथ अब वृथा कल
पना॥ नील कंज तनु सुन्दर श्यामा॥ हृदय राखु लोचन अ
भिरामा॥ अहंकार ममता मद त्यागू॥ महा मोह निशि सो
वत जागू॥ काल व्याल कर भक्षक जोई॥ सपनेहुं समर
कि जीतिय सोई॥ दोहा॥ सुनि दशकंठ रिसान अति तेंह
मन कीन्ह विचार॥ राम दूत कर मरण भल यह खल नत
मोहि मार॥५१॥ चौपाई॥ अस कहि चला रचेसि मग माया॥
सर मन्दिर वर बाग बनाया॥ मारुतसुत देखा शुभ आश्रम
मुनिहिं बूझि जल पियौं जाइ श्रम॥ राक्षस कपट भेष तहं।
सोहा॥ मायापति दूतहिं चह मोहा॥ जाइ पवनसुत नाय
उ माथा॥ लाग कहन राम गुण गाथा॥ होत महा रण
राम रावणहि॥ जीतहिं राम न संशय या महि॥ इहां भये।
मै देखौं भाई॥ ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई॥ मांगा ज
ल तेंइ दीन्ह कमंडल॥ कह कपि नहिं अघाउं थोरे जल॥
सर मज्जन करि आतुर आवहु॥ दीक्षा देउं ज्ञान जेहि पाव
हु॥ दोहा॥ सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान॥
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि यान॥५२॥ चौ॰
कपि तव दरश भइउं निष्पापा॥ मिटा तात मुनिवर को शापा॥

मुनिनहोइयहनिसिचरघोरा॥ मानहुसत्यवचनक
पिमोरा॥ असकहिगईअपछराजबहीं॥ निशिचरनिकट
गयउकपितबहीं॥ कहकपिमुनिगुरदछिनालेहू॥ पा
छेंहमहिंमंत्रतुमदेहू॥ सिरलंगूरलपेटिपछारा॥ नि
जतनुप्रगटेसिमरतीबारा॥ रामरामकहिछाडेसिप्राणा
सुनिमनहरषिचलेहनुमाना॥ देखाशैलनऔषधिचीं
न्हा॥ सहसाकपिउपारिगिरिलीन्हा॥ गहिगिरिनिसिनभ
धावतभयऊ॥ अवधपुरीऊपरकपिगयऊ॥ दोहा॥ दे
खाभरतविशालअतिनिशिचरमनअनुमानि॥ विनु
फरशरतेहिमारेउचापश्रवणलगितानि॥ ५८॥ चौपाई॥
परेउमूर्छिमहिलागतशायक॥ सुमिरतरामरामरघु
नायक॥ सुनिप्रियवचनभरततउठिधाये॥ कपिसमीप
अतिआतुरआये॥ विकलविलोकिकीशउरलावा॥ जा
गतनहिंबहुभांतिजगावा॥ मुखमलीनतनभयउदुखा
री॥ कहतवचनभरिलोचनवारी॥ जेहिविधिरामविमु
खमोहिकीन्हा॥ तेहिपुनियहदारुणदुखदीन्हा॥ जौंमो
रेमनवचअरुकाया॥ प्रीतिरामपदकमलअमाया॥ तौ
कपिहोउविगतश्रमशूला॥ जौंमोपररघुपतिअनुकूला॥
वचनसुनतउठिवैठकपीशा॥ कहिजयजयतिकोशला
धीशा॥ सोरठा॥ लीन्हकपिहिउरलाइपुलकगातलोचन

रामा. लं. २२

22

सजल ॥ प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघुकुलति
लक ॥ ४४ ॥ चौपाई ॥ तात कुशल कहु सुखनिधान की ॥
सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ कपि सब चरित समास
बखाने ॥ भये दुःखित मन महँ पछिताने ॥ अहह दैव मैं क
त जग जाएऊ ॥ प्रभु के एकौ काज न आएऊ ॥ जानि कुअव
सर मन धरि धीरा ॥ पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ तात
गहरु होइहि तोहि जाता ॥ काज नशाइहि होत प्रभाता
चढु मम शायक शैल समेता ॥ पठवौं तोहि जहँ कृपानि
केता ॥ सुनि कपि मन उपजा अभिमाना ॥ मोरे भार चलहि
किमि बाणा ॥ राम प्रताप विचारि बहोरी ॥ बन्दि चरण बो
लेउ कर जोरी ॥ तव प्रताप उर राखि गोसांई ॥ जैहौं नाथ बा
ण की नाई ॥ हर्षि भरत तब आयसु दीन्हा ॥ पद सिर नाइ रा
मन कपि कीन्हा ॥ दोहा ॥ भरत बाहु बल शील गुण प्रभु प
द प्रीति अपार ॥ जात सराहत मनहिं मन पुनि पुनि पवन
कुमार ॥ ४५ ॥ चौपाई ॥ उहाँ राम लछमणहि निहारी ॥ बोले
वचन मनुज अनुसारी ॥ अर्द्ध राति गई कपि नहिं आवा ॥
राम उठाइ अनुज उर लावा ॥ शकहु न दुखित देखि मोहि
काऊ ॥ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ मम हित लागि तजे
हु पितु माता ॥ सहेउ विपिन हिम आतप बाता ॥ सो अनुरा
ग कहाँ अब भाई ॥ उठहु बिलोकि मोरि विकलाई ॥ जो जा

नतबनबंधुबिछोहू॥ पिताबचननहिंमनतेउँओहू॥ सु
तबितनारिभवनपरिवारा॥ होहिंजाहिंजगवारहिंवारा॥
असविचारिजियजागहुताता॥ मिलहिनजगतसहोद
रभ्राता॥ यथापंखबिनुखगअतिदीनां॥ मणिबिनुफणि
करिवरकरहीना॥ असममजीवनबंधुबिनुतोही॥ जोजं
उदैवजिआवैमोही॥ जैहौंअवधकवनमुखलाई॥ नारि
हेतप्रियबंधुगवाई॥ बरुअपयशसहतेउजगमाहीं॥
नारिहानिविशेषछतिनाहीं॥ अबअपलोकशोकसुत
तोरा॥ सहेकठोरनिठुरउरमोरा॥ निजजननीकेएककुमा
रा॥ ताततासुतुमप्राणअधारा॥ सौंपेसिमोहितुमहिंग
हिपाणी॥ सबविधिसुखदपरमहितजानी॥ उतरताहि
दैहौंकाजाई॥ उठिकिनमोहिसिखावहुभाई॥ बहुविध
शोचतशोचविमोचन॥ स्रवतसलिलराजीवदललोचन॥
उमाअखंडएकरघुराई॥ नरगतिभक्तकृपालुदेखाई॥ सो
रठा॥ प्रभुविलापसुनिकानविकलभयेवानरनिकर॥
आइगएहनुमानजिमिकरुणामहवीररस॥ ६९॥ चौ०
हर्षिरामभेटेहनुमाना॥ अतिकृतज्ञप्रभुपरमसुजाना॥
तुरतवैद्यतबकीन्हउपाई॥ उठिबैठेलक्ष्मणहर्षाई॥ हृद
यलाइभेटेप्रभुभ्राता॥ हर्षेसकलभालुकपिव्राता॥ पुनि
कपिवैद्यतहांपहुँचावा॥ जेहिविधितबहिताहिलैआवा॥

रामा.
लं.
४४

23

यहबृत्तान्तदशाननसुनेऊ॥ अतिविषादपुनिपुनिशि
रधुनेऊ॥ व्याकुलकुम्भकर्णपहंगएऊ॥ करिबहुयतन
जगावतभएऊ॥ जागानिशिचरदेखियकैसा॥ मानहुंका
लदेहधरिबैसा॥ कुम्भकर्णपूछासुनभाई॥ काहेतवमु
खरहासुखाई॥ कथाकहीसवतेहिअभिमानी॥ जेहि
प्रकारसीताहरिआनी॥ तातकपिननिशिचरसंहारे॥
महामहायोधासवमारे॥ दुर्मुखसुररिपुमनुजअहारी
भटअतिकायअकम्पनभारी॥ अपरमहोदरआदिकवी
रा॥ परेसमरमहंसवरणधीरा॥ दोहा॥ सुनिदशकंधर
केवचनकुम्भकर्णविलखान॥ जगदम्बाहरिआनिश
ठअवचाहसिकल्याण॥ ५१॥ चौपाई॥ भलनकीन्हतैंनि
शिचरनाहा॥ अवमोहिआनिजागयेउकाहा॥ अजहूं
तातत्यागुअभिमाना॥ भजहुरामहोइहिकल्याणा॥ है
दशशीशमनुजरघुनायक॥ जाकेहनूमानसोपायक॥ अ
हहवंधुतैंकीन्हखोटाई॥ प्रथमहिंमोहिनसुनायेहुआई॥
कीन्हेहुप्रभुविरोधतेहिदेवक॥ शिवविरञ्चिसुरजाकेसेव
क॥ नारदमुनिमोहिज्ञानजोकहा॥ कहतेउंतोहिसमय
निर्वहा॥ अवभरिअंकभेंटुमोहिभाई॥ लोचनसुफलक
रौंमैंजाई॥ श्यामगातसरसीरुहलोचन॥ देखौंजाइताप
त्रयमोचन॥ दोहा॥ रामरूपगुणसुमिरिमनमगनभए

उछणएक॥रावणमांगेउकोटिघटमदअरुमहिषअने
क॥६८॥चौपाई॥महिषखाइकरिमदिरापाना॥गर्जेउव
ज्राघातसमाना॥कुम्भकर्णदुर्मदरणरंगा॥चलेउदुर्ग
तजिसेननसंगा॥देखिविभीषणआगेआएउ॥पुनिपदग
हिनिजनामसुनाएउ॥अनुजउठाइहृदयतेंहिलावा॥र
घुपतिभक्तजानिमनभावा॥तातलातमोहिरावणमारा
कहतपरमहितमंत्रविचारा॥तेहिंगलानिरघुपतिपहिं
आयेउं॥दीनजानिप्रभुकेमनभायेउं॥सुनसुतभएउका
लवशरावण॥सोकिमिमानैतोरशिखावन॥धन्यध
न्यतैंधन्यविभीषण॥भयहुतातनिशिचरकुलभूषण
बंधुबंशतैंकीन्हउजागर॥भजेहुरामशोभासुखसागर
दोहा॥वचनकर्ममनकपटतजिभजेहुतातरघुवीर॥
जाहुननिजपरसूझमोहिभयेउकालवशवीर॥६९॥
चौपाई॥बंधुवचनसुनिचलाविभीषण॥आएउजहंत्रै
लोकविभूषण॥नाथभूधराकारशरीरा॥कुम्भकर्ण
आवतरणधीरा॥इतनाकपिनसुनाजबकाना॥किल
किलाइधायेबलवाना॥लियेउठाइविटपअरुभूधर॥क
टकटाइडारहिंताऊपर॥कोटिकोटिगिरिशिखरप्रहारा
डारहिंतेहिपरएकहिबारा॥मुरैनमननतनुटरैनहिटारे
जिमिगजअर्कफलन्हिकेमारे॥तबमारुतसुतमुष्टिका

हनेउ॥ परेउ धरणि ब्याकुल सिर धुनेऊ॥ पुनि उठि तेंइ मा
रेउ हनुवन्ता॥ घुर्णित भूतल परेउ तुरन्ता॥ पुनि नल नी
लहि अवनि पछारेसि॥ जहँ तहँ पटकि पटकि भट मारे
सि॥ चली बलीमुख सेन पराई॥ अति भय त्रसित न कोउ स
मुहाई॥ दोहा॥ अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव
कांख दाबि कपिराज कहं चला अमित बल सींव॥ १००
चौपाई॥ उमा करत रघुपति नरलीला॥ खेल गरुड़ जिमि
अहिगण मीला॥ भृकुटि विलास जो कालहि खाई॥ ता
ताहि कि ऐसी सोह लराई॥ जग पावन कीरति विस्तरहीं
गाइ गाइ नर भवनिधि तरहीं॥ मूर्छा गइ मारुतसुत जागा
सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥ कपिराजहु कर मूर्छा बी
ती॥ निबुकि गये तिहि मृतक प्रतीती॥ काटेसि दशन ना
सिका काना॥ गर्जि अकाश चला तें हि जाना॥ गहेसि च
रण धरि धरणि पछारा॥ अति लाघव पुनि उठि तेहि मा
रा॥ पुनि आयउ प्रभु पहँ बलवाना॥ जयति जयति जय
कृपानिधाना॥ नाक कान काटे तें हि जानी॥ फिरा क्रोध
करि मा निगलानी॥ सहज भीम पुनि विनु श्रुति नासा
देखत कपि दल उपजी त्रासा॥ दोहा॥ जय जय जय र
घुवंश मणि धाये कपि करि हूह॥ एकहि वार जो तासु
पर छाडे गिरि तरु जूह॥ १०१॥ चौपाई॥ कुम्भकर्ण रणर

रुः विरुद्धा ॥ मनहुचलाकालजिमिक्रुद्धा ॥ कोटिको
टिकपिधरिधरिखाई ॥ जनुटिड्डीगिरिगुहासमाई ॥ कोटि
न्हगहिशरीरसनमर्दा ॥ कोटिनमीजिमिलायेसिगर्दा ॥
मुखनासिकाश्रवणकीबाटा ॥ निकसिपराहिंभालुकपि
ठाटा ॥ रणमदमत्तनिशाचरदर्पी ॥ मानहुविश्वग्रसनकहं
अर्पी ॥ मुरेसुभटरणफिरहिंनफेरे ॥ सूझननयनसुनैन
हिटेरे ॥ कुम्भकर्णकपिफौजविदारी ॥ सुनिधायेरजनी
चरझारी ॥ देखारामविकलकटकाई ॥ रिपुअनीकनाना
विधिआई ॥ दोहा ॥ सुनुसोमित्रविभीषणसकलसंभारहु
सयन ॥ मैदेखौंखलदलबलहिंबोलेराजीवनयन ॥ १०२
चौपाई ॥ करशारधनुषमाजिकटिभाथा ॥ अरिदलदलन
चलेरघुनाथा ॥ प्रथमकीन्हप्रभुधनुषटंकोरा ॥ रिपुदल
बधिरभयेसुनिसोरा ॥ धनुसंधानिकोटिशरलदा ॥ कालस
र्पजनुचलेसपक्षा ॥ जहंतहंविपुलचलेनाराचा ॥ लगेक
टनभटविकटपिशाचा ॥ काटहिंचरणउरसिरभुजदंडा ॥
बहुतेकवीरहोहिंशतखंडा ॥ घूर्मिघूर्मिघायलमहिपर
हीं ॥ उठहिंसंभारिसुभटफिरिलरहीं ॥ लागतबाणजल
दजिमिगाजहिं ॥ बहुतेकदेखिकठिनशरभाजहिं ॥ रुंड
प्रचंडमुंडबिनुधावहिं ॥ धरुधरुमारुमारुगोहरावहिं ॥ दो
हा ॥ क्षणमहंप्रभुकेशायकन्हिकाटेविकटपिशाच ॥ पुनि

मालव

रघुपति के त्रण महं प्रविशे सब नाराच ॥ १०३ ॥ चौपाई ॥
कुम्भकर्ण मन दीख विचारी ॥ हणमहं हते निशाचर भारी
भयउ क्रोध दारुण बलवीरा ॥ करि मृगनायक नाद गंभीरा
कोपि महीधर लियेउ उपारी ॥ डारेसि जहं मर्कट भट भारी ॥
आवत देखि शैल प्रभु भारे ॥ शरनि काटि रज सम करि डारे
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ॥ छाडे अति कराल बहु
शायक ॥ तनु महं प्रविशि निसरि शर जाहीं ॥ जिमि दामि
नि घन मांझ समाहीं ॥ शोणित स्रवत सोह तनु कारे ॥ जि
मि कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ विकल विलोकि भालु कपि
धाए ॥ विहँसा जबहिं निकट चलि आए ॥ दोहा ॥ गर्जेउ त्य
येउ वेग अति कोटि कोटि गहि कीश ॥ महि पटकै गजराज
इव शपथ करै दशशीश ॥ १०४ ॥ चौपाई ॥ भागे भालु कपि
न के यूथा ॥ प्रबल पवन जिमि मेघ बरूथा ॥ चले भालु क
पि भागि भवानी ॥ विकल पुकारत आरत बाणी ॥ यह नि
शिचर दुःकाल सम अहई ॥ कपि कुल देश परन अब चहई
कृपावारिधर राम खरारी ॥ पाहि पाहि प्रणतारतिहारी ॥
सकरुण वचन सुनत भगवाना ॥ चले सुधारि शरासन
बाणा ॥ राम सेन निज पाछें घाली ॥ चले सकोपि महाबल
शाली ॥ खैंचि धनुष शत शर संधाने ॥ छूटे तीर शरीर समा
ने ॥ लागत शर धावा रिस भरा ॥ कुधर डगमगत डोलत धरा

लीन्हातेहिएकशैलउपाटी॥रघुकुलतिलकभुजासोइकाटी॥धावाबामबाहुगिरिधारी॥प्रभुसोउभुजाकाटिमहिडारी॥काटैभुजसोहैखलकैसें॥पक्षहीनमन्दरगिरिजैसे उग्रविलोकनिप्रभुहिंविलोका॥मानहुंग्रसनचहततैलोका॥दोहा॥करिचिक्कारघ्रतिघोररवधावावदनपसारि॥गगनसकलसुरत्रासघ्रतिहाहाकारतपुकारि॥१०५॥चौपाई॥सभयदेवकरुणानिधिजाने॥श्रवणापर्यन्तशरासनताने॥छाडेविशिखनिकरमुखभरेऊ॥तदपिमहावलभूमिनपरेऊ॥शरनिभरामुखसनमुखधावा॥कालत्रोणसजीवजनुआवा॥तवप्रभुकोपितीव्रशरलीन्हा॥धरतेंभिन्नतासुसिरकीन्हा॥सोसिरपरादशाननआगे॥विकलभएउजिमिफणिमणित्यागे॥धरणिधसैधरधावप्रचण्डा॥तवप्रभुकाटिकीन्हदुइखण्डा॥परेभूमिजिमिनतेंभूधर॥हेठदाविकपिभालुनिशाचर॥तासुतेजप्रभुवदनसमाना॥सुरमुनिसवहिंअचम्भामाना॥नभदुन्दुभीवजावहिंहर्षहिं॥जयजयकरिप्रसूनसुरवर्षहिं॥करिविनतीसुरसकलसिधाए॥तवतेहिसमयदेवऋषिआए॥गगनोपरिहरिगुणगणगाये॥रुचिरवीररसप्रभुमनभायेवेगिहतहुखलकहिमुनिकहिगएउ॥रामसमरमहिंशोभितभएउ॥छन्द॥संग्रामभूमिविराजरघुपतिअतुलवलकोशल

धनी॥श्रमविन्दुमुखराजीवलोचनरुचिरतनुशोणित
कणी॥५॥भुजयुगलफेरतशरसरासनभालुकपिचहुंदि
शिबने॥कहदासतुलसीकहिनशककछविशेषजेहिआ
ननघने॥६॥**दोहा**॥निशिचरअधममलाकरताहिदीन्ह
निजधाम॥गिरिजातेनरमन्दमतिजेनभजहिंश्रीराम॥१०
चौपाई॥दिनकेअन्तफिरीदोउअनी॥समरभएउसुभटन
श्रमघनी॥रामकृपाकपिदलबलबाढा॥जिमितृणपा
इअनलअतिडाढा॥छीजहिंनिशिचरदिनअरुराती॥नि
जमुखकथेसुकृतजेहिभांती॥बहुविलापदशकन्धरकर
ई॥पुनिपुनिबंधुशीसउरधरई॥रोवहिंनारिहृदयहतिपा
णी॥तासुतेजबलविपुलवखानी॥मेघनादतेहिअवसर
आवा॥कहिबहुकथापितहिंसमुझावा॥देखिहुकालि
मोरिमनुषाई॥अबहिंबहुतकाकरौंबडाई॥इष्टदेवसनजो
बरपाएउं॥सोबलतातनतुमहिंसुनाएउं॥एहिविधिजल
पतभएउबिहाना॥लगेभालुकपिचहुदिशिनाना॥इतक
पिभालुकालसमवीरा॥उतरजनीचरअतिरणधीरा॥लर
हिंनिशाचरनिजजयहेतू॥बरणिनजाइसमरखगकेतू॥
दोहा॥मेघनादमायामयरथचढिगयेउअकाश॥गर्जेउअ
ट्टहासकरिभइकपिदलअतित्रास॥१०७॥**चौपाई**॥शक्तिशू
लशरपरिघकृपाणा॥अस्त्रशस्त्रकुलिशायुधनाना॥डारेप

रघुचंड पाषाणा ॥ लागेउ वृष्टि करै विधि नाना ॥ दशादिशि
रहेउ बाण नभ छाई ॥ मानहुं मघा मेघ झरि लाई ॥ धरु धरु
मारु सुन न हि कपि काना ॥ जो मारे ते हि कोउ न जाना ॥ गहि
गिरि तरु आकाश कपि धावहिं ॥ देखहिं ते हि न दुखित फि
रि आवहिं ॥ अवघट घाट बाट गिरि कंदर ॥ माया बल की
न्हेसि शरपंजर ॥ जांहि कहां व्याकुल भए बंदर ॥ सुरपति
बंदि परे जनु मंदर ॥ पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण ॥ श
रन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तनु ॥ पुनि रघुपति सन जूझे ।
लागा ॥ शर छांडउ तहं होइ लागहिं नागा ॥ व्याल पाश वश
भए खरारी ॥ अविगत अजित एक अविकारी ॥ नट इव
चरित करत विधि नाना ॥ सदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥ रण
शोभा लगि प्रभु बंधावा ॥ देखि दशा देवन भय पावा ॥ दो॰
गिरिजा जाकर नाम जपि मुनि काटहिं भव पाश ॥ सो कि बं
धन तर आवे व्यापक विश्व निवास ॥ १०८ ॥ चौपाई ॥ चरित
राम के सगुन भवानी ॥ तरकि न जाइ बुद्धि मन बाणी ॥ अ
स विचारि जो परम विरागी ॥ रामहिं भजहिं तर्क सब त्या
गी ॥ व्याकुल कटक कीन्ह घननादा ॥ पुनि भा प्रगट कह दु
र्वादा ॥ जाम्बवंत कह खल रहु ठाढा ॥ सुनि के ताहि
क्रोध अति बाढा ॥ बूढ जानि शठ छाडेउ तोही ॥ लागेसि अ
धम पचारन मोही ॥ अस कहि तरल त्रिशूल चलावा ॥ जा

रा.मा.
लं.
२२

27

स्रवतसोकरगहिधावा॥मारेसिमेघनादकैछाती॥परा
परणिघूर्णितसुरघाती॥पुनिरिसाइगहिचरणफिरावा
महिपछारिनिजबलहिदेखावा॥वरप्रसादसोमरैनमा
रा॥तवपदमहिलंकापगुधारा॥इहांदेवऋषिगरुडपठावा
प्रभुसमीपअतिआतुरआवा॥दोहा॥खगपतिसवधरि
खाएमायानागवरूथ॥मायाविगतभएसवहर्षेवा
नरयूथ॥१०९॥गहिगिरिपादपउपलनखधायेकीशरि
साइ॥चलेतमीचरविकलअतिगढपरचढेपराइ॥११०
चौपाई॥मेघनादकैमूर्छाजागी॥पितहिविलोकिलाजअ
तिलागी॥तुरतगएउगिरिवरकंदरा॥करउँअजयमख
असमनधरा॥सोसुधिपाइविभीषणकहई॥सुनुप्रभुस
माचारअसअहई॥मेघनादमखकरैअपावन॥खलमा
याविदेवसतावन॥सोप्रभुसिद्धहोइजौंपाइहि॥नाथवे
गिरिपुजीतिनजाइहि॥सुनिरघुपतिअतिशयसुखमा
ना॥वोलिलियेअंगदहनुमाना॥लछमणसंगजाउसस
वभाई॥यज्ञविध्वंसकरहुतमजाई॥तुमलछमणरण
मारेहुओही॥देखिसभयसुरवडदुखमोही॥जाम्बव
तकपिराजविभीषण॥सेनसमेतरहहुतीनौजन॥ज
बरघुवीरदीन्हअनुशासन॥कटिनिषंगकरवाणश
रासन॥प्रभुप्रतापउरधरिरणधीरा॥वोलेउघनइवगिरा

गभीरा ॥ जौं तेहि आजु बध पबिनु आवौं ॥ तौ रघुपति सेव
कन कहावौं ॥ जौं शत शङ्कर करहिं सहाई ॥ तदपि हतौं
रघुवीर दोहाई ॥ दोहा ॥ वन्दि रामपद कमलयुग चले त
रन्त अनन्त ॥ अङ्गद नील मयंद नल सङ्ग सुभट हनुमन्त
चौपाई ॥ जाइ कपिन्ह देखा सो वैसा ॥ आहुति देत रुधिर अ
रु भैंसा ॥ नब कीशन कृत यज्ञ विध्वंसा ॥ जब न उठै तब क
रहिं प्रशंसा ॥ तदपि न उठै धरहिं कच जाई ॥ लातन्ह हति ह
ति चलहिं पराई ॥ लै त्रिशूल धावा कपि भागे ॥ आवा राम
अनुज के आगे ॥ आवत परम क्रोध करि मारा ॥ गर्जि घोर
रव बारहि बारा ॥ कोपि मरुतसुत अङ्गद धाये ॥ हति त्रिशू
ल उर धरणि गिराये ॥ प्रभु पर छाडेसि शूल प्रचण्डा ॥ शर
हति कृत अनन्त युग खण्डा ॥ उठि बहोरि मारुत युवरा
जा ॥ हतेउ कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ फिरे वीर रिपु मरै न मा
रा ॥ पुनि धावा करि घोर चिकारा ॥ आवत देखि क्रुद्ध जनु
काला ॥ लक्ष्मण छाडे विशिख कराला ॥ आवत देखि ब
ज्र सम बाणा ॥ तुरत भयो खल अन्तर्धाना ॥ विविध वेष ध
रि कैरैल राई ॥ कबहुं प्रगट कबहुं दुरि जाई ॥ तब त्रिशूल
डारेसि लक्ष्मण पर ॥ काटि कीन्ह शत खण्ड धरणि धर ॥
शिलखर एक लै पुनि सो धायो ॥ राम अनुज सो काटि गिरा
यो ॥ दोहा ॥ आयुध विविध प्रहार किय रजसम कीन्ह फणी

श॥ विस्मयहर्षरहितरघुराई॥ विबुधसहितसुरईशा॥ ९२
चौपाई॥ विविधायुधसोछांडनलागा॥ रणकाननकूटहिं
जिमिनागा॥ रामअनुजशरगरुडसमाना॥ उमाग्रसत
कूटअभिमाना॥ देखिविभीषणरिपुउरपेकीशा॥ परमक्रु
द्धतबभयउअहीशा॥ लक्ष्मणमनअसमंत्रदृढावा॥ एहि
पापीमैबहुतखेलावा॥ सुमिरिकोशलाधीशप्रतापा॥
शरसन्धानकीन्हकरिदापा॥ देखियजिमिरविउदयसमा
ना॥ फूंकरतमनहुंव्यालअनुमाना॥ छाडेउबाणमाझउर
लागा॥ मरतीवारकपटसबत्यागा॥ शीसपरेउधरणीपर
जबहीं॥ भुजादाहिनीनभमोगई॥ ज्वनसमानसोगर्जिअभा
गा॥ शीसभुजाकाटेनृपनागा॥ दोहा॥ रामअनुजकहिरा
मकहिअसकहिछाडेउप्राण॥ धन्यशक्रजितजननि
तवकरधृअङ्गदहनुमान॥ ९३॥ चौपाई॥ जोजगकहंदंडु
कयमदंडा॥ हरिद्रोहीसतसमरप्रचंडा॥ महिमाअमित
महाबलसीवा॥ जासुप्रतापअभयदशग्रीवा॥ भुजबल
सुरनायकवशकीन्हा॥ चौदहभुवनजीतियशलीन्हा॥
रिपुनकुलक्ष्मणमुलखनिगंजेउ॥ जिमिगजकमलना
लगहिभंजेउ॥ जिमिबासबगदिकुलिशकराला॥ की
न्हविकलगिरिपतविहाला॥ रणसागरमहपरेउशरीरा
नैदारुजिमिकुपिरसुनीरा॥ सत्तविकटसलपरमभयाव

न॥ विकुरसबनचखबग्रशुभग्रपावन॥ रसनालालरङ्कः
जनुजावक॥ दबकिशिखासोहजनुपावक॥ पाइसखश्रा
यसब्रषभकपीशा॥ करगहिलीन्हदुष्टकरशीसा॥ दोहा
करिश्रममारेउमहारिपुहिंरामाज्ञुजरणधीर॥ विदुरसब
नवर्षहिंविबुधकहिजयगिरागम्भीर॥ ११४॥ चौपाई॥ वि
नुप्रयासहनुमानउठावा॥ लंकाद्वाररविपुनिश्रावा॥ ना
खमरगणसुनिसुरगंधर्वा॥ चढिविमानश्रापनभसर्वा॥ व
र्षिसुमनदुंदुभीबजावहिं॥ श्रीरघुवीरविमलयशगावहिं
जयश्रनन्तजयजगदाधारा॥ प्रभुतुन्हसबदेवन्हनिस्तारा
ग्रस्तुतिकरिसुरसिद्धसिधाए॥ लक्ष्मणकृपासिंधुपहिंश्राए
सुतबधसुनादशाननजबहीं॥ मूर्छितभएउपरेउमहितबहीं
मन्दोदरीरुदनकरभारी॥ उरताडतबहुभांतिपुकारी॥ नग
रलोकसबव्याकुलशोचा॥ सकलकहहिंदशकन्धरपो
चा॥ दोहा॥ तबदशकण्ठविविधविधिसमुझाईसबनारि॥
नश्वररूपजगतसबदेखहुहृदयविचारि॥ ११५॥ चौपाई॥
तिन्हहिंज्ञानउपदेशारावण॥ श्रापुनमन्दकथाशुभभावन
परउपदेशकुशलबहुतेरे॥ जेश्राचरहिंतेनरनघनेरे॥ प्रभु
हिविलोकिशीसपदनाएउ॥ उठिप्रभुहर्षिश्रनुजउरलाएउ
कृपादृष्टिश्रनुजन्हिप्रभुहेरा॥ विगततापकीन्हेउंकरफेरा॥
बाणवेधटेवियतनुकैसे॥ कनकलताणपारसुरतिजैसे॥ स

खप्रसन्नतादेखिमिलेसब॥रिपुबधकहेउविभीषणहींत
व॥यरतेंहिंसीसस्रानिप्रभुआगे॥वानरभालुविलोकनला
गी॥प्रभुकौतुककीविलोकेउशीसा॥राखनकहेउकोशला
धीसा॥दोहा॥प्रभुआयसुसुनिकीशपतिराखेउयतनकराइ
कटकसहितरघुवंशमणिशोभितदोनोभाइ॥१६॥चौ०॥
कृपादृष्टिकपिभालुनिहारे॥भएसमरहितरामबैठारे॥
सुनहुउमापहिविपरिपुमारे॥सुरनरमुनिसबभयेसुखा
रे॥अवसोसुनहुबोहतिहिकेरी॥खगज्योंलंकागईपार
प्रेरी॥मेघनादआकुलनमहिंपरी॥वाणविद्धिशोणितसों
भरी॥राजतितहांसुलोचनावैसी॥रतितैंरुचिरस्रूपगुण
जैसी॥नागसुतादशकंठपतोहू॥वासवरिपुतियरुचिविम
यजोहू॥हेमसिंहासनसोहतिबाला॥सेवहिंवियायरीति
यमाला॥पूजहिंविबुधविनयकरितासी॥सुखप्रभेंदको
शकहिमराही॥तहंपतिभुजापरीप्रहिभाती॥मनहुंसक
लसुखनरूकीकांती॥दोहा॥तिहिंदिशिदासीदेखिकर
शोणितसुवभुजदंउ॥भएउसमरआश्चर्यमनहुंअखेउल
खेउ॥१७॥चौपाई॥सुनिकेसकलसखीसुखवयना॥नजि
सिंहासनउठीसुनयना॥नारिसुभावथकथकीथरकी॥।
सुचकप्रभुभटतिणभुजफरकी॥होतसहारणरावण
गमहिं॥बीरपुरीणसोरथीयनामहिं॥सकलसुरासरण

कहिनजूझी॥ विधिकोमनतौपरैनहिबूझी॥ इतनाकह
तिगईचलिआपू॥ पतिभुजलखिकरिकोटिविलापू॥ के
कणमणिगणभूषणसोई॥ महाविटपसमआननहो
ई॥ देखतिमनहिनआवततेही॥ ताम्हप्रभावम्हनापहिले
ही॥ नीदनारिभोजनपरिहरई॥ बारहवरषताम्हकरमरई
दोहा॥ करिविचारमनठीकटैमेपतिदैवतनारि॥ भुजलि
खिमेंठहूदुचितईम्हनिकरदीन्हपसारि॥ ११८॥ चौपाई॥ ल
खिरूखताम्हसखीउठिधाई॥ तुरतहीखोजिखबरीलैआई
दीन्हहाथपरमणिअंगनाई॥ लिखतिलखणकोरतिहू
चिराई॥ नीदनारिभोजनशतकोटिक॥ तजैंताम्हमहिंमा
यहकोटिक॥ अतयअव्ययअजअविनाशी॥ अतलअ
मितघटघटकेवासी॥ प्रगटहिंपालहिंपुनिजगहरहीं॥
त्रिगुणरूपत्रयमूरतिकरहीं॥ जोकालहूकरकालभ
यंकर॥ वरणतम्हयशशारदाशंकर॥ परहिंविविधत
नुसेवकहेत॥ जाम्हनामभवसागरसेतू॥ मुनिमनपुंडरी
कजाकेघर॥ वचनविवेकविचारबुद्धिपर॥ दोहा॥ कोटि
कल्पवरणतनिगमआगमजाम्हगुणगाथ॥ तमशरीरा
जउजीहविनुकिमिवरणोंलिखिहाथ॥ ११९॥ चौपाई॥ म
मसिरगपउजहोरघुराई॥ तववचननिलगिभुजापठाई
पढिविधिलिखीसकलभुजवाता॥ परीभूमितलअतिविल

गोड २

रामा.
लं.
३०

30

पाता ॥ बांचि सकल भुज लिखब जथारथ ॥ लक्ष्मण राम
जानि परमारथ ॥ नारि स्वभाव तदपि बहु भांती ॥ बिलपहिं
मिलि सखीयनि की पांती ॥ गुण गण साहस शील नाह
को ॥ कहि रोवहि बल बिजय बाहु को ॥ जिहिं भुजबल
सुरनाथ बिगोय ॥ सो प्रभु आजु समर महिं सोय ॥ मणि
गण भूषण बसन बिसारहिं ॥ महि लोटहिं करतल सि
र मारहिं ॥ मगन शोक सरित न थुपि नाहीं ॥ दारुण बिप
ति कहौं किहि पाहीं ॥ तिणि कप्रबोध सखी कोउ करई ॥ ब
ढ़ि रि शोक दावानल जरई ॥ तण तणु उठति परति धरा
णी तल ॥ पुनि रोवहि सराहि पति कर बल ॥ दोहा ॥ तिन
मह सखी सयानि एक कहि समुझाई बैन ॥ शोक छाडि
पतिदेवता सुमति करिय जिय चैन ॥ २२० ॥ चौपाई ॥ सुनि
कहहु सहसानन नतु जाता ॥ सत्य कहा तुम्ह सखी सुबाता
बिधि निर्मित मो कहहु दुखलाहु ॥ सुख परि शुरि भुवन सब
काहु ॥ बिजय राम लक्ष्मण कहं आपउ ॥ सुयश सकल म
कंटक कुलपापउ ॥ कुलकलंक बउल हेउ बिभीषण ॥ कुल
कदार शुम सने उनदीषण ॥ कुटी बन्दि सब सुरगण केरी
निज निज पुर निदु हाई फेरी ॥ मुनि पुल सत्य कर आकुल
नाषण ॥ अब रविशशि सब कर हि प्रकाशा ॥ तेज बन्त पाव
क परिहरि दुख ॥ बरहिं समीर अनंत अपने सुख ॥ सलिल

गगनभूनिर्मलआज्‌ ॥ सुबसबसहिंसुरनायकराज्‌ ॥
दोहा ॥ यमकुबेरदिकपालसबप्रमुदितसुरनरनाग ॥ खा
ईआचायविहायडुखपायसुयत्तविभाग ॥ १२१ ॥ चौपाई ॥
इतनाकहिमंदिरमहआई ॥ देखतिमणिगणाथनबहुता
ई ॥ सुरपतिभवनपटतरनाई ॥ ऋद्धिसिद्धिजहंसकलक
माई ॥ देखतविषयनमनअनुरागेउ ॥ पतिपदनेहनिपुण
मनलागेउ ॥ दीन्हेंमणिगणभूषणचीरा ॥ येन्नपरणिग
जहाटकहीरा ॥ मणिमयशिविकारचउबनाई ॥ भुजच
ढाइपहराववनाई ॥ आपुनुचढतिभईतहंआई ॥ सुरदु
र्लभसुखसदनविहाई ॥ वीतरागजिमितजहिंविषयग
ण ॥ सहसभांतिपतिपदलागेउमन ॥ शुकपणिकासु
लोचनाआप ॥ कनकपिञ्जरन्हिराखिपढाप ॥ व्याकुल
कहहिंनेकहासुनयना ॥ सुनिधीरजपरिहरियसुबय
ना ॥ भयेविकलखगमृगपहिभांती ॥ अपरदशाकेसेंक
हिजाती ॥ प्रजालोगआतरसंगलागे ॥ प्रेमउमगिलोचन
जलपागे ॥ दोहा ॥ बाजनलगेनिसानगणढोलडुन्दुभी
भेर ॥ पुरजनपरिजनसंगसबचलेपालकीघेरि ॥ १२२ ॥ चौ
पाई ॥ देखिभीरदशाकंपरहारे ॥ सजगहोउसबवीरप्रचारे
जानाकरहकरिपुन्हिकरआई ॥ असुशासुकरपरहुबनाई
पवुषबढायतुणाकरिवांपहिं ॥ गहिअसिचर्मवीरवरमा

जहिं॥तोमरपरसुप्रचण्डगदागहिं॥नीलग्रीवोखेसूल
शक्तिलहिं॥मारुमारुथरुथरुकहियावहिं॥प्रगटदशा
ननविजयसुनावहिं॥गर्जितजिकहिगिरागम्भीरा॥स
मरभयंकरनिशिचरवीरा॥निपटहिंनिकटपालिकीआ
ई॥चीन्हसकलभटरहेलजाई॥देखिजुहारिनागपतिक
न्या॥सतीशिरोमणित्रिभुवनधन्या॥दोहा॥द्वारपालट
पाकेंथकहसमयसुनायउजाइ॥भईरजायसवेगिहीं
लेहुसुता[illegible]देखुलाइ॥१२३॥तिहंअवसरहिसुलोचना
गहेचरणसिरनाइ॥राखिभुजाघननादकीकरुणाव
चनसुनाइ॥१२४॥चौपाई॥तमरहिप्रकृतश्रमहालहमा
री॥सुखतजिभयउशोकअधिकारी॥नभमारगभुजम
मगृहपरी॥संशयजानिदीन्हकरखरी॥लिखीरामल
ह्मणमहिमाइन्ह॥क्रमसोंसबविधकथाकहीतिन्ह॥ठ
गिसीरहीवांचिगुणगाथा॥जरउंसंगजौपाऊंमाथा॥रण
केमध्यभुजममगृहआई॥सिरतहंजहंनररसहोभाई॥क
रियसोजतननमिलैमोहिशीशा॥तुम्हसर्वज्ञचराचरईशा
सुनतकलिशसमगिरावधूकी॥जीवनआशादशाननसू
की॥नदीपिधीरधरिकरतनप्रबोधा॥कइजगमोहिसमानको
जोधा॥दोहा॥रामलक्ष्मणसुग्रीवनलनीलद्विविदहनु
ना॥साधविभीषणजाम्बवंतकोआनैंमारिनरम्न॥१२५॥

चौपाई ॥ अचल गिरि हहा भरोसा भारी ॥ कुम्भकरण घननना
दसहारी ॥ मैहूं आजु लगि कीन्ह न जूझा ॥ इन्ह सब कर पुरु
षारथ बूझा ॥ मरे ते नर वानर के मारे ॥ बात सुनत बडि लाज
हमारे ॥ गनती कवन वीर महं तिन्ह की ॥ अति दुर्दशा कीन्ह
कपि जिन्ह की ॥ क्रोडि सोच कुल बधु पतोहू ॥ जानेउ उन्ह स
मान जिन्ह मोहू ॥ पुनि विलंब कराहु घटि चारी ॥ देखहु मो
रि भयंकर मारी ॥ आनिहु पीपा सब पाउन्ह केरा ॥ विनुपथा
सन हिला गाहि वेरा ॥ भूगावहि जन्तु पुराकृत भोगा ॥ तनु
कत निशिचर वनचर योगा ॥ दोहा ॥ मेरुउ पारनहार जेथ
रापर हि कर बीच ॥ ते भट खोप मशाक शिशु काल कुटिल
ता नीच ॥ २६ ॥ चौपाई ॥ कोपावेश प्रगट बल बोलहि ॥ हृद
य शोक न रूप अचल न डोलहि ॥ समाधान नहि मान निमोई
सुनि प्रलाप परितोष न होई ॥ नर वानर पुरुषारथ देखत ॥
बडौ प्रपञ्च कोट करि लेखत ॥ कहहि निसिंधु लंका कपि जारी
लघु करि मान न ताहि सुरारी ॥ कुम्भकर्ण अतिकाय महोद
र ॥ मम पति गिरेउ संशय न सहोदर ॥ तेंहि रिपु चहहि हितदशा
नन जीती ॥ उन रूद्देउ तौ पात कहोई ॥ करि विवाद अब सर्वो
सु खोइ ॥ फिरेउं राज तो हि न काजू ॥ विनु प्रिय सकल नरक
करसाजू ॥ दोहा ॥ वरन हीउ दीसुलोचना गाई मय सुतनाजू
पाम ॥ परगहि गोवति सब कही प्रगट शोक उपहास ॥ २७

देखिय महामोह की रीती ॥ इती ४

चौपाई॥ आदिहितेंसबकथावखानी॥ सुनिसुनिरोवहि
रावणरानी॥ कहीसोपतिभुजलिखितवहोरी॥ रामलक्ष्म
णमहिमानदिषोरी॥ कहेउबहुरिदशकंधरक्रोधा॥ मरेउ
विहंबनकीन्हसोजोधा॥ सुनिसोपुत्रबंधुकीबाणी॥ बोली
दुखितमंदोदरिरानी॥ कहोसोमानबमत्नसयानी॥ सुनि
जोनारदमुखकीबाणी॥ पाछिलीबातभईसबसांची॥ अ
नुभवकीन्हनपकौवांची॥ देखिनहोइहुणाइरषिभाषित
अपनेमहामोहमनमाखित॥ अगिलीकथासमाजसमे
ता॥ सुनहुपुत्रिअरषिवर्णौउजेता॥ वीरभावदशकंधरजू
झहि॥ प्राणइंगयेनीतिनहिबूझहि॥ बंधुभेदलंकागढ
टूटहि॥ सुरनरनागबंदितेंछूटहि॥ सीयशोकसंकटतेंकु
टहि॥ वानरभालराजगृहलुटहि॥ धनमणिभूषणवसन
विमाना॥ भोगकरहिमर्कटकुलनाना॥ दोहा॥ राजविभी
षणपाइहैअमरकल्पनिर्बाहि॥ भावीवशसुखदुखजग
तउपदेशियकहुकाहि॥ २२८॥ चौपाई॥ सुनिवचननिकीमो
हिप्रतीती॥ अनुभवसदाहारिअरुजीती॥ तैंपुत्रीपरिहरि
सबशोका॥ पतिसंगजरितसाधिपरलोका॥ जाहिरामप
हिंपतिसिरलागी॥ तजिसकोचआनहिसिरमांगी॥ होव
नलाजआजकोभूषण॥ समयहीनगुणगणीयनदूष
ण॥ एकनाहिअनाहुपतिकेरा॥ लक्ष्मणसुजशतेंसुना।

बनेरा॥ हैपुनिससुरविभीषणनोरा॥ बालिसखबनहै
बालकमोरा॥ मंत्रीजाम्बवन्तसुग्रीवा॥ दुबिदमयन्द
पनसबलसींवा॥ जानियब्रह्मचर्य्यहनुमन्ता॥ शिव
स्वरूपभयहराभगवन्ता॥ सदानीतिरतरामनरेशू॥ त
हांजातकछुकवनकलेशू॥ दोहा॥ विदितनोहिपतिसु
जलिखितलक्ष्मणरामप्रभाउ॥ महासुऋषिभाषित
भयउअबबिलंबनहिंलाउ॥ ५२९॥ चौपाई॥ सुनतसासु
सुखकीहितबाणी॥ जाइरामपाहियहउरआनी॥ बार
बारचरणनिसिरनाई॥ चलीजहांलक्ष्मणरघुराई॥ दे
खिकटककभालुकपिकेरी॥ सिंधुसुवेलमहीधरघेरी॥
उमगेउमनहुमहोदधिहसर॥ हरितिपिंगकपिभूमिल
भूसर॥ लूमिलालमाणाकीनहेरी॥ मनहुंलपटबडु॰
बानलकेरी॥ स्रवतरुधिरभुजसहजभयंकर॥ जहंत
हंप्रगटहोतजनुजलधर॥ लक्ष्मणप्रोपसुअंकशीस
धरि॥ कटकजलधिसोवतराघवहरि॥ सुत्तयबटतर
बैठविभीषण॥ अससुकृतीजगसुनानदीषण॥ दो॰
देखतिहर्षसुलोचनाधीरजधरतिवहोरि॥ महाराज
रघुवीरकहंबिनयसुनायहिमोरि॥ ५३०॥ चौपाई॥ बा
नरसकलउठेसबबोली॥ अरिपुरतेंआवतपकडोली
इहजानीयरावणसबबूझा॥ भयीमतिमेघनादजबजू

ऊ॥ हरतजिसीतहिंदीन्हपठाई॥ तजहुशोचअबमि
टीलराई॥ जेहिलगिप्रगटकीन्हरघुआगी॥ बांधेउसेत
हेतजेहिलागी॥ सोसीताअबबिनुश्रमपाई॥ जानहुबि
पिअतुक्कलअबाई॥ विजयरामसुग्रीवहिंआपउ॥ सुग्र
प्रामकलवानरकुलपायउ॥ विरहरामलक्ष्मणकरछूटे
उ॥ विनुप्रयासलंकागढ़टूटेउ॥ युगयुगकीरतिरहह
हिंहमारी॥ कतरणकरतहमलखुवनचारी॥ दोहा॥ प
हिविधिचारुविचारकरिदीन्हठीकमनमांहि॥ भएउ
काजरघुराजकरबातहमरीनांहि॥ १३॥ चौपाई॥ पैठत
कटकअतिशयसकुचाई॥ आनचिन्हारिजिमिपरघरजा
ई॥ आगेजाइदीखरघुवीरहिं॥ कविमयश्यामलगौरश
रीरहि॥ मर्कतकनककक्षविहिंजनुनिदक॥ सोजनधन्य
उमाजेवंदक॥ मत्तगयंदशुंडभुजदंडा॥ धनुषबाणअ
सिपरैंप्रचंडा॥ उरविशालअतिउन्नतकंधर॥ कंबुकंठ
रेखात्रयसुन्दर॥ मुखछविकीउपमाकविजोहहिं॥ श
शिसरोजसमकहैंनसोहहिं॥ दशनपांतिकीकान्ति
कहैको॥ ललकतमनपटतरहिलहैको॥ देखतअधर
निकीअरुणाई॥ बिम्बाफलबंधूकलजाई॥ शुकनासा
हिंनासिकालजावहि॥ थकेसुकविनहिपटतरपावहि॥
दोहा॥ कविमयमनुगुणमयतेजमयरामउदधिअवगाह॥

जहांनपावतपारसुरकोवरणैकविषाद॥१२३॥चौ०
भृकुटीविकटकपोलसुहाये॥शीशजटाकेमुकटबना
ये॥भालविशालतिलकजुतसोहइ॥ध्यानसमयलखि
मुनिमनमोहइ॥वल्कलवसनतूणकटिबांधे॥करश
रसुभगशरासनकांधे॥बीरासनआसनमृगछाला॥न
वपल्लवप्रसूनकीमाला॥चरणसरोजवरणिनहिजाई
रहंमुनिमधुकरसदालोभाई॥प्रगटभईजेहिपलनैंगं
गा॥श्रुतिपुराणकहिकथाप्रसंगा॥नवहिंमहेशवि
रंचिजाहिकहूं॥लोचनगोचरहोइकाहिकहूं॥भंजना
आरतभजनजोहित॥भवसागरतारणकहंवोहित॥दो
हा॥प्रणतपालविरदावलीजिन्हचरणनिकीबानि॥
सोचहरणसंशयदरणसकलसुमंगलखानि॥१२४॥
चौपाई॥करजोरैंअंगदहनुमाना॥दुविदमयंदकुमुद
बलवाना॥जाम्बवन्तकपिपतिबलशीला॥ऋषभा
सुषेणसहितनलनीला॥महावीरवानरसबराजहिं॥
लक्ष्मणविभीषणदुहुंदिशिभ्राजहिं॥मितभाषिनसर्वज्ञ
सुसेवक॥चितवहिंमुखरघुनन्दनदेवक॥सभामध्य
शोभितरघुनन्दन॥कीन्हेसिसुफलनिरखिनिजअज्ञ
न॥करनिहराउवनसिरयरियरणी॥तवसबकपावि
भीषणकरणी॥पुञ्जवयूदशकंपरकीहै॥पतिसेवता

गंभीर ४

रामा.
लं.
३४
34

सुलोचना नीहै ॥ मेघनादकी नारी सुशीला ॥ यह गति
न बिरोध की लीला ॥ दोहा ॥ मुये ज्ञानपति भुज लिखित
कहि समझाइ बोहि ॥ महाराज रघुवंश मणि जाचन आ
ई तोहि ॥ २५ ॥ चौपाई ॥ करि प्रणाम आदर नहीं थोरे ॥ करु
ना वचन कहत कर जोरे ॥ अति अस्तुती कीन्हा बहु भाती
हृदै सोच चिन्ता दिन राती ॥ अस्तुति किन्ह अहो प्रभु देवा
कृपा अनुग्रह अद्भुत सेवा ॥ नीत सुमीरौ मैत म्है गोसाई ॥
जेही विधि मोहि होउ सुखदाई ॥ दया करहु देवन्ह कै दे
वा ॥ राम नाम रह पेह के सेवा ॥ दीनदयाल अनुग्रहकारी
मोहि पतित प्रभु लेहु उधारी ॥ पतित हुमह जे पतिन कहा
ई ॥ ताहु गति दीन्हो रघुराई ॥ तह त्रिभुवन पति सकल वि
श्रामी ॥ करो दया प्रभु गरुडागामी ॥ छन्द ॥ विनती प्रभु
मोरी मै मती भोरी नाथ न वर मागो आना ॥ पदकमल प
रागा रस अनुरागा मन मधुप कर पाना ॥ १ ॥ यही भांति
सु मैना अस्तुति बैना बार बार चरनन्ही परी ॥ जो अतीम
न भावा सो वर पावा चरन नाइ भुइ सी सपरी ॥ २ ॥ मैनारी
अपावन प्रभु जग पावन त्रीभुअन जन सुखदाइ ॥ मै दासी
प्रभु चरनन्ह वासी अखल खल लैखेन हि कोइ ॥ ३ ॥ जे हिलागि
मै आरत सिर नाइ सो मोहि देहु कृपाल हरी ॥ प्रभु दयाला
अति कृपाला पावो भगती अनुपरही ॥ ४ ॥ दोहा ॥ अस म

भुदीनबन्धुहरिकारनरहीतकृपाल॥तुलसीदाससठता
हीभजुछाडीकपटजंजाल॥१३५॥तुम्हत्रिभुअनविलोक
कैहूसरअवरनकोइ॥काहीप्रकारोतहैकोप्रभुनामसनहो
इ॥१३६॥चौपाई॥तुम्हअन्तरजामीभगवाना॥प्रभुनाआदि
मध्यअवसाना॥करुणावचनसुनतरघुवीरा॥पुलकगाम
भएशिथिलशरीरा॥देउजिवायतोरपतिआजू॥भुंजहुले
ककल्पशतराजू॥छांडिशोचमनअतिदुखदाई॥तरितभ
वनअपनेंफिरिजाई॥सुनिअससत्यसिंधुकीवाणी॥मन
महवानरचमुंडेरानी॥कहिनसकैककुप्रभुरुखदेखी॥क
हाकरियकरनारअलेखी॥सीयशोचकरफलनहिहोइहि
जोकरिकृपारामयेहिजोइहि॥असविचारधरीमनआसा॥
जेहितेपावोप्रभुकैविलासा॥दोहा॥राजविभीषणलंकक
रकेहिविधकरिहहिंभाइ॥समुझिवैरघननादजवगदहि
शरासनजाइ॥१३७॥चौपाई॥सुखरुखलखिकपिशसवजा
ना॥प्रणतपालभगवानसमाना॥देखिवढ्तरघुपतिकर
कोहू॥विनयकरतिदशाकराटपतोहू॥आपुउदारदेवसव
लायक॥करुणामयदेखेउंरघुनायक॥मैंहुंविचारकीन्ह
मनमाही॥जीवनतेअसंमरणसराही॥भुजवलजीतिलो
कववशकीन्हे॥कोटहभुवनभोगकरिलन्हे॥रणनीरपअजा
चवनमलविन्हेउं॥प्राणसोपनलनमकरदिन्हेउं॥अवनउचि

तवित दैष्यपहारा॥ तिन्हिं पर अधिक सुदर्शन तुम्हारा॥ जा
नियहु मह्हूं मरवस न साथी॥ मिलव तुम्हहि जिमि मिलें स
माथी॥ दोहा॥ निर्मल गति अब सर भएउ सुनियसत्य रघुबी
र॥ तुम्हहि मिलें नहि होइ भव यथा सिंधु गत नीर॥ ११८॥
चौपाई॥ मन की जाननहार सुदेवा॥ भवसागर नाव हि र
हि खेवा॥ लीन्हेउ ऋषभ कपि श्रावु लाई॥ मेघनाद सिर दी
न्ह मगाई॥ पाइ कृतार्थ मानेउ आपू॥ मेटा विरह संभव परि
तापू॥ अंचल पोंच तिमुख की धूरी॥ कहि मम प्राण सजीव
न मूरी॥ देखि करत संशय सुग्रीवा॥ भुज महि लिखा सो मो
हि न सीवा॥ हसैं वदन तौ तीय यह सांची॥ नाहि तो निशिच
र माया नांची॥ कहय हज्ञान मृतक भुज गावै॥ जो मुनि व
र साधन तें पावैं॥ प्रभु यह कहेउ हस हियह सीशा॥ कियेउ
तर्क न उचित कपीशा॥ दोहा॥ शिर सों कहदनि सुलोचना
हस ढवे गिम मनाथ॥ ननरूपती तिन मानिहैं लिखा जो
तुम्हरे हाथ॥ ११९॥ चौपाई॥ तौ ओक विलंब कीन्ह न हि बोला
मृतक सो मुख मूंदित न हि बोला॥ पुनि पुनि कहति सो ना
गकुमारी॥ अमित भएउ रण महि करि भारी॥ लगेउ लखण
शर तो भव छावहिं॥ प्रभु समीप कत मोहि लजावहिं॥ जो
मन वचन कर्म यह देही॥ पति दैवत अनन्य सनेही॥ तौ प्र
भु सभा बीच सिर बोलहि॥ रहिजाइ हिजराल्यशाक्रमो त

हि॥ जौजानतितबयहगतिसांई॥ बोलिपठावतिपितहि
सहाई॥ सुनितीयवचनहसेउतबसीशा॥ चौकिउठेउसब
भालुकपीशा॥ हसेउठठाइबदनसबदेखत॥ विस्मयभए
उसकलजनपेखत॥ कोठिसेघसमसुनिनहिजाई॥ रहेउ
सोबदनबहुरिअरगाई॥ सकुचकपीशहितोषेउनारिहि
बउआश्चर्य्यभएउवनचारिहि॥ कहसुग्रीवचरणसिरना
इ॥ कारणकवनहसाशिरसांई॥ इहसुनिविहसिकहार
घुराई॥ सनुसुग्रीवकुतर्कविहाई॥ पतिब्रततीयजिनके
गृहमाही॥ यहबडिबाततिन्हहिकछुनाही॥ सुनितबसं
शयभएउकपीशा॥ तिहिकारणतेंहसायहशीसा॥ दोहा॥
शीशनाइप्रभुचरणगहिबहुविधविनयसुनाइ॥ आज्ञुके
दिनरणपरिहरहुममहितकोशलराइ॥ १५०॥ चौपाई॥ ब
हुरिविभीषणपदहिनमतिसो॥ रघुवरगुणगणहृदयभ
णतिसो॥ तमपितसमदशकंधरभाई॥ यहिकुलकीतोहि
लाजबडाई॥ सुनिपुलसत्यपरिवारकेदीपक॥ पापउफल
रघुवीरसमीपक॥ प्रथमसमोहवशाअनहितमानेउ॥ ज्ञानभ
येतबगुणपहिचानेउ॥ युगयुगकरवअकंटकराजू॥
सहितसुकीरतिसुकृतसमाजू॥ सुमिरततमहहिसुयश
जनपैहैं॥ रघुवरचरितसंगकरगैहैं॥ सुनतविभीषणकरु
णाभारी॥ प्रगटनकरतसमयअनुहारी॥ कालकर्मगतिक

हरिसमुझाई॥चलीतरितगुरुआयसुपाई॥दोहा॥बाहि
रकरिकपिकटकतैंफिरेविभीषणआपु॥विसरेउदशकं
धरवधनिरखिहोतसंताप॥४८॥चौपाई॥सिरचढाइपा
लिकीचढीसो॥रघुपतिकृपाप्रभाववढीसो॥हृदयराखि
मूरतिघनश्यामहि॥रसनारटतिनिरन्तररामहिं॥सरि
तसिंधुसंगमजहपावन॥यहहुथिपाइगयेतहंरावण
सङ्गमन्दोदरिसवरनिवासु॥मनहुंशोकरविकीन्हप्रवा
सु॥पाइरजायसुसेवकधाये॥चन्दनअगरभारबहुल्या
ये॥रचीदारुमयचिताबनाई॥जनुसुरलोकनसैंनीलाई॥
करिप्रणामसबजनपरितोषे॥धीरजधरिसुमिरतमन
चोषे॥सिरभुजधरिबैठीकरिआसन॥भईजनुयोगसिद्धि
कौआसन॥दोहा॥दीन्हअग्निज्वालबढीलपटगगनल
गिजाइ॥लखीनकाहूंजातसोसुरपुरपहुंचीधाइ॥४९॥
चौपाई॥सुतबधदीखदशाननजबही॥संभ्रममूर्छिपरे
उमहितबही॥दुखितहृदयनयनभरिआवा॥जनुसिरम
णिअहिराजगवावा॥हासुतसन्ततआज्ञाकारी॥करि
विलापदशकंधपुकारी॥शक्रआदिजीतेउसबदेवा॥सु
रमुनिनागकरहिसबसेवा॥हमररहानभुजबलदापा॥
स्वर्गभूमितलनपेउप्रतापा॥इहिविधकरिविलापलंके
शा॥भएउतेजहतपुञ्जउरगेशा॥मंदोदरीरुदनकरिभा

री॥उरताउहिबहुभांतिपुकारी॥नगरलोगसबव्याकुलभ
सोचा॥सकलकहहिंदशकंधरपोचा॥दोहा॥तबलंकेश
अनेकविधसमुझाईसबनारि॥नभ्वररूपप्रपंचयहदेख
हुहृदयविचारि॥१४३॥चौपाई॥तिन्हहिज्ञानउपदेशदिय
वण॥आपुनमंदकथाअतिपावन॥परउपदेशकुशलब
हुतेरे॥जेआचरहितेनरनघनेरे॥देखिचरितपुनितसर
गावहि॥वर्षिसुमनदुंदुभीबजावहि॥तासुक्रियाकरिनि
शिचरनाहा॥भयउशोचवशअतिउरदाहा॥सचिवआइस
बलगेबुझावन॥वादिविषादकरियजिनरावण॥सुनवि
तनारिविविधसुखकैसें॥उपजहिघटाजाहिउडिजैसें॥त
डितदमकदेखियघनमाही॥रहहुनस्थिरतेबहुरिछिपा
ही॥असजियजानिसुनियदशभाला॥वचहिनकोउजग
आपुकाला॥अबप्रभुजतनविचारहुसोई॥रिपुकरनाश
जबनविधहोई॥वचनसुनततेहिकछुसुखमाना॥काल
विवशजिमितीरघज्ञाना॥दोहा॥लागेउकरणविचारपुनि
बहुप्रकारदशशीश॥समुझिहृदयअहिरावणहिंआपुउ
जहांगिरीश॥१४४॥चौपाई॥दंडचारितबतहंनिशिबीती
संध्यावन्दनकीन्हसप्रीती॥लागेउकरणध्यानदशशीशा॥
बहुरिसुमिरिंगोरेउकरबीसा॥शिवसेवकमोअतिअनुरागी॥
सुनुरावणशतिरितेबडभागी॥आकर्षणमंत्रजपेउदशभाला

अहिरावण चित गेउ पताला ॥ लगेउ करण सो मन अनु
माना ॥ केहि कारण दशमुख अकुलाना ॥ निशिचर नाह
भुवन वश जाके ॥ जीतन कहन वीर कोउ ताके ॥ मन क्रम
वचन आन नहि सेवी ॥ परेउ ध्यान उर कामदा देवी ॥ चलेउ
बहुरि आयउ सो तहँवा ॥ शिव मंडप दशमुख रहे जहँवा ॥
निशिचरपति कहि तेहि शिर नायउ ॥ कर गहि निज आ
सन बैठायउ ॥ दोहा ॥ अहिरावण न रावणहि पूछेउ कु
शल सप्रीति ॥ प्रथम कही तेहिं सो कथा भगिनी कीन्ह अ
नीति ॥ ७५ ॥ चौपाई ॥ वध खर दूषण जिमि सुपि पाई ॥ मा
रीच कपट मृग कथा सुनाई ॥ कहेसि बहुरि सीता कर हर
ण ॥ पवनतनय बल लंका दहना ॥ सेतु बांधि जिमि प्रभु
चलि आयउ ॥ बालितनय संवाद सुनायउ ॥ आनीय अंकप
न अरु अतिकाया ॥ परे समर महँ सनु अहिराया ॥ तात कु
शल अब आइ सिरानी ॥ कटक निशाचर सकल नशानी ॥
कुम्भकरण घननादो मारे ॥ राम लक्ष्मण ते मनुज विचारे
आनेउ बोलि तोहि निज पाशा ॥ करहु सोइ जतन होय रिपु
नाशा ॥ सुनत वचन कहि केतिक बाता ॥ हरि लै जैहों दोनों
भ्राता ॥ लै पाताल देविहिं बलि दैहों ॥ यथा पुराण निशिचर
कुल लैहों ॥ लै जब जाउ जानेउ तम तव ही ॥ रवि सम तेज हो
य निशि जबही ॥ दोहा ॥ कहि अस वचन प्रबोध करि शीघ

नाइ बल भाषि॥ आयेउ रघुपति कटक तब निज देवी उर राषि॥
चौपाई॥ सुजन करनि जिम्ह तिय अघियारी॥ मर्कट भट जागा
हित है भारी॥ कहहिं जय पति जय जय तिकृपाला॥ अति हि
अगम मग मनाहि निकाला॥ तहं मारुत सुत रचाउ पाई॥ नि
ज लंगूर की कोट बनाई॥ सो सोभा कछु वरणि न जाई॥ जनु
भुजंगपति रहे तहां आई॥ अरु जिमि देखिय शैल समाना॥
दरवाजे कृत मुख हनुमाना॥ देखि हृदय अहि रावण हारा॥
जिमि रवि उदय न तिमिर प्रसारा॥ एको युक्ति न मन ठहरा
नी॥ कपट वेष तिहि कीन्ह भवानी॥ वेष विभीषण सब अघ
हारी॥ पवन तनय पहं गो छलकारी॥ दोहा॥ सहज प्रता
पी पवन सुत पुनि सुर पति पति दास॥ तिन्ह हिं निदरि चि
ल्यो राम पहिं मूढ हृदय न हि त्रास॥ ४७॥ चौपाई॥ मरम न
जानेउ कछु सुत पवना॥ वेष विभीषण के सो गवना॥ ठा
ढ होइ बोलेउ सुनु भ्राता॥ चलेउ जहां कृपाल जन त्राता॥
मैं रघुपति सन आयसु पाई॥ संध्या करण गयउ सुनु भाई॥
ते हित तेरित चलेउ प्रभु पाही॥ भई विलंब जनि राम रिसा
ही॥ सत्य वचन कपि निज मन माना॥ सुनु खगेश भावी ब
लवाना॥ कपट चतुरता तिजानि न जाई॥ पर मन दैहै दैय
न भाई॥ आयसु पाइ गयउ सो तहैंवा॥ फणिपति प्रभु दोनो
रहे जहैंवा॥ कपि पति जामवन्त नल नीला॥ बालि तनय अरु

षेणगणबलशीला॥दोहा॥दुविदमयंदकपीशगणगय।
गवाक्षकपिवीर॥सहितविभीषणअपरभटसोयेसबर
णधीर॥४५८॥चौपाई॥तिन्हहिंमध्यरावणशशिराहू॥ए
कसंगसोवतफणिनाहू॥दक्षिणदिशिसोवतरघुनाथा
अनुजवामदिशितिहिंपरहाथा॥प्रभुकरकरपरराजत
कैसें॥जातरूपपरफणिपतिजैसें॥कपिसबभेजनुसा
गरतीरा॥तहाँसोयेमानहुँहोवीरा॥इहभगवाणपहुथरे
वनाई॥लक्ष्मणसहितसमीपरघुराई॥अहिरावणमन
कीन्हप्रणामा॥देखिरामछविसुन्दरश्यामा॥ब्रह्मादिक
जेहिध्याननपावहिं॥मुनिमहेशपूजामनलावहिं॥क
रहिंविविधजपयोगविरागी॥रटहिनिरन्तरदिननिशि।
जागी॥सोप्रभुतिहिंदेखाभरिलोचन॥कृपासिंधुसेवक
भयमोचन॥बहुरिहृदयतेहिंकीन्हविचारा॥रावणका
जकरौंअनुसारा॥कछुनिजमायाकृतगणआई॥कवनी
भांतिजाहिंहोभाई॥दोहा॥मोहनतैंमोहेसबहिमंत्रन्हतें
मुखमूंदि॥भएउअदृश्यउठाइकरिप्रभुहिचलेउलेकूंदि
॥४५९॥चौपाई॥एहिविधिप्रभुहिंगयोलैसोई॥नभमारग
प्रकाशअतिहोई॥सोप्रकाशजबरावणदेखा॥वचनअ
मागनासकरिलेखा॥मनमेंहर्षकैअतिभारी॥अहिरा
वणलैगयअसुरारी॥लैनिजलोकगयेसुखमाही॥सो

हभयेतबकपिदलमाही॥जागेवानरश्रीहतनारी
देखियजिमिसरितविनुवारी॥ग्रसदेखियजिमिनि
शिविनुइन्दू॥तेजहीनवासरजिमिचन्दू॥रविविनुदि
वसजीवविनुदेहा॥जिमिदीपकविनुदेखियगेहा॥
एकहिएककलागतवपूकुन॥कहेंगएत्रैलोकयविभूष
ण॥दोहा॥सोथासबमिलिकटकतिन्हनहिपायेदोऊ
वीर॥भेव्याकलसबभालुकपिजिमिजलचरविनुनीर
चौपाई॥सकलकहहिविधिकायहकीन्हा॥रघुपति।
विनाप्राणचहलीन्हा॥शोकग्रसितपरिसकैनधीरा॥
कहहिरामलक्ष्मणदोउवीरा॥करुणाकरैकपीशअ
पारा॥बनीबातविधिकहाविगारा॥कटकनिशाचर
सकलसंघारी॥रहाएकरिपुरावणभारी॥सोउनरहत
रामशरलागे॥भाइकहमसमकोउनअभागे॥कवडु।
कजोदशसिरअरीजीतहिं॥उतरकवनदेवहमसीतहिं
यहकहिविकलमूर्छिमहिपरेऊ॥लागेवज्रशैलजिमि
गिरेऊ॥विभीषणकीगतिकहीनजाई॥फिरेवनसजनु
पेनुलवाई॥दोहा॥सहितपवनसुतअवधपतिदुखम
नभावइभांति॥खगपतिसुजनकनकडकछुनमअपार
तेहिराति॥५५॥चौपाई॥पवनतनयपुनिकहसबपांहीं
विस्मयएककहोमनमांही॥कोउएककआवविभीषणहे

षा॥प्रभुकेनिकटजातमैंदेषा॥पूछेवचनकहेसित्र
तिनीका॥कपटनजानौनिशिचरजीका॥वचनसुनत
बोलेउलंकेषा॥अहिरावणलैगअबपेषा॥पवनकलो
कवमतहैसोई॥ममतनुवेषअवरनहिकोई॥महाबली
जानौबडमाया॥निश्चयवहदशशीशपठाया॥जिमिब
लहोइवहांसोजाई॥ताहिजीतिआनैदोभाई॥करहुभा
लुपतिसुनुहनुमाना॥तवबलतातसकलजगजाना
वेगिसोजतनविचारहुताता॥कृपासिंधुआनहुदोभ्राता
दोहा॥विलखिकहेउकपिपतिबहुरिमारुतसुतसुनुता
त॥विनरघुपतिधिकधिकजनमपलयुगसरिसविहा
त॥५८२॥चौपाई॥तृषितहोयविनवारिदुखारी॥तैसेहि
ममसबविनाखरारी॥रविविनुपंकजहोइउदासलाना॥
तैसैहममसबहैंहनुमाना॥सीतासुधिजिमिल्यायोषयिआ
नी॥तेहिप्रकारआनहुगुणखानी॥यहसुनिबहुरिप
वनसुतबोला॥चिन्नकरहुथिरमैंननडोला॥भुवन
चारिदशतीनिहुलोका॥आनौप्रभुहितजहुतनसोका॥
का॥अबतैंमजगारहेउसबभाई॥लरेहुकालसोंजैाव
डिआई॥यहकहिगर्जिचलेउहनुमाना॥प्रलयका
लकेमेवसमाना॥चलेजातएकततरगणक॥गृध्र
निगृध्रकहतभमभमएक॥दोहा॥गृध्रनारिहीगुर्विणीबो

लीपतिसौंबैंन ॥ आनहुआमिषमनुजकरखोउसोरु ८

जीयचैन ॥ १५३ ॥ चौपाई ॥ तासुवचनसुनिखगअसक

हेऊ ॥ अहिरावणरामहिंलैगयेऊ ॥ देइहिबलिदेवि

हिंसोजाई ॥ बडेभाग्यआमिषजोपाई ॥ कवनेउंजतन

देवमैंआनी ॥ असकहिगृध्रनारीमनमानी ॥ जबहिप

वनसुतयहसुधिपाई ॥ चलेउहृदयसुमिरतरघुराई ॥

तुरतपतालहिंतिहिंतणगयऊ ॥ अहिरावणपुरप्र

विशतभयऊ ॥ द्वारपालमकरध्वजकीषा ॥ कपिमन

डाटिकहतबहुरीशा ॥ निदरहिमोहितोहिउरनाही ॥

जिमिदीपहिनपतंगडेराही ॥ मारुतसुतकरहौंमैंबा

लक ॥ स्वामिभक्तभञ्जनमुखकालक ॥ सोरठा ॥ सुन

तवचनहनुमानविस्मयवशबोलतभयउ ॥ अरेरेमूढ

अज्ञानमोरैंसुतसपनेनहीउ ॥ १५४ ॥ चौपाई ॥ कहत

वचनपावततोहिनखोरी ॥ कामविवशकवमतिभैमो

री ॥ ममहतहोसिमूढकेहिकाजा ॥ रतनाकहतनतोहि

नहिलाजा ॥ किहिंप्रकारतैंममसुतभयसी ॥ निजउत

पत्तिमोसनकिनकहेसी ॥ सुनतकहहिमकरध्वजब

चना ॥ कीन्हतातजबलंकादहना ॥ जबआयउचलिउ

दधिसमीपा ॥ भयउप्रस्वेदतन्हहिकपिदीपा ॥ कूदिप्र

स्वेदसागरमहगयेउ ॥ सोऊझषपीयेउतहांमैंभयेउ ॥ रविं

रामा॰
लं॰
५०

50

प्रकारमैंतवसुतनाता॥गोबडुंनहिनिजपितानमाता
अहिरावणसेवामैंकरऊं॥प्रभुआयसुहिंद्वारेरहऊं॥।
दोहा॥सत्यवचनहनुमानकहिसुनिसुकेउसबबात॥।
आनेउलछमणरामकहैंकहाकरतहैंतात॥५५॥चौपा॰
कहहुतातनिहिंछलकोनाऊं॥जानचहौंमेंनिजप्रभु॰
ठांऊं॥यहहुआनतनजानहुताता॥असमैंश्रवणसुना
कछुबाता॥सीतापतिअरुफणीपतिसाथा॥सोलै॰
आयेउनिशिचरनाथा॥करतसोअहैहोमयोंआजू॥दे
विहिंबलिदेइहिनृपराजू॥जोकछुनिजश्रवणनसु॰
निपाएउ॥तातसकलमैंतुम्हहिसुनाएउ॥निजप्रभुका
जलागिदुखसहेऊं॥तहमनसत्यमरममैंकहेऊं॥जान
कहौपेजाननदेऊं॥प्रभुआज्ञानतजिअयशानलेऊं॥सुनि
असपैलिचलेउहनुमाना॥भयउक्रोधमकरध्वजजाना
दोहा॥कपिकहंहनेसिएकमुष्टिकाकपिसुनिमाराना
रि॥एककहिएककहनेउतबबलसुगामसमयटिनारि॥५६
चौपाई॥एककहिएकसकैनहिंपारी॥मारुतसुतसुतदो
उभटभारी॥सुतकीशुंकसुतबोधिभवानी॥अलेउबहो
रिबिलंबबड़िजानी॥पविलघुरूपहोमगृहदेखा॥जी
वसजीवपरैनहिंलेखा॥तंहदेवीकरमंडपरहई॥शोणित
घटबहुकोकरिसकई॥विविधभांतिमेवाएकवाना॥५

९

रेख्यानिदेवीअस्थाना॥मालिनितहाँसुमनलैआई॥सुम
नमध्यप्रविशेकपिराई॥सुमनहूतेंअतिकृतहलकाई॥सो
लैसुमनमंउपमहिआई॥सुमनसकलदेवीपरचढेऊ॥
विकटरूपतबतहँकपिभयेऊ॥दोहा॥कुवतचरणनवदे
वीपरणीगईसमाइ॥मुखपसारिदाढेभयेउकपिकविव
रणिनजाइ॥१५७॥चौपाई॥रूपदेखभाआनन्दकारी॥क
रहिंविचारनिशाचरभारी॥कहहिंकिदेविप्रगटभईआ
जू॥बडभागीभानिशिचरराजू॥करिप्रणामपुनिपूजाक
रहीं॥जोकछुआवसोकपिमुखपरहीं॥रहीजोसकलव
स्तुसमुदाई॥बचीनएकोसबकपिखाई॥कपिविलारकौ
तकविस्तारा॥भयोवहनिशिचरकुलसंघारा॥अहिराव
णउरभासुखकैसें॥चढैकापपरबलिपशुजैसें॥जबहीं
होमसिद्धनवजाना॥लक्ष्मणरामहरितनतहँआना॥बाउ
कीन्हतहँप्रभुकहँआनी॥निशिचरबडआयुधपपरिपा
णी॥परेंगदाकोउअरुधनुबाणा॥शक्तिशूलतरवारिकृ
पाणा॥दोहा॥तोमरमुद्गरपरशुअसिपाशफांसिअरुवेत
श्रोउनखडगायत्रुषशरदेखतरहहिनचेत॥१५८॥चौपाई
मायावलनेसकलविचलणा॥अतिविकारलसोरजनुल
तणा॥यहिविधिसकलवीरतहँरहहीं॥अहिरावणआज्ञा
घनमरहीं॥आयसुपायखडगनिकाढे॥मारनकहँप्रभ

परभेदगढ़े ॥ कोउ कह राजनीति अनुसरहु ॥ नीतिनिदाउ वि
लंब अब करहु ॥ सुनि अस बचन मूढ़ इमि कहई ॥ सुमिरो
जो तम्ह रैं कोउ अहई ॥ नाहित काल अब परइं चा आई ॥ निशि
स्वपना सम होउ है भाई ॥ कहहिं मूढ़ प्रभु कहं बहु बाणी ॥
कहत सऊच मोहि अतिहीं भवानी ॥ दोहा ॥ फणिपति वि
नवहिं राम कहं राम चितव अहि राज ॥ प्रभु कर कौतुक क
हीय किमि सुनहु गरुड खगराज ॥ ५९ ॥ चौपाई ॥ पुनि प्र
भु मन महं कीन्ह विचारा ॥ जपै सकल जग नाम हमारा ॥
रहि अब मर सुमिरिय हनुमाना ॥ निकट हिअर है हि वीर ब
लवाना ॥ यह विचारि प्रभु सुमिरन कीन्हा ॥ होइ हि सो जो
विधि लिखि दीन्हा ॥ तब मारुणा कहं उपजत भयेऊ ॥ वन स
मान कपि गर्जत भयेऊ ॥ निशिचर सकल तृषित भे भारी
कहहिं वचन निज हृदय विचारी ॥ अहि रावण मल की
न्हन काज्ञ ॥ आनेउ कपट वेष सुरराज्ञ ॥ तिन्हि तें देवि क्रुद्ध
भई आज्ञ ॥ अब भा सब कर परम अकाज्ञ ॥ सभय भये तब
निशिचर कारी ॥ दुसरैं कपि गर्जेउ अति भारी ॥ दोहा ॥ प्रग
टहु पकरि पवन सुत करि अट्टहास सकु भारी ॥ अति भय ग्र
सित निशाचर सुनहु उमा मतिधीर ॥ ६० ॥ चौपाई ॥ उगम
सभे निशिचर अभिमानी ॥ मारुत तब वैं जिमि सागर पानी
तिरस्कार कपि लीन्हे होउ भाई ॥ रहं तेला गा निशिचर समुदा

ई॥ खेउ गा कुंड आइ लीन्ह हनुमाना॥ कोटें लागा भुजा सिरना
ना॥ काटहि नाक श्रवण बिनु कीन्हा॥ धरि पद आरि अनल
मह दीन्हा॥ निज लङ्गूर की कोट बनाई॥ जिहि तें कोउ भा
गि न हि जाई॥ इहिं बिधि सब निशिचर संघारे॥ अहिरावण
तब बचन उचारे॥ रे कपि ढीठ ग्राम न हि तो ही॥ अहिरावण
मैं जानन मोही॥ जंबुमालि के हिं जिमि तैं मारा॥ अरु रा
वण सुत हने उ बिचारा॥ दोहा॥ कालनेमि सम मैं नहीं सुन
उ बचन हनुमान॥ अस कहि खेउ ग प्रहार कि य कपि तनु
बज्र समान॥ ९९॥ चौपाई॥ लै असि ताहि पवन सुत मारा॥ का
टा शीश अनल मह डारा॥ पूर्णाहुति करि तब सो पीशा॥ पु
नि प्रभ कहं लै चले उ कपीशा॥ मकरध्वज तब बिनती की
न्हा॥ बंधन छोरि राज तेहिं दीन्हा॥ इहां कर राज करहु तुम
ताना॥ भजहु सदा मम प्रभु दोउ भ्राता॥ अस कहि कपि निज
दल मह आवा॥ हर्षे उ कटक समर सुख पावा॥ मृतक शरीर
प्राण फिरि आवै॥ गई मणि फणि कमन हुं फिरि पावै॥ बिछु
रा मिले बहुरि जिमि भाई॥ तिमि सब भये निरखि दोउ भाई॥
मिले उ कपीश चरण धरि माथा॥ पुनि पद परे उ निशाचर ना
था॥ दोहा॥ जाम्बवन्त अङ्गद सहित मिले भालु अरु कीश॥
मन माने प्रिय बचन कहि लक्ष्मण कोशलाधीश॥ १००॥ चौ
पाई॥ बहुरि विभीषन भेटे हनुमाना॥ कहहिं तात लंका रावेउ।

रामा. लं. ५२

42

प्राण ॥ देवन्हि सुमन वृष्टि नभ कीन्ही ॥ प्रमुदित हृदय दु
न्दुभी दीन्ही ॥ अनुज सहित हर्षे रघुबीरा ॥ कहेउ वचन सुनु
तनय समीरा ॥ तोहि समान नहि कोउ हितकारी ॥ सुर मुनि
सिद्ध जो कोउ तनुधारी ॥ यश तुम्हार त्रिभुवन में भयेऊ ॥ सु
नि प्रभु वचन चरण कपि नयेऊ ॥ नाथ करौ तुम्ह मैं केहि ले
खें ॥ तरणी चलै अगाम जल देखें ॥ तैसें सब प्रताप तव ना
था ॥ सुनि प्रभु कपिहिं मिले रघुनाथा ॥ कटक सहित हर्षे
दोउ भाई ॥ तेहि अवसर सुख कहि किमि जाई ॥ उहां दशान
न सब सुधि पाई ॥ दूतन कहि वैरि सब जाई ॥ अहिरावण क
र वध सुनि काना ॥ भयउ तेज हत अति दुख माना ॥ वचन बा
ण सम लागेउ नाहीं ॥ संभ्रम मूर्छि परेउ महि माहीं ॥ मुख
सुखान लोचन जल बहई ॥ वचन न आव पुनि पुनि सिर धु
नई ॥ दोहा ॥ मयतनया तब आइ करि बहु प्रकार समुझा
व ॥ मानत मूढ काल वश परम क्रोध कहं पाव ॥ ९३ ॥ चौ
पाई ॥ रावण उर अब बैर कुठाऊ ॥ मेटि को सकै जो विधि
निर्मयऊ ॥ प्रभु विरोध करि चहै कल्याण ॥ मूढ मोह वश
अति ज्ञाना ॥ कृपासिंधु सेवक भय हारी ॥ तेहि विरोध सुख
चहै सुरारी ॥ एहि विधि जल्पत भा भिनुसारा ॥ लगे भालु
कपि चारिहु द्वारा ॥ सुभट बुलाइ दशानन बोला ॥ रण सन
मुख जाकर मन डोला ॥ सो अबही वरु जाउ पराई ॥ रण सन

मुखभागे न भलाई ॥ निज भुजबल मैं बैर बढावा ॥ देहौं उ
तरु जो रिपु चढि आवा ॥ अस कहि मारुत वेग रथ साजा ॥ बा
जहिं सकल जूझाऊ बाजा ॥ चले बीर सब अतुलित बली ॥ ज
नु कज्जल गिरि आंधी चली ॥ असगुन अमित होहिं तेहि का
ला ॥ गणे न भुजबल गर्व विशाला ॥ छन्द ॥ अति गर्व गणइ
न असगुन सगुन स्रवहिं आयुध हाथ ते ॥ भट गिरहिं रथ ते
बाजि गज चिक्करहिं भाजहिं साथ ते ॥ ११ ॥ गोमायु गृध्र करा
ल खर रव स्वान बोलहिं अति घने ॥ जनु कालदूत उलूक बो
लहिं वचन परम भयावने ॥ १२ ॥ दोहा ॥ ताहि कि संपति सगुन शुभ
सपनेहु मन विश्राम ॥ भूतद्रोह रत मोह वश राम विमुख र
त काम ॥ १४ ॥ चौपाई ॥ चली निशाचर अनी अपारा ॥ चतु
रङ्गिनी चमू बहु धारा ॥ विविध भांति बाहन रथ जाना ॥ विपु
ल वरण पताक ध्वज नाना ॥ चले मत्त गज यूथ घनेरे ॥ प्रावृ
ट जलद मारुत के प्रेरे ॥ वरण वरण वर दैत्य निकाया ॥ सम
र शूर जानहिं बहु माया ॥ अति विचित्र बाहिनी विराजी ॥ वी
र वसन्त सेन जनु साजी ॥ चलत कटक दिगसिन्धुर डगहीं ॥
क्षुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ उठी रेणु रवि गयउ छपा
पवन थकित वसुधा अकुलाई ॥ पवन निशान घोर रव बाज
हिं ॥ महाप्रलय के जनु घन गाजहिं ॥ भेरी नफीरी बाजु सह
नाई ॥ मारू राग सुभट सुखदाई ॥ केहरि नाद वीर सब करहीं ॥

रामा. लं. ४२

43

निजनिजबलपौरुषउच्चरहीं॥ कहैदशाननसुनहुसुभट्टा॥ मर्दहुभालुकपिनकरठट्टा॥ हौंमारिहौंभूपदोउभाई॥ असकहिसनमुखफौजचलाई॥ यहसुधिसकलकपिनजबपाई॥ धायकरिरघुबीरदुहाई॥ छन्द॥ धायविशालकरालमर्कटभालुकालसमानते॥ मानहुंसपक्षउडाहिंभूधरवृन्दनानावरणते॥ ३॥ नखदशनशैलमहाद्रुमायुधसबलशङ्कनमानहीं॥ जयरामरावणमत्तगजमृगराजसुयशबखानहीं॥ ३॥ दोहा॥ दुहुदिशिजयजयकारकरिनिजनिजजोरीजानि॥ भिरेबीरइतरघुपतिहिउतरावणहिबखानि॥ ७५ चौपाई॥ रावणरथीविरथरघुबीरा॥ देखिविभीषणभयउअधीरा॥ अधिकप्रीतिउरभासन्देहा॥ बन्दिचरणकहसहितसनेहा॥ नाथनरथनहिंतनपदत्राणा॥ केहिविधिजीतबबीरबलवाना॥ सुनहुसखाकहकृपानिधाना॥ जेहिजयहोइसोस्यन्दनआना॥ शौरजधीरजतेहिरथचाका॥ सत्यशीलदृढध्वजापताका॥ बलविवेकदमपरहितघोरे॥ क्षमाकृपासमतारजुजोरे॥ ईशभजनसारथीसुजाना॥ विरतिचर्मसन्तोषकृपाणा॥ दानपरशुबुधिशक्तिप्रचंडा॥ बरविज्ञानकठिनकोदंडा॥ अमलअचलमनत्रोणसमाना॥ शमयमनियमशिलीमुखनाना॥ कवचअभेदविप्रगुरुपूजा॥ एहिसमविजयउपायनदूजा॥ सखाधर्ममयअसरथजा

के॥ जीतनकहंनकतहुंरिपुताके॥ दोहा॥ महाअजयसंसा
रिपुजीतिसकैसोवीर॥ जाकेअसरथहोइदृढसुनहुसखा
मतिधीर॥ ८८॥ सुननविभीषणप्रभुवचनहरषिगहेपदकं
ज॥ इहिमिषमोहिउपदेशेउरामकृपासुखपुंज॥ ८९॥ उत
पचारदशकंधरइतअंगदहनुमान॥ लरतनिशाचरभालु
कपिकरिनिजनिजप्रभुआन॥ ९०॥ चौपाई॥ सुरब्रह्मादि
सिद्धमुनिनाना॥ देखहिंरणनभचढेविमाना॥ हमहुंउमा
रहेउतेहिसंगा॥ देखतरामचरितरणरंगा॥ सुभटसमररस
दुहूदिशिमाते॥ कपिजयशीलरामबलताते॥ एकएकस
नभिरहिंप्रचारहिं॥ एकएकमर्दहिंमहिपारहिं॥ मारहिंका
टहिंधरणिपछारहिं॥ शीसतोरिगहिभुजाउपारहिं॥ उद
रविदारहिंभुजाउपाटहिं॥ गहिपदअवनिपटकिभटडांटा
हिं॥ निशिचरभटमहिगाडहिंभालू॥ ऊपरढारिदेहिंबहु
बालू॥ वीरबलीमुखयुद्धविरुद्धे॥ देखियविपुलकालजनु
क्रुद्धे॥ छन्द॥ क्रुद्धेकृतान्तसमानकपितनुस्रवतशोणितरा
जहीं॥ मर्दहिंनिशाचरकटकभटबलवन्तघनजिमिगाज
हीं॥ २५॥ मारहिंचपेटनिडाटिदान्तनिकांटिलातनमींजहीं॥
चिक्करहिंमर्कटभालुछलबलकरहिंजेहिखलछीजहीं
धरिगालफारहिंउरविदारहिंगलअंतावलिमेलहीं॥ प्रहला
दपतिजनुविविधतनुधरिसमरअंगनखेलहीं॥ २६॥ एकमा

रामा. लं. ४४

44

हकाटुपक्काहहोरगिरागगनमहिभरिरही ॥ जयरामजो
तगातैंकुलिशकरकुलिशतैंतगाकरमही ॥ ८८ ॥ दोहा ॥ नि
जदलबिचलबिलोकितबीशभुजादशचाप ॥ चलादशा
ननकोपकरिफिरहुफिरहुकरिदाप ॥ ८९ ॥ चौपाई ॥ धायउप
रमक्रोधदशकंधर ॥ सनमुखचलेहूहदैबन्दर ॥ गहिकरपा
दपउपलपहारा ॥ डारहिंतेहिपरएकहिबारा ॥ लागहिंसै
लबज्रतनुतासू ॥ खंडखंडहोइफूटहिंआसू ॥ चलानअच
लरहारथरोपी ॥ रणदुर्मदरावणअतिकोपी ॥ इतउतझप
टिदपटिकपियोधा ॥ मर्दैनलागुभयोअतिक्रोधा ॥ चलेपरा
इभालुकपिनाना ॥ त्राहित्राहिअंगददहनुमाना ॥ पाहिपाहि
रघुबीरगोसांई ॥ यहखलखाइकालकीनाई ॥ तेहिदेखेक
पिसकलपराने ॥ दशहुचापशायकसन्धाने ॥ छन्द ॥ संधा
निधनुशरनिकरछाडेउसिउरगजिमिउडिलागहीं ॥ रहेपूरि
शरधरणीगगनदिशिबिदिशिकहंकपिभागहीं ॥ १ ॥ भा
अतिकोलाहलबिकलदलकपिभालुबोलहिंआतरे ॥ रघु
बीरकरुणासिंधुआरतबंधुजनरतकहरे ॥ ९० ॥ दोहा ॥ नि
जदलबिचलदेखिकटिकसिनिषंगधनुहाथ ॥ लछम
णचलेसक्रोधतबनाइरामपदमाथ ॥ ९० ॥ चौपाई ॥ रेख
ल [illegible] कामारसिकपिभालू ॥ मोहिबिलोकुतोरमैकाल
खोजतरहेउतोहिसुतघाती ॥ आजुनिपातिजुडावौंछाती

अस कहि छाडेसि बाण प्रचंडा॥ लछमण किए सकल श
त खंडा॥ कोटिन शक्ति त्रिशूल पवारे॥ तृण समान प्रभु का
टि निवारे॥ पुनि निज बाणन्ह कीन्ह प्रहारा॥ स्यन्दन भंजि
सारथी मारा॥ शत शत शर मारे दश भाला॥ गिरि शृंगनि
जनु प्रविशहिं व्याला॥ पुनि शत शर मारेउ उर मांही॥ परेउ
धरनि तल सुधि कछु नांही॥ उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी
छाडेसि ब्रह्मदत्त जो सांगी॥ छन्द॥ सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति
अनन्त उर लागी सही॥ पर्यो विकल वीर उठाव दशमुख
अतुल बल महिमा रही॥ २१॥ ब्रह्मांड भुवन विराज जा
के एक शिर जिमि रज कणी॥ सो चहत उठावन मूढ राव
ण जान नहि त्रिभुवन धनी॥ २२॥ दोहा॥ देखत धावा पवन
सुत बोलत वचन कठोर॥ आवत तेहि उर महं हनेउ मुष्टि
प्रहार प्रघोर॥ २३॥ चौपाई॥ जानु टेकि कपि भूमि न परेऊ
उठा सम्भारि बहुरि रिसि भरेऊ॥ मुष्टिका एक ताहि कपि
मारा॥ परेउ शैल जिमि वज्र प्रहारा॥ मूर्छा विगत बहुरि
सो जागा॥ कपि बल विपुल सराहन लागा॥ धिक् धिक्
मम बल पौरुष मोही॥ जौं तै जियत उठा सुरद्रोही॥ अस
कहि कपि लछमण कहं ल्यावा॥ देखि दशानन विस्मय
पावा॥ कह रघुवीर समुझि जिय भ्राता॥ तुम कृतान्त भ
क्षक सुरत्राता॥ सुनत वचन उठि बैठु कृपाला॥ गगन गया

ईसोघाङ्गिकराला॥ धरिशरचापचलतपुनिभएऊ॥ रि
पुसमीपआतरथतिगएऊ॥ छन्द॥ आवतरवहोरिविम।
ञ्जिस्यन्दनमारितेहिव्याकुलकियो॥ गिरयोधरणिदश
कंधविकलतबबाणशतवेध्योहियो॥ २३॥ सारथीदूसर
घालिरथतेहिंतरतलंकालैगयो॥ रघुवीरबंधुप्रतापपु
ञ्जवहोरिप्रभुचरणन्हिनयो॥ २४॥ दोहा॥ उहांदशानन।
जागिकरिकरणलागुककुयज्ञ॥ रामविरोधीविजयच
हेशठहठवशअतिअज्ञ॥ ८२॥ चौपाई॥ इहांविभीषणसव
सुधिपाई॥ सपदिजाइरघुपतिहिसुनाई॥ नाथकरैराव
णएकयागा॥ सिद्धभयेनहिमरहिअभागा॥ पठवहुना
थवेगिभटबंदर॥ करहिंविध्वंसआवदशाकंधर॥ प्रात
होतप्रभुसुभटपठाये॥ हनुमनादिवन्दरसवधाये॥ कौ
तुककूदिचढेकपिलंका॥ पैठेरावणभवनअशंका॥।
जवहींयज्ञकरततेहिदेखा॥ सकलकपिन्हभाक्रोधवि
शेखा॥ रणतेभाजिनिलजगृहआवा॥ इहांआइवकध्या
नलगावा॥ असकहिअङ्गदमारेउलाता॥ चितवनशठ
स्वारथमनराता॥ छन्द॥ नहिचितवजवकपिकोपितव
गहिदशनलातन्हमारहीं॥ धरिकेशनारिनिकारिवाहि
रतेअतिदीनपुकारहीं॥ २५॥ तवउठाकोपिकृतान्तसम
गहिचरणवानरडारहीं॥ यहिबीचयज्ञविध्वंसकरिकपि

देखि मन महँ हारहीं ॥ ८९ ॥ दोहा ॥ मखविध्वंस करि क
पि सकल आए रघुपति पास ॥ चला दसानन क्रोध करि ।
छाँडि जियकी आश ॥ ९० ॥ चौपाई ॥ चलत होहिं तेहि असुभ
भयंकर ॥ बैठहिं गृध्र उडहिं सिरन्हि पर ॥ भयउ कालबश
काहु न माना ॥ कहेसि बजावहु युद्ध निसाना ॥ चली तमी
चर अनी अपारा ॥ बहु गज रथ पदचर असवारा ॥ प्रभु सनु
ख खल धावहिं कैसे ॥ शलभ समूह अनल कहुँ जैसे ॥ इहाँ
देव सब विनती कीन्हा ॥ दारुण विपति हमहिं इन्ह दीन्हा
अब जनि नाथ खेलावहु एही ॥ अतिशय दुखित होति बै
देही ॥ देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना ॥ उठि रघुवीर सुधारे
उ बाणा ॥ जटाजूट दृढ बांधी माथे ॥ सोहत सुमन बीच
विच गांथे ॥ अरुण नयन वारिद तनु श्यामा ॥ अखिल लो
कलोचन अभिरामा ॥ कटितट परिकर कसे निषंगा ॥ कर
कोदंड कठिन सारंगा ॥ छन्द ॥ सारंग कर सुन्दर निषंग शि
लीमुखाकर कटिकस्यो ॥ भुजदंड पीन मनोहरायत उरध
रासुर पदलस्यो ॥ २१ ॥ कह दास तुलसी जबहिं प्रभु शर चा
प कर फेरन लगे ॥ ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु
भूधर डगमगे ॥ २२ ॥ दोहा ॥ शोभा देखि हरषि सुर वर्षहिं सुम
न अपार ॥ जय जय जय करुणानिधि छवि बल गुण आ
गार ॥ ९१ ॥ चौपाई ॥ एहिके बीच निशाचर अनी ॥ कसमसा

रामा. लं. ५६

५८

तिय्याई अतिधनी ॥ देखि चले मन मुख कपि भट्टा ॥ प्रलयकाल के जिमि घन घट्टा ॥ बहु कृपाण तरवारि चमक्कहिं ॥ जनु दश दिशि दामिनी दमकहिं ॥ गज रथ तुरग चिक्कार कठोरा ॥ गर्जत मनहुँ बलाहक घोरा ॥ कपि लंगूर विपुल नभ छाये ॥ मनहुँ इन्द्र धनु उग उ सुहाये ॥ उठी रेणु मानहुँ जलधारा ॥ बान बुन्द भइ वृष्टि अपारा ॥ दुहुँ दिशि पर्वत करहिं प्रहारा ॥ वज्रपात जनु बारहिं बारा ॥ रघुपति कोपि बाण झरलाई ॥ घायल भे निशिचर समुदाई ॥ लागत बाण वीर चिक्करही ॥ घुर्मि घुर्मि जहाँ तहँ महि परही ॥ स्रवहिं शैल जनु निर्झर बारी ॥ शोणित सरि कादरभयकारी ॥ छन्द ॥ कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी ॥ दोउ कूल दल रथ रेत चक्रावर्त वहति भयावनी ॥ २९ ॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर विविध बाहन को गनै ॥ शर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ २० ॥ दोहा ॥ वीर परे जनु तीर तरु मज्जा बहु जनु फेन ॥ कादर देखत डरहिं जिय सुभटन के मन चैन ॥ ३५ ॥ चौ० ॥ मज्ज हिं भूत पिशाच बेताला ॥ प्रमथ महा योगिनी कराला ॥ काक कंक लै भुजा उड़ाहीं ॥ एक ते एक छीनि पुनि खाहीं ॥ एक कहहिं ऐसिउ सौंघाई ॥ शठ तुम्हार दारिद्र न जाई ॥ कहरत भट घायल तट गिरे ॥ जहँ तहँ मनहुँ अर्ध जल परे

खैंचहिं आन्त गृध्र तट गये॥ जनु बनशी खेलत चित दये॥ ब
हु भट बहहिं चढे खग जाहीं॥ जिमि नावरि खेलहिं सरि मा
हीं॥ योगिनि भरि भरि खर्पर संचहिं॥ भूत पिशाच बिबिध बि
ध नाचहिं॥ भट कपाल करताल बजावहिं॥ चामुण्डा नाना बि
ध गावहिं॥ जम्बुक निकर दन्त कटकट्टहीं॥ खाहिं हुं अघाहिं
ष्वाहिं दबट्टहीं॥ कोटिन रुण्ड मुण्ड बिनु डोलहिं॥ शीष परे म
हि जय जय बोलहिं॥ छन्द॥ बोलहिं जो जय जय मुण्ड रुण्ड
प्रचण्ड सिर बिनु धावहीं॥ खग गण परस्पर अरुझि युझहिं
सुभट सुरपुर पावहीं॥ २१॥ बानर निशाचर निकर मर्दहिं रा
म बल दर्पित भये॥ संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम शर
निकरन्हि हये॥ २२॥ दोहा॥ हृदय विचारे सि दशवदन भा नि
शिचर संहार॥ मैं अकेल कपि भालु बहु माया करौं अपार॥ २

२६

चौपाई॥ देवन्हि प्रभुहिं पयादेहिं देखा॥ उपजा उर अति क्षो
भ विशेषा॥ सुरपति निज रथ तुरत पठावा॥ हर्ष सहित मा
तलि लै आवा॥ तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा॥ विहंसि चढे को
शलपुर भूपा॥ चञ्चल तुरग मनोहर चारी॥ अजर अमर म
न सम गतिकारी॥ रथारूढ रघुनाथहिं देखी॥ धाये कपि
बल पाइ विशेषी॥ सहा न जाइ कपिन्ह की मारी॥ तब राव
ण माया विस्तारी॥ सो माया रघुवीरहिं बांची॥ लछिमन क
पिन्ह मानी सांची॥ देखा कपिन्हि निशाचर अनी॥ [illegible]

लक्ष्मणकपियूथनी ॥ छन्द ॥ बहुबालिसुतलक्ष्मणकपी
शविलोकिमर्कटअपडरे ॥ जनुचित्रलिखितसमेतलक्ष्म
णजहँसोतहँचितवतखरे ॥ ३३ ॥ निजसेनचकितविलोकि
हँसिधनुतानिशरकोशलधनी ॥ मायाहरीहरिनिमिषमहँ
हर्षेसकलमर्कटअनी ॥ ३४ ॥ दोहा ॥ बहुरिरामसबतनचित
यबोलेबचनगम्भीर ॥ द्वंद्वयुद्धदेखहुसकलश्रमितभये
कपिवीर ॥ ९१ ॥ चौपाई ॥ असकहिरथरघुनाथचलावा ॥ वि
प्रचरणपङ्कजसिरनावा ॥ तबलङ्केशक्रोधकरिधावा ॥ १
गर्जततर्जतप्रभुसन्मुखआवा ॥ जीतेहुजोभटसंग्राममाहीं
सुनतापससैंतिनसमनाहीं ॥ रावणनामजगतयशजाना
लोकपजाकेंवन्दीखाना ॥ खरदूषणकबन्धतुम्हमारा ॥ ब
धेहुव्याधइववालिविचारा ॥ निशिचरसुभटसकलसंहारे
कुम्भकर्णघननादहुमारे ॥ आजुवैरसबलेउँनिबाहीं ॥ जौं
रणभूमिभागिनहींजाहीं ॥ आजुकरौंखलुकालहवाले
परेहुकठिनरावणकेपाले ॥ सुनिदुर्वचनकालवशजाना
विहँसिवचनकहकृपानिधाना ॥ सत्यसत्यतबसबप्रभुताई
जनिजल्पसिदिखाउमनुषाई ॥ छन्द ॥ जनिजल्पनाकरि
सुयशनाशहिनीतिसुनिशठकरहुतमा ॥ संसारमहँपु॰
रुषत्रिविधपाटलरसालपनससमा ॥ ३५ ॥ एकसुमनप्रद
एकसुमनफलएकफलैकेवललागहीं ॥ एककहहिंक

रहिंनकरिकहहिंएककहिकरिबागहीं॥ ३८ ॥दोहा॥ रामब॥
चनसुनिबिहंसिकहमोहिसिखावडज्ञान॥ वैरकरतनहि
तबडरेअबलागेप्रियप्राण॥ ८८ ॥चौपाई॥ कहिदुर्बचनक्रु
द्धदशकन्धर॥ कुलिशसमानलागछाडेंशर॥ नानाकारशि
लीमुखधाये॥ दिशिअरुविदिशिगगनमहिछाये॥ अनल
बाणछाडेरघुवीरा॥ क्षणमहंजरेनिशाचरतीरा॥ छाडेसितीव्र
शक्तिखिसियाई॥ बाणसङ्गप्रभुफेरिपठाई॥ कोटिनचक्र
त्रिशूलपवारइ॥ विनुप्रयासप्रभुकाटिनिवारइ॥ विफल
होंहिंरावणशरकैसे॥ खलकेसकलमनोरथजैसे॥ तब
शतबाणसारथिहिमारेसि॥ परेउभूमिजयरामपुकारेसि॥
रामकृपाकरिताहिउठावा॥ तबप्रभुपरमक्रोधउपावा॥
छन्द॥ भयेक्रुद्धयुद्धविरुद्धरघुपतित्रोणसायककसमसे॥
कोदण्डध्वनिअतिचण्डसुनिमनुजादसबमारुतग्रसे॥
मंदोदरीउरकंपकंपितकमठभूभूधरत्रसे॥ चिक्करहिंदिग
गजदशनगहिमहिदेखिकौतुकसुरहसे॥ ३९ ॥दोहा॥ ता
निशरासनश्रवणलगिछाडेविशिखकराल॥ रामभारगग
णचलेलहलहातजनुव्याल॥ ८९ ॥चौपाई॥ चलेबा
णसपक्षजनुउरगा॥ प्रथमहिंहतेसारथीतुरगा॥ रथवि
भञ्जिहतिकेतुपताका॥ गर्जाअतिअन्तरबलथाका॥ तुरि
तआनरथचढिखिसियाना॥ अस्त्रशस्त्रछाडेसिविधनाना॥

२८

रामा॰
लं॰
५८

48

विफलहोइसबउद्यमताके॥जिमिपरद्रोहनिरतमनसाके
नवरावणदशशूलचलावा॥वाजिचारिमहिमारिगिरावा॥
तुरगउठाइकोपिरघुनायक॥काढेअतिकरालबहुशायक
रावणसिरसरोजबनचारी॥चलेरघुनाथशिलीमुखधारी
दशदशबाणभालदशमारे॥निसरिगयेचलेरुधिरपनारे
स्रवतरुधिरधावाबलवाना॥प्रभुपुनिकृतधनुशरसंधाना॥
तीसतीररघुवीरपवारे॥भुजनिसमेतशीसमहिपारे॥काट
तहीपुनिभयेनवीने॥रामबहोरिभुजाशिरछीने॥प्रभुबहु
वारबाहुसिरहये॥कटतझटितिपुनिनूतनभये॥पुनिपु
निप्रभुकाटहिंभुजशीसा॥अतिकौतुकीकोशलाधीशा॥
रहेछाइनभसिरअरुबाहू॥मानहुंअमितकेतुअरुराहू॥॥
छन्द॥जनुराहुकेतुअनेकनभपथस्रवतशोणितधावहीं
रघुवीरतीरप्रचण्डधावहिंभूमिगिरननपावहीं॥२९॥एक
एकशरसिरनिकरछेदेनभउडतइमिसोहहीं॥जनुको।
टिदिनकरकोपिजहंतहंविधुंतुदपोहहीं॥९०॥दोहा॥जि
मिजिमिप्रभुहरतासुसिरतिमितिमिहोहिंअपार॥सेव
तविषयविवर्धजिमिनितनितनूतनमार॥९०॥चौपाई॥।
दशमुखदीखसिरनिकीबाढी॥विसरामरणभईरिसगा।
ढी॥गर्जेउमूढमहाअभिमानी॥धायउदशहुसरासनता
नी॥समरभूमिदशकन्धरकोप्यो॥वर्षिबाणरघुपतिरथ

तोषा॥ दाउ एक रथ देखि न परेऊ॥ जनु निहार महं दिनक
र दुरेऊ॥ हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा॥ तब प्रभु कोपि धनुष
कर लीन्हा॥ शर निवारि रिपु के सिर काटे॥ ते दिशि विदिशि
गगन महि पाटे॥ काटे सिर नभ मारग धावहिं॥ जय जय ध्व
नि करि भय उपजावहिं॥ कहं लछमन सुग्रीव कपीशा॥ क
हं रघुवीर कोशलाधीशा॥ छन्द॥ कहं राम कहि सिर निका
र धावहिं देखि मर्कट भजि चले॥ सन्धानि शर रघुवंशम
णि तव शरनि सिर बेधे भले॥ ९१॥ सिर मालिका गहि कालि
का जनु वृन्द वृन्दनि बहु मिली॥ करि रुधिर सरि मज्जन मन
हुं संग्राम बट पूजन चली॥ ९२॥ दोहा॥ पुनि रावण अति को
प करि छांडी शक्ति प्रचण्ड॥ सनमुख चली विभीषणहिं
मनहुं काल को दण्ड॥ ९१॥ चौपाई॥ आवत देखि शक्ति अरि
धारा॥ प्रणतारति हर विरुद सम्भारा॥ तुरत विभीषण
कुं मेला॥ सनमुख राम सहेउ सो शेला॥ लगी शक्ति मूर्छा
कछु भई॥ प्रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई॥ देखि विभीषण
प्रभु श्रम पायउ॥ गहि कर गदा क्रोध करि धायउ॥ रे कुभा
ग्य शठ मन्द कुबुद्धे॥ तैं सुर नर मुनि नाग विरुद्धे॥ सादर शि
व कहं शीश चढाए॥ एक एक के कोटिन पाए॥ तेहि कार
ण खल अब लगि बांचा॥ अब तव काल शीश पर नांचा॥ रा
म विमुख शठ चहसि संपदा॥ अस कहि हनेसि मांझ उर गदा

रामा.
लं.
५९

छन्द॥ उरमांझगदाप्रहारघोरकठोरलागतमहिपरा॥ द
शवदनशोणितस्रवतपुनिसम्भारिधायोरिसभरा॥ ५३॥
हौभिरेअतिबलमल्लयुद्धविलोकिएकहिंइकहनै॥ रघुवी
रबलगर्वितविभीषणघालिनहिताकहंगनै॥ ५४॥ दोहा॥
उमाविभीषणरावणहिंसनमुखचितवकिकाउ॥ सोअव
भिरतकालसमश्रीरघुवीरप्रभाउ॥ ९४॥ चौपाई॥ देखाश्र
मितविभीषणभारी॥ धायाहनुमानगिरिधारी॥ रथतुर
ंगसारथीनिपाता॥ हृदयमांझमारेउतेहिंलाता॥ ठाढरा
हाअतिकंपितगाता॥ गयेउविभीषणजहंजनत्राता॥ पु
निरावणकपिहतेउपचारी॥ चलागगनकपिपुच्छपसा
री॥ गहेसिपूंछकपिसहितउडाना॥ पुनिनभभिरेउप्रबल
हनुमाना॥ लरतअकाशयुगलसमयोधा॥ हनतएकएक
हिंकरिक्रोधा॥ शोभितनभछलबलवहुकरहीं॥ कज्जल
गिरिसुमेरुजनुलरहीं॥ बुधिवलनिशिचरपरैनपारा॥
तवमारुतसुतप्रभुहिंसंभारा॥ छन्द॥ संभारिश्रीरघुवीर
धीरपचारिकपिरावणहन्यो॥ महिपरतपुनिउठिलरत
देवयुगलकहंजयजयभन्यो॥ ५५॥ हनुमन्तसंकटदेखि
मर्कटभालुक्रोधातुरचले॥ रणमत्तरावणसकलसुभ
टप्रचण्डभुजबलदलमले॥ ५६॥ दोहा॥ तवरघुवीरपचा
रेउधायेकीशप्रचण्ड॥ कपिदलप्रबलविलोकितेहिंकीन्ह

प्रगटपाषणा॥८३॥चौपाई॥अन्तर्द्धानभयोक्षणएका॥पु
निप्रगटेसिखलरूपअनेका॥रघुवरकटकभालुकपिजेते
जहंतहंप्रगटदशाननतेते॥देखाकपिन्हप्रगटदशशीशा
जहंतहंभजेभालुअरुकीशा॥चलेबलीमुखधरहिंनधीरा
त्राहित्राहिलक्ष्मणरघुवीरा॥दशदिशिकोटिनधावहिंराव
ण॥गर्जहिंघोरकठोरभयावन॥डरेसकलसुरचलेपराई
जयकीआशतजहुअबभाई॥सबसुरजीतेएकदशकंध
र॥अबबहुभयेतकहुगिरिकंदर॥रहेविरंचिशम्भुमुनि
ज्ञानी॥जिनजिनप्रभुकीमहिमाजानी॥छन्द॥जानहिंप्र
तापतेरहेनिर्भयकपिन्हरिपुमानेफुरे॥चलेविचलिमर्क
टभालुसकलकृपालुपाहिभयातुरे॥१॥हनुमन्तअङ्ग-
दनीलनलबलवन्तअतिरणबांकुरे॥मर्दहिंदशाननको
टिकोटिन्हकपटभटकेअंकुरे॥२॥दोहा॥सुरवानरदेखे
विकलहंसेकोशलाधीश॥साजिशारङ्गएकशरहतेस
कलदशशीश॥८४॥चौपाई॥प्रभुक्षणमहंमायासबका
टी॥जिमिरविउदयजाहिंतमफाटी॥रावणएकदेखिसुर
हर्षे॥विपुलसुमनपुनिप्रभुपरवर्षे॥भुजउठाइरघुपतिक
पिफेरे॥फिरेएकएकन्हिकेटेरे॥प्रभुबलपाइभालुकपिधा
ये॥तरलतमकिसंयुगमहंआये॥अस्तुतिकरतदेवतेहिं
देखे॥भयउएकमैंइनकेलेखे॥शठहुसदाममरणामनाये॥

स्रमकहिंगगनपंथकहँधाये॥हाहाकारकरतसुरभागे॥
खलहुजाहुकहंमोरेआगे॥देखिविकलसुरअंगदधावा
कूदिचरणगहिभूमिगिरावा॥छन्द॥गहिभूमिपार्यौला
तमारयौबालिसुतप्रभुपहिंगयो॥संभारिउठिदसकंठघो
रकठोररवगर्जतभयो॥४९॥करिदापपतुषचढाइदसम
न्यानिसरबहुवर्षई॥कियसकलभटघायलभयाकुल
देखिनिजबलहर्षई॥५०॥दोहा॥तबरघुपतिलंकेसके
बीसभुजादसचाप॥काटेभयेबहोरिबहुजिमितीरथके
पाप॥९५॥चौपाई॥सिरभुजबाढिदेखिरिपुकेरी॥भालु
कपिन्हरिसभईघनेरी॥मरतनमूढकटेंहुभुजसीसा॥धा
येकोपिभालुभटकीसा॥बालितनयमारुतनलनीला
द्विविदमयन्दमहाबलसीला॥विटपमहीधरकरहिंप्रहा
रा॥सोइगिरितरुगहिकपिन्हसोमारा॥एकनखन्हि
रिपुवपुषविदारी॥भागिचलहिंएकलातन्हिमारी॥तब
नलनीलसिरनिचढिगयेऊ॥नखनिललाटविदारतभ
येऊ॥रुधिरविलोकिसकोपसुरारी॥तिनहिंधरनकहंभु
जापसारी॥गहेनजाहिंसिरनिपरफिरहीं॥जनयुगमधु
पकमलवनचरहीं॥कोपिकूदिद्वौधरेसिवहोरी॥महिप
टकभजेभुजामरोरी॥पुनिसकोपिदसधनुकरलीन्हा
सरनिमारिघायलकपिकीन्हा॥हनुमदादिमुर्छितक

कल्याण

रिवन्दर॥ पाइप्रदोषहर्षदशकन्धर॥ मूर्छितदेखिस
कलकपिवीरा॥ जाम्बवन्तधावारणधीरा॥ सङ्गभालु
भूधरतरुधारी॥ मारणलगेप्रचारिप्रचारि॥ भयोक्रोध
रावणबलवाना॥ गहिपदमहिपटकेभटनाना॥ देखि
भालुपतिनिजदलघाता॥ कोपिमांझउरमारेउलाता॥

छन्द॥ उरलातघातप्रचण्डलागतविकलरथतेमहिप
रा॥ गहिभालुवीशहुँकरनिमानहुँकमलनिशिवसि
मधुकरा॥ ५१॥ मूर्च्छितवहोरिविलोकिपदहतिभालु
पतिप्रभुपहिंगयो॥ निशिजानिस्यन्दनघालितेहित
वसूतयतनकरतभयो॥ ५२॥

दोहा॥ मूर्च्छाविगतभा
लुकपिसवआयेप्रभुपास॥ सकलनिशाचररावणहिं
घेरिरहेअतित्रास॥ ९८॥

चौपाई॥ तेहिनिशिमहँसीता
पहिंजाई॥ त्रिजटाकहिसवकथाबुझाई॥ सिरभुजवा
ढिसुननतरिपुकेरी॥ सीताउरभइत्रासघनेरी॥ मुखम
लीनउपजीमनचिंता॥ त्रिजटासनवोलीतवसीता॥ हो
इहिकहाकहसिकिनमाता॥ केहिविधमरिहिविश्व
दुखदाता॥ रघुपतिशरशिरकटेहुनमरई॥ विधिविप
रीतचरितसवकरई॥ मोरअभाग्यजियावतओही॥ जे
हिहौंहरिपदकमलविछोही॥ जेहिकृतकनककपट
मृगझूठा॥ अजहुँसोदैवमोहिपरुठा॥ जेहिंविधि।

रामा.
लं.
५१

मोहि दुख दुसह सहाय ॥ लछमन कहं कटु वचन कहा
य ॥ रघुपति विरह सविष शर भारी ॥ तकि तकि मार बार बार
मोहि मारी ॥ पेसेहु दुख जो राखहिं प्राणा ॥ सोइ विधि ता
हि जिआवन आना ॥ बहुविधि करति विलाप जानकी ॥
करि करि सुरति कृपा धानकी ॥ कहहि त्रिजटा सुनु राज
कुमारी ॥ उरशर लागत मरहिं सुरारी ॥ तातें प्रभु उर हत
हिं न तेही ॥ एहि के हृदय वसति वैदेही ॥ छन्द ॥ एहि के हृ
दय वस जानकी मम जानकी उर वास है ॥ मम उदर भुव
न अनेक लागत बाण सबको नास है ॥ ५३ ॥ सुनि मन न
हर्ष विषाद उर अति देखि पुनि त्रिजटा कहा ॥ अब मरहिं
रिपु सन्देह मिन हृदय हत जइ तम संशय महा ॥ ५४ ॥ दो
हा ॥ काटत शिर होइहि विकल छुटि जाइ तव ध्यान ॥ त
ब रावणहिं हृदय महं मारहिं राम सुजान ॥ ९७ ॥ चौपा
इ ॥ अस कहि बहु प्रकार समुझाई ॥ पुनि त्रिजटा निज भव
न सिधाई ॥ राम स्वभाव सुमिरि वैदेही ॥ उपजी विरह
व्यथा अति तेही ॥ निशिहिं शशिहिं निन्दति बहु भांती
युग सम भई सिरानि न राती ॥ करति विलाप मनहिं मन
भारी ॥ राम विरह जानकी दुखारी ॥ जब अति भयेउ विर
ह उर दाहू ॥ फरकेउ वाम नयन अरु बाहू ॥ शगुण वि
चारि धरी मन धीरा ॥ अब मिलिहहिं कृपालु रघुवीरा ॥

51

इहाँ अर्द्ध निशि रावण जागा ॥ निज सारथि सन खीझ
न लागा ॥ शठ रण भूमि छुडायेहु मोही ॥ धिक धिक अ
धम मन्द मति तोही ॥ तेइ पद गहि बहु बिधि समुझावा ॥
भोर भये रथ चढि पुनि धावा ॥ सुनि आगमन दशानन के
रा ॥ कपि दल खरभर भयउ घनेरा ॥ जहँ तहँ भूधर विटप
उपारी ॥ धाये कटकटाइ भट भारी ॥ छन्द ॥ धाये जो मर्कट
विकट भालु कराल कर भूधर धरा ॥ अति कोपि करहिं प्र
हार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ ५५ ॥ बिचलाइ दल बल
वन्त कीशन्हि घेरि पुनि रावण लियो ॥ दश दिशि चपेट
न्ह मारि नखनि विदारि तेहि व्याकुल कियो ॥ ५६ ॥ दोहा ॥
देखि महा मर्कट प्रबल रावण कीन्ह विचार ॥ अन्तरहि
त भा निमिष महँ कृत माया विस्तार ॥ ९९ ॥ तोमर छन्द ॥
जब कीन्ह तेहि पाषंड ॥ भये प्रगट जन्तु प्रचंड ॥ बैताल भूत
पिशाच ॥ कर धरे धनु नाराच ॥ ५७ ॥ योगिनि गहे करबा
ल ॥ एक हाथ मनुज कपाल ॥ करि सद्य शोणित पान ॥
नाचहिं करहिं बहु गान ॥ ५८ ॥ धरु मारु बोलहिं घोर ॥ र
हि पूरि धुनि चहुँ ओर ॥ मुख बाय धावहिं खान ॥ तब ल
गे कीश परान ॥ ५९ ॥ जहँ जाहिं मर्कट भागि ॥ तहँ बरत
देखहिं आगि ॥ भये बिकल बानर भालु ॥ पुनि लाग बर्ष
ण बालु ॥ ६० ॥ जहँ तहँ थकित करि कीश ॥ गर्जेउ बहुरि

दशशीश ॥ लक्ष्मण कपीश समेत ॥ भये सकल वीर अ-
चेत ॥ ८१ ॥ हा राम हा रघुनाथ ॥ कहि सुभट मीजहिं हाथ
यहि विधि सकल बल तोरि ॥ तेहिं कीन्ह कपट बहोरि ॥ ८२
प्रगटेसि विपुल हनुमान ॥ धाये गहे पाषाण ॥ तिनि घेरि
रामहिं जाइ ॥ चहुं दिशि वरूथ बनाइ ॥ ८३ ॥ मारहु धरहु
जनि जाइ ॥ कटकटहिं पूंछ उठाइ ॥ दशदिशि लंगूर वि-
राज ॥ तेहिं मध्य कोशलराज ॥ ८४ ॥ छन्द ॥ तेहिं मध्य को-
शलराज सुन्दर श्याम तनु शोभा लही ॥ जनु इन्द्रधनुष
अनेक की वर वारि तुङ्ग तमालही ॥ ८५ ॥ प्रभु देखि हर्ष
विषाद उर सुर वदत जय जय जय करी ॥ रघुवीर एकहि ती-
र कोपि सो निमिष महं माया हरी ॥ ८६ ॥ माया विगत क-
पि भालु हर्षे विटप गिरि गहि सब फिरे ॥ शर निकर छा-
डे राम रावण बाहु शिर महि महं गिरे ॥ ८७ ॥ श्रीराम राव-
ण समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं ॥ शत शेष शार-
द निगम आगम न तदपि पार न पावहीं ॥ ८८ ॥ दोहा ॥ कहे
ता सु गुण गण कछुक जडमति तुलसीदास ॥ जिमि
निज बल अनुरूप तें मशक उडहिं आकाश ॥ ८९ ॥ प्रभु
चितये सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश ॥ काटे शर
भुज बार बहु मरै न भट लंकेश ॥ ९० ॥ चौपाई ॥ काटे सि-
र पुनि होहिं अपारा ॥ भोग करत जिमि बाढै मारा ॥ मरै

नरिपुश्रमभयउविशेषा॥रामविभीषणतनतबदेषा॥उ
माकालमरजाकीइच्छा॥सोप्रभुकरजनप्रीतिपरीछा॥
सुनुसर्वज्ञचराचरनायक॥प्रणतपालसुरमुनिसुखदा
यक॥नाभीकुंडपियूषवसयाके॥नाथजियतरावणव
लताके॥सुनतविभीषणवचनकृपाला॥हर्षिगहेकरवा
णकराला॥अशुभहोनलगेतबनाना॥रोवहिंबहुसृगा
लखरस्वाना॥बोलहिंखगजगआरतहेतू॥प्रगटभयेज
हंतहंनभकेतू॥दशदिशिदाहहोनतबलागा॥भयेउपर्व
विनुरविउपरागा॥मन्दोदरिउरकंपतभारी॥प्रतिमास्रव
हिंनयनमगवारी॥छन्द॥प्रतिमारुदहिंपविपातनभअति
वातवहडोलतिमही॥वर्षहिंबलाहकरुधिरकचरजअ
शुभअतिशककोकही॥८९॥उतपातअमितविलोकिसुर
नभविकलबोलहिंजयजये॥सुरसभयजानिकृपालरघु
पतिचापशरजोरतभये॥९०॥दोहा॥आकर्षेउपनुश्रवण
लगिछाडेशरएकतीश॥रघुनायकशायकचलेमानहुं
कालफणीश॥९१॥चौपाई॥शायकएकनाभिशरशोषा
अपरलगेशरभुजकरिरोषा॥लैसिरबाहुचलेनाराचा॥सि
रभुजहीनरुण्डमहिनाचा॥धरणिधसैधरधावप्रचंडा॥
तबशरहतिप्रभुकृतदुइखंडा॥गर्जउमरतघोररवभारी
कहांरामरणहतौंप्रचारी॥डोलीभूमिगिरतदशकंधर॥

त्वमितसिंधुसरिदिगगजभूधर॥परेउभूमिधुनगरावेउबढा
ई॥चापिभालुमर्कटसमुदाई॥मन्दोदरिय्रागेभुजशीशा॥
धरिशरचलेजहांजगदीशा॥प्रविशेसवनिषंगमहंजाई
देखिसुरन्हदुन्दभीवजाई॥तास्ततेजप्रविशोउप्रभुश्रानन
हर्षेदेखिशंभुचतुराननन॥जयध्वनिपुरिरहीब्रह्मावेडा॥
जयरघुवीरप्रबलभुजदंडा॥वर्षहिंसुमनदेवमुनिवृन्दा
जयकृपालजयजयतिमुकुन्दा॥छन्द॥जयकृपाकंदमु
कुन्दहरिमर्दननिशाचरमदप्रभो॥खलदलविदारण
परमकारणकारुणीकसदाविभो॥१॥सुरसिद्धमुनिगं
धर्वहर्षेवाजदुन्दुभिगहगही॥संग्रामअंगनरामअंगअन
कृबहुशोभालही॥२॥शिरजटामुकुटप्रसूनविचिवि
चित्रतिमनोहरराजहीं॥जनुनीलगिरिपरतडितपटल
समेतउडुगणभ्राजहीं॥३॥भुजदंडशरकोदंडफेरतरुधि
रकणतनअतिवने॥जिमिराजमुनिस्रुतमालऊपरवैठि
विपुलसुखयापने॥४॥दोहा॥कृपादृष्टिकरिवृष्टिप्रभु
अभयकियेसुरवृन्द॥हर्षेवानरभालुकपिजयसुखधाम
मुकुन्द॥१०२॥चौपाई॥पतिशिरदेखिउरमन्दोदरि॥
मूर्छितविकलधरणिखसिपरि॥युवतिवृन्दरोवतिउठि
धाई॥तेहिउठाइरावणपहिंआई॥पतिगतिदेखितेकरु
पुकारा॥छूटेकेशनदेहसंभारा॥उरताडनाकरहिंविधना

ना॥ रोदनकरिहिंप्रतापवखाना॥ तवबलनाथडोलनि
तधरणी॥ तेजहीनपावकशशितरणी॥ शेषकमठसहि
शकहिंनभारा॥ सोतनुआजुपराजरिछारा॥ वरुणकुवेर
सुरेशसमीरा॥ रणसन्मुखधरकाहुनधीरा॥ भुजबलजी
तेहुकालयमसांई॥ आजुसोपरेहुअनाथकीनांई॥ जगत
विदिततुम्हारप्रभुताई॥ सुतपरिजनबलवरणिनजाई॥
रामविमुखअसहालतुम्हारा॥ रहानकुलकोउरोवनहा
रा॥ तववशविधिप्रपंचसबनाथा॥ सभदिगपतितोहि
नावहिंमाथा॥ अवतवसिरभुजजंबुकखाहीं॥ रामविमु
खयहअनुचितनाहीं॥ कालविवशपतिकहानमाना॥ अ
गजगनाथमनुजकरिजाना॥ दोहा॥ अहहनाथरघुनाथ
समकृपासिंधुकोआन॥ मुनिदुर्लभजोपरमगतितुमहिं
दीनभगवान॥ १०३॥ चौपाई॥ मन्दोदरीवचनसुनिकाना॥
सुरमुनिसिद्धसबहिंसुखमाना॥ अजमहेशनारदसन
कादी॥ जेमुनिवरपरमारथवादी॥ भरिलोचनरघुपति
हिंनिहारी॥ प्रेममगनसबभयेउसुखारी॥ रोदनकरत
किलोकेउनारी॥ भयेउविभीषणमनदुखभारी॥ बन्धुदा
शादेखिनदुखभयेऊ॥ तबप्रभुअनुजहिआयसुदयेऊ॥ ल
छमणतेहिबहुविधिसमुझाये॥ सहितविभीषणप्रभुपहि
आये॥ कृपादृष्टिप्रभुताहिविलोका॥ करहुक्रियापरिहरि॥

सबषोका॥कीन्हक्रियाप्रभुआयसुमानी॥विधिवतदे
शकालजियजानी॥दोहा॥मयतनयादिनारिदेइतिल
लाञ्जलितांहि॥भवनगईरघुवीरगुणगणवरणतिमन
माहि॥१४॥चौपाई॥आइविभीषणपुनिसिरनावा॥कृ
पासिंधुतबअनुजबुलावा॥तुमकपीशअङ्गदनलनीला
जाम्बवतमारुतिनयशीला॥सबमिलिजाउविभीषण
साथा॥सारेउतिलककहेउरघुनाथा॥पितावचनमैंन
गरनआऊं॥आपुसरिसकपिअनुजपठाऊं॥तुरतचले
कपिसुनिप्रभुवचना॥कीन्हीजाइतिलककीरचना॥सा
दरसिंहासनबैठारी॥तिलकसारिअस्तुतिअनुसारी॥जो
रिपाणिसबहीसिरनाये॥सहितविभीषणप्रभुपहिंआ
ये॥तबरघुवीरबोलिकपिलीन्हे॥कहिप्रियवचनसु
खीसबकीन्हे॥छन्द॥कीन्हेउसुखीसबकहिसुबाणीब
लतुम्हारेरिपुहयो॥पायोविभीषणराजतिहुंपुरयशतु
म्हारोनितनयो॥१५॥मोहिसहितशुभकीरतितुम्हारी
परमप्रीतिजेगाइहैं॥संसारसिन्धुअपारपारप्रयाससवि
तुनरपाइहैं॥१६॥दोहा॥प्रभुकेवचनश्रवणसुनिनहि
अघातकपिपुञ्ज॥वारहिंवारसिरनावहिंगहहिंरामपदक
ञ्ज॥१५॥चौपाई॥पुनिप्रभुबोलिलियेहनुमाना॥लंका
जाहुकहेउभगवाना॥समाचारजानकिहिसुनावहु॥

तासुकुशललैतुमचलिआवहु॥ तबहनुमन्तनगरमहे
आये॥ सुनिनिशिचरीनिशाचरधाये॥ पूजाबहुप्रकारति
न्हकीन्हा॥ जनकसुतादिखाईसबदीन्हा॥ दूरहितेंप्र
णामकपिकीन्हा॥ रघुपतिदूतजानकीचीन्हा॥ कहहु
तातप्रभुकृपानिकेता॥ कुशलअनुजकपिसेनसमेता॥
सबविधिकुशलकोशलाधीशा॥ मातसमरजीतेउदश
शीशा॥ अविचलराजविभीषणपावा॥ सुनिकपिवच
नहर्षउरछावा॥ छन्द॥ अतिहर्षमनतनुपुलकलोचन
सजलपुनिपुनिकहरमा॥ कादेउंतोहित्रैलोक्यमहं
कपिकिमपिनहिंवाणीसमा॥ ११॥ सुनुमातमैंपाएउं
अखिलजगराजआजुनसंशयं॥ रणजीतिरिपुदलबं
धुयुतपश्यामिराममनामयं॥ १८॥ दोहा॥ सुनुसुतसद
गुणसकलतवहृदयबसोहनुमन्त॥ सानुकूलरघुवंश
मणिरहहिंसमेतअनन्त॥ १९६॥ चौपाई॥ अबसोइयतन
करहुतुमताता॥ देखौंनयनश्याममृदुगाता॥ तबह
नुमन्तरामपहिंआएउ॥ जनकसुताकरकुशलसुना।
एउ॥ सुनिसन्देशपतङ्गकुलभूषण॥ बोलिलियेकपिरा
जविभीषण॥ मारुतसुतकेसंगसिधावहु॥ सादरजन
कसुतालैआवहु॥ तुरतहिंसकलगयेजहंसीता॥ सेवहिं
सबनिशिचरीविनीता॥ वेगिविभीषणतिन्हसिखावा

तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवावा॥ बहु प्रकार भूषण पहि
राए॥ शिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए॥ तेहि पर हर्षि च
ढी बैदेही॥ सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ देखन भालु
कीश बहु धाए॥ रक्षक कोपि निवारण आए॥ बेतपाणि
रक्षक चहुँ पासा॥ चले सकल मन परम हुलासा॥ कह र
घुबीर कहा मम मानहु॥ सीतहि सखा पयादे आन
हु॥ देखहिं कपि जननी की नाईं॥ बिहँसि कहा रघुबीर
गोसाईं॥ सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे॥ नभ ते सुरन्ह
सुमन बहु बर्षे॥ सीता प्रथम अग्नि महँ राखी॥ प्रगट की
न्ह चहहिं अन्तर साखी॥ दोहा॥ तेहि कारण करुणायतन
कहे कछुक दुर्बाद॥ सुनत जातुधानी सकल लागी क
रण बिषाद॥१०८॥ चौपाई॥ प्रभु के बचन शीर्ष धरि सीता
बोली मन क्रम बचन पुनीता॥ लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी
पावक प्रगट करहु तुम बेगी॥ सुनि लक्ष्मण सीता की बा
णी॥ बिरह बिबेक धर्म नय सानी॥ लोचन सजल जोरि
कर दोऊ॥ प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ॥ देखि राम
रुख लक्ष्मण धाए॥ प्रगट दारु बहु लाए॥ प्रबल
अनल बिलोकि बैदेही॥ हृदय हर्ष कछु भय नहि तेही॥
जो मन कर्म बचन मम उर माहीं॥ तजि रघुबीर आन गति
नाहीं॥ तौ कृशानु सब की गति जाना॥ मो कहँ होउ श्रीख

एउसमाना॥छन्द॥श्रीखण्डसमपावकप्रवेशकियसु
मिरिप्रभुपदमैथिली॥जयकोशलेशमहेशवन्दितचर
णरजअतिनिर्मली॥९९॥प्रतिबिम्बअरुलौकिककलङ्क
प्रचण्डपावकमहंजरे॥प्रभुचरितकाहुनलखेसुरमु
निसिद्धसबदेखहिंखरे॥१०॥तबअनलभूसुररूपकर
गहिसत्यश्रीश्रुतिविदितसो॥जिमिछीरसागरइन्दिरा
रामहिंसमर्पीआनिसो॥११॥सोरामवामविभागराज
तिरुचिरअतिशोभाभली॥नवनीलनीरजनिकटमान
हुंकनकपङ्कजकीकली॥१२॥दोहा॥हर्षिसुमनवर्षहिं
विबुधबाजहिंगगननिशान॥गावहिंकिन्नरअपसरा
नाचहिंचढीविमान॥१९८॥चौपाई॥तबरघुपतिअनुशा
सनपाई॥मातलिचलेउचरणसिरनाई॥आएदेवसदास्वा
रथी॥वचनकहहिंजनुपरमारथी॥दीनबंधुदयालरघु
राया॥देवकीन्हदेवनपरदाया॥विश्वद्रोहरतखलअति
कामी॥निजअघगयउकुमारगगामी॥तुमसर्वज्ञब्रह्म
अविनाशी॥सदाएकरससहजउदासी॥अकलअगुण
अजअनघअनामय॥अजितअमोघशक्तिकरुणामय॥
मीनकमठशूकरनरहरि॥वामनपरशुरामवपुधरि॥ज
बजबनाथसुरन्हदुखपावा॥नानातनुधरितुमहिंनशा
वा॥यहखलमलिनसदासुरद्रोही॥कामलोभमदरतअ

तिकोही॥ अधम शिरोमणि तव पद पावा॥ यह हमरे म-
न अचरज आवा॥ हम देवता परम अधिकारी॥ स्वारथ र-
त प्रभो भक्ति विसारी॥ भव सागर सन्तत हम परे॥ अब प्रभु
पाहि शरण अनुसरे॥ दोहा॥ करि विनती सुर सिद्ध सब
रहे विरञ्चि कर जोरि॥ अति सप्रेम तनु पुलकित अस्तुति
करत बहोरि॥ ११॥ छन्द॥ जय राम सदा सुखधाम हरे
रघुनायक सायक चापधरे॥ भव वारण दारण सिंह प्रभो
गुण सागर नागर नाथ विभो॥ १॥ तनु काम अनेक अनू-
प छवी॥ गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवी॥ जश पावन राव-
ण नाग महा॥ खगनाथ यथा करि कोप गहा॥ २॥ जन र-
ञ्जन भञ्जन शोक भयं॥ गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं॥ अ-
वतार उदार अपार गुणं॥ महिभार विभञ्जन ज्ञानघनं॥ ३
अज व्यापकमेकमनादि सदा॥ करुणाकर राम नमामि
मुदा॥ रघुवंश विभूषण दूषणहा॥ कृत भूप विभीषण दी-
न रहा॥ ४॥ गुण ज्ञान निधान अमान मजं॥ नित राम न-
मामि विभुं विरजं॥ भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बलं॥ खल वृ-
न्द निकन्द महा कुशलं॥ ५॥ विनु कारण दीन दयालु हि-
तं॥ छवि धाम नमामि रमा सहितं॥ भव तारण कारण का-
र्य परं॥ मन सम्भव दारुण दोष हरं॥ ६॥ सुर चाप मनोह-
र तोण धरं॥ जलजारुण लोचन भूप वरं॥ सुख मन्दिर स-

न्दरश्रीरमणं॥मदमारमहाममताशमनं॥८९॥अन
वद्यअखण्डनगोचरगो॥सबरूपसदासबहोयनसो॥
इतिवेदवदन्तिनदन्तिकथा॥रविआतपभिन्नमभिन्न
यथा॥९०॥कृतकृत्यविभोसबबानरए॥निरखन्तितवा
ननसादरए॥धिक्जीवनदेवशरीरहरे॥तवभक्तिविना
भवभुलिपरे॥९१॥अबदीनदयालुदयाकरिए॥मतिमो
रिविभेदकरीहरिए॥जेहितेंविपरीतक्रियाकरिए॥दुख
सोसुखमानिसुखीचरिए॥९२॥खलखण्डनमण्डनर
म्यछमा॥पदपङ्कजसेवितशंभुउमा॥नृपनायकदेवर
दानमिदं॥चरणाम्बुजप्रेमसदाशुभदं॥९३॥दोहा॥वि
नयकीन्हचतुराननप्रेमपुलकअतिगात॥शोभासिंधु
विलोकतलोचननहींअघात॥२००॥चौपाई॥तेहिअव
सरदशरथतहँआए॥तनयविलोकिनयनजलछाए॥
अनुजसहितप्रभुवन्दनकीन्हा॥आशिर्वादपितातबदी
न्हा॥तातसकलतवपुण्यप्रभाऊ॥जीत्योअजयनिशा
चरराऊ॥सुनिसुतवचनप्रीतिअतिबाढी॥नयनसलि
लरोमावलिठाढी॥रघुपतिप्रथमप्रेमअनुमाना॥चित
पितहिंदीन्हेउदृढज्ञाना॥तातेंउमामोक्षनहिंपायो॥द
शरथभेदभक्तिमनलायो॥सगुणोपासकमोक्षनलेहीं
तिन्हकहँरामभक्तिनिजदेहीं॥बारबारकरिप्रभुहिंप्रणा

मा॥दशरथहरषितिगएसुरधामा॥दोहा॥अनुजजान
कीसहितप्रभुकुशलकोशलाधीश॥शोभादेखिहर
षमनअस्तुतिकरसुरईश॥२०॥लघुछन्द॥जयराम
शोभाधाम॥दायकप्रणतविश्राम॥धृततूणिवरशर
चाप॥भुजदण्डप्रबलप्रताप॥९४॥जयदूषणारिखरा-
रि॥मर्दननिशाचरधारि॥इहदुष्टमारेउनाथ॥भए
देवसकलसनाथ॥९५॥जयहरणधरणीभार॥महि
माउदारअपार॥जयरावणारिखरारि॥मर्दननिशाच
रधारि॥९६॥जयरावणारिकृपाल॥कियेजातुधानबि
हाल॥लंकेशअतिबलगर्व॥किएवश्यसुरगन्धर्व॥९
मुनिसिद्धनरखगनाग॥हठिपंथसबकेलाग॥परद्रो
हरतअतिदुष्ट॥पायोसोफलपापिष्ट॥९८॥अबसुनहु
दीनदयाल॥राजीवनयनविशाल॥मोहिरहाअति-
अभिमान॥नहिकोउमोहिसमान॥९९॥अबदेखिप्रभु
पदकञ्ज॥गतमानप्रददुखपुञ्ज॥कोउब्रह्मनिर्गुण-
ध्याव॥अव्यक्तजेहिश्रुतिगाव॥१००॥मोहिभावकौ
शलभूप॥श्रीरामसगुणस्वरूप॥वैदेहिअनुजस
मेत॥ममहृदयकरहुनिकेत॥१०१॥मोहिजानियेनि
जदास॥दैभक्तिरमानिवास॥छन्द॥दैभक्तिरमानिवा
सत्रासहरणशरणसुखदायकं॥सुखधामरामनमा-

नामिकामम्अनेककछुविरंचुनायकं॥१०४॥सुरबृन्दरंज
नद्वंदभंजनमनुजतनुअतुलितबलं॥ब्रह्मादिशंक
रसेव्यरामनमामिकरुणाकोमलं॥१०३॥दोहा॥अब
करिकृपाविलोकिमोहिआयसुदेऊकृपाल॥कहाक
रौंसुनिप्रियवचनबोलेदीनदयाल॥२०२॥चौपाई॥सु
णसुरपतिकपिभालुहमारे॥परेभूमिनिशिचरन्हजे
मारे॥ममहितलागितजेइन्हप्राणा॥सकलजिआउसु
रेशसुजाना॥सुणखगेशप्रभुकेइहबाणी॥अतिअगा
धजानहिंमुनिज्ञानी॥प्रभुशकत्रिभुवनमारिजिआई॥
केवलशक्रहिदीन्हबडाई॥सुधावरषिकपिभालुजि
आए॥हरषिउठेसबप्रभुपहंआये॥सुधावृष्टिभईदुहुंद
लऊपर॥जिएभालुकपिनहिंरजनीचर॥रामाकारभए
तिन्हकेमन॥मुक्तभएछूटेभवबंधन॥सुरअंसिकसब
कपिअरुऋच्छा॥जियेसकलरघुपतिकीइच्छा॥राम
सकोपदीनहितकारी॥कीन्हेमुक्तनिशाचरझारी॥ख
लमलधामकामरतरावण॥गतिपाईजोमुनिवरपावन॥
दोहा॥सुमनवरषिसबसुरचलेचढिचढिरुचिरविमा
न॥देखिसुअवसरप्रभुपहिंआएशंभुसुजान॥२०३॥प
रमप्रीतिकरजोरिजुगनलिननयनभरिवारि॥पुलकि
ततनगदगदगिराविनयकरतत्रिपुरारि॥२०४॥चौपा०

नन्दी चढे उमहा गण संगा ॥ शोभित मान गौरी अरधंगा
जलक गंग सिर चन्द्र लिलारा ॥ नीलकण्ठ छवि गरल की
न्यारा ॥ कर खपर पर गौरैं नरसिरमाला ॥ अहिकुल पतित श्रु
ति गरे विशाला ॥ तीन नयन पिङ्गल सिर जूटा ॥ श्वेत विभू
ति देह अति छूटा ॥ डिमडिमडिमड मरु कर बाजे ॥ शृंगी
गरैं भृंग छाल विराजै ॥ तरुण अरुण अम्बुज सम चर
ण ॥ नयद्दुति भक्त हृदय तम हरण ॥ मणि विभूति भूष
ण त्रिपुरारी ॥ आनन सरद चन्द्र छवि हारी ॥ इहि विधि मो
ह काम रिपु कैसे ॥ परे शरीर शान्त रस जैसे ॥ दोहा ॥ नाशि
लंकापति सपन मब बैठे कोशलधीश ॥ संग चारि गन्ध
र्वगण गण उतहाँ गिरीश ॥ २०७ ॥ परम प्रीति कर जोरि जु
ग कमल नयन भरि वारि ॥ पुलक गात गदगद गिरा वि
नय करत त्रिपुरारि ॥ २०८ ॥ छन्द ॥ मामभिरक्षय रघुकुल
नायक ॥ धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ मोह महाघन
पटल प्रभञ्जन ॥ संशय विपिन अनल सुररञ्जन ॥ २०४ ॥
अगुण सगुण गुण मन्दिर सुन्दर ॥ भ्रम तम प्रबल प्रताप
दिवाकर ॥ काम क्रोध मद गज पंचानन ॥ वसहु निरन्तर
मम मन कानन ॥ १०५ ॥ विषय मनोरथ पुञ्ज कञ्ज वन ॥ प्र
बल तुषार उदार पार मन ॥ भववारिधि मन्दर परमन्दर ॥ बा
रय तारय संसृति दुस्तर ॥ २०६ ॥ श्यामगात्र राजीव विलोच

न॥दीनबन्धुप्रणतारतमोचन॥अनुजजानकीसहित।
निरन्तर॥वसहुरामनृपममउरअन्तर॥मुनिरञ्जनमहि
मण्डलमण्डन॥तुलसिदासप्रभुत्रासविखण्डन॥दोहा॥
नाथजबहिकोशलपुरीहोइहितिलकतुम्हार॥कृपासि
धुमैआउबदेखनचरितउदार॥२०९॥चौपाई॥करिविनती
जबशम्भुसिधाए॥तबप्रभुनिकटविभीषणआए॥नाइच
रणसिरकहिमृदुबाणी॥विनयसुनहुप्रभुशारङ्गपाणी
सकुलसदलप्रभुरावणमारा॥पावनजशत्रिभुवनविस्ता
रा॥दीनमलीनहीनमतिजाती॥मोपरकृपाकीन्हबहुभां
ती॥अबजनगृहपुनितप्रभुकीजे॥मज्जनकरियसमरश्र
मछीजे॥देखिकोशमन्दिरसम्पदा॥देहुकृपालकपिन्ह
कहँमुदा॥सबविधिनाथमोहिअपनाये॥पुनिमोहिसहि
तअवधप्रभुजाये॥सुनतवचनमृदुदीनदयाला॥सजल
भयेदोउनयनविशाला॥दोहा॥तोरकोशगृहमोरसबस
त्यवचनसुणुभ्रात॥भरतदशासुमिरतमोहिनिमिषक
ल्पसमजात॥२१०॥तापसवेषगातकृशजपतनिरन्तरमो
हि॥देखौंवेगिसोजतनकरुसखानिहोरौंतोहि॥२११॥बी
तेअवधिजाउँजौंजियतनपावौंवीर॥सुमिरतअनुजप्री
तिप्रभुपुनिपुनिपुलकशरीर॥२१२॥करहुकल्पभरिराज
तुम्हमोहिसुमिरहुमनमाहिं॥पुनिममधामपाइहहुज

हो सन्तसबजाहिं॥ ११३॥ चौपाई॥ सुनतविभीषणवचन
रामके॥ हरषिगहेपदकृपाधामके॥ वानरभालुसकल
हरषाने॥ गहिप्रभुपदगुणविमलबखाने॥ बहुरिविभी
षणभवनसिधावा॥ मणिगणवसनविमानभरावा॥ लैपु
ष्पकप्रभुआगेराषा॥ हंसिकेकृपासिन्धुतबभाषा॥ चढि
विमानसुणुसखाविभीषण॥ गगनजाइवर्षहुपटभूष
ण॥ नभपरजाइविभीषणतबही॥ वर्षिदियेमणिभूषण
सबही॥ जोजेहिमनभावैसोलेई॥ मणिमुखमेलिडारिक
पिदेई॥ हंसतरामसियअनुजसमेता॥ परमकौतुकीकृ
पानिकेता॥ दोहा॥ मुनिजेहिंध्याननपावहिंनेतिनेतिक
हवेद॥ कृपासिन्धुसोइकपिनसोकरतअनेकविनोद॥ ११
उमायोगजपदानतपनानाब्रतमखनेम॥ रामकृपानहि
करहिंतसिजसिनिःकेवलप्रेम॥ ११५॥ चौपाई॥ भालुका
पिनपटभूषणपाये॥ पहिरिपहिरिरघुपतिपहिंआये॥
नानाजिनिसदेखिप्रभुकीशा॥ पुनिपुनिहसतकोशला
धीशा॥ चितैसबनिपरकीन्हीदाया॥ बोलेमधुरवचनर
घुराया॥ तुम्हरेबलमैरावणमारा॥ तिलकविभीषणक
हंपुनिसारा॥ निजनिजगृहअबतुमसबजाहू॥ सुमिरेहु
मोहिडरपहुजनिकाहू॥ सुनतवचनप्रेमाकुलवानर॥
जोरिपाणिबोलेसबसादर॥ प्रभुजोकरहुतुमहिंसबशो

हा॥हमरेहोतवचनसुनिमोरा॥दीनजानिकपिकियेस
नाथा॥तुमत्रैलोकईशरघुनाथा॥सुनिप्रभुवचनलाज
हममरहीं॥मशककबहूंखगपतिहितकरहीं॥देखिरा
मरुषवानररीछा॥प्रेममगननहिंगृहकीइच्छा॥दोहा॥
प्रभुप्रेरितकपिभालुसबरामरूपउरराषि॥हर्षविषादस
मेतसबचलेविनयबहुभाषि॥२१६॥कपिपतिनीलरीछ
पतिअङ्गदनलहनुमान॥सहितविभीषणअपरजेयूथप
कपिबलवान॥२१७॥कहिनसकहिंकछुप्रेमवशभरिभ
रिलोचनवारि॥सन्मुखचितवहिंरामतननयननिमेष
निवारि॥२१८॥चौपाई॥अतिशयप्रीतिदेखिरघुराई॥ली
न्हेसकलविमानचढाई॥मनमहंविप्रचरणसिरनावा
उत्तरदिशाहिंविमानचलावा॥चलतविमानकोलाहल
होई॥जयरघुवीरकहैसबकोई॥सिंहासनअतिउच्चमनो
हर॥सियसमेतबैठेप्रभुतापर॥राजतरामसहितभामिनी
मेरुशृङ्गजनुघनदामिनी॥रुचिरविमानचलाअतिआतु
र॥कीन्हीसुमनवृष्टिहर्षेसुर॥परमसुखदचलित्रिविध
बयारी॥सागरसरसरिनिर्मलभईवारी॥शगुणहोहिंसुन्दर
चहुंपासा॥मनप्रसन्ननिर्मलआकाशा॥कहरघुवीरदेखु
रणसीता॥लछमणइहांहनेउइन्द्रजीता॥अङ्गदहनुमान
केमारे॥रणमहंपरेनिशाचरभारे॥कुम्भकर्णरावणदोभा

रा.मा.
लं.
६०

ई॥ इहाँ हतते उँ सुर मुनि दुखदाई॥ दोहा॥ इहां सेतु बांध्यो
अरु थापेउं शिव सुखधाम॥ सीता सहित कृपायतन सम्भु
हिं कीन्ह प्रणाम॥२१९॥ जहँ जहँ कृपासिन्धु वन कीन्ह वा
स विश्राम॥ सकल देखाए जानकिहिं कहे सबके
नाम॥२२०॥ चौपाई॥ सपदि विमान तहां चलि आवा॥ द
ण्डक वन जहँ परम सुहावा॥ कुम्भजादि मुनिनायक
नाना॥ गये राम सबके अस्थाना॥ सकल ऋषिन्ह सों पा
इ आसीषा॥ आये चित्रकूट जगदीषा॥ तहँ करि ऋषि-
न्ह केरि संतोषा॥ चला विमान तहां ते चोषा॥ बहुरि राम
जानकिहि देखाई॥ यमुना कलिमल हरणि सुहाई॥ पु
नि देखि सुरसरि पुनीता॥ राम कहा प्रणाम करु सीता॥
तीरथपति पुनि देखि प्रयागा॥ देखत जाहि पाप सब भा-
गा॥ देखि राम पावन पुनि वेणी॥ हरणि शोक सुरलोक
निसेनी॥ देखहु अवधपुरी अति पावनि॥ त्रिविध ताप भव
रोग नशावनि॥ दोहा॥ सीता सहित अवध कहँ कीन्ह कृ
पालु प्रणाम॥ सजल विलोचन पुलक तनु पुनि पुनि हर
षित राम॥२२१॥ पुनि प्रभु आइ त्रिवेणिमहं हर्षित मज्जन
कीन्ह॥ कपिन्ह समेत महीसुरन्हि दान विविध विधि दी-
न्ह॥२२२॥ चौपाई॥ प्रभु हनुमन्तहिं कहा बुझाई॥ धरि-
वटुरूप अवधपुर जाई॥ भरतहिं कुशल हमारि सुनाऊ॥

समाचारलैपुनिचलिआवहू॥भरतपवनसुतगवनत
भयऊ॥तबप्रभुभरद्वाजपहिंगयऊ॥नानाविधिपूजामु
निकीन्ही॥अस्तुतिकरिपुनिआशिषदीन्ही॥मुनिपद
बन्दियुगलकरजोरी॥चढिविमानप्रभुचलेवहोरी॥इहां
निषादसुनाप्रभुआए॥नावनावकहिलोगबुलाए॥सुर
सरिलांघिजानचढिआवा॥उतरेतटप्रभुआयसुपावा॥
तबसीतापूजीसुरसरी॥बहुप्रकारपुनिचरणन्हिपरी॥
दीन्हअशीषमुदितमनगङ्गा॥सुन्दरितवअहिवातअ
भङ्गा॥सुनतहिंगुहधावाप्रेमाकुल॥आवानिकटपरम
सुखसंकुल॥प्रभुहिंविलोकिसहितवैदेही॥परेउअव
नितनुसुधिनहितेही॥परमप्रीतिविलोकिरघुराई॥हर्षि
उठाइलीन्हउरलाई॥छन्द॥लियहृदयलाइकृपानिधान
सुजानरामरमापति॥वैठारिपरमसमीपपूछीकुशल
सोकरिवानति॥१०९॥अबकुशलपदपङ्कजविलोकि॥
विरञ्चिशङ्करसेव्यजे॥सुखधामपूरणकामरामनमा
मिरामनमामिते॥११०॥सबभांतिअधमनिषादसोहरिभ
रतज्योंउरलाइयो॥मतिमन्दतुलसीदाससोप्रभुमोहव
शविसराइयो॥१११॥यहरावणारिचरित्रपावनरामपदर
तिप्रदसदा॥कामादिहरविज्ञानकरसुरसिद्धमुनिगाव
हिंमुदा॥११२॥दोहा॥समरविजयरघुवीरकेजेसुनहिंसु

रामा.
लं.
६१

न्तसुजान॥ विजयविवेकविभूतिनितनितहिंदेहिंभ
गवान॥२२३॥ यहकलिकालमलायतनमनकरिदेखु
विचार॥ श्रीरघुनायकनामतजिनहिकछुआनअधार॥
२२४॥ इतिश्री रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वं
सने विमल वैराग्यसंपादिनो नाम षष्ठः सोपानः समाप्तः॥॥
शुभमस्तु सिद्धिरस्तु॥॥॥॥ श्रीरामचन्द्रापजयपतु॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ उत्तराकाण्ड लिख्यते ॥ श्लोकः ॥

केकीग्रीवाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं ॥ शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् ॥ पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं ॥ नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कमलयोनिमहेश्वरवंदितौ ॥ जानकीकरसजलालितौ चिन्तकस्य हृदयालिसंगिनौ ॥ कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टमन्दिरम् ॥ कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् ॥ दोहा ॥ रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग ॥ जहँ तहँ सोचहिं नारि नर कृश तन राम वियोग ॥ १ ॥ सगुन होहिं सुन्दर सकल मन प्रसन्न सब केरि ॥ प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेरि ॥ २ ॥ कौशल्यादिक मातु सब मन आनंद अस होइ ॥ आयेउ प्रभु सिय अनुज युत कहन चहत अब कोइ ३ ॥ भरत नयन भुज दच्छिण फरकहिं बारहिं बार ॥ जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार ॥ ४ ॥ चौपाई ॥ रहा एक दिन अवधि अधारा ॥ समुझत मन दुख भयेउ अपारा ॥ कारन कवन नाथ नहिं आयेउ ॥ जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसरायेउ ॥ अहह धन्य लछमन बड़भागी ॥ राम

पदारविन्दअनुरागी॥ कपटीकुटिलमोहिप्रभुचीन्हा॥ ता
तेंनाथसङ्गनहिंलीन्हा॥ जौंकरणीसमुझैंप्रभुमोरी॥ न
हिनिस्तारकल्पशतकोरी॥ जनअवगुणप्रभुमाननका
ऊ॥ दीनबन्धुअतिमृदुलसुभाऊ॥ मोरेजियभरोसदृढसो
ई॥ मिलिहहिंरामशगुणशुभहोई॥ बीतेंअवधिरहैंजौंप्रा
णा॥ अधमकवनजगमोहिसमाना॥ दोहा॥ रामविरह
सागरमहँभरतमगनमनहोत॥ विप्ररूपधरिपवनसु
तआइगयउजिमिपोत॥ ५॥ बैठेदेखिकुशासनजटा
मुकुटकृशगात॥ रामरामरघुपतिजपतस्रवतनयनज
लजात॥ ६॥ चौपाई॥ देखतहनूमानअतिहर्षेउ॥ पुलकि
तगातलोचनजलवर्षेउ॥ मनमहँबहुतभाँतिसुखमानी
बोलेउश्रवणसुधासमवाणी॥ जासुविरहशोचहुदिनरा
ती॥ रटहुनिरन्तरगुणगणपाँती॥ रघुकुलतिलकसुज
नसुखदाता॥ आयेकुशलदेवमुनित्राता॥ रिपुरणजीति
सुयशसुरगावत॥ सीताअनुजसहितप्रभुआवत॥ सुण
तवचनविसरेसबदुःखा॥ तृषावन्तजनुपावपियूषा॥
कोतुमतातकहाँतेंआए॥ मोहिपरमप्रियवचनसुनाए
मारुतसुतमैंकपिहनुमाना॥ नाममोरसुनुकृपानिधाना॥
दीनबन्धुरघुपतिकरकिंकर॥ सुनतभरतभेटेउठिसादर
मिलतप्रेमनहिंहृदयसमाता॥ नयनस्रवतजलपुलकित

गाता ॥ कपितवदरशसकलदुखबीते ॥ मिलेआजुमो
हिरामपिरीते ॥ वारवारबूझीकुशलाता ॥ तोकहंकहा
देउंसुणभ्राता ॥ यहसंदेशसरिसजगमांही ॥ करिविचा
रदेखउंकछुनाही ॥ नाहिनउरिनतातमैंतोहि ॥ अवप्रभु
चरितसुनावहुमोहि ॥ तवहनुमाननाइपदमाथा ॥ कहे
सकलरघुपतिगुणगाथा ॥ कहुकपिकवहुंकृपालगो
सांई ॥ सुमिरतमोहिदासकीनाई ॥ छन्द ॥ निजदासज्यौंर
घुवंशभूषणकवहुंममसुमिरणकर्‍यो ॥ सुनिभरतव
चनविनीतअतिकपिपुलकितनचरणन्हिपर्‍यो ॥ १ ॥ र
घुवीरनिजमुखजासुगुणगणकहतअगजगनाथसो
काहेनहोइविनीतपरमपुनीतसदगुणसिंधुसो ॥ २ ॥ दो०
रामप्राणप्रियनाथतुमसत्यवचनममतात ॥ पुनिपुनि
मिलतभरतसुनप्रेमनहृदयसमात ॥ १ ॥ सोरठा ॥ भरतच
रणसिरनाइतुरितगयउकपिरामपहिं ॥ कहीकुशलस
वजाइहर्षिचलेप्रभुयानचढि ॥ १ ॥ चौपाई ॥ हर्षिभरत
कोशलपुरआए ॥ समाचारसवगुरुहिंसुनाए ॥ पुनिम
न्दिरमहंवातजनाई ॥ आवतनगरकुशलरघुराई ॥ सुण
तसकलजननीउठिधाई ॥ कहिप्रभुकुशलभरतसमुझा
ई ॥ समाचारपुरवासिन्हपाए ॥ नरअरुनारिहर्षिउठिधाए ॥
दधिदूर्वारोचनफलफूला ॥ नवतुलसीदलमंगलमूला

रामा. उ. २

भरिभरिहेमथारभामिनि॥ गावतिचलीसिंधुरगामी
नि॥ जोजैसहिंसोतैसहिंधावहिं॥ बालबृद्धकोउसंगन
लावहिं॥ एकएकसनबूझहिंभाई॥ तुमदेखेदयालरघु
राई॥ अवधपुरीप्रभुआवतजानी॥ भईसकलशोभाकीखा
नी॥ भइसरजुअतिनिर्मलनीरा॥ बहैसोहावनत्रिविधसमी
रा॥ दोहा॥ हर्षितगुरुपरिजनअनुजभूसुरबृन्दसमेत
चलेभरतअतिप्रेममनसन्मुखकृपानिकेत॥ ९॥ बहुते
कचढींअटारिन्हनिरखहिंगगनविमान॥ देखिमधुर
स्वरहर्षितकरहिंसुमङ्गलगान॥ १०॥ राकाशशिरघुप
तिपुरीसिंधुदेखिहर्षान॥ बढेउकोलाहलकरतजनुना
रितरङ्गसमान॥ ११॥ चौपाई॥ रविकुलकमलदिवाकर
आवत॥ नगरमनोहरकपिन्हदेखावत॥ सुनुएकपीशअं
गदलंकेशा॥ पावनिपुरीरुचिरयहदेशा॥ यद्यपिसबवै
कुंठबखाना॥ वेदपुराणविदितजगजाना॥ अवधसरि
सप्रियमोहिनसोऊ॥ यहप्रसङ्गजानेकोउकोऊ॥ जन्मभू
मिममपुरीसोहावनि॥ उत्तरदिशिसरजुबहपावनि॥ जेम
ज्जहिंसोविनहिंप्रयासा॥ ममसमीपनरपावहिंवासा॥ अ
तिप्रियमोहिइहांकेवासी॥ ममधामदापुरीसुखराशी॥
हर्षेसबकपिसुनिप्रभुकीवाणी॥ धन्यअवधजेहिरामब
खानी॥ दोहा॥ आवतदेखिलोगसबकृपासिंधुभगवान॥ न

रागिणी मल्लारी

गारनिकटप्रभुआयेउउतरेउभूमिविमान॥ ४॥ उतरिक
हेउप्रभुपुष्पकहितुमकुबेरपहंजाहु॥ प्रेरितरामचले
उसोहर्षबिरहअतिताहु॥ ५॥ चौपाई॥ आएभरतसंगस
बलोगा॥ कृशतनुश्रीरघुबीरबियोगा॥ बामदेववशिष्ठ
मुनिनायक॥ देखेप्रभुमहिधरिधनुसायक॥ धाइधरे
गुरुचरणसरोरुह॥ अनुजसहितअतिपुलकतनोरुह॥
भेटेकुशलबूझीमुनिराया॥ हमरेंकुशलतुम्हारिहिंदा
या॥ सकलद्विजन्हिमिलिनायेउमाथा॥ धर्मधुरंधररघु
कुलनाथा॥ गहेभरतपुनिप्रभुपदपंकज॥ नमहिंजि
नहिंशंकरसुरमुनिअज॥ परेभूमिनहिंउठतउठाये॥ ब
लकरिकृपासिंधुउरलाये॥ श्यामलगातरोमभएठाढे
नवराजीवनयनजलबाढे॥ छन्द॥ राजीवलोचनस्रव
तजलतनुललितपुलकावलिबनी॥ अतिप्रेमहृदयल
गाइअनुजहिमिलेप्रभुत्रिभुवनपती॥ १॥ प्रभुमिलतअ
नुजहिसोहमोपहिंजाततनहिउपमाकही॥ जनुप्रेमअरु
शृंगारतनुधरिमिलतवरसुखमालही॥ २॥ बूझतकृ
पानिधिकुशलभरतहिवचनवेगिनआवई॥ सुणउशिवा
सोसुखवचनमनतेंभिन्नजोजनपावई॥ ३॥ अबकुशल
कोशलनाथआरतजानिजनदरशनदियो॥ बुडतविरह
वारिधिकृपानिधिकाढिमोहिकरगहिलियो॥ ४॥ दोहा

पुनिप्रभुहर्षिशत्रुहनभेटेहृदयलगाइ॥लक्ष्मणभेटेभरतपुनिप्रेमनहृदयसमाइ॥५॥चौपाई॥भरतअनुजलक्ष्मणतबभेटे॥दुसहविरहसंभवदुखमेटे॥सीताचरणभरतसिरनावा॥अनुजसमेतपरमसुखपावा॥प्रभुविलोकिहर्षेपुरवासी॥जनितवियोगविपतिसबनाशी॥प्रेमातुरसबलोगनिहारी॥कौतुककीन्हकृपालुखरारी॥अमितरूपप्रगटेतेहिकाला॥यथायोग्यमिलिसबहिकृपाला॥कृपादृष्टिसबलोगविलोकी॥कीयेसकलनरनारिविशोकी॥क्षणमहंसबहिमिलेभगवाना॥उमामर्मयहकाहुनजाना॥इहिविधिसबहिसुखीकरिरामा॥आगेचलेशीलगुणधामा॥कौशल्यादिमातुसबधाई॥निरखिवतसजनुधेनुलवाई॥छन्द॥जनुधेनुबालकवतसतजिगृहचरणवनपरवशागईं॥दिनअन्तपुररुषस्रवतथनहुंकारकरिधावतिभईं॥अतिप्रेमप्रभुसबमातुभेंटीवचनमृदुबहुविधकहे॥गईविषमविपतिवियोगभवतिन्हहर्षसुखअगणितलहे॥८॥दोहा॥भेटेउतनयसुमित्रारामचरणरतजानि॥रामहिमिलतकेकयीहृदयबहुतसकुचानि॥६॥लक्ष्मणसबमातन्हिमिलेहर्षेआशिषपाइ॥केकयिकहंपुनिपुनिमिलेमनकरक्षोभनजाइ॥७॥चौपाई॥सासुन्हिसबनिमिलीबैदेही॥चरणन्हि

लागि हरषि अति तेही॥ देहि असीष बूझि कुशलाता॥ हो
इ अचल तुम्हार अहिवाता॥ सब रघुपति पद कमल विलोक
हिं॥ मंगल जानि नयन जल रोकहिं॥ कनक थार आरती उ
तारहिं॥ वार वार प्रभु गात निहारहिं॥ नाना भांति निछावरि
करहीं॥ परमानन्द हर्ष उर भरहीं॥ कौशल्या पुनि पुनि रघु
वीरहिं॥ चितवति कृपासिंधु रणधीरहिं॥ हृदय विचारति
वार हि वारा॥ कवनि भांति लंकापति मारा॥ अति सुकुमा
र युगल मम वारे॥ निशिचर सुभट महाबल भारे॥ दोहा॥
लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभुहिं विलोकति मात॥ परमा
नन्द मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात॥ ७॥ चौपाई॥ लंका
पति कपीश नल नीला॥ जाम्बवन्त अंगद शुभशीला॥ हनु
मदादि सब वानर वीरा॥ धरें मनोहर मनुज शरीरा॥ भरत स
नेह शील व्रत नेमा॥ सादर सब वरणहिं अति प्रेमा॥ देखि न
गरवासिन्हि कै रीती॥ सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती॥ पुनि
रघुपति सब सखा बुलाए॥ मुनि पद लागहु सवन्हि सिखाए॥
गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे॥ इन की कृपा दनुज रण मारे॥
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे॥ भये समर सागर कहु बेरे॥ मम
हित लागि जन्म इन्ह हारे॥ भरतहु तें मोहि अधिक पिआरे॥
सुनि प्रभु वचन मगन सब भए॥ निमिष निमिष उपजत सु
ख नए॥ दोहा॥ कौशल्या के चरणन्हि पुनि तिन्ह नायउ मा

थ॥ आसिषदीन्हिहरषिहियतुमप्रियजिमिरघुनाथ॥१८॥
सुमनवृष्टिनभसंकुलभवनचलेसुखकन्द॥ चढीअटा
रिन्हदेखहींनगरनारिनरबृन्द॥१९॥ चौपाई॥ कञ्चनकल
शविचित्रसवारे॥ सबहिंधरेसजिनिजनिजद्वारे॥ बन्दन
वारपताकाकेतू॥ सबन्हिबनायेउमङ्गलहेतू॥ बीथींस
कलसुगंधसिंचाई॥ गजमणिरचिबहुचौकपुराई॥ ना
नाभांतिसुमङ्गलसाजे॥ हर्षिनिसाननगरबहुबाजे॥ ज
हँतहँनारिनिछावरिकरहीं॥ देहिंअशीषहर्षउरभरहीं॥
कञ्चनथारआरतीनाना॥ युवतींसाजिकरहिंकलगाना॥
करहिंआरतींआरतिहरकी॥ रघुकुलकमलविपिनदिनक
रकी॥ पुरशोभासंपतिकल्याणा॥ निगमशेषशारदाबखा
ना॥ तेयहचरितदेखिठगिरहहीं॥ उमातासुगुणनरकि
मिकहहीं॥ दोहा॥ नारिकुमुदिनीअवधसररघुपतिविरह
दिनेश॥ अस्तभयेविकसितभईनिरखिरामराकेश॥२०॥
होहिंसगुणशुभविविधविधवाजहिंनाकनिसान॥ पुरन
रनारिसनाथकरिभवनचलेभगवान॥२१॥ चौपाई॥ प्रभु
जानीकेकयीलजानी॥ प्रथमतासुगृहगयेभवानी॥ ताहि
प्रबोधिबहुतसुखदीन्हा॥ पुनिनिजभवनगमनप्रभुकी
न्हा॥ कृपासिंधुजबमन्दिरगये॥ पुरनरनारिसुखीसबभ
ये॥ गुरुवशिष्ठद्विजलियेबुलाई॥ आजुसुघरीसुदिनसमुदा

दाई॥ सब द्विज देहु हरषि अनुशासन॥ रामचन्द्र बैठहिं सिंहा
सन॥ मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए॥ सुनत सकल विप्रन्हि अ
ति भाए॥ कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका॥ जग अभिराम राम
अभिषेका॥ अब मुनिवर विलंब नहि कीजे॥ महाराज कहँ ति
लक करीजै॥ दोहा॥ तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ
सिरनाइ॥ रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सम्हारे जाइ॥ २१॥ ज
हँ तहँ धावन पठय पुनि मङ्गल द्रव्य मँगाइ॥ हर्ष समेत वशि
पद पुनि सिर नायेउ आइ॥ २२॥ चौपाई॥ अवधपुरी अति रुचिर
बनाई॥ देवन्हि सुमन वृष्टि झरि लाई॥ राम कहा सेवकन्ह
बुलाई॥ प्रथम सखन्ह न्हवावहु जाई॥ सुनत वचन जहँ तहँ जन
धाए॥ सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ पुनि करुणानिधि भरत
हँकारे॥ निज कर जटा राम निरवारे॥ अन्हवाए पुनि तीनहु भा
ई॥ भक्तवत्सल कृपाल रघुराई॥ भरत भाग्य प्रभु कोमलताई॥
शेष कोटि शत सकहिं न गाई॥ पुनि निज जटा राम विवराये
गुरु अनुशासन मागि नहाये॥ करि मज्जन भूषण प्रभु साजे
अङ्ग अनंग कोटि छवि छाजे॥ दोहा॥ सासुन्हि सादर जान
किहँ मज्जन तुरत कराइ॥ दिव्य वसन मणि भूषण साजे अङ्ग
बनाइ॥ २४॥ राम वाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खानि॥ दे
खि मात सब हर्षित जन्म सुफल करि जानि॥ २५॥ सुनु खगरव
तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृन्द॥ चढि विमान आए स

सोरठी २

रामा. उ. ५

5

बैसर देखन सब सुखकन्द ॥ ११ ॥ चौपाई ॥ प्रभु बिलोकि मुनि मन
अनुरागा ॥ तुरित दिव्य सिंहासन मांगा ॥ रबि सम तेज सो बर
नि न जाई ॥ बैठे राम द्विजन्ह सिर नाई ॥ जनकसुता समेत
रघुराई ॥ देखि प्रहर्षे मुनि समुदाई ॥ वेद मंत्र तब द्विजन्ह उचा
रे ॥ नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ प्रथम तिलक वशिष्ठ
मुनि कीन्हा ॥ पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ सुत बिलो
कि हरषी महतारी ॥ बार बार आरती उतारी ॥ बिप्रन्ह दान बि
बिध बिधि दीन्हा ॥ याचक सकल अयाचक कीन्हा ॥ सिंहास
न पर त्रिभुवन सांई ॥ देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥ छन्द ॥ नभ
दुन्दभी बाजहिं बिपुल गंधर्व किन्नर गावहीं ॥ नाचहिं अप
सरा बृन्द परमानन्द सुर मुनि पावहीं ॥ ९ ॥ भरतादि अनुज बि
भीषणांगद हनुमदादि समेत ते ॥ गहे छत्र चामर व्यजन ध
नु असि चर्म शक्ति बिराजते ॥ १० ॥ श्रियसहित दिनकर वंश भू
षण काम बहु छबि सोहई ॥ नव अंबुधर वर गात अंबर पी
त सुर मुनि मन मोहई ॥ ११ ॥ मुकुटांगदादि बिचित्र भूषण अंग अ
ङ्ग निप्रति सजे ॥ अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर नि
रखंति जे ॥ १२ ॥ दोहा ॥ वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगे
श ॥ बरनै शारद शेष श्रुति सो रस जान महेश ॥ १३ ॥ भिन्न भि
न्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम ॥ बंदी बेष बेद त
ब आए जहं श्रीराम ॥ १४ ॥ प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपानि

ध्यान॥लखेउनकाहूमर्मकछुलगेकरणगुणगान॥१२
छन्द॥लवाई॥जयसगुणनिर्गुणरूपरामअनूपभूपशि
रोमणे॥दशकंधरादिप्रचंडनिशिचरप्रबलखलभुजब
लहने॥१३॥अवतारनरसंसारभारविभंजिदारुणदुखदहे
जयप्रणतपालदयालप्रभुसंयुक्तशक्तिनमामहे॥१४॥न
वविषममायावशसुरासुरनागनरअगजगहरे॥भवपंथ
भ्रमितअमितदिननिशिकालकर्म्मस्वगुणभरे॥१५॥जे
नाथकरिकरुणाविलोकितत्रिविधदुखतेनिर्वहे॥भवखेद
छेदनदक्षहमकहँरक्षरामनमामहे॥१६॥जेज्ञानमाननवि
मत्ततवभवहरणिभक्तिनआदरी॥तेपाइसुरदुर्लभपदाद
पिपरतहमदेखतहरी॥१७॥विश्वासकरिसबआशपरिह
रिदाससतवजेहोइरहे॥जपिनामतवविनुश्रमतरहिंभवना
थसोसमरामहे॥१८॥जेचरणशिवअजपूज्यरजशुभपरा
शिमुनिपतनीतरी॥नखनिर्गतासुरवन्दितात्रैलोक्यपाव
निसुरसरी॥१९॥ध्वजकुलिशअंकुशकंजयुतवनफिरतकं
टककिन्हलहे॥पदकंजद्वंद्वमुकुन्दराममरमेशनित्यभजा
महे॥२०॥अव्यक्तमूलमनादितरुत्वचचारिनिगमागमभ
णे॥षटकंधशाखापंचविंशअनेकपर्णसुमनघने॥२१॥फल
युगलविधिकटुमधुरवेलिअकेलिजेहिआश्रितरहे॥पल
वितफूलतनवलनितसंसारविटपनमामहे॥२२॥जेब्रह्मअ

जअद्वैतमनुभवगम्यमनपरध्यावहीं॥तेकहहुंजानहुंना
थहमतवसगुणयशनितगावहीं॥१३॥करुणायतनप्रभु
सदगुणाकरदेवयहवरमांगहीं॥मनकर्मवचनविकारत
जितवचरणहमअनुरागहीं॥१४॥दोहा॥सबकेदेखतवेद
सबविनतीकीन्हउदार॥अन्तर्धानभयेपुनिगयेब्रह्मआगा
र॥२०॥वैनतेयशृणुशंभुतबआएजहंरघुवीर॥विनयकर
तगदगदगिरापूरितपुलकशरीर॥२१॥छन्द॥जयरामर
मारमणंशमनं॥भवतापभयाकुलपाहिजनं॥अवधेशसुरे
शरमेशविभो॥शरणागतमागतपाहिप्रभो॥२५॥दशशीर्ष
विनाशनवीशभुजा॥कृतदूरिमहामहिभूरिरुजा॥रजनीच
रवृन्दपतंगरहे॥शरपावकतेजप्रचण्डदहे॥२६॥महिमंडल
मंडनचारुतरं॥धृतशायकचापनिषंगवरं॥मदमोहमहामम
तारजनी॥तमपुञ्जदिवाकरतेजअनी॥२७॥मनुजातकिरात
निपातकिये॥मृगलोककुभोगसरेनहिये॥हतिनाथअनाथ
निपाहिहरे॥विषयावनपामरभूलिपरे॥२८॥बहुरोगवियो
गन्हलोगहये॥भवदंघ्रिनिरादरकेफलये॥भवसिंधुअगा
धपरेनरते॥पदपंकजप्रेमनजेकरते॥२९॥अतिदीनमलीन
दुखीनितहीं॥जिनकेपदपंकजप्रीतिनहीं॥अवलंबभवन्त
कथाजिन्हकें॥प्रियसंतअनन्तसदातिन्हकें॥३०॥नहिराग
नलोभनमानमदा॥तिन्हकेंसमवैभववाविपदा॥यहितेंतव

सेवकहोतमुदा॥मुनित्यागहिंयोगभरोससदा॥२१॥करि
प्रेमनिरन्तरनेमलिये॥पदपंकजसेवतशुद्धहिये॥सम
मानिनिरादरआदरही॥सबसन्तसुखीविचरन्तिमही॥२२॥
मुनिमानसपंकजभृङ्गभजे॥रघुवीरमहारणधीरअजे
तवनामजपामिनमामिहरी॥भवरोगमहागदमानअ
री॥२३॥गुणशीलकृपापरमायतनं॥प्रणमामिनिरन्तर
श्रीरमणं॥रघुनन्दनिकन्दयद्वन्द्वघनं॥महिपालविलोकि
यदीनजनं॥२४॥**दोहा**॥वारवारवरमांगोंहर्षिदेहुश्रीरङ्ग
पदसरोजअनपायिनीभक्तिसदासतसङ्ग॥२५॥वरणि
उमापतिरामगुणहर्षिगयेकैलास॥तवप्रभुकपिन्हदि
वाएसबविधिसुखप्रदवास॥२६॥**चौपाई**॥सुनुखगपति
यहकथासुपावनि॥त्रिविधतापभवदोषनशावनि॥महा
राजकरशुभअभिषेका॥सुनतलहहिंनरविरतिविवेका
जेसकामनरसुनहिंजेगावहिं॥सुखसंपतिनानाविधि
पावहिं॥सुरदुर्लभसुखकरिजगमाहीं॥अन्तकालरघुप
तिपुरजाहीं॥सुनहिंविमुक्तविरक्तअरुविषई॥लहहिंभ
क्तिगतिसंपतिनितई॥खगपतिरामकथामैंवरणी॥स्व
मतिविलासत्रासदुखहरणी॥विरतिविवेकभक्तिदृढक
रणी॥मोहनदीकहँसुन्दरतरणी॥नितनवमंगलको
शलपुरी॥हर्षितरहहिंलोगसबकुरी॥नितनवप्रीति

रामपदपंकज॥ सेवतजिन्हहिनमतशिवमुनिअज॥
मंगनबहुप्रकारपहिराए॥ द्विजन्हिंदाननानाविधिपाए॥
दोहा॥ ब्रह्मानन्दमगनकपिसबकेंहप्रभुपदप्रीति॥ जात
नजानेउदिवसनिशिगयेंमासषटवीति॥ २४॥ चौपाई॥ वि
सरेगृहसपनेहुंसुधिनाहीं॥ जिमिपरद्रोहसन्तमनमाहीं
तबरघुपतिसबसखाबुलाए॥ आइसबन्हिसादरसिरनाए
परमप्रीतिसमीपबैठारे॥ भक्तसुखदमृदुवचनउचारे॥ तु
म्हअतिकीन्हमोरसेवकाई॥ मुखपरकेहिविधिकरौंवडा
ई॥ तातेंमोहितुम्हअतिप्रियलागे॥ ममहितलागिभवन।
सुखत्यागे॥ अनुजराजसंपतिवैदेही॥ देहगेहपरिवार
सनेही॥ सबममप्रियनहितुमहिसमाना॥ मृषानकहौं
मोरयहबाना॥ सबकहप्रियसेवकयहनीती॥ मोरेंअधि
कदासपरप्रीती॥ दोहा॥ अबगृहजाहुसखासबभजहुमो
हिदृढनेम॥ सदासर्वगतसर्वहितजानिकरेहुअतिप्रेम॥ २५
चौपाई॥ सुनिप्रभुवचनमगनसबभयेऊ॥ कोहमकहां।
बिसरितनुगयेऊ॥ एकटकरहेजोरिकरआगे॥ कहिनस
कहिंकछुअतिअनुरागे॥ परमप्रेमतिन्हकरप्रभुदेषा
कहाविविधविधज्ञानविशेषा॥ प्रभुसन्मुखकछुकहैनपा
रहिं॥ पुनिपुनिचरणसरोजनिहारहिं॥ तबप्रभुभूषणव
सनमंगाए॥ नानारंगअनूपसुहाए॥ सोसुग्रीवहिंप्रथम

पहिराये॥ बसनभरतनिजहाथबनाये॥ प्रभुप्रेरितलछ्म
णपहिराये॥ लंकापतिरघुपतिमनभाये॥ अंगदबैठिर
हानहिंडोला॥ प्रीतिदेखिप्रभुताहिनबोला॥ दोहा॥ जाम्ब
वन्तनीलादिसबपहिरायरघुनाथ॥ हियधरिरामस्वरूप
सबचलेनाइपदमाथ॥ ३८॥ तबअंगदउठिनाइसिरसजल
नयनकरजोरि॥ अतिबिनीतबोलेउबचनमनहुंप्रेमरसबो
रि॥ ३१॥ चौपाई॥ सुणुसर्वज्ञकृपासुखसिंधो॥ दीनदयाक
रआरतबंधो॥ मरतीवारनाथमोहिवाली॥ गयेतुम्हारेप
गतरषाली॥ अशरणशरणविरदसंभारी॥ मोहिजनितज
हुभक्तहितकारी॥ मोरेप्रभुतम्हगुरूपितुमाता॥ जाउंका
हांतजिपदजलजाता॥ तुम्हहिंविचारिकहहुनरनाहा॥
प्रभुतजिभवनकाजममकाहा॥ बालकअबुधज्ञानबल
हीना॥ राखहुशरणनाथजनदीना॥ नीचटहलगृहकेस
बकरिहौं॥ पदपंकजविलोकिभवतरिहौं॥ असकहिच
रणपरेउप्रभुपाही॥ अबजनिनाथकहहुगृहजाही॥ दो॰
अंगदवचनविनीतसुनिरघुपतिकरुणासींव॥ प्रभुउठा
इउरलायेऊसजलनयनराजीव॥ ३८॥ निजउरमालावसन
मणिवालितनयपहिराइ॥ विदाकिन्हभगवानतबबहुप्र
कारसमुझाइ॥ ३९॥ चौपाई॥ भरतअनुजसौमित्रासमेता॥ प
ठवनचलेभक्तकृतचेता॥ अंगदहृदयप्रेमनहिंथोरा॥ फि

रामा. उ. ८

रिफिरिचितवतप्रभुकीओरा॥ वारवारकरिदंडप्रणामा
मनअसरहनकहहिंमोहिरामा॥ रामविलोकनिबोलनि
चलनी॥ सुमिरिसुमिरिशोचतहंसिमिलनी॥ प्रभुरुखदे
खिविनयबहुभाषी॥ चलेउहृदयपदपंकजराखी॥ अति
आदरसबकपिपठंचाए॥ भइन्हसहितभरतपुनिआए॥
तवसुग्रीवचरणगहिनाना॥ भांतिविनयकीन्हीहनुमा
ना॥ दिनदशकरिरघुपतिपदसेवा॥ तबफिरिचरणादे
खिहौंदेवा॥ पुण्यपुञ्जतम्हपवनकुमारा॥ सेवहुजाइकृ
पाआगारा॥ असकहिकपिसबचलेतुरन्ता॥ अंगदकहे
उसुनहुहनुमन्ता॥ दोहा॥ कहेहुदंडवतप्रभुसनतुम्ह
हिंकहौंकरजोरि॥ वारवाररघुनायकहिसुरतिकराएहु
मोरि॥ १५॥ असकहिचलेउवालिसुतफिरिआयेउहनुम
न॥ तासुप्रीतिप्रभुसनकहीमगनभयेभगवन्त॥ १६॥ कु
लिशहुचाहिकठोरअतिकोमलकुसुमहुचाहि॥ चितख
गेशरामकरसमुझिपरैकहुकाहि॥ १७॥ चौपाई॥ पुनि
कृपाललियबोलिनिषादा॥ दीन्हेउभूषणवसनप्रसादा॥
जाहुभवनममसुमिरणकरेहु॥ मनक्रमवचनधर्मअनुस
रेहु॥ तुम्हममसखाभरतजिमिभ्राता॥ सदारहेहुपुरआ
वतजाता॥ वचनसुनतउपजासुखभारी॥ परेउचरणलो
चनभरिवारी॥ चरणकमलउरधरिगृहआवा॥ प्रभुस्वभा

आसावरी ३

वर्षारिजनहिंसुनावा॥ रघुपतिचरितदेखिपुरवासी॥ पु
निपुनिकहहिंधन्यसुखवासी॥ रामराजबैठेत्रयलोका॥
हर्षितभयेउगयेउसबशोका॥ वैरनकरहिकाहूसनकोई
रामप्रतापविषमताखोई॥ दोहा॥ वर्णाश्रमनिजनिजध
रमनिरतवेदपथलोग॥ चलहिंसदापावहिंसुखहिंनहि
भयशोकनरोग॥ ४१॥ चौपाई॥ दैहिकदैकविभौतिकता
पा॥ रामराजनहिकाहूहिव्यापा॥ सबनरकरहिंपरस्परप्री
ती॥ चलेहिंस्वधर्मनिरतश्रुतिनीती॥ चारिउचरणधर्मज
गमांही॥ पुरिरहासपनेहुअघनाही॥ रामभक्तिरतनरअ
रूनारी॥ सकलपरमगतिकेअधिकारी॥ अपमृत्युनहिक
वनिउपीरा॥ सबसुन्दरसबनिरुजशरीरा॥ नहिंदरिद्रको
उदुखीनदीना॥ नहिकोउअबुधनलक्षणहीना॥ सबनि
र्दम्भधर्मरतधरणी॥ नरअरूनारिचतुरशुभकरणी॥ सब
गुणज्ञसबपंडितज्ञानी॥ सबकृतज्ञनहिकपटसयानी॥
दोहा॥ रामराज्यविहगेशशृणुसचराचरजगमांहि॥ काल
कर्मस्वभावगुणकृतदुखकाहूहिनांहि॥ ४४॥ चौपाई॥ भू
मिसप्तसागरमेखला॥ एकभूपरघुपतिकोशला॥ भुवनअ
नेकरोमप्रतिजासु॥ यहप्रभुताकछुबहुतनतासु॥ सोम
हिमासमुझतप्रभुकेरी॥ यहवर्णतहीनताघनेरी॥ यहमहि
माखगेशजिन्हजानी॥ फिरियहचरिततिन्हहुंरतिमानी॥

सोजानेकरफलयहलीला॥ कहहिंमहामुनिसुमतिसु
शीला॥ रामराज्यकरसुखसंपदा॥ वरणिनसकहिंफणी
शशारदा॥ सबउदारसबपरउपकारी॥ द्विजसेवकसबनर
अरुनारी॥ एकनारिब्रतरतनरझारी॥ तेमनवचक्रमपतिहि
तकारी॥ दोहा॥ दंडयतिनकरभेदजहँनर्तकनृत्यसमाज॥
जीतेहुमनजगासुनियअसरामचन्द्रकेराज॥ ५५॥ चौपाई॥
फूलहिंफलहिंसदातरुकानन॥ रहहिंएकसंगगजपंचा
नन॥ खगमृगवैरसहजबिसराई॥ सबबनिपरस्परप्रीतिब
ढाई॥ कूजहिंखगमृगनानाबृन्दा॥ अभयचरहिंबरकरहिंअ
नन्दा॥ शीतलसुरभिपवनवहमंदा॥ गुञ्जतअलिलैच
लमकरंदा॥ लताविटपमागेमधुच्यवहीं॥ मनभावतो
धेनुपयस्रवहीं॥ सस्यसंपन्नसदारहधरणी॥ त्रेताभासत
युगकीकरणी॥ प्रगटींगिरिन्हविविधमणिखानी॥ जग
दातमाभूपपहिचानी॥ सरितासकलवहहिंवरवारी॥ शीत
लअमलस्वादुसुखकारी॥ सागरनिजमर्यादारहहीं॥ डा
रहिंरत्नतटन्हिनरलहहीं॥ सरसिजसंकुलसकलतडागा॥
अतिप्रसन्नदशदिशाविभागा॥ दोहा॥ विधुमहिपूरमयू
खनितरवितपजितनहिकाज॥ मागेंवारिददेहिंजल॥
रामचन्द्रकेराज॥ ५६॥ चौपाई॥ कोटिन्हवाजिमेधप्रभुकी
न्हा॥ अमितदानविप्रन्हिकहँदीन्हा॥ श्रुतिपथपालक

धर्मधुरंधर॥गुणातीतअरुभोगपुरंधर॥पतिअनुकूलसदा
रहसीता॥शोभाखानिसुशीलविनीता॥जानतिकृपासिंधुप्र
भुताई॥सेवतिचरणकमलमनलाई॥यद्यपिगृहसेवकसेव
किनी॥विपुलसकलसेवाविधिगुनी॥निजकरगृहपरिच
र्याकरहीं॥रामचन्द्रआयसुअनुसरहीं॥जेहिविधिकृपासिं
धुसुखमानहिं॥सोइसियसेवाविधिउरजानहीं॥कौशल्यादि
सासुगृहमांही॥सेवहिंसकलमानमदनाही॥उमारमाब्रह्मा
णिवन्दिता॥जगदंबासंततमनिन्दिता॥दोहा॥जासुकृपा
कटाक्षसुरचाहतचितवनिसोई॥रामपदारविन्दरतकरति
स्वभावहिखोई॥२४॥चौपाई॥सेवहिसानुकूलसबभाई॥राम
चरणरतप्रीतिसुहाई॥प्रभुमुखकमलविलोकतरहहीं॥क
बहिंकृपालहमहिंकछुकहहीं॥रामकरहिंभ्रातन्हपरप्री
ती॥नानाभांतिसिखावहिंनीती॥हर्षितरहहिंनगरकेलोगा
करहिंसकलसुरदुर्लभभोगा॥अहनिशिविधिहिमनावत
रहहीं॥श्रीरघुवीरचरणरतिचहहीं॥दुइसुतसुन्दरसीताजा
ये॥लवकुशवेदपुराणन्हिगाये॥दोउविजयीविनयीगुण
मंदिर॥हरिप्रतिबिंबमनहुअतिसुन्दर॥दुइदुइसुतसबभ्रा
तन्हकेरे॥भयेरूपगुणशीलघनेरे॥दोहा॥ज्ञानगिरागोती
तअजमायागुणगोपार॥सोइसच्चिदानंदघनकरनरचरि
तउदार॥२५॥चौपाई॥प्रातःकालसरयूकरिमज्जन॥बैठहिं
सभासंगद्विजसज्जन॥वेदपुराणवसिष्ठवखानहिं॥सुनहि

रामयद्यपिसबजानहिं॥ अनुजन्हसंयुतभोजनकरहीं॥
देखिसकलजननीसुखभरहीं॥ भरतशत्रुहनदोनोंभाई॥
सहितपवनसुतउपवनजाई॥ बूझहिंबैठिरामगुणगाहा॥
कहहनुमानसुमतिअवगाहा॥ सुनतविमलगुणअतिसु-
खपावहिं॥ बहुरिबहुरिकरिविनयकहावहिं॥ सबकेगृह
गृहहोइपुराणा॥ रामचरितपावनविधनाना॥ नरअरुनारि
रामगुणगावहिं॥ करहिंदिवसनिशिजाततनजानहिं॥ दोहा
अवधपुरीवासिन्हकरसुखसंपदासमाज॥ सहसशेषनहिं
कहिसकहिंजहँनृपरामविराज॥ ५९॥ चौपाई॥ नारदादिसन-
कादिमुनीशा॥ दरशनलागिकोशलाधीशा॥ दिनप्रतिसक-
लअयोध्याआवहिं॥ देखिनगरविरागविसरावहिं॥ रत्नजटि-
तमणिकनकअटारी॥ नानारंगरुचिरगचढारी॥ पुरचहुँपा-
शकोटअतिसुन्दर॥ रचेकंगूरारंगरंगवर॥ नवगृहसुन्दरअनि-
करवनाई॥ जनुहुँघेरिअमरावतिआई॥ महिबहुरंगरचितग-
चकांचा॥ जोविलोकिमुनिवरमननांचा॥ धवलधामऊपरन-
भचुम्बत॥ कलशमनहुंशशिरविद्युतिनिन्दत॥ बहुमणिर-
चितझरोखाभ्राजहि॥ गृहगृहप्रतिमणिदीपविराजहिं॥ छंद
मणिदीपराजहिंभवनभ्राजहिंदेहरीविद्रुमरची॥ सुन्दरम-
नोहरमंदिरायतअजिरअतिफटिकन्हखची॥ २५॥ मणि-
खंभभितिविरंचिविरचेकनकमणिमरकतरचे॥ प्र-
तिद्वारद्वारकपाटपुरटबनाइबहुबज्रनखचे॥ २६॥ ॥ ५

दोहा॥ चारुचित्रशालाअमितगृहगृहरचेबनाइ॥ रामधा
मजोनिरखतमुनिमनलेतचोराइ॥५०॥ चौपाई॥ सुमन
वाटिकासबहिंलगाई॥ विविधभांतिकरियतनबनाई॥
लताललितबहुभांतिसोहाई॥ फूलतसदावसन्तकीना
ई॥ गुञ्जतमधुकरमुखरमनोहर॥ मारुतत्रिविधसदाव
हसुन्दर॥ नानाखगबालकन्हजिआए॥ बोलतमधुरउ
ड़तसुहाए॥ मोरहंससारसपारावत॥ भवनन्हिपरशो
भाअतिपावत॥ जहंतहंदेखहिंनिजपरिछाहीं॥ बहुवि
धकूजहिंनृत्यकराहीं॥ शुकशारिकापढावहिंबालक
कहहुरामरघुपतिजनपालक॥ राजद्वारसबहीविधि
चारू॥ बीथीचौहटरुचिरबजारू॥ छन्द॥ बाजारुचारु
नबनैवरणतवस्तुबिनुगथपाइये॥ जहंभूपरमानिवा
सतहंकीसंपदाकिमिगाइये॥२॥ बैठेबजाजसराफव
णिकअनेकमनहुंकुबेरते॥ सबसुखीसबसुचरितसु
न्दरनारिनरशिशुजरठते॥५१॥ दोहा॥ उत्तरदिशिसरयू
वहैनिर्मलजलगम्भीर॥ बांधेघाटमनोहरस्वल्पपंकन
हिंतीर॥५२॥ चौपाई॥ दूरिफराकरुचिरसोघाटा॥ जहंज
लपिवहिंबाजिगजठाटा॥ पनिघटपरममनोहरनाना॥
तहांनपुरुषकरहिंअस्नाना॥ राजघाटसबहीविधिसुन्द
र॥ मज्जहिंतहांवरणचारिउनर॥ तीरतीरदेवन्हकरमन्दिर

चहुं दिशि तेहि के उपवन सुन्दर ॥ कहूं कहूं सरिता तीर उ
दासी ॥ वसहिं ज्ञान रत मुनि सन्यासी ॥ जहँ तहँ तुलसी वृ
न्द सुहाये ॥ बहु प्रकार सब मुनिन्ह लगाये ॥ पुर शोभा कछु
वरणि न जाई ॥ बाहिर नगर परम रुचिराई ॥ देखत पुरी अ
खिल अघ भागा ॥ वन उपवन वापिका तडागा ॥ छन्द ॥ वा
पी तडाग अनूप कूप मनोहरायत शोहई ॥ सोपान सुन्दर नी
र निर्मल देखि सुर मुनि मोहई ॥ ४९ ॥ बहु रङ्ग कञ्ज अनेक
खग कूजहिं मधुप गुञ्जारहीं ॥ आराम रम्य पिकादि खग
रव मनहु पथिक हँकारहीं ॥ ५० ॥ दोहा ॥ रमानाथ जहँ रा
जा सो पुर वरणि कि जाइ ॥ अणिमादिक सुख सम्पदा र
हीं अवध पुर छाइ ॥ ५१ ॥ चौपाई ॥ जहँ तहँ नर रघुपति गुण
गावहिं ॥ बैठि परस्पर इहै सिखावहिं ॥ भजहु प्रणत प्रति
पालक रामहि ॥ शोभा शील रूप गुण धामहि ॥ जलज
विलोचन श्यामल गातहि ॥ पलक नयन इव सेवक त्रात
हि ॥ धृत शर रुचिर चाप तूणीरहि ॥ सन्त कञ्ज वन रवि रण
धीरहि ॥ काल कराल व्याल खगराजहि ॥ नमित राम अ
काम ममता जहि ॥ लोभ मोह मृग यूथ किरातहि ॥ मनसि
ज करि हरि जन सुखदातहि ॥ संशय शोक निविड तम भा
नुहि ॥ दनुज गहन वन दहन कृशानुहि ॥ जनकसुता
समेत रघुवीरहि ॥ कस न भजहु भञ्जन भव भीरहि ॥ बहु

वासनामशकहिमराशिहि॥ सदाएकरसअजअविना
शिहि॥ मुनिरञ्जनभञ्जनमहिभारहि॥ तुलसिदासकेप्र
भुहिउदारहि॥ दोहा॥ एहिविधिनगरनारिनरकरहिंरा
मगुणगान॥ सानुकूलसबपररहतसन्ततकृपानिधान॥
चौपाई॥ जबतेरामप्रतापखगेशा॥ उदितभयउअतिप्रबल
दिनेशा॥ पूरप्रकाशरहेउतिहुंलोका॥ बहुतन्हसुखबहु
तन्हमनशोका॥ जिनहिशोकतेकहौंबखानी॥ प्रथम
अविद्यानिशानशानी॥ अघउलूकजहँतहँलुकाने॥ का
मक्रोधकैरवसंकुचाने॥ विविधकर्मगुणकालस्वभाऊ॥
येचकोरसुखलहहिंनकाऊ॥ मतसरमानमोहमदचोरा
इनहिंनिवाहनकवनिहुओरा॥ धर्मतडागयोगविज्ञाना
येपङ्कजविकसेविधिनाना॥ सुखसन्तोषविरागविवेका
विगतशोकयेकोकअनेका॥ दोहा॥ यहप्रतापरविजाके
उरजबकरेप्रकाश॥ पाछिलेबाढहिंप्रथमजेकहेतेपाव
हिंनाश॥ ५४॥ चौपाई॥ भ्रातन्हिमाहितरामएकबारा॥ सङ्ग
परमप्रियपवनकुमारा॥ सुन्दरउपवनदेखनगए॥ स
बतरुकुसुमितपल्लवनए॥ जानिसमयसनकादिकआए
तेजपुञ्जगुणशीलसुहाए॥ ब्रह्मानन्दसदालयलीना॥ दे
खतबालकबहुकालीना॥ परेदेहजनुचारिउवेदा॥ समद
र्शीमुनिविगतविभेदा॥ आशावसनव्यसनयहतिन्हहीं॥

रामा. ३. १२

12

रघुपतिचरितहोइतहँसुनहीं॥ तहाँरहेसनकादिभवानी
जहँघटसम्भवमुनिवरज्ञानी॥ रामकथामुनिवहुविधव
रणी॥ ज्ञानयोनिपावककहँअरणी॥ दोहा॥ देखिराममु
निआवतहर्षिदंडवतकीन्ह॥ स्वागतपूछीपीतपटप्रभुबै
ठनकहँदीन्ह॥५५॥ चौपाई॥ कीन्हदंडवतीनिउभाई॥ सहि
तपवनसुतसुखअधिकाई॥ मुनिरघुपतिछविअतुल
विलोकी॥ भयेमगनमनशाकेनरोकी॥ श्यामलगातस
रोरुहलोचन॥ सुन्दरतामन्दिरभवमोचन॥ एकटकरहे
निमेषनलावहिं॥ प्रभुकरजोरेशीसनवावहिं॥ तिन्हकी
दशादेखिरघुवीरा॥ स्रवतनयनजलपुलकशरीरा॥ कर
गहिप्रभुमुनिवरवैठारे॥ परममनोहरवचनउचारे॥ आ
जुधन्यमैसुनहुमुनीशा॥ तुम्हरेदरशजांहिअघखीशा॥
बडेभागपाइयसतसंगा॥ विनहिंप्रयासहोहिभवभंगा॥
दोहा॥ सन्तपंथअपवर्गकेकामीभवकरपंथ॥ कहहिंसन्त
कविकोविदश्रुतिपुराणसवग्रंथ॥५६॥ चौपाई॥ सुनिप्र
भुवचनहर्षिमुनिचारी॥ पुलकगातअस्तुतिअनुसारी॥
जयभगवन्तअनन्तअनामय॥ अनघअनेकएककरुणा
मय॥ जयनिर्गुणजयजयगुणसागर॥ सुखमन्दिरतिउ
लोकउजागर॥ जयइन्दिरारमणजयभूधर॥ अनूपमअ
जयअनादिशोभाकर॥ ज्ञाननिधानअमानमानप्रद॥ पाव

नसुयशपुराणवेदवद॥ तत्त्वकृतज्ञअज्ञताभञ्जन॥
नामअनेकअनामनिरञ्जन॥ सर्वसर्वगतसर्वउरालय॥
वसहुसदाहमकहँपरिपालय॥ द्वंदविपत्तिभवफन्दवि
भञ्जन॥ हृदिवसिरामकाममदगञ्जन॥ दोहा॥ परमान
न्दकृपायतनमनपरिपूरणकाम॥ प्रेमभक्तिअनपायि
नीदेहुहमहिश्रीराम॥५७॥ चौपाई॥ देहुभक्तिरघुपतिअ
तिपावनि॥ त्रिविधतापभवदापनशावनि॥ प्रणतका
लसुरधेनुकल्पतरु॥ होइप्रसन्नप्रभुदीजैयहवरु॥ भव
वारिधिकुम्भजरघुनायक॥ सेवकसुलभसकलसुख
दायक॥ मनसम्भवदारुणदुखदारक॥ दीनबंधुसमता
विस्तारक॥ आशात्रासईर्षादिनिवारक॥ विनयविवेक
विरतिविस्तारक॥ भूपमौलिमणिमंडनधरणी॥ देहुभ
क्तिसंसृतिसरितरणी॥ मुनिमनमानसहंसनिरन्तर॥
चरणकमलवंदितअजशङ्कर॥ रघुकुलकेतुसेतुश्रु
तिरक्षक॥ कालकर्मस्वभावगुणभक्षक॥ तारकतरण
हरणसबदूषण॥ तुलसिदासप्रभुत्रिभुवनभूषण॥
दोहा॥ वारवारअस्तुतिकरिप्रेमसहितसिरनाइ॥ ब्रह्म
भवनसनकादिगेअतिअभीष्टवरपाइ॥५८॥ चौपाई॥ स
नकादिकविधिलोकसिधाये॥ भ्रातन्हरामचरणसिर
नाये॥ पूछतप्रभुहिंसकलसकुचाहीं॥ चितवहिंसबमा

कोकिली

रामा० उ० १२

13

रुतसुतपाहीं॥सुनाचहहिंप्रभुमुखकीबाणी॥जोसु
निहोइसकलभ्रमहानी॥अन्तरजामीप्रभुसबजाना॥बू
झतकहहुकहाहनुमाना॥जोरिपाणितबकहहनुम
ना॥सुनहुदीनदयालुभगवन्ता॥नाथभरतकछुपूछ
नचहहीं॥प्रश्नकरतमनसकुचतअहहीं॥तुम्हजानहु
कपिमोरसुभाऊ॥भरतहिमोहिनकछुदुराऊ॥सुनि
प्रभुवचनभरतगहिचरणा॥सुनहुनाथप्रणतारतिह
रणा॥दोहा॥नाथनमोहिसंदेहकछुसपनेहुशोकन
मोह॥केवलकृपातुम्हारिप्रभुचिदानन्दसंदोह॥५९॥

चौपाई॥करौंकृपानिधिएकढिठाई॥मैसेवकतुम्हज
नसुखदाई॥सन्तनकीमहिमारघुराई॥बहुविधवेदपु
राणन्हगाई॥श्रीमुखतुम्हपुनिकीबडाई॥तिन्हपरप्रभु
हिप्रीतिअधिकाई॥सुनाचहौंप्रभुतिन्हकरलक्षण॥
कृपासिंधुगुणज्ञानविचक्षण॥सन्तअसन्तभेदविल
गाई॥प्रणतपालमोहिकहियबुझाई॥सन्तनकेलक्ष
णसुनुभ्राता॥अगणितश्रुतिपुराणविख्याता॥सन्त
असन्तनकीअसकरणी॥जिमिकुठारचन्दनआचरणी
काटैपरशुमलयसुनुभाई॥निजगुणदेइसुगंधबसाई॥

दोहा॥तातेंसुरशीसन्हिचढतजगवल्लभश्रीखंड॥अन
लदाहिपीटतघनहिंपरशुबदनयहदंडु॥६०॥चौपाई॥

विषयअलंपटशीलगुणाकर॥परदुखदुखीसुखसु
खीदेखेंपर॥समअभूतरिपुविमदविरागी॥लोभामर्ष
हर्षभयत्यागी॥कोमलचितदीनन्हिपरदाया॥मनव
चकर्ममममभक्तिअमाया॥सबहिमानप्रदआपुअमा
नी॥भरतप्राणसममममतेप्राणी॥विगतकाममममनाम
परायण॥शांतविरतिविनीतमुदितायन॥शीतलता
सरलतामैत्री॥द्विजपदप्रेमधर्मजनयित्री॥यहसब
लक्षणबसहिंजासुउर॥जानेहुतातसंतसंततफुर॥
शमदमनियमनीतिनहिंडोलहिं॥परुषवचनकब
हूंनहिबोलहिं॥दोहा॥निन्दाअस्तुतिउभयसमममता
ममपदकंज॥तेसज्जनममप्राणप्रियगुणमन्दिरसु
खपुञ्ज॥३८॥चौपाई॥सुनहुअसन्तनकेरसुभाऊ॥भुले
हुंसंगतिकरियनकाऊ॥तिन्हकरसंगसदादुखदाई॥
जिमिकपिलहिघालैहरहाई॥खलन्हहृदयअतिता
पविशेषी॥जरहिंसदापरसंपतिदेखी॥जहंकहुंनिन्दा
सुनहिंपराई॥हर्षहिंमनहुपरीनिधिपाई॥कामक्रो
धमदलोभपरायण॥निर्दयकपटीकुटिलमलायन॥
वैरअकारणसबकाहूसों॥जोकरहितअनहितता
हूसों॥झूठैलेनाझूठैदेना॥झूठैभोजनझूठचवेना॥
बोलहिंवचनमधुरजिमिमोरा॥खाहिंमहाअहिहृदय

रामा. उ. २४

14

यकडोरा॥दोहा॥परद्रोहीपरदाररतपरधनपरअप
वाद॥तेनरपामरपापमयदेहधरेंमनुजाद॥३९॥चौपा-
लोभैओढनलोभैडासन॥शिश्नोदरपरयमपुरत्रासन॥
काहूकीजोंसुनहिंवडाई॥स्वासलेंहिजनुजूडीआई॥ज
वकाहूकेदेखहिंविपती॥सुखीहोहिंमानहुजगनृपती
स्वारथरतपरिवारविरोधी॥लंपटकामलोभअतिक्रोधी
मातपितागुरुविप्रनमानहिं॥आपुगएअरुघालहिंआन
हिं॥करहिंमोहवशद्रोहपरावा॥सतसङ्गतिहरिभक्ति
नभावा॥अवगुणसिंधुमंदमतिकामी॥वेदविदूष-
कपरधनस्वामी॥विप्रद्रोहपरद्रोहविशेषा॥दंभकपट
जियधरेंसुवेषा॥दोहा॥ऐसेअधममनुजखलकृतयु
गत्रेतानांहि॥द्वापरकछुकवृन्दवहुहोइहैकलियुग-
मांहि॥४०॥चौपाई॥परहितसरिसधर्मनहिंभाई॥परपी
डासमनहिंअधमाई॥निर्णयसकलपुराणवेदकर॥
कहेउँतातजानहिंकोविदनर॥नरशरीरधरिजेपरपी
रा॥करहिंतेसहहिंमहाभवभीरा॥करहिंमोहवशन
रअघनाना॥स्वारथरतपरलोकनशाना॥कालरूपमैं
तिन्हकहंभ्राता॥शुभअरुअशुभकर्मफलदाता॥अस
विचारिजेपरमसयाने॥भजहिंमोहिसंसृतिदुखजाने
त्यागहिंकर्मशुभाशुभदायक॥भजहिंमोहिसुरनरमुनि

नायक॥ सन्त असन्तन के गुण भाषे॥ ते न परहिं भव जिन्ह
लखि राखे॥ दोहा॥ सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अ
नेक॥ गुण इह उभय न देखिअहिं देखिय सो अविवेक॥४१॥
चौपाई॥ श्रीमुख वचन सुनत सब भाई॥ हर्षे प्रेम न हृद
य समाई॥ करहिं विनय अति वारहिं वारा॥ हनूमान हिय
हर्ष अपारा॥ पुनि रघुपति निज मन्दिर गए॥ इहि विधि च
रित करत नित नए॥ वार वार नारद मुनि आवहिं॥ चरित
पुनीत राम कर गावहिं॥ नित नव चरित देखि मुनि जा
हीं॥ ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं॥ सुनि विरञ्चि अतिश
इ सुख मानहिं॥ पुनि पुनि तात करहु गुण गानहिं॥ सन
कादिक नारदहिं सिहाहीं॥ यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आ
हीं॥ सुनि गुण गान समाधि विसारी॥ सादर सुनहिं प
म अधिकारी॥ दोहा॥ जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं त
जि ध्यान॥ जे हरि कथा न करहिं रति तिन के हृदय पषान॥
चौपाई॥ एक वार रघुनाथ बुलाए॥ गुरु द्विज पुरवासी सब
आए॥ बैठे गुरु द्विज वर मुनि सज्जन॥ बोले वचन भक्त भ
य भञ्जन॥ सुनहु सकल पुरजन मम वाणी॥ कहौं न क
छु ममता उर आनी॥ नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई॥ सुन
हु करहु जो तुम्हहि सुहाई॥ सोइ सेवक प्रियतम मम सोई॥
मम अनुशासन मानै जोई॥ जो अनीति कछु भाषौं भाई॥ तौ

मोहिवरजङ्भयविसराई॥वडेभागमानुषतनुपावा॥
सुरदुर्लभसदग्रंथनगावा॥साधनधाममोक्षकरद्वारा॥पा
इनजोइपरलोकसम्वारा॥दोहा॥सोपरत्रदुखपावइसिरधु
निधुनिपछताई॥कालहिकर्महिईश्वरहिमिथ्यादोषलगाई॥
चौपाई॥एहितनुकरफलविषयनभाई॥स्वर्गस्वल्पअन्तदु
दुखदाई॥नरतनुपाइविषयमनदेहीं॥पलटिसुधातेश
ठविषलेहीं॥ताहिकवहंभलकहैनकोई॥गुञ्जाग्रहैपार
समणिखोई॥आकरचारिलाखचौरासी॥योनिनिभ्रम
तजीवअविनाशी॥फिरतसदामायाकेप्रेरे॥कालकर्मसु
भावगुणघेरे॥कवहंककरिकरुणानरदेही॥देतईशवि
नुहेतसनेही॥नरतनुभववारिधिकहवेरा॥सन्मुखम
रुतअनुग्रहमेरा॥कर्णधारसदगुरुदृढनावा॥दुर्लभसा
जसुलभकरिपावा॥दोहा॥जोनतरैभवसागरहिनरसमा
जअसपाई॥सोकृतनिन्दकमन्दमतिआतमहागतिजा
ई॥४४॥चौपाई॥जोपरलोकइहांसुखचहहू॥सुनिममवच
नहृदयदृढगहहू॥सुलभसुखदमारगयहभाई॥भक्ति
मोरपुराणश्रुतिगाई॥ज्ञानअगमप्रतयूहअनेका॥साधन
कठिननमनकहंटेका॥करतकष्टवहुपावइकोऊ॥भक्ति
हीनप्रियमोहिनसोऊ॥भक्तिसुतंत्रसकलसुखखानी॥
विनुसतसंगनपावहिंप्राणी॥पुण्यपुञ्जविनुमिलहिंनस

न्ता॥ सतसङ्गति संसृति कर अन्ता॥ पुण्य एक जग महं नहिं दूजा॥ मन क्रम वचन विप्र पद पूजा॥ सानुकूल तेहि पर मुनि देवा॥ जो तजि कपट करै द्विज सेवा॥ दोहा॥ औरौ एक गुप्त मत सबहि कहौं कर जोरि॥ शङ्कर भजन विना नर भक्ति न पावै मोर॥ ८८॥ चौपाई॥ कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा॥ योग न मख जप तप उपवासा॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई॥ यथा लाभ सन्तोष सदाई॥ मोर दास कहाइ नर आशा॥ करै कहहु तौ कहा विश्वासा॥ बहुत कहौं का कथा बढाई॥ एहि आचरण वश्य मैं भाई॥ बैर न विग्रह आश न त्रासा॥ सुखमय ताहि सदा सब आशा॥ अनारम्भ अनिकेत अमानी॥ अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा॥ तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा॥ भक्ति पक्ष हठ नहिं शठताई॥ दुष्ट कर्म सब दूरि बिहाई॥ दोहा॥ मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह॥ ता कर सुख सोइ जानै परानन्द सन्दोह॥ ८९॥ चौपाई॥ सुनत सुधासम वचन राम के॥ सबन्हि गहे पद कृपाधाम के॥ जननि जनक गुरु बन्धु हमारे॥ कृपानिधान प्राण ते प्यारे॥ तनु धन धाम राम हितकारी॥ सब विधि तुम प्रणतारति हारी॥ असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ॥ मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥ हेतु रहित जग जुग उपकारी॥ तुम तुम्हार सेवक असुरारी॥ स्वारथ मित्र

रा.मा. उ. १९

सकलजगमाहीं॥ सपनेहुँप्रभुपरमारथिनाहीं॥ सबके
वचनप्रेमरससाने॥ सुनिरघुनाथहृदयहर्षाने॥ निजनि
जगृहगएआयसुपाई॥ वरणतप्रभुवतकहिहाई॥ दोहा॥
उमाअवधवासीनरनारिकृतारथरूप॥ ब्रह्मसच्चिदानन्द
घनरघुनायकजहँभूप॥२०॥ चौपाई॥ एकवारवशिष्ठमुनि
आए॥ जहाँरामसुखधामसुहाए॥ अतिआदररघुनायक
कीन्हा॥ पदपखारिचरणोदकलीन्हा॥ रामसुनहुमुनिक
हकरजोरी॥ कृपासिंधुविनतीकछुमोरी॥ देखिदेखिआ
चरणतुम्हारा॥ होतमोहममहृदयअपारा॥ महिमाअमि
तवेदनहिंजाना॥ मैकेहिभाँतिकहौंभगवाना॥ उपरोहिती
कर्मअतिमंदा॥ वेदपुराणसुस्मृतिकरुनिन्दा॥ जबनले
उँमैतवहीविधिमोहीं॥ कहालाभआगेसुततोहीं॥ परमा
त्माब्रह्मनररूपा॥ होइहिरघुकुलभूषणभूपा॥ दोहा॥ त
बमैहृदयविचारकिययोगयज्ञजपदान॥ जेहिहितकरि
यसोपइहौंधर्मनएहिसमआन॥२१॥ चौपाई॥ जपतपनिय
मयोगव्रतधर्मा॥ श्रुतिसंभवनानाविधिकर्मा॥ ज्ञानदया
दमतीरथमज्जन॥ जहँलगिधर्मकहैश्रुतिसज्जन॥ आग
मनिगमपुराणअनेका॥ पढेसुनेकरफलप्रभुएका॥ त
वपदपंकजप्रीतिनिरंतर॥ सबसाधनकरफलयहसुन्दर॥
छूटैमलकिमलहिकेधोए॥ घृतकिपावकोउवारिविलो

प॥ प्रेमभक्तिजलविनुरघुराई॥ अभ्यन्तरमलकेबहूंकि
जाई॥ सोइसर्वज्ञतज्ञसोइपंडित॥ सोइगुणाज्ञविज्ञानअखं
डित॥ दक्षसकललक्षणयुतसोई॥ जाकेंपदसरोजरतिहोई॥

दोहा॥ नाथएकवरमांगोंरामकृपाकरिदेहु॥ जन्मजन्मप्र
भुपदकमलकबहूंघटैजनिनेहु॥ ७२॥

चौपाई॥ असकहिमु
निवशिष्ठगृहआए॥ कृपासिंधुकेमनअतिभाए॥ हनुमान
भरतादिकभ्राता॥ संगलियेसेवकसुखदाता॥ पुनिकृपालु
पुरबाहिरगये॥ गजरथतुरगमंगावतभये॥ देखिकृपाका
रिसकलसराहे॥ दिएउचितजिन्हजिन्हजोचाहे॥ हरणस
कलश्रमप्रभुश्रमपाई॥ गएजहांशीतलअमराई॥ भरतदी
न्हनिजवसनडसाई॥ बैठेप्रभुसेवहिंसबभाई॥ मारुतसु
ततबमारुतकरई॥ पुलकगातलोचनजलभरई॥ हनुमान
समानबडभागी॥ नहिंकोउरामचरणअनुरागी॥ गिरिजा
जासुप्रीतिसेवकाई॥ वारवारप्रभुनिजमुखगाई॥

दोहा॥ ते
हिअवसरमुनिनारदआएकरतलबीन॥ गावनलागेरामक
लकीरतिसदानवीन॥ ७३॥

चौपाई॥ मामवलोकयपंकज
लोचन॥ कृपाविलोकनिसोचविशोचन॥ नीलतामरसश्या
मकामअरि॥ हृदयकंजमकरंदमधुपहरि॥ जातुधानब
रूथबलभञ्जन॥ मुनिसज्जनरंजनअघगञ्जन॥ भूसुरश
शिनवबृन्दबलाहक॥ अशरणशरणदीनजनगाहक॥

भ्रमाली

भुजबलविपुलभारमहिखंडित॥खरदूषणविराधवधप
ंडित॥रावणारिसुखरूपभूपवर॥जयदशरथकुलकु
मुदसुधाकर॥सुयशपुराणविदितनिगमागम॥गावत
सुरमुनिसंतसमागम॥कारुणीकव्यलीकमदखंडन॥स
बविधकुशलकोशलामंडन॥कलिमलमथननाममताह
न॥तुलसिदासप्रभुपाहिप्रणतजन॥दोहा॥प्रेमसहित
मुनिनारदवरणिरामगुणग्राम॥शोभासिंधुहृदयधरिग
एजहांविधिधाम॥५१॥चौपाई॥गिरिजासुनहुविशदय
हकथा॥मैंसबकहीमोरिमतियथा॥रामचरितशतकोटि
अपारा॥श्रुतिशारदानवरणैपारा॥रामअनंतअनंतगु
णानि॥जन्मकर्मअनंतनामानि॥जलसीकरमहिरजग
णिजाहीं॥रघुपतिचरितनवरणिसिराहीं॥विमलकथाह
रिपददायिनि॥भक्तिहोइसुनिअनपायिनि॥उमा
कहेउँसोकथासुहाई॥जोभुसुंडिखगपतिहिंसुनाई॥क
छुकरामगुणकहेउंबखानी॥अबकाकहौंसोकहहुभवानी
सुनिशुभकथाउमाहर्षानी॥बोलीअतिविनीतमृदुवाणी
धन्यधन्यमैंधन्यपुरारी॥सुनेउंरामगुणभवभयहारी॥दो
हा॥तुम्हारीकृपाकृपायतनअबकृतकृत्यनमोह॥जानेउं
रामप्रतापप्रभुचिदानन्दसन्दोह॥५२॥नाथतवाननशशि
स्रवतकथासुधारघुवीर॥श्रवणपुटन्हिमनपानकरिनहि

अवात मति धीर ॥२८॥ चौपाई ॥ राम चरित जे सुनत अघा
हीं ॥ रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ जीवन मुक्त महामुनि
जेऊ ॥ हरि गुण सुनत निरन्तर तेऊ ॥ भव सागर चह पार
जा पावा ॥ राम कथा ता कहं दृढ नावा ॥ विषयिन कहं पु
नि हरि गुण ग्रामा ॥ श्रवण सुखद अरु मन विश्रामा ॥ श्र
वणवन्त अस को जग माहीं ॥ जाहि न रघुपति कथा सु
हाहीं ॥ ते जड जीव निजातम घाती ॥ जिन्हहिं न रघुपति
कथा सोहाती ॥ हरि चरित्र मानस तुम गावा ॥ सुनि मैं ना
थ परम सुख पावा ॥ तुम जो कहा यह कथा सुहाई ॥ काक
भुसुण्डि गरुड प्रति गाई ॥ दोहा ॥ विरत ज्ञान विज्ञान दृढ
राम चरण अति नेह ॥ वायस तन रघुपति भगति मोहि प
रम सन्देह ॥११॥ चौपाई ॥ नर सहस्र महं सुनहु पुरारी ॥ को
उ एक होइ धर्म व्रतधारी ॥ धर्मशील कोटिक महं कोई ॥ वि
षय विमुख विराग रत होई ॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई ॥
सम्यक् ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ ज्ञानवन्त कोटिक महं को
ई ॥ जीवनमुक्त सकृत जग सोई ॥ तिन सहस्र महं सब सुख
खानी ॥ दुर्लभ ब्रह्म निरत विज्ञानी ॥ धर्मशील विरक्त अरु
ज्ञानी ॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सब तें सो दुर्लभ सुररा
या ॥ राम भक्ति रत गत मद माया ॥ सो हरि भक्ति काक कि
मि पाइ ॥ विश्वनाथ सो हि कहहु बुझाई ॥ दोहा ॥ राम परायण

ण ज्ञानरत गुण आगार मति धीर॥ नाथ कहहु केहि का-
रण पायउ काक शरीर॥५८॥ चौपाई॥ यह प्रभु चरित प-
वित्र सुहावा॥ सुनहु कृपालु काक कहँ पावा॥ तुम्ह के-
हि भांति सुना मदनारी॥ कहहु मोहि अति कौतुक भारी॥
गरुड महाज्ञानी गुण राशी॥ हरि सेवक अति निकट नि-
वासी॥ तिहिं केहि हेतु काक सन जाई॥ सुनी कथा मु-
नि निकर बिहाई॥ कहहु कवनि विधि भा सम्बादा॥ दोउ ह-
रि भक्त काक उरगादा॥ गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई॥ बो-
ले शिव सादर सुख पाई॥ धन्य सती पावनि मति तोरी॥ र-
घुपति चरण प्रीति नहिं थोरी॥ सुनहु परम पुनीत इति-
हासा॥ जो सुनि सकल शोक भ्रम नाशा॥ उपजहि राम च-
रण विश्वासा॥ भवनिधि तरु कर बिनहि प्रयासा॥ दोहा॥
ऐसेइ प्रश्न विहङ्गपति कीन्ह काक सन जाइ॥ सो सब सा-
दर कहहु मैं सुनहु उमा चित लाइ॥५९॥ चौपाई॥ मैं जिमि
कथा सुनी भवमोचनि॥ सो प्रसङ्ग सुनु सुमुखि सुलोच-
नि॥ प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा॥ सती नाम तब रहा तु-
म्हारा॥ दक्ष यज्ञ मम भा अपमाना॥ तुम्ह अति क्रोध तजे त-
ब प्राणा॥ मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भङ्गा॥ जानहु सो
तुम सकल प्रसङ्गा॥ तब अति शोच भयउ मन मोरे॥ दुखि-
त भयउ वियोग प्रिय तोरे॥ सुन्दर वन गिरि सरित तडागा

कौतुकदेखतफिरौंविरागा॥ गिरिसुमेरुउत्तरदिशि
दूरी॥ नीलशैलएकसुन्दरभूरी॥ तासुकनकमयशिख
रसुहाए॥ चारिचारुमोरेमनभाए॥ तेहिपरएकएकवि
टपविशाला॥ वटपीपरपाकरीरसाला॥ शैलोपरिसर
सुन्दरसोहा॥ मणिसोपानदेखिमनमोहा॥ दोहा॥ शी
तलअमलमधुरजलजलजविपुलवहुरंग॥ कूजतक
लरवहंसगणगुञ्जतमञ्जुलभृङ्ग॥ ८०॥ चौपाई॥ तिहिं
गिरिरुचिरवसैखगसोई॥ तासुनाशकल्पान्तनहोई॥
मायाकृतगुणदोषअनेका॥ मोहमनोजआदिअविवे
का॥ रहेव्यापिसमस्तजगमाहीं॥ तिहिंगिरिनिकटकव
हुँनहिंजाहीं॥ तहँवसिहरिहिंभजैजिमिकागा॥ सोसु
णुउमासहितअनुरागा॥ पीपरतरुतरध्यानसोधरई॥
जापयज्ञपाकरितरकरई॥ आम्रछाँहकरुमानसपूजा॥
तजिहरिभजनकाजनहिंदूजा॥ वटतरकरुहरिकथा
प्रसङ्गा॥ आवहिंसुनैअनेकविहङ्गा॥ रामचरितविचि
त्रविधनाना॥ प्रेमसहितकरुसादरगाना॥ सुनहिंसक
लमतिविमलमराला॥ वसहिंनिरन्तरजेतहिंताला॥ ज
वमैंजाइसोकौतुकदेखा॥ उरउपजाआनन्दविशेषा॥
दोहा॥ तवकछुकालमरालतनुधरितहँकीन्हनिवास
सादरसुनिरघुपतिचरितपुनिआएउँकैलास॥ ८१॥ चौ॰

गिरिजाकहेउंसोसबइतिहासा॥मैंजेहिंसमयगयउं
खगपासा॥अबसोकथासुनहुजेहिंहेतू॥गयउकाक
पहिंखगकुलकेतू॥जबरघुनाथकीन्हरणक्रीडा॥स
मुझतचरितहोतिमोहिब्रीडा॥इन्द्रजीतकरआपुबंधा
वा॥तबनारदमुनिगरुडपठावा॥बन्धनकाटिगयउउ
रगादा॥उपजाहृदयप्रचण्डविषादा॥प्रभुबन्धनस
मुझतबहुभांती॥करतविचारउरगआराती॥व्यापक
ब्रह्मविरजवागीशा॥मायामोहपारपरमीशा॥सोअ
वतारसुनेउजगमाहीं॥देखेउसोप्रभावकछुनाहीं॥
दोहा॥भवबन्धनतेंछूटहिंनरजपिजाकरनाम॥खर्व
निशाचरबांधेउनागपाशसोइराम॥५८॥चौपाई॥नाना
भांतिमनहिंसमुझावा॥प्रगटनज्ञानहृदयभ्रमछावा॥
खेदखिन्नमनतर्कबढाई॥भयउमोहवशतुम्हरीहि
नाई॥व्याकुलगयउदेवऋषिपाहीं॥कहेसिजोसंशय
निजमनमाहीं॥सुनिनारदहिंलागिअतिदाया॥सुनु
खगप्रबलरामकीमाया॥जोज्ञानिन्हकरचितअपह
रई॥वरिआईविमोहमनकरई॥जेहिंबहुवारनचावा
मोही॥सोइव्यापेउविहङ्गपतितोही॥महामोहउपजा
मनतोरे॥मिटिहिंनवेगिकहेखगमोरे॥चतुराननप
हिंजाहुखगेशा॥सोइकरेहुजोदेहिंनिदेशा॥दोहा॥अ

सकहिचलेदेवऋषिकरतरामगुणगान॥ हरिमा
याबलवरणतपुनिपुनिपरमसुजान॥५८॥ चौपाई॥
तबखगपतिविरञ्चिपहँगयऊ॥ निजसन्देहसुनावत
भयऊ॥ सुनिविरञ्चिरामहिंसिरनावा॥ समुझिप्रतापप्रे
मउरछावा॥ मनमहँकरहिंविचारविधाता॥ मायावश
कविकोविदज्ञाता॥ हरिमायाकरअमितप्रभावा॥ वि
पुलवारजेहिंमोहिनचावा॥ अगजगमयसबममउप
जाया॥ नहिंआश्चर्यमोहिखगराया॥ तबबोलेविधिगि
रासुहाई॥ जानुमहेशरामप्रभुताई॥ वैनतेयशङ्करप
हिंजाहू॥ तातअनतपूछहुजनिकाहू॥ तहँहोइहितव
संशयहानी॥ चलेउविहङ्गपतिसुनिविधिवाणी॥ दोहा॥
परमातुरविहङ्गपतितबआयउममपास॥ जातरहेउ
कुवेरगृहरहेहुउमाकैलास॥५९॥ चौपाई॥ तेहिममप
दसादरसिरनावा॥ पुनिआपनसन्देहसुनावा॥ सुनिता
करविनीतमृदुवानी॥ प्रेमसहितमैंकहेउंभवानी॥ मि
लेहुगरुड़मारगमहँमोही॥ कवनभांतिसमुझावौंतो
ही॥ जबबहुकालकरियसतसङ्गा॥ तबसबहिहोइसं
शयभङ्गा॥ सुनियतहांहरिकथासुहाई॥ नानाभांतिमु
निन्हजोगाई॥ जेहिमहँआदिमध्यअवसाना॥ प्रभुप्रति
पाद्यरामभगवाना॥ नितहरिकथाहोतिजहँभाई॥ पठ

रामा. उ. २०

20

वों तोहि सुनहु तहं जाई॥ जानहि सुनत सकल सन्देहा
होइहि रामचरण दृढ नेहा॥ दोहा॥ विनु सतसङ्ग न हरि
कथा तेहि विनु मोह न भाग॥ मोह गए विनु रामपद हो
इ न दृढ अनुराग॥ ६१॥ चौपाई॥ मिलहि न रघुपति विनु
अनुरागा॥ किये योग जप ज्ञान विरागा॥ उत्तर दिशि सु
न्दर गिरि नीला॥ तहं रह काकभुसुण्डि सुशीला॥ रा
मभक्ति पथ परम प्रवीणा॥ ज्ञानी गुण गृह बहु काली
ना॥ रामकथा सो कहै निरन्तर॥ सादर सुनहिं विविध
विहङ्गवर॥ जाइ सुनहु तहं हरि गुण भूरी॥ होइहि मो
ह जनित दुख दूरी॥ मैं सब जब तेहि कहा बुझाई॥ चले
उ हर्षि मम पद सिर नाई॥ ताते उमा न मैं समुझावा॥ रघु
पति कृपा मर्म मैं पावा॥ होइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना॥
सो खोवै चह कृपानिधाना॥ कछु तेहि तें पुनि मैं नहि रा
खा॥ समुझे खग खग ही की भाषा॥ प्रभुमाया बलवन्त
भवानी॥ जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥ दोहा॥ ज्ञानी भ
क्त शिरोमणि त्रिभुवनपति कर यान॥ ताहि मोह माया
प्रबल पामर करहिं गुमान॥ ६२॥ शिव विरंचि कहं मोहै
को है वपुरा आन॥ अस जिय जानि भजहिं मुनि मायाप
ति भगवान॥ ६३॥ चौपाई॥ गयेउ गरुड जहं वसै भुसुण्डी
मति अकुण्ठ हरि भक्ति अखण्डी॥ देखि शैल प्रसन्न मन भा

एऊ॥ माया मोह शोच भ्रम गएऊ॥ करि तडाग मज्जन
जलपाना॥ वट तर गएउ हृदय हर्षाना॥ वृद्ध वृद्ध विहंग
तहं आए॥ सुनै राम के चरित सुहाए॥ कथा आरम्भ करै
सोइ चाहा॥ तेही समय गएउ खगनाहा॥ आवत देखि स
कल खगराजा॥ हर्षेउ वायस सहित समाजा॥ अति आद
र खगपति कर कीन्हा॥ स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा॥ क
रि पूजा समेत अनुरागा॥ मधुर वचन तब बोलेउ कागा॥
दोहा॥ नाथ कृतारथ भयेउं मैं तव दरशन खगराज॥ आय
सु देहु सो करौं अब प्रभु आयेहु केहि काज॥ ९५॥ सदा कृता
रथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश॥ जाकी अस्तुति सादर
निज मुख कीन्ह महेश॥ ९६॥ चौपाई॥ सुनहु तात जेहि का
रन आयेउं॥ सो सब भयेउ दर्शन तव पायेउं॥ देखि परम पाव
न तव आश्रम॥ गएउ मोह संशय नाना भ्रम॥ अब श्रीराम
कथा अति पावनि॥ सदा सुखद दुख पुंज नशावनि॥ साद
र तात सुनावहु मोही॥ बार बार विनवौं प्रभु तोही॥ सुनत ग
रुड की गिरा विनीता॥ सरल सप्रेम सुखद पुनीता॥ भएउ ता
सु मन परम उछाहा॥ कहै लाग रघुपति गुण गाहा॥ प्रथ
महिं अति अनुराग भवानी॥ राम चरित सर कहेसि बखानी॥
पुनि नारद कर मोह अपारा॥ कहेसि बहुरि रावण अवतारा॥
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई॥ पुनि शिशु चरित कहेसि मन ला

मलार पुत्र नटराग

रामा०
उ०
११

ई ॥ दोहा ॥ बालचरितकहिबिबिधिबिधिमनमहँपरम
उछाह ॥ रिषिआगमनकहेसिपुनिश्रीरघुबीरबिबाह ॥ ९०
चौपाई ॥ बहुरिरामअभिषेकप्रसंगा ॥ पुनिनृपवचनराज
रसभंगा ॥ पुरवासिनकरविरहविषादा ॥ कहसिरामल
छमणसम्वादा ॥ विपिनगमनकेवटअनुरागा ॥ सुरसरि
उतरिनिवासप्रयागा ॥ वालमीकप्रभुमिलनवखाना ॥ चि
त्रकूटजिमिवसेभगवाना ॥ सचिवागमननगरनृपमर
णा ॥ भरतागमनप्रेमवहुवरणा ॥ करिनृपक्रियासंग
पुरवासी ॥ भरतगएतहँप्रभुसुखरासी ॥ पुनिरघुपतिब
हुविधसमुझाए ॥ लेपादुकाअवधपुरआए ॥ भरतरह
निसुरपतिसुतकरणी ॥ प्रभुअरुअत्रिभेटपुनिवरणी ॥
दोहा ॥ कहिविराधवधजाहिविधदेहतजीशरभंग ॥ वर
णिसुतीछणप्रेमपुनिप्रभुअगस्तसतसंग ॥ ६४ ॥ चौ०
कहिदंडकवनपावनताई ॥ गृध्रमइत्रीपुनितेहिगाई ॥ पु
निप्रभुपञ्चवटीकृतवासा ॥ भंजिसकलमुनिन्हकीत्रासा ॥
पुनिलछमणउपदेशअनूपा ॥ सूर्पनखाजिमिकीन्हकुरू
पा ॥ खरदूषणवधवहुरिवखाना ॥ जिमिसवमर्मदशान
नजाना ॥ दशकंधरमारीचवतकही ॥ जेहिविधिभईसक
लतेहिकही ॥ पुनिमायासीताकरहरणी ॥ श्रीरघुवीरवि
रहकछुवरणी ॥ पुनिप्रभुगृध्रक्रियाजिमिकिन्ही ॥ वधि

कबंधपावनगतिदीन्ही ॥ बहुबिधिबिरहबरणिरघुबीरा
जेहिबिधिगएउसरोवरतीरा ॥ दोहा ॥ प्रभुनारदसंवादकहि
मारुतिमिलनप्रसंग ॥ पुनिसुग्रीवमिताईबालिप्राणकरभं
ग ॥ ९२ ॥ कपिहितिलककरिप्रभुकृतशैलप्रवर्षणवास ॥
वर्णनवर्षासरदअरुरामरोषकपित्रास ॥ ९३ ॥ चौपाई ॥ जे
हिबिधिकपिपतिकीशपठाए ॥ सीताखोजसकलदिशिधा
ए ॥ बिवरप्रवेशकीन्हजेहिभांती ॥ कपिन्हबहोरिमिलासं
पाती ॥ सुनिसबकथासमीरकुमारा ॥ लांघतभएउपयोधि
अपारा ॥ लंकाकपिप्रवेशजिमिकीन्हा ॥ पुनिसीतहिधीर
जजिमिदीन्हा ॥ बनउजारिरावणहिप्रबोधी ॥ पुरदहिलां
घेउबहुरिपयोधी ॥ आएकपिसबजहंरघुराई ॥ वैदेहीकी
कुशलसुनाई ॥ सेनसमेतयथारघुबीरा ॥ उतरेजाइवारिनि
धितीरा ॥ मिलाबिभीषणजेहिबिधिआई ॥ सागरनिग्रहक
थासुनाई ॥ दोहा ॥ सेतुबांधिकपिसेनजिमिउतरेसागरपा
र ॥ गयोबसीठीवीरवरजेहिबिधिबालिकुमार ॥ ९४ ॥ निशि
चरकीशलराईवरणिसिबिबिधप्रकार ॥ कुम्भकर्णघनना
दकरबलपौरुषसंहार ॥ ९५ ॥ चौपाई ॥ निशिचरनिकरमर
णबिधिनाना ॥ रघुपतिरावणसमरबखाना ॥ रावणबधम
न्दोदरिशोका ॥ राजबिभीषणदेवअशोका ॥ सीतारघुप
तिमिलनबहोरी ॥ सुरन्हकीन्हअस्तुतिकरजोरी ॥ पुनिपु

ष्पकचढिकपिन्हसमेता॥ अवधचलेप्रभुकृपानिकेता॥ जेहिबिधिरामनगरनिजआये॥ बायसबिशदचरितसबगाये॥ कहेसिबहोरिरामअभिषेका॥ पुरबर्णननृपनीतिअनेका॥ कथासमस्तभुसुण्डबखानी॥ जोमैंतुमसनकहीभवानी॥ सुनिसबरामकथाखगनाहा॥ कहतबचनमनपरमउछाहा॥ सोरठा॥ गयउमोरसन्देहसुनेउसकलरघुपतिचरित॥ भयउरामपदनेहतवप्रसादवायसतिलक॥ मोहिभयउअतिमोहप्रभुबंधनरणमहनिरखि॥ चिदानन्दसन्दोहरामविकलकारणकवन॥ ६७॥ चौपाई॥ देखिचरितअतिनरअनुसारी॥ भयउहृदयममसंशयभारी॥ सोभ्रमअबमैहितकरिजाना॥ कीन्हअनुग्रहकृपानिधाना॥ जोअतिआतपव्याकुलहोई॥ तरुछायासुखजानैसोई॥ जानहिहोतमोहअतिमोही॥ मिलतेउँतातकवनिबिधतोही॥ सुनतेउँकिमिहरिकथासुहाई॥ अतिबिचित्रबहुबिधतुम्हगाई॥ निगमागमपुराणमतएहा॥ कहहिंसिद्धमुनिनहिसन्देहा॥ सन्तविशुद्धमिलहिंपरितेही॥ चितवहिरामकृपाकरिजेही॥ रामकृपातवदरशनभयऊ॥ तवप्रसादममसंशयगयऊ॥ दोहा॥ सुनिविहङ्गपतिबाणीसहितविनयअनुराग॥ पुलकगातलोचनसजलमनहर्षेउअतिकाग॥ ६८॥ श्रोतासुमतिसुशीलशुचिकथारसिक

हरिदास॥ पाइउमाअतिगोप्यमतसज्जनकरहिंप्रकाश
चौपाई॥ बोलेउकागभुसुंडिबहोरी॥ नभगनाथपरप्रीति
नथोरी॥ सबविधिनाथपूज्यतुह्ममेरे॥ कृपापात्ररघुनाय
ककेरे॥ तुमहिनसंशयमोहनमाया॥ मोपरनाथकीन्ह
तुमदाया॥ पठैमोहमिसखगपतितोही॥ रघुपतिदीन्ह
बडाईमोही॥ तुमनिजमोहकहाखगसांई॥ सोनहिकछु
आश्चर्यगोसांई॥ नारदशिवविरञ्चिसनकादी॥ जेमुनि
नायकआतमवादी॥ मोहनअंधकीन्हकेहिकेही॥ कोज
गकामनचावनजेही॥ तृषणाकेहिनकीन्हबौराहा॥ के
हिकरहृदयक्रोधनहिदाहा॥ दोहा॥ ज्ञानीतापसशूरक
विकोविदगुणआगार॥ केहिकीलोभविडम्बनाकीन्ह
नएहिंसंसार॥१००॥ श्रीमदवक्रनकीन्हकेहिप्रभुताबा
धिरनकाहि॥ मृगनयनीकेनयनशरकेअसलागुनजा
हि॥१०१॥ चौपाई॥ गुणाकृतसन्निपातनहिकेही॥ कोउन
मानमदतजेउनवेही॥ यौवनज्वरकेहिनहिबलकावा
ममताकेहिकरयशननशावा॥ मतसरकाहिकलंकन
लावा॥ काहिनशोकसमीरडोलावा॥ चिन्तासांपिनिको
नहिखाया॥ कोजगजाहिनव्यापीमाया॥ कीटमनोरथ
[illegible]॥ केहिनलागुघुणाकोअसधीरा॥ सुतवितना
रिईषणातीनी॥ केहिकीमतिइन्हकृतनमलीनी॥ यहसब

मायाकरपरिवारा॥प्रबलअमितकोवरणैपारा॥शिव
चतुराननजाहिडेराहीं॥अपरजीवकेहिलेखेमाहीं॥दो
हा॥व्यापिरहेउसंसारमहँमायाकटकप्रचंड॥सेनापतिका
मादिभटदम्भकपटपाषंड॥१०२॥सोदासीरघुवीरकीसमु
झेंमिथ्यासोपि॥छुटैनरामकृपाविनुनाथकहौंपदरोपि॥
१०३॥चौपाई॥जोमायासबजगहिनचावा॥जासुचरितल
खिकाहुनपावा॥सोइप्रभुभ्रूविलासखगराजा॥नाचन
टीइवसहितसमाजा॥व्यापकब्रह्मअखण्डअनन्ता॥अ
खिलअमोघशक्तिभगवन्ता॥सोइसच्चिदानन्दघनरामा
अजविज्ञानरूपवलधामा॥अगुणअदभ्रगिरागोतीता
समदरशीअनवद्यअजीता॥निर्मलनिराकारनिर्मोहा॥
नित्यनिरंजनसुखसन्दोहा॥प्रकृतिपारप्रभुसबउरवा
सी॥ब्रह्मनिरीहविरजअविनाशी॥इहांमोहकरकारण
नाहीं॥रविसन्मुखतमकबहुंकिजाहीं॥दोहा॥भक्तहेत
भवानप्रभुरामधरेउतनुभूप॥कियेचरितपावनपरमप्रा
कृतनरअनुरूप॥१०४॥यथाअनेकवेषधरिनृत्यकरैन
टकोइ॥सोइसोइभावदेखावैआपुनहोइन[illegible]

कानडा २

चौपाई॥असरघुपतिलीलाउरगारी॥दनुजविमोहनज
नसुखकारी॥जेमतिमलिनविषयवशकामी॥प्रभुपर
मोहधरहिंइमिस्वामी॥नयननदोषजाकहंजबहोई॥पीत

वरण शशि कहँ कहइ सोई॥ जब जेहि दिशि भ्रम होइ खगे
शा॥ सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥ नौकारूढ चलत जग
देखा॥ अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ बालक भ्रमहिं न
भ्रमहिं गृहादि॥ कहहिं परस्पर मिथ्यावादी॥ हरि विषक
अस मोह विहंगा॥ सपनेहुं नहिं अज्ञान प्रसंगा॥ मायाव
श मतिमन्द अभागी॥ हृदय जमनिका बहु विधि लागी॥
ते शठ हठ वश संशय करहीं॥ निज अज्ञान राम पर धरहीं॥
दोहा॥ काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप॥ ते कि
मि जानहिं रघुपतिहि मूढ परे तम कूप॥ १०६॥ निर्गुण रू
प सुलभ अति सगुण न जानै कोइ॥ सुगम अगम नाना च
रित सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥ १०७॥ चौपाई॥ सुनु खगप
ति रघुपति प्रभुताई॥ कहहुं यथामति कथा सुहाई॥ जेहि
विधि मोह भयउ प्रभु मोही॥ सो सब चरित सुनावौं तोही॥ रा
म कृपा भाजन तुम्ह ताता॥ हरि गुण प्रीति मोहि सुखदा
ता॥ ताते नहि कछु तुम्हहि दुरावौं॥ परम रहस्य मनोहर गा
वौं॥ सुनहु राम कर सहज सुभाऊ॥ जन अभिमान न राख
हिं काऊ॥ संसृति मूल शूलप्रद नाना॥ सकल शोक दाय
क अभिमाना॥ ताते करहिं कृपानिधि दूरी॥ सेवक पर मम
ता अति भूरी॥ जिमि शिशु तन व्रण होइ गोसांई॥ मातु
चिराव कठिन की नाई॥ दोहा॥ यद्यपि प्रथम दुख पावै रोवै

रामा.
उ.
२४.

वालअधीर॥व्याधिनाशहितजननीगनाइनसोशिशुपी-
र॥१०८॥तिमिरघुपतिनिजदासकरहरहिमानहितलागि
तुलसिदासऐसेप्रभुहिंकसनभजसिभ्रमत्यागि॥१०९॥

चौपाई॥रामकृपाआपनिजडताई॥कहौंखगेशसुनहुम-
नलाई॥जबजबराममनुजतनुधरहीं॥भक्तहेतुलीलाबहु
करहीं॥तबतबअवधपुरीमेंजाऊं॥वालचरितविलोकिह-
र्षाऊं॥जन्ममहोत्सवदेखौंजाई॥वर्षपांचतहंरहौंलोभाई॥
इष्टदेवममबालकरामा॥शोभावपुषकोटिशतकामा॥
निजप्रभुवदननिहारिनिहारी॥लोचनसफलकरौंउरगारी
लघुवायसवपुधरिहरिसंगा॥देखौंबालचरितबहुरंगा॥

दोहा॥लरिकाईजहंजहंफिरहिंतहंतहंसंगउडाउं॥जूठन
परैअजिरमहंसोउठाइकरिखाउं॥११०॥एकवारअतिशैसव
चरितकिएरघुवीर॥सुमिरतप्रभुलीलासोइपुलकित
भयउशरीर॥१११॥

चौपाई॥कहैभुसुंडिसुनहुखगनायक
रामचरितसेवकसुखदायक॥नृपमन्दिरसुन्दरसबभांती
खचितकनकमणिनानाजाती॥वरणिनजाइरुचिरअंगु-
नाई॥जहंखेलहिंनितचारिउभाई॥बालविनोदकरतरघु
राई॥विचरतअजिरजननिसुखदाई॥मरकतमृदुलकले-
वरश्यामा॥अंगअंगप्रतिछविबहुकामा॥नवराजीवअरु
णमृदुचरणा॥पदजरुचिरनखशशिदुतिहरणा॥ललित

अङ्कुकुलिशादिकचारी॥ नूपुरचारुमधुररवकारी॥ चारुपुरटमणिरचितवनाई॥ कटिकिङ्किणीकलमुखरसुहाई॥ दोहा॥ रेखात्रयसुन्दरउदरनाभिरुचिरगंभीर उरआयतभ्राजतविविधबालविभूषणचीर॥ १११॥ चौपा॰ अरुणपाणिनखकरजमनोहर॥ बाहुविशालविभूषणसुन्दर॥ स्कन्धबालकेहरिदरग्रीवा॥ चारुचिबुकआननछविसींवा॥ कलबलवचनअधरअरुनारे॥ दुइदुइदशनविशदवरवारे॥ ललितकपोलमनोहरनासा॥ सकलसुखदशशिकरसमहासा॥ नीलकञ्जलोचनभवमोचन॥ भ्राजतभालतिलकगोरोचन॥ विकटभृकुटिसमश्रवणसुहाए॥ कुञ्चितकचमेचकछविछाए॥ पीतझीनझगुलीतनुसोही॥ किलकनिचितवनिभावतिमोही॥ रूपराशिनृपअजिरविहारी॥ नाचहिंनिजप्रतिविम्बनिहारी॥ मोहिसनकरहिंविविधविधक्रीडा॥ वरणतचरितहोतिमनव्रीडा॥ किलकतमोहिधरनजबधावहिं॥ चलौंभाजितवपूपदिखावहिं॥ दोहा॥ आवतनिकटहसहिंप्रभुभाजतरुदनकराहिं॥ जाउंसमीपगहनपदफिरिफिरिचितैपराहिं॥ ११२॥ प्राकृतशिशुइवलीलादेखिभयउमोहिमोह॥ कवनचरितकरतप्रभुचिदानन्दसन्दोह॥ ११३॥ चौपाई॥ इतनामनआनतखगराया॥ रघु

पतिप्रेरितव्यापीमाया॥सोमायानदुखदमोहिकाही
आनजीवइवसंसृतिनाही॥नाथइहांकछुकारणआना
सुनहुसोसावधानहरिजाना॥ज्ञानअखंडएकसीता
वर॥मायावश्यजीवचराचर॥जोसबकेरहज्ञानएकर
स॥ईश्वरजीवहिंभेदकहहुकस॥मायावश्यजीवअभि
मानी॥ईशवश्यमायागुणखानी॥परवशजीवस्ववश
भगवन्ता॥जीवअनेकएकश्रीकन्ता॥मुधाभेदयद्यपि
कृतमाया॥विनुहरिजाइनकोटिउपाया॥दोहा॥राम
चन्द्रकेभजनविनुजोचहपदनिर्वाण॥ज्ञानवन्तअपि
सोनरपशुविनुपूछविषाण॥७७॥राकापतिषोडशउ
गहिंतारागणसमुदाय॥सकलगिरिन्हदवलाइयेरवि
विनुरातिनजाय॥७८॥चौपाई॥तैसहिंविनुहरिभजन
खगेशा॥मिटैनजीवनकेरकलेशा॥हरिसेवकहिनव्या
पअविद्या॥प्रभुप्रेरिततेहिव्यापैविद्या॥तातेनाशनहोइ
दासकर॥भेदभक्तिवाढैविहंगवर॥भ्रमतेंचकितराम
मोहिदेखा॥विहंसेसोसुणुचरितविशेषा॥तेहिंकौतु
ककरमर्मनकाहू॥जानाअनुजनमातुपिताहू॥जानु
पाणिधायेमोहिधरणा॥श्यामलगातअरुणकरचरणा
तबमैंभागिचलेउउरगारी॥रामगहनकहंभुजापसारी॥
जिमिजिमिदूरिउडाउंआकाशा॥तहंहरिभुजदेखौंनिजपा

षा ॥ दोहा ॥ ब्रह्मलोक लगि गयउँ मैं चितयउँ पाछ उडात
युग अंगुल कर बीच सब राम भुजहिं मोहि तात ॥ ११७ ॥
सप्तावरण भेद करि जहँ लगि गति रहि मोरि ॥ गयउँ त
हाँ प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयउँ बहोरि ॥ ११८ ॥ चौपा०
मूँदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ ॥ पुनि चितवत कोशल
पुर गयऊँ ॥ मोहि विलोकि राम मुसकाहीं ॥ विहँसत
तुरित गयउँ मुख माहीं ॥ उदर माझ सुनु अण्डज राया ॥
देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ अति विचित्र तहँ लोक अ
नेका ॥ रचना अधिक एक तें एका ॥ कोटिन चतुरानन
गौरीशा ॥ अगणित उडुगण रवि रजनीशा ॥ अगणित लो
कपाल यम काला ॥ अगणित भूधर भूमि विशाला ॥ सा
गर सरि सर विपिन अपारा ॥ नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ॥
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर ॥ चारि प्रकार जीव सचराचर
दोहा ॥ जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ ॥ सो स
ब अद्भुत देखेउँ वरणि कवनि विधि जाइ ॥ ११९ ॥ एक एक
ब्रह्माण्ड महँ रहेउँ वर्ष शत एक ॥ यहि विधि देखत फिरउँ
मैं अण्ड कटाह अनेक ॥ १२० ॥ चौपाई ॥ लोक लोक प्रति भि
न्न विधाता ॥ भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता ॥ नर गंध
र्व भूत वेताला ॥ किन्नर निशिचर पशु खग व्याला ॥ देव
दनुज गण नाना जाती ॥ सकल जीव तहँ आनहिं भाँती

महिसरसागरसरिगिरिनाना॥ सबप्रपंचतहँआनैआ
ना॥ अगउकोसप्रतिप्रतिनिजरूपा॥ देखेउँजिनिसअने
कअनूपा॥ अवधपुरीप्रतिभुवननिन्यारी॥ शरजूभिन्न
भिन्ननरनारी॥ दशरथकौशल्यासुणउताता॥ विविध
रूपभरतादिकभ्राता॥ प्रतिब्रह्मांडरामअवतारा॥ देखे
उँबालविनोदउदारा॥ दोहा॥ भिन्नभिन्नसबदीखमैंअ
तिविचित्रहरियान॥ अगणितभुवनफिरेउँप्रभुरामन
देखेउआन॥ ८१॥ सोइशिशुपनसोइशोभासोइकृपाल
रघुवीर॥ भुवनभुवनदेखतफिरेउँप्रेरितमोहसमीर॥
चौपाई॥ भ्रमतमोहिब्रह्मांडअनेका॥ वीतेमनहुँकल्पश
तएका॥ फिरतफिरतनिजआश्रमआयउँ॥ तहँपुनिर
हिकछुकालगवायउँ॥ निजप्रभुजन्मअवधसुनिपा
यउँ॥ निर्भरप्रेमहर्षिउठिधायउँ॥ देखेउँजन्ममहोत्सव
जाई॥ जेहिविधिप्रथमकहामैगाई॥ रामउदरदेखेजग
नाना॥ देखतवनैनजाइवखाना॥ तहँपुनिदेखेउँराम
सुजाना॥ मायापतिकृपालभगवाना॥ करौंविचारव
होरिवहोरी॥ मोहकलिलव्यापितमतिमोरी॥ उभयघ
रीमहँमैसबदेखा॥ भयउँभ्रमितमनमोहविशेषा॥ दो०
देखिकृपालविकलमोहिविहँसेतबरघुवीर॥ विहँस
तहीमुखबाहरआयउँसुणुमतिधीर॥ ८२॥ सोइलरि

काहूसोसुनलगेकरणसुनिराम॥कोटिभातिसमुझावौं
मननलहैविश्राम॥२२४॥चौपाई॥देखिचरितइहसोप्रभु
ताई॥समुझतदेहदशाविसराई॥धरणिपरेउमुखआव
नवाता॥त्राहित्राहिआरतजनत्राता॥परमाकुलप्रभुमोहि
विलोकी॥निजमायाप्रभुतातवरोकी॥करसरोजप्रभुमम
सिरधरेऊ॥दीनदयालदुसहदुखहरेऊ॥कीन्हराममोहि
विगतविमोहा॥सेवकसुखदकृपासंदोहा॥प्रभुताप्रथम
विचारिविचारी॥मनमहंहोइहर्षअतिभारी॥भक्तवत्सल
ताप्रभुकीदेखी॥उपजीममउरप्रीतिविशेषी॥सजलन
यनपुलकितकरजोरी॥कीन्हीवहुविधिविनयबहोरी॥दो
हा॥सुनिसप्रेममममबाणीदेखिदीननिजदास॥बचनसु
खदगम्भीरमृदुबोलेरमानिवास॥२२५॥काकभुसुण्डीमां
गुवरअतिप्रसन्नमोहिजानि॥अणिमादिकसिधिअपरऋ
धिमोक्षसकलसुखखानि॥२२६॥चौपाई॥ज्ञानविवेकवि
रतिविज्ञाना॥मुनिदुर्लभगतिजेजगजाना॥आजुदेउंसब
संशयनाहीं॥मांगुजोतोहिभावमनमाहीं॥सुनिप्रभुवच
नअधिकअनुरागेउं॥मनअनुमानकरनतबलागेउं॥प्रभु
कहदेनसकलसुखसही॥भक्तिआपनीदेनकही॥भक्ति
हीनगुणसुखसबऐसे॥लवणविनावहुव्यञ्जनजैसे॥भ
क्तिहीनसुखकवनेकाजा॥असविचारिबोलेउंखगराजा॥

रामा. उ. ५२

जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू ॥ मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ म
न भावत बर मांगौं स्वामी ॥ तुम उदार उर अंतरजामी ॥ दोहा ॥
अबिरल भक्ति बिसुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव ॥ जेहि खो
जत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥१२७॥ भक्त कल्पतरु
प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम ॥ सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु
देहु दया करि राम ॥१२८॥ चौपाई ॥ एवमस्तु कहि रघुकुल
नायक ॥ बोले बचन परम सुखदायक ॥ सुणु बायस तैं सह
ज सयाना ॥ काहे न मांगसि अस बरदाना ॥ सब सुख खानि
भक्ति तैं मांगी ॥ नहि कोउ जग समान बडभागी ॥ जे मुनि कोटि
यतन नहि लहहीं ॥ जो जप जोग अनल तन दहहीं ॥ रीझेउं
देखि तोरि चतुराई ॥ मांगेहु भक्ति मोहि अति भाई ॥ सुणु बि
हंग प्रसाद अब मोरे ॥ सब शुभ गुण बसिहैं उर तोरे ॥ भक्ति
ज्ञान विज्ञान विरागा ॥ जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जान
ब तैं सबही कर भेदा ॥ मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ दोहा ॥
माया सम्भव भ्रम सबै अब न ब्यापिहि तोहि ॥ जानेसि ब्र
ह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोहि ॥१२९॥ मोहि भक्त प्रि
य संतत अस विचारि सुणु काग ॥ काय बचन मन मम पद
करेसु अचल अनुराग ॥१३०॥ चौपाई ॥ अब सुणु परम बिम
ल मम बाणी ॥ सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ निज सिद्धां
त सुनावौं तोही ॥ सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ मम मा

या सम्भव संसारा॥ जीव चराचर बिबिध प्रकारा॥ सब मम
प्रिय सब मम उपजाए॥ सब तें अधिक मनुज मोहि भाए॥ ते
हि महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी॥ तिन्ह महँ निगम धर्म अनु
सारी॥ तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी॥ ज्ञानिहु तें अति प्रि
य बिज्ञानी॥ तिन्ह तें पुनि मोहि प्रिय निज दासा॥ जेहि गति मो
रि न दूसरि आसा॥ पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं॥ मोहि से
वक सम प्रिय कोउ नाहीं॥ भक्तिहीन बिरंचि किन होई॥ सब
जीवन सम प्रिय मोहि सोई॥ भक्तिवन्त अति नीचौ प्राणी॥ मो
हि प्राणप्रिय असि मम बाणी॥ दोहा॥ सुचि सुसील सेवक
सुमति प्रिय कहु काहि न लाग॥ श्रुति पुराण कह नीति असि
सावधान सुणु काग॥ ८६॥ चौपाई॥ एक पिता के बिपुल कु
मारा॥ होइ पृथक गुण शील अचारा॥ कोउ पंडित कोउ ता
पस ज्ञाता॥ कोउ धनवन्त सूर कोउ दाता॥ कोउ सर्वज्ञ धर्मरत
कोई॥ सब पर पितहि प्रीति सम होई॥ कोउ पितु भक्त बचन
मन कर्मा॥ सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ सो प्रिय सुत पितु
प्राण समाना॥ यद्यपि सो सब भांति अयाना॥ एहि बिधि जी
व चराचर जेते॥ त्रिजग देव नर असुर समेते॥ अखिल बिश्व
यह मोर उपजाया॥ सब पर मोहि बराबरि दाया॥ तिन्ह मह
जो परिहरि मद माया॥ भजहिं मोहि मन बच अरु काया॥ दो॰
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ॥ सर्वभाव भज कप

हतजिमोहिपरमप्रियमोर॥१२२॥सोरठा॥सत्यकहौंखग
तोहिसुचिसेवकममप्राणप्रिय॥असविचारिभजुमोहि
परिहरिआशभरोससब॥१२३॥चौपाई॥कबहूँकालनहि
व्यापिहितोही॥सुमिरेहुभजेहुनिरन्तरमोही॥प्रभुवचना
मृतसुनिनअघाऊँ॥तनुपुलकितमनअतिहर्षाऊँ॥सोसु
खजानैमनअरुकाना॥नहिरसनापहिजाइवखाना॥प्र
भुशोभासुखजानहिनयना॥किमिकहिसकैतिन्हेनहि
वयना॥वहुविधमोहिप्रबोधसुखदेई॥लगेकरणशिशु
कौतुकतेई॥सजलनयनकछुमुखकरिरूषा॥चितैमातु
लागीअतिभूषा॥देखिमातुआतुरउठिधाई॥कहिमृदुवच
नलिएउरलाई॥गोदराखिकरावपयपाना॥रघुपतिचरि
तललितकरिगाना॥सोरठा॥जेहिसुखलागिपुरारिअशि
ववेषकृतशिवसुखद॥अवधपुरीनरनारितेहिसुखमहँ
सन्ततमगन॥१२४॥सोइसुखकरलवलेशजिनवारेक।
सपनेहुलहेउ॥तेनहिगणहिखगेशब्रह्मसुखहिसज्जन
सुमति॥१२५॥चौपाई॥मैंपुनिअवधरहेउँकछुकाला॥देखे
उँबालविनोदरसाला॥रामप्रसादभक्तिवरपाएउँ॥प्रभुप
दवन्दिनिजाश्रमआएउँ॥तवतेंमोहिनव्यापीमाया॥जब
तेरघुनायकअपनाया॥यहसवगुप्तचरितमैंगावा॥हरिमा
याजिमिमोहिनचावा॥निजअनुभवअबकहौंखगेशा॥वि

नु हरि भजन न जाहिं कलेसा॥ राम कृपा विनु सुनु खगराई॥ जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ जाने विनु न होइ परतीती॥ विनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ प्रीति विना नहिं भक्ति दृढाई॥ जिमि खगेश जल की चिकनाई॥ सोरठा॥ विनु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ विराग विनु॥ गावहिं वेद पुरान सुख कि लहइ हरि भक्ति विनु॥ ८९॥ कोउ विश्राम कि पाव तात सहज सन्तोष विनु॥ चलै कि जल विनु नाव कोटि यतन करि पचि मरिय॥ ९०॥ चौपाई॥ विनु सन्तोष न काम नशाही॥ काम अछत सुख सपनेहु नाही॥ राम भजन विनु मिटहिं कि कामा॥ थल विहीन तरु कबहुँ कि जामा॥ विनु विज्ञान कि समता आवे॥ कोउ अवकाश कि नभ विनु पावै॥ श्रद्धा विना धर्म नहिं होई॥ विनु महि गंध कि पावै कोई॥ विनु तप तेज कि करु विस्तारा॥ जल विनु रस कि होइ संसारा॥ शील कि मिल विनु बुध सेवकाई॥ जिमि विनु तेज न रूप गोसांई॥ निज सुख विनु मन होइ कि थीरा॥ परस कि होइ विहीन समीरा॥ कवनिउ सिद्धि कि विनु विश्वासा॥ विनु हरि भजन न भव भय नाशा॥ दोहा॥ विनु विश्वास भक्ति नहिं तेहि विनु द्रवहिं न राम॥ राम कृपा विनु सपनेहु जीव न लह विश्राम॥ ९०॥ सोरठा॥ अस विचारि मति धीर तजि कुतर्क संशय सकल॥ भजहि राम रघुवीर करुणा

केदार

कर सुन्दर सुखद ॥८९॥ चौपाई॥ निज मति सरिस नाथ
मैं गाई॥ प्रभु प्रताप महिमा खगराई॥ कहिउ न कछु करि
युक्ति विशेषी॥ यह सब मैं निज नयनन्ह देखी॥ महिमा ना
म रूप गुण गाथा॥ सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ निज
निज मति मुनि हरि गुण गावहिं॥ निगम शेष शिव पार न
पावहिं॥ तुम्हहि आदि खग मशक पर्य्यन्ता॥ नभ उड़ा
हि नहि पावहिं अन्ता॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा॥
तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा॥ राम काम शत कोटि सुभ
ग तनु॥ दुर्ग कोटि अमित अरि मर्दनु॥ शक्र कोटि शत सरि
स विलासा॥ नभ शत कोटि अमित अवकाशा॥ दोहा॥ म
रुत कोटि शत विपुल बल रवि शत कोटि प्रकाश॥ शशि
शत कोटि सुशीतल शमन सकल भव त्रास॥९०॥ काल
कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरन्त॥ धूमकेतु शत
कोटि सम दुराधर्ष भगवन्त॥९१॥ चौपाई॥ प्रभु अगाध श
त कोटि पताला॥ शमन कोटि शत सरिस कराला॥ तीरथ
अमित कोटि शत पावन॥ नाम अखिल अघ पुञ्ज नशावन॥
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा॥ सिंधु कोटि शत सम ग
म्भीरा॥ कामधेनु शत कोटि समाना॥ सकल काम दायक
भगवाना॥ शारद कोटि अमित चतुराई॥ विधि शत कोटि
सृष्टि निपुणाई॥ विष्णु कोटि शत पालन कर्त्ता॥ रुद्र कोटि

शतसमसंहर्ता॥ धनदकोटिशतसमधनवाना॥ माया
कोटिप्रपंचनिधाना॥ भारधरणशतकोटिअहीशा॥ निर
वधिनिरुपमप्रभुजगदीशा॥ छंद॥ निरुपमनउपमाआ
नरामसमानरामनिगमकहै॥ जिमिकोटिशतखद्योत
रविसमकहतअतिलघुतालहै॥ ध॥ एहिभांतिनिजनिज
मतिविलासमुनीशहरिहिवखानहीं॥ प्रभुभावग्राहक
अतिकृपालसप्रेमसुनिसुखमानहीं॥ दोहा॥ राममअमितगु
णसागरथाहकिपावैकोइ॥ सन्तन्हिसनयशकछुसुने
उंतमहिसुनायेउसोइ॥ ९२॥ सोरठा॥ भाववश्यभगवान
सुखनिधानकरुणाभवन॥ तजिममतामदमानभजि॥
यसदासीतारमण॥ ९३॥ चौपाई॥ सुनिभुसुंडिकेवचन॥
सुहाये॥ हर्षितखगपतिपंखफुलाये॥ नयननीरमनअ
तिहर्षाणा॥ श्रीरघुपतिप्रतापउरआना॥ पाछिलमोह॥
समुझिपछिताना॥ ब्रह्मअनादिमनुजकरिमाना॥ पुनि
पुनिकाकचरणसिरनावा॥ जानिरामसमप्रेमबढावा॥
गुरुबिनुभवनिधितरैनकोई॥ जोविरंचिशंकरसमहोई॥
संशयसर्पग्रसेउमोहिताता॥ दुखदलहरिकुतर्कबहुव्रा॥
ता॥ तवस्वरूपगारुडरघुनायक॥ मोहिजियायेउजनसु
खदायक॥ तवप्रसादममोहनशाना॥ रामरहस्यअनुप
मजाना॥ दोहा॥ ताहिप्रसंसिविविधविधशीसनाइकरजोरि

वचनसप्रेमविनीतमृदुबोलेउगरुडवहोरि ॥९४॥ प्रभु
अपनेअविवेकतेंवूझौंस्वामीतोहि ॥ कृपासिंधुसादरकहहु
जानिदासनिजमोहि ॥९५॥ चौपाई ॥ तुमसर्वज्ञतज्ञतम
पारा ॥ सुमतिसुशीलसरलआचारा ॥ ज्ञानविरतिविज्ञा
ननिवासा ॥ रघुनायकके प्रियतुमदासा ॥ कारणकवन
देहयहपाई ॥ तातसकलमोहिकहहुबुझाई ॥ रामचरित
सरसुन्दरस्वामी ॥ पायेहुकहांकहहुनभगामी ॥ नाथसु
नामैंअसशिवपांही ॥ महाप्रलयहुंनाशतवनाही ॥ मृषा
वचननहिंशंकरकहहीं ॥ सोमोरेमनसंशयअहहीं ॥ अ
गजगजीवनागनरदेवा ॥ नाथसकलजगकालकलेवा ॥
अंडकटाहअमितलयकारी ॥ कालसदादुरतिक्रमभारी
सोरठा ॥ तुम्हहिनव्यापतकालअतिकरालकारणकवन
सोमोहिकहहुकृपालज्ञानप्रभावकियोगबल ॥९६॥ दो
हा ॥ प्रभुतवआश्रमआएउंमोरमोहभ्रमभाग ॥ कारणक
वनसोनाथसबकहहुसहितअनुराग ॥९७॥ चौपाई ॥ गरु
डगिरासुनिहर्षेउकागा ॥ बोलेउउमापरमअनुरागा ॥ धन्य
धन्यतवमतिउरगारी ॥ प्रश्नतुम्हारिमोहिअतिप्यारी ॥ सु
नितवप्रश्नसप्रेमसुहाई ॥ बहुतजन्मकीसुधिमोहिआई
सबनिजकथाकहौंमैंगाई ॥ तातसुनहुसादरमनलाई ॥
जपतपमखशमदमव्रतदाना ॥ विरतिविवेकयोगविज्ञाना

सबकरफलरघुपतिपदप्रेमा॥ तेहिबिनुकोउनपावै
छेमा॥ एहितनुराममभक्तिमैंपाई॥ ताते मोहिममताअधि
काई॥ जेहितेंनिजस्वारथकछुहोई॥ तेहिपरममताकर
सबकोई॥ सोरठा॥ पन्नगारिअसिनीतिश्रुतिसम्मतसज्ज
नकहहिं॥ अतिनीचहुसनप्रीतिकरियजानिनिजपरम
हित॥ ९५॥ पाटकीटतेंहोइतेहितेंपाटाम्बररुचिर॥ कृमि
पालैसबकोइपरमअपावनप्राणसम॥ ९५॥ चौपाई॥
स्वारथसत्यजीवकहँएहा॥ मनक्रमवचनरामपदनेहा॥
सोइपावनसोइसुभगशरीरा॥ जोतनुपाइभजियरघुबी
रा॥ रामबिमुखलहिबिधिसमदेही॥ कबिकोबिदनप्र
संसहिंतेही॥ रामभक्तिएहितनुउरजामी॥ ताते मोहिप
रमप्रियस्वामी॥ तजौंनतनुनिजइच्छामरणा॥ तनुबि
नुवेदभजननहिंवरणा॥ प्रथममोहमोहिबहुतबिगो
वा॥ रामबिमुखसुखकबहुँनसोवा॥ नानाजन्मकर्म
पुनिनाना॥ किएयोगजपतपमखदाना॥ कवनयोनि
जन्मेउँजहँनाहीं॥ मैंखगेसभ्रमिभ्रमिजगमाँहीं॥ देखे
उँसबकरिकर्मगोसाँई॥ सुखीनभयेउँअबहिंकीनाँई॥ सु
धिमोहिनाथजन्मबहुकेरी॥ शिवप्रसादमतिमोहनघे
री॥ दोहा॥ प्रथमजन्मकेचरितअबकहौंसुनहुबिहगे
श॥ सुनिप्रभुपदरतिउपजैजातेंमिटैकलेश॥ ९६॥ पुर

रामा.
उ.
४२

वकल्पएकप्रभुकलियुगमलकरमूल॥नरअरुनारि
अधर्मरतसकलनिगमप्रतिकूल॥१५१॥चौपाई॥तेहि
कलियुगकोशलपुरजाई॥जनमतभयउंशूद्रतनुपाई॥
शिवसेवकमनक्रमअरुवाणी॥आनदेवनिन्दकअभिमा
नी॥धनमदमत्तपरमवाचाला॥उग्रबुद्धिउरदम्भविशाला
यदपिरहेउंरघुपतिरजधानी॥तदपिनकछुमहिमातव
जानी॥अबजानामैंअवधप्रभावा॥निगमागमपुराण
असगावा॥कवनेहुजन्मअवधवसजोई॥रामपरायण
सोपरिहोई॥अवधप्रभावजानजबप्राणी॥जबउरवस
हिंरामधनुपाणी॥सोकलिकालकठिनउरगारी॥पाप
परायणसवनरनारी॥दोहा॥कलमलग्रसेउधर्मसवलु
प्तभएसदग्रंथ॥दंभिननिजमतकल्पिकरिप्रगटकीन्ह
वहुपंथ॥१५२॥भयउलोगसवमोहवशलोभग्रसेउशुभ
कर्म॥सुनहरियानज्ञाननिधिकहौंकछुककलिधर्म
चौपाई॥वर्णधर्मनहिआश्रमचारी॥श्रुतिविरोधरतस
वनरनारी॥द्विजश्रुतिवंचकभूपप्रजाशन॥कोउनमानु
निगमअनुशासन॥मारगसोइजाकहंजोभावा॥पंडित
सोइजोगालवजावा॥मिथ्यारंभदंभरतजोई॥ताकहंसंत
कहैंसवकोई॥सोइसयानजोपरधनहारी॥जोकरदंभ
सोवडआचारी॥जोकहझूठमसखरीजाना॥कलियुग

गुणग्राम:

१५२

सोइगुणवन्तबखाना॥ निराचारजोश्रुतिपथत्यागी॥
कलियुगसोइज्ञानीवैरागी॥ जाकेंनखअरुजटाविशाला॥
सोइतापसप्रसिद्धकलिकाला॥ दोहा॥ अशुभवेषभूषण
धरेंभक्ष्याभक्ष्यजोखाहिं॥ तेयोगीतेसिद्धनरपूजितकलि
युगमांहिं॥ ९८॥ सोरठा॥ जेअपकारीचारतिन्हकरगौरव
मान्यतेइ॥ मनक्रमवचनलबारतेवक्ताकलिकालमहँ॥
चौपाई॥ नारिविवशनरसकलगोसांई॥ नाचहिंनटमर्क
टकीनांई॥ शूद्रद्विजन्हिउपदेशहिंज्ञाना॥ मेलिजनेऊ
लेंहिंकुदाना॥ सबनरकामलोभरतक्रोधी॥ देवविप्रश्रु
तिसन्तविरोधी॥ गुणमन्दिरसुन्दरपतित्यागी॥ भजहिं
नारिपरपुरुषअभागी॥ सोभागिनीविभूषणहीना॥ वि
धवन्हिकेशृङ्गारनवीना॥ गुरुशिषअंधबधिरकरलेखा॥
एकनसुनैएकनहिंदेखा॥ हरैशिष्यधनशोकनहरई॥ सो
गुरुघोरनरकमहँपरई॥ मातपिताबालकन्हिबोलाव
हिं॥ उदरभरैसोइधर्मसिखावहिं॥ दोहा॥ ब्रह्मज्ञानरत
नारिनरकहहिंनदूसरीबात॥ कौडीउलागिलोभवशक
रहिंविप्रगुरुघात॥ ९९॥ वादहिंशूद्रद्विजन्हसनहमत
मतेंककुघाटि॥ जानेंब्रह्मसोविप्रवरआंखिदिखावहिं
डाटि॥ १००॥ चौपाई॥ परत्रियलंपटकपटसयाने॥ मोहद्रो
हममतालपटाने॥ तेइअभेदवादीज्ञानीनर॥ देखामैंचरि

रामा. उ. ९२

त्र कलिजुग कर॥ आपु गये अरु आनहिं घालहिं॥ जो को
उ श्रुति मारग प्रतिपालहिं॥ कल्प कल्प भरि एक एक नरका
परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तर्का॥ जे वर्णाधम तेलि कुम्हा
रा॥ स्वपच किरात कोल कलवारा॥ नारि मुई गृह संपति ना
शी॥ मुड मुडाइ भए सन्यासी॥ ते विप्रन सन आपु पुजावहिं
उभय लोक निज हाथ नशावहिं॥ विप्र निरक्षर लोलुप
कामी॥ निराचार शठ वृषली स्वामी॥ शूद्र करहिं जप तप
व्रत नाना॥ बैठि वरासन कहहिं पुराणा॥ सब नर कल्पि
त करहिं अचारा॥ जाइ न वरणि अनीति अपारा॥ दोहा॥ भ
ए वर्ण शङ्कर कलिहिं भिन्नसेतु सब लोग॥ करहिं पा
प पावहिं दुख हि भय रुज शोक वियोग॥ ९८॥ श्रुति सं
मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक॥ तेहि न चलहिं न
र मोह वश कल्पहिं पंथ अनेक॥ ९९॥ छंद॥ बहु दाम स
म्वारहिं धाम जती॥ विषया हरि लीन्हि नही विरती॥ तपसी
धनवन्त दरिद्र गृही॥ कलि कौतुक तात न जात कही॥ कु
लवन्ति निकारहिं नारि सती॥ गृह आनहिं चेरि निवेरि
गती॥ सुत मानहिं मातु पिता तब लों॥ अबलानन दीख
नही जब लों॥ ४॥ ससुरारि पियारि लगी जब तें॥ रिपुरूप
कुटुम्ब भये तब तें॥ नृप पाप परायण धर्म नही॥ करु दण्ड
विडम्ब प्रजा नित ही॥ ५॥ धनवन्त कुलीन मलीन अपी॥।

द्विजचिन्हजनेउउघारतपी॥नहिमानपुराणनहिंवेदहि
जो॥हरिसेवकसंतसहीकलिसो॥५॥कविवृन्दउदारदुनी
नसुनी॥गुणदूषकव्रातनकोपिगुणी॥कलिवारहिंवारदु
कालपरें॥विनुअन्नदुखीसबलोगमरें॥६॥दोहा॥सुनुख
गेशकलिकपटहठदंभद्वेषपाषंड॥कामक्रोधलोभादिम
दव्यापिरहेउब्रह्मंड॥१०॥तामसधर्मकरहिंनरजपतप॥
मखव्रतदान॥देवनवरषेंधरणिपरवुयेंनजामहिंधान॥७॥
छन्द॥अबलाकचभूषणभूरिछुधा॥धनहीनदुखीममता
बहुधा॥सुखचाहहिंमूढनधर्मरता॥मतिथोरिकठोरन॥
कोमलता॥८॥नरपीडितरोगनभोगकहीं॥अभिमानवि
रोधअकारणहीं॥लघुजीवनसम्वतपंचदशा॥कल्पान्त
ननाशगुमानअसा॥९॥कलिकालवेहालकियेमनुजा॥न
हिमानतकोउअनुजातनुजा॥नहितोषविचारनशीतलता॥
सबजातिकुजातिभयेमंगता॥१०॥ईर्षापरुषाक्षरलोलुप
ता॥भरिपुरिरहीममताविगता॥सबलोगवियोगविशो
कहये॥वर्णाश्रमधर्मअचारगये॥११॥दमदानदयानहिजा
नपनी॥जडतापरवंचकताघनी॥तनुपोषकनारिनरा
सगरे॥परनिन्दकजोजगमेंवगरे॥१२॥दोहा॥सुनुव्या॥
लारिकालकलिमलअवगुणआगार॥गुणौबहुतक॥
लियुगकरविनुप्रयासविस्तार॥१०१॥कृतयुगत्रेताद्वापर

रामा॰
उ॰
३३

ई पूजा मख अरु योग॥ जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते
पावहिं लोग॥१९३॥ चौपाई॥ कृतयुग सब योगी विज्ञानी
करि हरि ध्यान तरहिं भव प्राणी॥ त्रेता विविध यज्ञ नर कर
हीं॥ प्रभुहिं समर्पि कर्म भव तरहीं॥ द्वापर करि रघुपति पद
पूजा॥ नर भव तरहिं उपाय न दूजा॥ कलि केवल हरि गुण
गाहा॥ गावत नर पावहिं भव थाहा॥ कलियुग योग यज्ञ
न ज्ञाना॥ एक अधार राम गुण गाना॥ सब भरोस तजि जो
भज रामहिं॥ प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहिं॥ सो भव तर कछु
संशय नाहीं॥ नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं॥ कलि कर ए
क पुनीत प्रतापा॥ मानस पुण्य होइ नहिं पापा॥ दोहा॥ क
लियुग सम युग आन नहिं जो नर कर विश्वास॥ गाइ राम गु
ण गण विमल भव तर विनहिं प्रयास॥१९४॥ प्रगट चारि प
द धर्म के कलि महँ एक प्रधान॥ येन केन विधि दीन्हें दान
करै कल्याण॥१९५॥ चौपाई॥ नित युग धर्म होंहिं सब केरे
हृदय राम माया के प्रेरे॥ शुद्ध सत्व समता विज्ञाना॥ कृत प्र
भाव प्रसन्न मन जाना॥ सत्व बहुत कछु रज रति कर्मा॥ सब
विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस
द्वापर हर्ष शोक भय मानस॥ तामस बहुत रजोगुण थो
रा॥ कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा॥ बुध युग धर्म जानि म
न माहीं॥ तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥ काल धर्म नहिं व्या

पहिं ताही॥ रघुपति चरण प्रीति अति जाही॥ नट कृत क
पट विटप खगराया॥ नट सेवकहि न व्यापै माया॥ दोहा
हरि माया कृत दोष गुण विनु हरि भजन न जाहिं॥ भजिय
राम सब काम तजि अस विचारि मन माहिं॥१९६॥ तेहि क
लिकाल वर्ष बहु वसेउं अवध विहंगेश॥ परेउं दुःकाल।
विपति वश तब मैं गयउं विदेश॥१९७॥ चौपाई॥ गयउं उजे
नि सुन उरगारी॥ दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ गये काल
कछु सम्पति पाई॥ तहं पुनि करौं शम्भु सेवकाई॥ विप्र ए
क वैदिक शिव पूजा॥ करै सदा तेहि काज न दूजा॥ परम
साधु परमारथ विन्दक॥ शम्भु उपासक नहिं हरि निन्दक
सेवौं मैं तेहि कपट समेता॥ द्विज दयालु अति नीति निके
ता॥ वाहिर नम्र देखि मोहि सांई॥ विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई
शम्भु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा॥ शुभ उपदेश विविध वि
धि कीन्हा॥ जपौं मंत्र शिव मन्दिर जाई॥ हृदय दम्भ अह
मिति अधिकाई॥ दोहा॥ मैं खल मल संकुल मति नीच।
जाति वश मोह॥ द्विज हरि जन देखत जरौं करौं विष्णु क
र द्रोह॥१९८॥ गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचार।
मम॥ मोहि उपजै अति क्रोध दम्भिहिं नीति कि भावई॥
चौपाई॥ एक वार गुरु लीन्ह बुलाई॥ मोहि नीति बहु भांति
सिखाई॥ शिव सेवा कर फल सुत सोई॥ अविरल भक्ति राम

गुंरमलार

पदहोई ॥ रामहिं भजहिं तात शिव धाता ॥ नर पामर क
र केतिक बाता ॥ जासु चरण शिव अज अनुरागी ॥ तासु
द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ हर कहं हरि सेवक गुरु कहे
ऊ ॥ सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ अधम जाति मैं बि
द्या पाए ॥ भयउं जथा अहि दूध पिआए ॥ मानी कुटिल कु
भाग्य कुजाती ॥ गुरु कर द्रोह करौं दिन राती ॥ अति दया
लु गुरु स्वल्प न क्रोधा ॥ पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा
जेहिं ते नीच बडाई पावा ॥ सो प्रथमहिं हति ताहि नशावा
धूम अनल सम्भव सुणु भाई ॥ तेहिं बुझाव घन पदवी पा
ई ॥ रज मग परी निरादर रहई ॥ सब कर पद प्रहार नित स
हई ॥ मरुत उडाव प्रथम तेहि भरई ॥ पुनि न्रप नयन कि
रीटन्हि परई ॥ सुणु खगपति अस समुझि प्रसङ्गा ॥ बुध
नहि करहिं अधम कर सङ्गा ॥ कवि कोविद गावहिं अस
नीती ॥ खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥ उदासीन नि
त रहिय गोसांई ॥ खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ मैं खल
हृदय कपट कुटिलाई ॥ गुरु हित कहै न मोहि सुहाई ॥ दो
हा ॥ एक बार हर मन्दिर जपत रहेउं शिव नाम ॥ गुरु आय
उ अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रणाम ॥ २० ॥ सो दयाल न
हि कहेउ कछु उर न रोष लवलेश ॥ अति अघ गुरु अपम
नता सहि नहि सके महेश ॥ २१ ॥ चौपाई ॥ मन्दिर मांझ

भईनभवाणी॥रहतनभागव्यअथमअभिमानी॥यद्यपि
नबगुरुकैनहिंक्रोधा॥अतिकृपालचितसम्यकबोधा
तदपिशापदैहौंशठतोही॥नीतिविरोधसोहाइनमोही
जौंनहिंकरौंदण्डखलतोरा॥भ्रष्टहोइश्रुतिमारगमोरा
जेशठगुरुसनईर्षाकरहीं॥रौरवनरककोटियुगपरहीं
तिर्य्यकयोनिपुनिधरहिंशरीरा॥अयुतजन्मभरिपाव
हिंपीरा॥बैठिरहेसिअजगरइवपापी॥होहिंसर्पखल
मलमतिव्यापी॥महाविटपकोटरमहुंजाई॥रहुअध
माधमअधगतिपाई॥दोहा॥हाहाकारकीन्हगुरुसुनि
दारुणशिवशाप॥कंपितमोहिविलोकिअतिउरउपजा
परिताप॥१०७॥करिदण्डवतसप्रेमद्विजशिवसन्मुखक
रजोरि॥विनयकरतगद्गदगिरासमुझिघोरगतिमोरि॥
छंद॥नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं॥विभुंव्यापकंब्र
ह्मवेदस्वरूपं॥निजंनिर्गुणंनिर्विकल्पंनिरीहं॥चिदा-
काशमाकाशवासंभजेहं॥१॥निराकारमोंकारमूलं
तुरीयं॥गिराज्ञानगोतीतमीशंगिरीशं॥करालंमहा-
कालकालःकृपालं॥गुणागारसंसारपारंनतोहं॥२॥
तुषाराद्रिसंकाशगौरंगभीरं॥मनोभूतकोटिप्रभाश्री-
शरीरं॥स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा॥लसद्भालबा
लेन्दुकण्ठेभुजङ्गा॥३॥चलत्कुण्डलंभ्रूसुनेत्रंविशालं

१८३

प्रसन्नाननंनीलकंठंदयालं॥ मृगाधीशचर्म्माम्बरंमुंड
मालं॥ प्रियंशङ्करंसर्वनाथंभजामी॥ ६॥ प्रचण्डंप्रकृष्टंप्र
गल्भंपरेशं॥ अखण्डंअजंभानुकोटिप्रकाशं॥ त्रिशूलानि
निर्मूलनंशूलपाणिं॥ भजेहंभवानीपतिंभावगम्यं॥ ७॥
कलातीतकल्याणकल्पान्तकारिन्॥ सदासज्जनानंददा
तापुरारिन॥ चिदानन्दसंदोहमोहापहारिन॥ प्रसीदप्र
सीदप्रभोमन्मथारिन॥ ८॥ नयावदुमानाथपदारविन्दं
भजन्तीहलोकेपरेवानराणां॥ नतावत्सुखंशान्तिसंत
तापनाशं॥ प्रसीदप्रभोसर्वभूताधिवासिन॥ ९॥ नजाना
मियोगंजपंनैवपूजा॥ नतोहंसदासर्वदाशंभुतुभ्यं॥ जरा
जन्मदुःखौघतातप्यमानं॥ प्रभोपाहिआपन्नमामीश
शम्भो॥ १०॥ रुद्राष्टकमिदंप्रोक्तंविप्रेणहरतुष्टये॥ येप
ठन्तिनराभक्त्यातेषांशम्भुप्रसीदति॥ ११॥ दोहा॥ सुनि
विनतीसर्वज्ञशिवदेखिविप्रअनुरागु॥ पुनिमन्दिरनभ
बाणीभइद्विजवरवरमांगु॥ १४॥ जोप्रसन्नप्रभुमोपरि
नाथदीनपरनेहु॥ निजपदभक्तिदेइप्रभुपुनिदूसरवर
देहु॥ १५॥ तवमायावशजीवजडसन्ततफिरैभुलान॥
तेहिपरक्रोधनकरियप्रभुकृपासिन्धुभगवान॥ १६॥ श
ङ्करदीनदयालअबएहिपरहोहुकृपाल॥ शापानुग्रह
होइजेहिंनाथथोरेहीकाल॥ १७॥ चौपाई॥ एहिकरहो

इ परम कल्याणा॥ सोइ करहु अब कृपानिधाना॥ विप्र
गिरा सुनि परहित सानी॥ एवमस्तु इति भइ नभवाणी॥
यदपि कीन्ह इहि दारुण पापा॥ मै पुनि दीन्ह क्रोध करि
शापा॥ तदपि तुम्हारि साधुता देषी॥ करिहौं एहि पर कृ
पा विशेषी॥ क्षमाशील जे पर उपकारी॥ ते द्विज प्रिय मो
हि यथा खरारी॥ मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइहि॥ जन्म स
हस्र अवश्य यह पाइहि॥ जनमत मरत दुसह दुख होई
एहि कह स्वल्पउ न व्यापिहि सोई॥ कवनेहु जन्म मिटिहि
नहि ज्ञाना॥ सुनहि शूद्र मम वचन प्रमाणा॥ रघुपति पु
री जन्म तव भयऊ॥ पुनि तै मम सेवा मन दयऊ॥ पुरी प्र
भाव अनुग्रह मोरे॥ राम भक्ति उपजिहि उर तोरे॥ सुनु
मम वचन सत्य अब भाई॥ हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई॥
अब जनि करेसि विप्र अपमाना॥ जानेसि संत अनंत स
माना॥ इन्द्र कुलिश मम शूल विशाला॥ कालदण्ड हरि
चक्र कराला॥ जो इन्ह कर मारा नहि मरई॥ विप्रद्रोह पा
वक सो जरई॥ अस विवेक राखेहु मन माही॥ तुम्ह कहँ
जग दुर्लभ कछु नाहीं॥ औरौ एक आशिषा मोरी॥ अव्या
हत गति होइहि तोरी॥ दोहा॥ सुनि शिव वचन हरषि गुरु
एवमस्तु इति भाषि॥ मोहि प्रबोधि गयउ गृह शम्भु चरण
उर राखि॥ १०८॥ प्रेरित काल विंध्यगिरि जाइ भयउ मैं व्याल॥

रामा.
उ.
१९

पुनिप्रयासबिनुसोतनुतजेउआपककछुकाल॥११०॥जो
तनुधरौंतजौंपुनिअनायासहरिजान॥जिमिनूतनपटप
हिरैनरपरिहरैपुराण॥१११॥शिवराखेउश्रुतिनीतिअरु
मैंनहिंपावाक्लेश॥एहिबिधिधरेउँबिबिधतनुज्ञाननगये
उखगेश॥[illegible]॥चौपाई॥तिर्य्यकदेवनरजोईतनुधरेउँ॥त
हँतहँरामभजनअनुसरेउँ॥एकसूलमोहिबिसरनका
ऊ॥गुरुकरकोमलशीलसुभाऊ॥चरमदेहद्विजकरमैं
पाई॥सुरदुर्लभपुराणश्रुतिगाई॥खेलौंतहौंबालक
न्हिमीला॥करौंसकलरघुनायकलीला॥प्रौढभयेंमोहि
पितापढावा॥समुझौंसुनौंगुणौंनहिंभावा॥मनतेंसक
लबासनाभागी॥केवलरामचरणलयलागी॥कहुखगे
शअसकवनअभागी॥खरीसेवसुरधेनुहिंत्यागी॥प्रेम
मगनमोहिकछुनसोहाई॥हारेउपितापढाइपढाई॥भ
एउकालबशजबपितमाता॥मैंबनगएउँभजनजनत्राता
जहँजहँबिपिनमुनीश्वरपावौं॥आश्रमजाइजाइसिरना
वौं॥बूझौंतिनहिरामगुणगाहा॥कहैंसुनौंहर्षितखग
नाहा॥सुनतफिरौंहरिगुणानुवादा॥अब्याहत[illegible]
[illegible]प्रसादा॥छुटीत्रिबिधईषणागाढी॥एकलालसाउर
अतिबाढी॥रामचरणपंकजजबदेखौं॥तबनिजजन्म
सफलकरिलेखौं॥जेहिपूछौंसो[illegible]मुनिअसकहई॥ईश्वर

सर्ब भूतमय अस हई॥ निर्गुण मत नहिं मोहि सोहाई॥ सगु
ण ब्रह्म रति उर अधिकाई॥ दोहा॥ गुरु के वचन सुरति क
रि राम चरण मन लाग॥ रघुपति यश गावत फिरौं छण
छण नव अनुराग॥११२॥ मेरु शिखर वट छाया मुनि लो
मश आसीन॥ देखि चरण सिर नायउं वचन कहेउं अति
दीन॥११३॥ सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल ख
गराज॥ मोहि सादर पूछत भएउ द्विज आयेउ केहि काज
तब मैं कहेउं कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान॥ सगुण ब्रह्म
अराधना मोहि कहहु भगवान॥११४॥ चौपाई॥ तब मुनी
श रघुपति गुण गाथा॥ कहेउ कछुक सादर खगनाथा॥
ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी॥ मोहि परम अधिकारी जानी॥
लागे करण ब्रह्म उपदेशा॥ अज अद्वैत अगुण हृदयेशा॥
अकल अनीह अनाम अरूपा॥ अनुभव गम्य अखंड अनू
पा॥ मन गोतीत अमल अविनाशी॥ निर्विकार निरवधि
सुख राशी॥ सो तैं तोहि ताहि नहिं भेदा॥ वारि वीचि इव
गावहिं वेदा॥ विविध भांति मोहि मुनि समुझावा॥ निर्गु
ण मत मम हृदय न आवा॥ पुनि मैं कहेउं नाइ पद शीशा॥
सगुण उपासन कहहु मुनीशा॥ राम भक्ति जल मम म
न मीना॥ किमि बिलगाइ मुनीश प्रवीना॥ सोइ उपदेश कर
हु करि दाया॥ निज नयनन्हि देखौं रघुराया॥ भरि लोचन

२८५ आनंद

विलोकिअवधेशा॥ तवमुनिहींनिर्गुणउपदेशा॥ पुनि
पुनिकहिमुनिकथाअनूपा॥ खंडिसगुणमतअगुणनि
रूपा॥ तवमैनिर्गुणमतकरिदूरी॥ सगुणनिरूपौंकरिह
ठभूरी॥ उत्तरप्रत्युत्तरमैकीन्हा॥ मुनिउरभयउक्रोधकरची
न्हा॥ सुणुप्रभुवहुतअवज्ञाकिए॥ उपजैक्रोधज्ञानिहुके
हिए॥ अतिसंघर्षणकरैजोकोई॥ अनलप्रगटचंदनतेहो
ई॥ दोहा॥ वारवारसकोपिमुनिकरहिंनिरूपणज्ञान॥ मैं
अपनेमनवैठितवकरौंविविधअनुमान॥ ११॥ क्रोधकि
द्वैतवुद्धिविनुद्वैतकिविनुअज्ञान॥ मायावशपरिछिन्नजड
जीवकिईशसमान॥ १२॥ चौपाई॥ कवहूंकिदुखसवक
रहितताके॥ तेहिकिदरिद्रपारसमणिजाके॥ कामीपु
निकिरहैंअकलंका॥ परद्रोहीकिमिहोइनिःशंका॥ वं
शकरहद्विजअनहितकीन्हे॥ कर्मकिहोहिस्वरूपहि॰
चीन्हे॥ काहुसुमतिकिखलसंगजामी॥ शुभगतिपा
वकिपरत्रियगामी॥ राजकिरहैनीतिविनुजाने॥ अघकि
रहैहरिचरितवखाने॥ भवकिपरहिपरमात्माविन्दक॥
सुखीकिहोहिंकवहूंपरनिन्दक॥ पावनयशकिपुण्य
विनुहोई॥ विनुअघअयशकिपावैकोई॥ लाभकिकछु
हरिभक्तिसमाना॥ जिहिगावहिंश्रुतिसंतपुराणा॥ हा
निकिजगएहिसमकछुभाई॥ भजियनरामहिंनरतनुपा

ई॥ अग्य कि बिना तामस कछु आना॥ धर्म कि दया सरिस
हरिजाना॥ इहिं बिधि अमित जुक्ति मन गुणेऊं॥ मुनि उप
देश न सादर सुनेऊं॥ पुनि पुनि सगुण पक्ष मैं रोपा॥ तब
मुनि बोले बचन सकोपा॥ मूढ परम शिख देउँ न माने
सि॥ उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनेसि॥ सत्य बचन बिश्वास न क
रही॥ बायस इव सबही सन डरही॥ शठ सपक्ष तव हृद
य बिशाला॥ सपदि होहि पक्षी चंडाला॥ लीन्ह शाप मै
शीस चढाई॥ नहि कछु भय न दीनता आई॥ दोहा॥ तुरि
त भयेउँ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिर नाइ॥ सुमिरि राम
रघुबंश मणि हर्षित चलेउँ उडाइ॥ ११८॥ उमा जे राम चर
ण रत बिगत काम मद क्रोध॥ निज प्रभु मय देखहिं जग
त का सन करहिं बिरोध॥ ११९॥ चौपाई॥ सुनु खगेश न
हि कछु रिषि दूषण॥ उर प्रेरक रघुबंश बिभूषण॥ कृपा
सिंधु मुनि मति करि भोरी॥ लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी॥
मन बच कर्म मोहि निज जन जाना॥ मुनि मति पुनि फे
री भगवाना॥ रिषि मम सहन शीलता देषी॥ राम चरण
बिश्वास बिशेषी॥ अति बिस्मय पुनि पुनि पछिताई॥ सा
दर मुनि मोहि लीन्ह बुलाई॥ मम परितोष बिबिध बि
धि कीन्हा॥ हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा॥ बालक रूप राम
कर ध्याना॥ कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना॥ सुन्दर सु

खेदमोहिअतिभावा॥सोप्रभुमहिमैंतुमहिंसुनावा
मुनिमोहिकछुककालतहँराखा॥रामचरितमानसत
बभाषा॥सादरयहमोहिकथासुनाई॥पुनिबोलेमुनि
गिरासुहाई॥रामचरितसरगुप्तसुहावा॥शम्भुप्रसाद
तातमैंपावा॥तोहिनिजभक्तरामकरजानी॥तातेंमैंसब
कहेउँबखानी॥रामभक्तिजिनकेउरनाहीं॥कबहूँना
तातकहियतिन्हपाहीं॥मुनिमोहिबिबिधभाँतिसमु
झावा॥मैंसप्रेममुनिपदसिरनावा॥निजकरकमल
परसिममशीशा॥हर्षितआशिषदीन्हमुनीशा॥राम
भक्तिअविरलउरतोरे॥बसिहिंसदाप्रसादअबमोरे॥
दोहा॥ सदारामप्रियहोवतुम्हशुभगुणभवनअमान
कामरूपइच्छामरणज्ञानविरागनिधान॥११०॥जेहि
आश्रमतुम्हबसबपुनिसुमिरतश्रीभगवन्त॥व्यापि
हितहँनअविद्यायोजनएकपर्यन्त॥१११॥चौपाई॥का
लकर्मगुणदोषसुभाऊ॥कछुदुखतुम्हहिंनव्यापिहि
काऊ॥रामरहस्यललितविधनाना॥गुप्तप्रगटइतिहा
सपुराणा॥विनुश्रमतुम्हजानबसबसोऊ॥नितनव
नेहरामपदहोऊ॥जोइच्छाकरहउमनमाँहीं॥हरि
प्रसादकछुदुर्लभनाहीं॥सुनिमुनिआशिषसुनमति
धीरा॥ब्रह्मगिराभईगगनगँभीरा॥एवमस्तुतवबच

मुनिज्ञानी॥ यहममभक्तकर्ममनबाणी॥ सुनिनभगि
राहर्षमनभयेऊ॥ प्रेममगनसबसंशयगयऊ॥ करिबि
नतीमुनिआयसुपाई॥ पदसरोजपुनिपुनिसिरनाई॥
हर्षसहितएहिआश्रमआयऊं॥ प्रभुप्रसाददुर्लभवर
पायऊं॥ इहांबसतमोहिसुणुखगईशा॥ बीतेकल्पसा
तअरुबीसा॥ करौंसदारघुपतिगुणगाना॥ सादरसुन
हिंबिहंगसुजाना॥ जबजबअवधपुरीरघुवीरा॥ धरहिं
भक्तहितमनुजशरीरा॥ तबतबजाउरामपुररहऊं॥ शि
शुलीलाविलोकिसुखलहऊं॥ पुनिउरराखिरामशि
शुरूपा॥ निजआश्रमआवौंखगभूपा॥ कथासकलमैं
तुम्हहिसुनाई॥ कागदेहजेहिकारणपाई॥ कहेउंतातस
बप्रश्नतुम्हारी॥ रामभक्तिमहिमाअतिभारी॥ दोहा॥ ताते
यहतनुमोहिप्रियभयेउरामपदनेह॥ निजप्रभुदरशन
पायउंगयउसकलसन्देह॥ ११४॥ भक्तिपक्षहठकरिरहे
उंदीन्हमहाऋषिशाप॥ मुनिदुर्लभवरपायउंदेखहुभज
नप्रताप॥ ११५॥ चौपाई॥ जेअसिभक्तिजानिपरिहरहीं॥ के
वलज्ञानहेतुश्रमकरहीं॥ तेजडकामधेनुगृहत्यागी॥ खो
जतआकफिरहिंपयलागी॥ सुणुखगेशहरिभक्तिवि
हाई॥ जेसुखचाहहिंआनउपाई॥ तेशठमहासिंधुविन
तरणी॥ पैरिपारचाहहिंजडकरणी॥ सुनिभुशुण्डिकेवच

नभवानी॥ बोलेउगरुडहरषिमृदुबाणी॥ तवप्रसादप्रभु
ममउरमाही॥ संशयशोकमोहभ्रमनाही॥ सुनेउंपुनी
तरामगुणग्रामा॥ तुम्हरीकृपालहेउविश्रामा॥ एकबा
तप्रभुपूछौंतोही॥ कहहुबुझाउकृपानिधिमोही॥ कह
हिंसन्तमुनिवेदपुराणा॥ नहिकछुदुर्लभज्ञानसमाना
सोमुनितुम्हसनकहेउगोसांई॥ नहिआदरेउभक्तिकी
नांई॥ ज्ञानहिंभक्तिहिंअन्तरकेता॥ सकलकहहुप्रभुकृ
पानिकेता॥ सुनिउरगारिवचनसुखमाना॥ सादरबोले
उकागसुजाना॥ ज्ञानहिंभक्तिहिंनहिंकछुभेदा॥ उभय
हरहिंभवसंभवखेदा॥ नाथमुनीशकहहिंकछुअन्तर
सावधानसोउसुणउविहङ्गवर॥ ज्ञानविरागयोगविज्ञा
ना॥ ऐसबपुरुषसुनहुहरिजाना॥ पुरुषप्रतापप्रबल।
सबभांती॥ अबलाअबलसहजजडजाती॥ दोहा॥ पुरु
षत्यागिशकनारिहिंजोविरक्तमतिधीर॥ नतुकामीवि
षयेविवशविमुखजेपदरघुवीर॥ ११४॥ सोरठा॥ सोउमु
निज्ञाननिधानमृगनयनीविधुमुखनिरखि॥ विवशहो
हिंहरिजाननारिविष्णुमायाप्रगट॥ ११५॥ चौपाई॥ इहां
नपक्षपातकछुराखौं॥ वेदपुराणसन्तमतभाषौं॥ मोह
ननारिनारिकेरूपा॥ पन्नगारियहरीतिअनूपा॥ माया
भक्तिसुनहुतुम्हदोऊ॥ नारिवर्गजानैसबकोऊ॥ पुनिर।

घुवीरहिंभक्तिपियारी॥ मायाखलुनर्तकीविचारी॥ भ
क्तिहिंसानुकूलरघुराया॥ तातेंतेहिंडरपतिअतिमाया॥
रामभक्तिनिरुपमनिरुपाधी॥ वसैंजासुउरसदाअबाधी॥
तेंहिविलोकिमायासकुचाई॥ करिनसकैकछुनिजप्रभु
ताई॥ असिविचारिजोमुनिविज्ञानी॥ जाचहिंभक्तिसकल
सुखखानी॥ दोहा॥ यहरहस्यरघुनाथकरवेगिनजानैको
इ॥ जानेतेंरघुपतिकृपासपनेहुंमोहनहोइ॥ ११६॥ औरोज्ञा
नभक्तिकरभेदसुनहुसुप्रवीण॥ जोसुनिहोइरामपदप्री
तिसदाअविछीण॥ ११७॥ चौपाई॥ सुनहुतातयहअकथ
कहानी॥ समुझतवनैनजाइवखानी॥ ईस्वरअंशजीवअवि
नाशी॥ चेतनअमलसहजसुखराशी॥ सोमायावशभयउ
गोसांई॥ बंध्योकीरमरकटकीनाई॥ जडचेतनहिंग्रंथिप
रिगई॥ यद्यपिमृषाछुटतकठिनई॥ तवतेंजीवभयेउसंसा
री॥ ग्रंथिनछुटनहोइसुखारी॥ श्रुतिपुराणवहुकहेउउ
पाई॥ छुटनअधिकअधिकउरुझाई॥ जीवहृदयतममोह
विशेषी॥ ग्रंथिछुटैकिमिपरैनदेखी॥ असिसंयोगईशज
वकरई॥ तवहुंकदाचितसोनिरुअरई॥ सात्विकीश्रद्धाधे
नुसुहाई॥ जोहरिकृपाहृदयवशआई॥ जपतपव्रतसं
यमनियमअपारा॥ जेश्रुतिकहशुभधर्मअचारा॥ तेइतृ
णहरितचरैजवगाई॥ भाववत्ससिशुपाइपेन्हाई॥ नोइ

रामा.
उ.
५०

निवृत्ति पात्र विश्वासा॥ निर्मल मन अहीर निज दासा॥ परम धर्म मय पय दहि भाई॥ अवटै अनल अकाम बनाई॥ तोष मरुत तब क्षमा जुडावै॥ धृति सम जावन देइ जमावै॥ मुदिता मथै विचार मथानी॥ दम अधार रजु सत्य सुबाणी॥ तब मथि काढि लेइ नवनीता॥ विमल विराग सुभग सुपुनीता॥
दोहा॥ योग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाइ॥ बुद्धि सिरावैं ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ॥ १९८॥ तब विज्ञान निरूपिणी बुद्धि विशद घृत पाइ॥ चित्त दिया भरि धरै दृढ समता दिअटि बनाइ॥ १९९॥ तीनि अवस्था तीनि गुण तिहिं कपास तें काढि॥ तूल तुरीय संवारि पुनि बाती करै सुगाढि॥ २००॥ सोरठा॥ एहि विधि लेसै दीप तेज राशि विज्ञानमय॥ जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक शलभ सब॥ २०१॥ चौपाई॥ सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा॥ दीपशिखा सोइ परम प्रचण्डा॥ आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा॥ तब भव मूल भेद भ्रम नाशा॥ प्रबल अविद्या कर परिवारा॥ मोह आदि तम मिटै अपारा॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजिआरा॥ उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुआरा॥ छोरन ग्रन्थि पाव जब सोई॥ तब यह जीव कृतारथ होई॥ छोरत ग्रन्थि जानि खगराया॥ विघ्न अनेक करहिं तब माया॥ ऋद्धि सिद्धि प्रेरै बहु भाई॥ बुद्धिहि लोभ देखावहिं आई॥ कल बल छल करि जाइ समी॥

वैराग्यः
८

मीपा॥ अञ्चलवात बुझावहिं दीपा॥ होइ बुद्धि जौं परम स
यानी॥ तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥ जौं तेहि विघ्न
बुद्धि नहिं बाधी॥ तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी॥ इन्द्रियद्वार
झरोखा नाना॥ तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना॥ आवत देखहिं
विषय बयारी॥ ते हठि देहिं कपाट उघारी॥ जब सो प्रभञ्जन
उरगृह जाई॥ तबहिं दीप विज्ञान बुझाई॥ ग्रन्थि न छूटि मि
टा सो प्रकाशा॥ बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥ इन्द्रिय सु
रन्ह न ज्ञान सुहाई॥ विषय भोग पर प्रीति सदाई॥ विषय स
मीर बुद्धि कृत भोरी॥ तेहि विधि दीप को ज्वाल बहोरी॥ दोहा॥
तब फिरि जीव विविध विधि पावै संसृति कलेश॥ हरिमा
या अति दुस्तर तरि न जाइ विहंगेश॥ २०२॥ कहत कठिन
समुझत कठिन साधन कठिन विवेक॥ होइ घुणाक्षर न्या
य जौं पुनि प्रत्यूह अनेक॥ २०३॥ चौपाई॥ ज्ञानपन्थ कृपा
ण की धारा॥ परत खगेश होइ नहिं बारा॥ जो निर्विघ्न पन्थ
निर्बहई॥ सो कैवल्य परमपद लहई॥ अति दुर्लभ कैवल्य
परमपद॥ सन्त पुराण निगम आगम वद॥ राम भजत सो
इ मुक्ति गोसांई॥ अनइच्छित आवै बरिआई॥ जिमि थल वि
नु जल रहि न सकाई॥ कोटि भांति कोउ करै उपाई॥ तथा मो
क्ष सुख सुनु खगराई॥ रहि न सकै हरि भक्ति विहाई॥ अस
विचारि हरि भक्त सयाने॥ मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने॥ भ

त्रिकरतविविधजतनप्रयासा॥संसृतिमूलअविद्यानाशा॥
भोजनकरियतृप्तिहितलागी॥जिमिसोअशनपचवेज
ठरागी॥असिहरिभक्तिसुगमसुखदाई॥कोअसमूढनजा
हिसुहाई॥दोहा॥सेवकसेव्यभावविनुभवनतरियउरगा
रि॥भजहुरामपदपंकजअससिद्धान्तविचारि॥२०४॥जोचे
तनकहंजडकरैचैतन्य॥अससमर्थरघुनायकहिंभजहिं
जीवतेधन्य॥२०५॥चौपाई॥कहेउंज्ञानसिद्धान्तबुझाई॥
सुनहुभक्तिमणिकीप्रभुताई॥रामभक्तिचिन्तामणिसु
न्दर॥वसैगरुडजाकेउरअन्तर॥परमप्रकाशरूपदिनरा
ती॥नहिकछुचहियदियाघृतवाती॥मोहदरिद्रनिकट
नहिआवा॥लोभवातनहिताहिबुझावा॥प्रबलअविद्या
तममिटिजाई॥हारहिसकलशलभसमुदाई॥खलका
मादिनिकटनहिजाही॥वसैभक्तिमणिजाकेउरमाही॥
गरलसुधासमअरिहितहोई॥तेहिमणिविनुसुखपाव
नकोई॥व्यापहिंमानसरोगनभारी॥जेहिकेवशसवजी
वदुखारी॥रामभक्तिमणिउरवसजाके॥दुखलवलेश
नसपनेहुंताके॥चतुरशिरोमणितेइजगमाही॥जेमणि
लागिसुयतनकराही॥सोमणियद्यपिप्रगटजगअहई॥
रामकृपाविनुनहिकोउलहई॥सुगमउपायपाइवेकेरे॥
नरहतभाग्यदेतभटभेरे॥पावनपर्वतवेदपुराणा॥राम

कथारुचिराकरनाना॥ मर्मीसज्जनसुमतिकुदारी॥ ज्ञान
विरागनयनउरगारी॥ भावसहितखोजैजेइप्राणी॥ पावभ
क्तिमणिसबसुखखानी॥ मोरेमनप्रभुअसविश्वासा॥ रा
मतेंअधिकरामकैदासा॥ रामसिन्धुघनसज्जनधीरा॥ च
न्दनतरुहरिसन्तसमीरा॥ सबकरफलहरिभक्तिसुहाई
सोविनुसन्तनकाहूहिंपाई॥ असविचारिजोइकरुसतसं
गा॥ रामभक्तितेहिंसुलभविहंगा॥ दोहा॥ ब्रह्मपयोनिधि
मन्दरज्ञानसन्तसुरआहि॥ कथासुधामथिकाढहिंभ
क्तिमधुरताजाहि॥ २०६॥ विरतिचर्मअसिज्ञानमदलोभ
मोहरिपुमारि॥ जयपाईयसोहरिभक्तिदेखुखगेशवि
चारि॥ २०७॥ चौपाई॥ पुनिसप्रेमबोलेउखगराऊ॥ जौंकृपा
लुमोहिऊपरभाऊ॥ नाथमोहिनिजसेवकजानी॥ सप्तप्र
श्नममकहहुबखानी॥ प्रथमहिंकहहुनाथमतिधीरा॥ स
बतेंदुर्लभकवनशरीरा॥ बडदुखकवनकवनसुखभारी॥ सो
संक्षेपहिंकहहुविचारी॥ सन्तअसन्तमर्मतुमजानहु॥ ति
न्हिकरसहजसुभावबखानहु॥ कवनपुण्यश्रुतिविदित
विशाला॥ कहहुकवनअघपरमकराला॥ मानसरोगक
हहुसमुझाई॥ तुमसर्वज्ञकृपाअधिकाई॥ तातसुनहुसा
दरअतिप्रीती॥ मैंसंक्षेपकहौंयहनीती॥ नरतनुसमनहि
कवनिउदेही॥ जीवचराचरजाचतजेही॥ नरकस्वर्गअपव

र्गनिश्रेनी॥ ज्ञानविरागभक्तिसुखदेनी॥ सोतनुधरिहा
रिभजहिंनजेनर॥ होइविषयरतमन्दमन्दतर॥ कांचा
किरचबदलेशठलेहीं॥ करतेंडारिपरसमणिदेहीं॥ नहि
दरिद्रसमदुखजगमांहीं॥ सन्तमलिनसमसुखकछुना
हीं॥ परउपकारवचनमनकाया॥ सन्तसहजसुभावखग
राया॥ सन्तसहहिंदुखपरहितलागी॥ परदुखहेतुअसन्त
अभागी॥ भूर्जतरूसमसन्तकृपाला॥ परहितसहनितवि
पतिविशाला॥ शाणइवखलपरबन्धनकरई॥ खालकढा
इविपतिसहिमरई॥ खलविनुस्वारथपरअपकारी॥ अहि
मुखकइवसुणुउरगारी॥ परसम्पदाविनाशिनशीहीं॥ जि
मिशशिहतहिमउपलविलाहीं॥ दुष्टउदयजगआरतिहे
तू॥ यथाप्रसिद्धअधमग्रहकेतू॥ सन्तउदयसन्ततसुखा
कारी॥ विश्वसुखजिमिइन्दुतमारी॥ परमधर्मश्रुतिविदि
तअहिंसा॥ परनिंदासमअघनगरिसा॥ हरिगुरुनिन्दक
दादुरहोई॥ जन्मसहस्रपावतनुसोई॥ द्विजनिन्दकबहुन
रकभोगकरि॥ जगजन्मैवायसशरीरधरि॥ सुरश्रुतिनि
न्दकजेअभिमानी॥ रौरवनरकपरहिंतेप्राणी॥ होहिंउलू
कसन्तनिन्दारत॥ मोहनिशाप्रियज्ञानभानुगत॥ सबकी
निन्दाजेजडकरहीं॥ तेचमगादुरहोइअवतरहीं॥ सुनहुता
तअबमानसरोगा॥ जिन्हतेंदुखपावहिंसबलोगा॥ सो

हसकलव्याधिनकरमूला॥तेहितेंपुनिउपजहिंबहु
सूला॥कामवातकफलोभअपारा॥क्रोधपित्तनितछा
तीजारा॥प्रीतिकरहिंजोतीनिउभाई॥उपजैसन्निपात
दुखदाई॥विषयमनोरथदुर्गमनाना॥तेसवसूलनाम
कोजाना॥ममतादादुकंडुइर्षाई॥हर्षविषादगरहव
हुताई॥परसुखदेखिजरनिसोछाई॥कुष्टदुष्टतामनकु
टिलाई॥अहंकारअतिदुखदडमरुआ॥दंभकपटम
दमाननहरुआ॥त्रस्नाउदरवृद्धिअतिभारी॥त्रिविधईष
णातरुणतिजारी॥युगविधजरमत्सरअविवेका॥क
हंलगिकहोंकुरोगअनेका॥दोहा॥एकव्याधिवशनर
मरहिंयेअसाध्यवहुव्याधि॥संततपीडहिंजीवकहंसो
किमिलहहिंसमाधि॥२०८॥नेमधर्मआचारतपज्ञानय
ज्ञजपदान॥भेषजपुनिकोटिन्हनहिंरुजनजाहिंहरिया
न॥२०९॥चौपाई॥इहिविधिसकलजीवजगरोगी॥सोक
हर्षभयप्रीतिवियोगी॥मानसरोगककुकमैंगाए॥हैंस
वकेलखिविरलेन्हपाए॥जानेतेंछीजहिंकुपापी॥ना
शनपावहिंजनपरितापी॥विषयकुपथ्यपाइअंकुरे॥मु
निहुहृदयकानरवापुरे॥रामकृपानाशहिंसवरोगा॥
जोयहिभांतिवनैसंयोगा॥सद्गुरुवैद्यवचनविश्वासा॥
संयमयहनविषयकरआशा॥रघुपतिभक्तिसजीवन

भूरी॥ अनुपान श्रद्धा मति भूरी॥ इहि विधि भलेऊ रोग न
शाहीं॥ नाहि त यतन कोटि नहि जाहीं॥ जानिय तब मन
विरुज गोसांई॥ जब उर बल विराग अधिकाई॥ सुमति
छुधा बाढै नित नई॥ विषय आश दुर्बलता गई॥ विमल
ज्ञान जल जब सो अन्हाई॥ तब रह राम भक्ति उर छाई॥ शि
व अज शुक सनकादिक नारद॥ जे मुनि ब्रह्म विचार वि
शारद॥ शिव कर मत खगनायक एहा॥ करिय राम पद
पङ्कज नेहा॥ श्रुति पुराण सब ग्रन्थ कहाहीं॥ रघुपति
भक्ति विना सुख नाहीं॥ कमठ पीठ जामहि वरु वारा॥ बं
ध्या सुत वरु काहुहि मारा॥ फूलहि नभ वरु बहु विधि फूला
जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला॥ तृषा जाइ वरु मृगजल
पाना॥ वरु जामहि शश शीश विषाणा॥ अन्धकार वरु र
विहि नशावै॥ राम विमुख सुख जीव न पावै॥ हिम तें अन
ल प्रगट वरु होई॥ राम विमुख सुख पाव न कोई॥ दोहा॥ वा
रि मथे वरु होइ घृत सिकता तें वरु तेल॥ विनु हरि भजन न
भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल॥ २०॥ मशकहि करहिं वि
रञ्चि प्रभु अजहि मशक तें हीन॥ अस विचारि तजि संश
य रामहिं भजहिं प्रवीन॥ २१॥ छन्द॥ विनिश्चितं वदामि
ते न अन्यथा वचांसि मे॥ हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं त
रन्ति ते॥ २२॥ चौपाई॥ कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा॥ व्यास

समासम स्वमति अनुरूपा॥ श्रुति सिद्धान्त इहै उरगारी।
राम भजिय सब काम विसारी॥ प्रभु रघुपति तजि सेइय का
ही॥ मोहि से शठ पर ममता जाही॥ तुम्ह विज्ञानरूप नहि
मोहा॥ कीन्ह नाथ मो पर अति छोहा॥ पूछेहु राम कथा
अति पावनि॥ शुक सनकादि शम्भु मन भावनि॥ सतस
ङ्गति दुर्लभ संसारा॥ निमिष दण्ड भरि एकौ वारा॥ देखु
गरुड निज हृदय विचारी॥ मैं रघुवीर भजन अधिकारी॥
शकुनाधम सब भांति अपावन॥ प्रभु मोहि कीन्ह विदित
जग पावन॥ दोहा॥ आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब वि
धि हीन॥ निज जन जानि राम मोहि सन्त समागम दीन॥ न
ाथ यथामति भाषेउं राखेउं कछु नहि गोइ॥ चरित सिन्धु
रघुनाथ कर थाह कि पावै कोइ॥ १२३॥ चौपाई॥ सुमिरि रा
म के गुण गण नाना॥ पुनि पुनि हर्षेउ भुसुण्डि सुजाना॥
महिमा निगम नेति करि गाई॥ अतुलित बल प्रताप प्रभु
ताई॥ शिव अज पूज्य चरण रघुराई॥ मो पर कृपा परम मृदु
लाई॥ अस स्वभाव कहुं सुनौं न देखौं॥ केहि खगेश रघुप
ति सम लेखौं॥ साधक सिद्ध विमुक्त उदासी॥ कवि कोविद
कृतज्ञ संन्यासी॥ योगी शूर सुतापस ज्ञानी॥ धर्म निरत प
ण्डित विज्ञानी॥ तरहिं न विनु सेयें मम स्वामी॥ राम नमामि
नमामि नमामी॥ शरण गये मो से अघराशी॥ होहिं शुद्ध न

१२

मांगिअविनाशी॥दोहा॥जासुनामभवभेषजहरणघो
रत्रयसूल॥सोकृपालमोहितोहिपरसदारहहिंअनुकूल
॥१२४॥सुनिभुसुंडिकेवचनसुभदेखिरामपदनेह॥बोले
प्रेमसहितगिरागरुडविगतसन्देह॥१२५॥चौपाई॥मैंकृ
तकृत्यभयउंतववाणी॥सुनिरघुवीरभक्तिरससानी॥रा
मचरणनूतनरतिभई॥मायाजनितविपतिसबगई॥मो
हजलधिबोहिततुमभयऊ॥मोकहंनाथविविधसुखद
यऊ॥मोसनहोइनप्रत्युपकारा॥वन्दौंतवपदवारहिंवारा
पूरणकामरामअनुरागी॥तुम्हसमतातनकोउवडभागी
सन्तविटपसरितागिरिधरणी॥परहितहेतुसवन्हकरक
रणी॥सन्तहृदयनवनीतसमाना॥कहाकविनपैंकहै
नजाना॥निजपरितापद्रवैनवनीता॥परदुखद्रवहिंसन्त
सुनीता॥जीवनजन्मसुफलममभयऊ॥तवप्रसादसवसं
शयगयऊ॥जानेहुसदामोहिनिजकिंकर॥पुनिपुनिउ
माकहैविहंगवर॥दोहा॥तासुचरणसिरनाइकरिप्रेम
सहितमतिधीर॥गरुडगयउवैकुण्ठतवहृदयराखिर
घुवीर॥१२६॥गिरिजासन्तसमागमसमनलाभकछुआन
विनुहरिकृपानहोइनहिंगावहिंवेदपुराण॥१२७॥चौपा
ई॥कहेउंपरमपुनीतइतिहासा॥सुनतश्रवणछूटहिंभ
वपाशा॥प्रणतकल्पतरुकरुणापुंजा॥उपजैप्रीतिराम

पदकञ्जा॥ मनवचकर्मजनितअघजाई॥ सुनैजोकथाश्र
वणमनलाई॥ तीर्थाटनसाधनसमुदाई॥ योगविरागज्ञान
निपुणाई॥ नानाकर्मधर्मव्रतदाना॥ संयमनियमयज्ञज
पनाना॥ भूतदयाद्विजगुरुसेवकाई॥ विद्याविनयविवेक
बडाई॥ जहँलगिसाधनवेदबखानी॥ सबकरफलहरिभ
क्तिभवानी॥ सोइरघुनाथभक्तिश्रुतिगाई॥ रामकृपाकाहूँए
कपाई॥ दोहा॥ मुनिदुर्लभहरिभक्तिनरपावहिंविनहिंप्रया
स॥ जोयहकथानिरन्तरसुनिहिंमानिविश्वास॥ १२६॥ चौ
पाई॥ सोइसर्वज्ञगुणीसोइज्ञाता॥ सोइमहिमण्डनपंडित
दाता॥ धर्मपरायणसोइकुलत्राता॥ रामचरणजाकरमन
राता॥ नीतिनिपुणसोइपरमसयाना॥ श्रुतिसिद्धान्तनीक
तेहिंजाना॥ सोइकविकोविदसोइरणधीरा॥ जोछलछा
डिभजैरघुवीरा॥ धन्यनारिपतिव्रतअनुसरी॥ धन्यसोदेश
जहांसुरसरी॥ धन्यसोभूपनीतिजोकरई॥ धन्यसोद्विजनि
जधर्मनटरई॥ सोधनधन्यप्रथमगतिजाकी॥ धन्यपुण्यर
तमतिसोइपाकी॥ धन्यघरीसोइजबसतसङ्गा॥ धन्यजन्म
द्विजभक्तिअभङ्गा॥ दोहा॥ सोकुलधन्यउमासुणुजगतपू
ज्यसुपुनीत॥ श्रीरघुवीरपरायणजेद्विनरउपजविनीत॥ २
चौपाई॥ मतिअनुरूपकथामैंभाषी॥ यद्यपिप्रथमगुप्तक
रिराखी॥ तवमनप्रीतिदेखिअधिकाई॥ तबमैंरघुपतिकथा

सुनाई॥ यहनहिंकहियशठहिंहठशीलहिं॥ जोमनला
इनसुनहरिलीलहिं॥ कहीयनलोभिहिंक्रोधिहिकामि
हिं॥ जोनभजैसचराचरस्वामिहिं॥ द्विजद्रोहिहिंनसुनाइ
यकबहूं॥ सुरपतिसरिसहोइनृपजबहूं॥ रामकथाकेतेअ
धिकारी॥ जिनकेसतसंगतिअतिप्यारी॥ गुरुपदप्रीतिनी
तिरतजोई॥ द्विजसेवकअधिकारीसोई॥ ताकहंयहविशेष
सुखदाई॥ जाहिप्राणप्रियश्रीरघुराई॥ दोहा॥ रामचरणर
तिजोचहैअथवापदनिर्बाण॥ भावसहितसोयकथाकरै
श्रवणपुटपान॥ १२०॥ चौपाई॥ रामकथागिरिजामैबरणी
कलिमलशमनमनोमलहरणी॥ संसृतिरोगसजीवनमू
री॥ रामकथागावहिंश्रुतिसूरी॥ यहिमहंरुचिरसप्तसोपा
ना॥ रघुपतिभक्तिकेरपंथाना॥ अतिहरिकृपाजाहिपरहोई
पांवदेइयहमारगसोई॥ मनकामनासिद्धिनरपावै॥ जोय
हकथाकपटतजिगावै॥ कहहिंसुनहिंअनुमोदनकरहीं
तेगोपदइवभवनिधितरहीं॥ सुनिसबकथाहृदयअतिभाई
गिरिजाबोलीगिरासुहाई॥ नाथकृपाममगतसन्देहा॥ रा
मचरणउपजेउनवनेहा॥ दोहा॥ मैकृतकृत्यभयिउंअबत
वप्रसादविश्वेश॥ उपजीराममभक्तिदृढबीतेसकलकलेश
१२१॥ चौपाई॥ यहशुभशम्भुउमासंवादा॥ सुखसंपादनश
मनविषादा॥ भवभञ्जनगञ्जनसन्देहा॥ जनरञ्जनसज्जन

प्रियपहा॥ रामउपासकजेजगमाहीं॥ यहसमप्रियति
नकहंककछुनाहीं॥ रघुपतिकृपायथामतिगावा॥ मैयहपा
वनचरितसुहावा॥ एहिकलिकालनसाधनदूजा॥ योग
यज्ञजपतपव्रतपूजा॥ रामहिंसुमिरियगाइयरामहिं॥ स
ततसुनियरामगुणग्रामहिं॥ जासुपतितपावनवडवाना
गावहिंकविश्रुतिसन्तपुराणा॥ जाहिभजियतजिमन
कुटिलाई॥ रामभजेंगतिकेहिनहिपाई॥ छन्द॥ पाईनके
हिगतिपतितपावनरामभजसुणुशठमना॥ गणिका
अजामिलगृध्रव्याधगजादिखलतारेउघना॥ २३॥ आभी
रजवनकिरातखसस्वपचादिअतिअघरूपजे॥ कहिना
मवारेकतेंपिपावनहोतराममनमामिते॥ २४॥ रघुवंशभूष
णचरितयहनरकहहिंसुनहिंजेगावहीं॥ कलिमलम
नोमलधोइविनुश्रमरामधामसिधावहीं॥ २५॥ शुभअंकेद
चौपाईमनोहरजानिजोनरउरधरै॥ दारुणअविद्यापंचज
नितविकारश्रीरघुपतिहरै॥ २६॥ सुन्दरसुजानकृपानिधा
नअनाथपरकरुप्रीतिजो॥ सोएकरामअकामहितनि
र्वाणपदसमआनको॥ २७॥ जाकीकृपालवलेशतेंमति
मन्दतुलसीदासहूं॥ पायोपरमविश्रामरामसमानप्रभु
नाहीकहूं॥ २८॥ दोहा॥ मोसमदीननदीनहिततुमसमान
रघुवीर॥ असविचारिरघुवंशमणिहरहुविषमभवभीर॥

२९२

रामा॰
उ॰
४६

कामिहिनारिपियारिजिमिलोभिहिंप्रियजिमिदाम॥
तिमिरघुनाथनिरन्तरप्रियलागहुमोहिराम॥१३०॥श्लो
कौ॥यत्पूर्वंप्रभुणाकृतंसुकविनाश्रीशम्भुनादुर्गमं॥श्री
मद्रामपदाब्जभक्तिमनिशंप्राप्त्यैतुरामायणं॥मत्वातद्र
घुनाथनामनिरतंस्वांतस्तमःशान्तये॥भाषाबद्धमिदंच
कारतुलसीदासस्तथामानसं॥१॥पुण्यंपापहरंसदाशि
वकरंविज्ञानभक्तिप्रदं॥मायामोहमलापहंसुविमलंप्रे
माम्बुपूरंशुभं॥श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदंभक्त्यावगा
हन्तिये॥तेसंसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्तिनोमानवा॥२॥
इतिश्रीरामचरितमानसेसकलकलिकलुषविध्वंसनेवि
मलवैराग्यसम्पादिनोनामसप्तमःसोपानःसमाप्तः॥७॥
शुभमस्तुसिद्धिरस्तु॥समाप्तोयंग्रन्थः॥लिपितमिदंठाकु
रदासेनश्रीमहाराजःजुझारसिंहस्यपठनार्थम्॥ ॥
संवत्॥१९१३॥कार्तिक
सुदी॥३॥ ॥

१२५
४६
६१
१५
९०
२३
९०
———
३४२